

प्रकाशक—

रावजीभाई छगनभाई देसाई

आ० व्यवस्थापक,

परमश्रुतप्रभावकमंडल श्रीमद्राजचन्द्र जैनशास्त्रमाला

श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन अगास, पोस्ट बोरीआ.

જ्ञाया आणंद ( गुजरात )



मुद्रक—

पं० परमेष्ठीदास जैन

जैनेन्द्र प्रेस

ठिलितपुर ( ज्ञासी ) ३० प्र०

## प्रकाशक का निवेदन<sup>१०</sup>

H.

जैन साहित्य अपूर्व अनेक ग्रन्थरत्नों से भरा हुआ है। बृहद्द्रव्य संग्रह उन्हीं में का एक है। प्रायः जैन समाज में एक भी जैन मन्दिर या सरस्वती भण्डार ऐसा न होगा, जहाँ यह ग्रन्थ रत्न न हो। समाज में द्रव्यसंग्रह का अच्छा प्रचार है। सभी जैन पाठशालाओं में इसका अध्ययन अनिवार्य है। इसकी एक एक गाथा जैन धर्म के रहस्य से परिपूर्ण है। ब्रह्मदेव जी की सुबोधिनी सस्कृत टीका ने तो सोने में सुगन्ध वाली कहावत चरितार्थ की है। अर्थात् द्रव्यसंग्रह यों ही अनुपम है और टीका ने उसकी अनुपमता को और भी बढ़ा दिया है। इसमें सात तत्व और छ द्रव्यों का संक्षेप में अलौकिक कथन है। इसके अध्ययन से मनुष्य अच्छा तत्त्वज्ञ बन सकता है। ग्रन्थ में जगह जगह निश्चयनय और व्यवहारनय का सुन्दर समन्वय दिखाकर हेय उपादेय का अच्छा ज्ञान कराया है। एकान्त निश्चयनय या एकान्त व्यवहार की प्रधानता न कहकर दोनों में साध्य साधक सम्बन्ध बताकर इनकी उपयोगिता सिद्ध की है।

सस्कृत टीकाकार का कथन है कि आचार्य ने प्रथम २६ गाथासूत्रों का लघु द्रव्य संग्रह बनाया था। फिर विशेष वर्णन करने की इच्छा से बृहद् द्रव्यसंग्रह की रचना की, तदनुसार हमने भी इस ग्रन्थरत्न का नाम बृहद् द्रव्यसंग्रह रखा है। इस ग्रन्थ के मूलकर्ता प्रातःस्मरणीय आचार्यवर श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्ति चक्रवर्ती हैं। सस्कृत टीका अनेक शास्त्रों के रचयिता श्री ब्रह्मदेवजी की है। परमात्मप्रकाश की सस्कृत टीका भी इन्हीं की है। हिन्दी अनुवादक प० जवाहरलाल जी शास्त्री जयपुर निवासी हैं। यह ग्रन्थ कितने ही वर्ष से अप्राप्य था। इसकी पहली आवृत्ति है० सन् १९०७ में और दूसरी आवृत्ति १९१९ में इसी संस्था की ओर से प्रकाशित हुई थी।

आज इस ग्रन्थरत्न को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये हमे अपार आनंद हो रहा है। ऐसे ग्रन्थों के अध्ययन और मनन से आत्मा यथार्थे शान्ति और सुख को प्राप्त कर सकता है। इस संस्था का उद्देश्य सद्ग्रन्थों का प्रचार करना है। यह द्वितीयावृत्ति द्वितीयावृत्ति के ही समान है, इसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं किया है। भविष्य में भी यह संस्था सद्ग्रन्थों को प्रकाश में लाती रहेगी।

} निवेदक—  
श्रीमद्भाराजचन्द्र आश्रम, अगस्त  
पोस्ट बोरीआ व्हाया आणद  
भाद्रपद शु० ५ वीर स० २४९२  
दिनांक १९-२-६६

रावजीभाई देसाई।

## इस युग के महान् तत्त्ववेत्ता

### श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोंमें श्रीमद् राजचन्द्रजीका नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है। वे विश्व की महान् विभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली, अपनी नामवरी से दूर रहनेवाले गुम महात्मा थे। भारत-भूमि ऐसे ही नर-रत्नोंसे वसुन्धरा मानी जाती है।

जिस समय मनुष्य समाज आत्मधर्मको भूल कर अन्य वस्तुओंमें धर्मकी कल्पना या मान्यता करने लगता है, उस समय उसे किसी सत्य मार्गदर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको धन्य मानती है। श्रीमद् जी उनमेंसे एक थे। श्रीमद् राजचन्द्रजीका नाम तो प्रायः बहुतोंने सुन रखा है, और उसका कारण भी यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहां तहां सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्शक मानते थे। महात्माजी लिखते हैं कि— मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है—टाल्सटॉय, रस्किन और राजचन्द्रभाई। टाल्सटॉय ने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी पुस्तक ‘अन्दु धिस लास्ट’ से, जिसका गुजराती नाम मैंने सर्वोदय रखा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचय से। जब मुझे हिन्दू धर्ममें शङ्का उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने मुझे वही सहायता पहुँचाई थी। इस सन् १८९३ में दक्षिण अफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था। अन्य धर्मियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था। उस समय मुझे हिन्दू धर्ममें कुछ अश्रद्धा हो गई थी, फिर भी मैं मध्यस्थ रहा था। हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान था, इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसको प्राप्त करने का विचार था। मेरी उनसे भेंट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली। अपने धर्ममें दृढ़ श्रद्धा हुई। मेरी इस स्थिति के जवाबदार राजचन्द्रभाई हैं। इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं।”



श्रीमद् राजचंद्र

वर्ष ३३म्

जन्म : ववाणिया

देहचिलय : राजकोट

वि. सं. १९२४, कार्तिक पूर्णिमा

वि. सं १९५७, चैत्र वद ५

रविवार

मगळवार



महात्माजी आगे और भी लिखते हैं कि—“राजचन्द्रभाईके साथ मेरी बैंट जौलाई सन् १९५१ में उस दिन हुई थी जब मैं विलायत से वस्त्रही आया था। उस समय मैं रंगून के प्रस्त्रात जीहरी प्राणजीवनदास मेहता के घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुये उन्होंने कहा—ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ व्यापार में लगे हुए हैं। इनमें बड़ा झान है, शतावधानी हैं।”

श्रीमद्भजीका जन्म वि० स० १९२४ कातिक शुक्ला पूर्णिमाको सौराष्ट्र मोरवी राज्यान्तर्गत बवाणिया गाँवमें बणिक जातिके दशाश्रीमाली कुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवजीभाई पंचाणभाई महेता और माताका नाम देवावाई था। इनके एक छोटा भाई और ४ बहिनें थीं। घरमें इनके जन्मसे बड़ा उत्सव मनाया गया। श्रीमद्भजीने अपने सम्बन्धमें जो बातें लिखी हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। वे लिखते हैं—

“द्वुष्टपन की छोटी समझमें, कौन जाने कहांसे ये बड़ी बड़ी कल्पनाएं आया करती थीं। सुखकी अभिलापा भी कुछ कम न थी, और सुखमें भी महल, बाग, बगीचे, छी आदिके मनोरथ किये थे, किन्तु मनमें आया करता था कि यह सब क्या है? इस ग्रकारके विचारोंका यह फल निकला कि न पुनर्जन्म है, और न पाप है, और न पुण्य है, सुखसे रहना और मंसारका सेवन करना, वस, इसीमें कृतकृत्यता है। इससे दूसरी झंझटोंमें न पढ़कर धर्मकी बासना भी निकाल डाली। किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही होगया। आत्मामें बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड़वादियोंकी कल्पना में भी आसकरा है। वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़कर एक ‘तू ही तू ही’ का जाप करता है।”

एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तारपूर्वक लिखते हैं कि—“वाईस वर्ष की अल्पवयमें मैंने आत्मा सम्बन्धी, मन सवंधी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी मृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समर्थ तत्त्व-ज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं उसी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमें किये हैं। महान् चक्रवर्ती द्वारा किए गए दृष्णापूण विचार और एक

निस्पृही आत्मा द्वारा किए गए निस्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और अणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महान् विचार कर डाले हैं, और महान् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ तो अपनी समुच्चय व्यव्याख्या लिखता हूँ।

जन्मसे सात वर्षकी बालवय नितान्त खेल कूदमें ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पमाए उत्पन्न हुआ करती थीं। खेल कूदमें भी विजयी होने और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी।

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि चौसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों की होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार खिलाड़ी और बहुत आनन्दी जीव था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ सुना दिया करता था; वस, इतनेसे मुझे छुट्टी मिल जाती थी। मुझमें प्रीति और चात्सल्य बहुत था, मैं सबसे मित्रता चाहता था। सबमें भ्रातृभाव हो तो सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्थाभाविक रूप से रहता था। मनुष्योंमें किसी भी प्रकार जुदाईका अङ्कुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था। आठवें वर्षमें मैंने कविता लिखी थी, जो पीछे से जाँच करने पर छन्दशास्त्रके नियमानुकूल थी।

उस समय मैंने कई काव्य ग्रन्थ लिखे थे, अनेक प्रकारके और भी बहुतसे ग्रन्थ देख डाले थे। मैं मनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। उस वयमें मैंने उनके कृष्णकीर्तन तथा मिन्न मिन्न अवतार सम्बन्धी चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न होगई थी, और रामनासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीला में कंठी भी वंधवाई थी। मैं नित्यही कृष्णके दर्शन करने जाता था, अनेक कथाएं सुनता था, जिससे अवतारोंके चमत्कारों पर बार बार मुग्ध होजाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। × × × गुजराती भाषाकी पाठशालाकी पुस्तकोंमें कितनी ही जगह, जगत्कर्ताके सम्बन्धमें उपदेश हैं, वह मुझे ढढ हो गया था। इस कारण जैन लोगोंसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ विना बनाए नहीं बन सकता, इसलिये जैन मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं। उस समय प्रतिमा-पूजनके अभद्धालु लोगोंकी किया मुझे वैसी ही दिखाई देती थी, इसलिये उन कियाओंकी मलिनताके कारण मैं उनसे बहुत डरता था, अर्थात् वे कियाएं मुझे पसन्द नहीं थीं।

मेरी जन्मभूमिमें जितने वर्णिक लोग रहते थे, उन सधकी कुछ श्रद्धा यद्यपि मिन्न भिन्न थी फिर भी वह योद्दी यहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालुओंके समान थी ।

लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गांवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इससे मैं कभी कभी जनमंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति वतानेका प्रयत्न किया करता था ।

वे लोग वठी वाधनेके कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं उनसे चादचिवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न करता था ।

धीरे-धीरे मुझे जैनोंके प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ़नेको मिले । उनमें बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोंसे मैत्रीभाव प्रगट किया है । इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथममें रही । परिचय बढ़ता गया । सबच्छ रहनेका और दूसरे आचार विचार मुझे बैष्णवोंके ही प्रिय थे, जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी । इतनेमें कंठी ढूट गई, और दुबारा मैंने नहीं बांधी । उस समय बांधने न बांधनेका कोई कारण मैंने नहीं द्वूंढ़ा था । यह मेरी तेरह वर्षकी वय-घर्या है । इसके बाद अपने पिताकी दुकान पर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छ दरवारके महलमें लिखनेके लिए जब जब बुलाया जाता था तब वहाँ जाता था । दुकान पर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रों पर कविताएं रची हैं, सांसारिक रुष्णाएं की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कहा अथवा किसीको कम-ज्यादा तौलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है ।”

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे । बड़े बड़े विद्वान् भी जिस आत्माकी ओर लक्ष्य नहीं देते हैं उसी आत्माकी ओर श्रीमद्भूजीका बाल्यकालसे लक्ष्य तीव्र था । आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम नहीं किए थे । कुलश्रद्धासे जैन धर्मको अगोकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभव के बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था । जैन धर्मके सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमद्भूजी ने अपने जीवनमें उतारा था और वे मुमुक्षुओंको भी तदनुरूप बननेका बोध देते थे । वे मरमतान्तर में मध्यस्त थे । बर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है ।

आपको जातिस्मरण ज्ञान था अर्थात् पूर्वभव ज्ञानते थे । इस सबन्ध में गुमुक्षुभाई पदमशीभाईने एक बार उनसे पूछा था और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने गुखसे किया था । पाठक की जानकारीके लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समझता हूँ ।

पदमशीभाई ने पूछा—“आपको जातिस्मरण ज्ञान कब और कैसे हुआ ?”

श्रीमद्भूजीने उत्तर दिया—“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय ववाणियामें अमीचन्द्र नामके एक सदगुहस्थ रहते थे। वे पूरे लम्बे-चौड़े, सुन्दर और गुणवान् थे। उनका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन सर्पके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आसपासके मनुष्योंके मुखसे इस वातको सुनकर मैं अपने दाढ़ाके पास दौड़ा आया। मरण क्या चीज़ है ? इस वातको मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने दाढ़ासे कहा-दाढ़ा, अमीचन्द्र मर गए क्या ? मेरे दाढ़ाने उस समय विचारा कि यह वालक है। मरणकी वात करनेसे डर जायगा, इसलिए उन्होंने, जा भोजन करले, यों कहकर मेरी वातको टालनेका प्रयत्न किया। ‘मरण’ शब्द उस छोटे जीवनमें मैंने प्रथम बार ही सुना था। मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीव्र आकांक्षा थी। बारम्बार मैं पूर्वोक्त प्रश्न करता रहा। अन्तमें वे बोले—तेरा कहना सत्य है अर्थात् अमीचन्द्र मर गए हैं। मैंने आश्चर्यपूर्वक पूछा—मरण क्या चीज़ है ? दाढ़ाने कहा—शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हल्ल-चलन आदि कुछ भी किया नहीं कर सकता। खाना-पीना भी नहीं कर सकता। इसलिए अब इसको तालाबके समीपके समग्रानमें जला आयेंगे।

मैं थोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा। बादमें तालाब पर जा पहुंचा। तट पर दों शाखाबाला एक बगूलका पेड़ था, उसपर चढ़कर मैं सामनेका सब दृश्य देखने लगा। चिता जोरोंसे जल रही थी, वहुतसे आदमी उसको धेरकर बैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया—मनुष्यको जलानेमें कितनी कूरता ! यह सब क्या ? इत्यादि विचारोंसे आत्मावरण दूर हो गया।”

एक विद्वान्‌ने श्रीमद्भूजीको, पूर्व जन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेके लिए लिखा था। उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है—

“कितने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता हूँ कि, इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक् ( यथार्थ ) होता है। उत्कृष्ट मन्देग, ज्ञान-योग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है।

जबतक पूर्वभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकालके लिए अकिञ्चनावसे वर्ष प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशक्ति प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।”

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिए श्रीमद्भूजीने एक विस्तृत पत्र लिखा है जो 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रंथमें प्रकाशित है। पुनर्जन्म सम्बन्धी इसके विषार वडे गम्भीर और विशेष प्रकार से मनन करने योग्य हैं।

१९ वर्षकी अवस्थामें श्रीमद्भूजीने एक वडी भारी सभामें सौ अवधान किए थे, जिसे देखकर उपस्थित जनता दाँतों तले उंगली ढवाने लगी थी।

अग्रेजीके प्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने अपने ता० २४ जनवरी १८८७ के अङ्कमें श्रीमद्भूजीके सम्बन्धमें निम्नांकित एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'स्मरणशक्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग।'

"राजचन्द्र रखजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दूकी स्मरणशक्ति तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत जनिवारको संध्या समय फ्रामजी कावसज्जी इन्स्टीट्यूटमें देशी सज्जनोंका एक भव्य सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे। भिन्न भिन्न जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति यगठित की गई। सज्जनोंने दस भाषाओंके छँ छँ शब्दोंके दस वाक्य बनाकर छिप लिए और अक्रमसे वारी वारीसे सुना दिए। योडे ही समय बाद इस हिन्दू युवकने दर्शकोंके देखते देखते सृतिके बलसे उन सभ वाक्योंको क्रमपूर्वक सुना दिया। युवककी इस शक्तिको देशकर उपस्थित मण्डली बहुत ही प्रसन्न हुई।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य प्रकारकी कोई वारह जिल्दें बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसके हाथों पर जो जो पुस्तके रखी गई, उन्हें हाथोंसे टटोलकर इस युवकने सब पुस्तकोंके नाम बता दिए। डा० पिटर्सनने इस प्रकार आश्चर्यपूर्ण स्मरणशक्ति और मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत बहुत घन्यवाद दिया और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और 'साक्षात् सरस्वती' की पदची प्रदान की गई।

इस समय चाल्स सारजंट वन्वर्ड हाईकोर्टके चीफ जस्टिस थे। वे श्रीमद्भूजीकी इस शक्तिसे बहुत ही प्रभावित हुए। सुना जाता है कि सारजंट महोदयने श्रीमद्भूजीसे इंग्लॅंड चलनेका आग्रह किया था, परन्तु वे कीर्तिसे दूर रहनेके कारण चाल्स महाशय को इल्लाके अनुकूल न हुए अर्थात् इंग्लॅंड नहीं गए।"

इसके अतिरिक्त वन्वर्ड समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समाचार प्रकाशित हुए थे। बादमें शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मानकर

उनका करना बन्द कर दिया था । इससे सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कीति आदिसे कितने निरपेक्ष थे । उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती थी ।

वे २१ वर्षकी उम्र में व्यापारार्थ व्याणिया से बस्वई आए । वहां सेठ रेवाड़ंकर जगजीवनदासकी दुकानमें भागीदार रहकर जवाहरातका धन्धा करते रहे । वे व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे । ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था । व्यापार करते हुए भी श्रीमद्भूजीका लक्ष्य आत्माकी ओर अधिक था । इनके ही कारण उस समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदास की पेढी नामी पेढियोंमें एक गिनी जाती थी । स्वयं श्रीमद्भूजीके भागीदार श्रीयुत माणिकलाल घेलाभाई को इनकी व्यवहारकुशलताके लिये अपूर्व वहुमान था । उन्होंने अपने एक बक्तव्यमें कहा था कि “श्रीमद् राजचन्द्रके साथ लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था । लोगोंमें अति परिचयसे परस्परका महत्व कम हो जाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि उनकी दृश्या ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धाभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया । व्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयां आती थीं, उनके सामने श्रीमद्भूजी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे । मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देखा । वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे । किसी विषयमें मतभेद होने पर भी हृदयमें वैमनस्य नहीं था । सदैव पूर्वसा व्यवहार करते थे ।”

श्रीमद्भूजी व्यापारमें जैसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निष्णात थे । उनकी अन्तरात्मामें भौतिक पदार्थोंकी महत्ता नहीं थी । वे सोचते थे कि धन पार्थिव शरीरका साधन है, परलोक अनुयायी तथा आत्माको शाश्वत शान्ति प्रदान करनेवाला नहीं है । व्यापार करते हुये भी उनकी अन्तरात्मामें वैराग्य-गंगा का अखण्ड प्रवाह निरन्तर बहता रहता था । मनुष्य-भवके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे । व्यापारसे अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लौन हो जाते थे । निवृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिससे उनको वाह्य उपाधिमें रहना पड़ा ।

श्रीमद्भूजी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे । व्यापारी समाजमें वे अत्यन्त विश्वासपात्र समझे जाते थे । उस समय एक आरव अपने भाईके साथ रहकर बस्वईमें मोतियोंकी आदतका धन्धा करता था । छोटे भाईके मनमें आया

कि आज मैं भी वडे भाई के समाज कुछ व्यापार करूँ । परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर आरब बैचने निकल पड़ा । ढलालने श्रीमद्भूजी का परिचय कराया । श्रीमद्भूजी ने आरब से कहा—भाई, सोच समझ कर भाव कहना । आरब बोला—जो मैं कह रहा हूँ, वही बाजारभाव है, आप माल खरीद करें ।

श्रीमद्भूजी ने माल ले लिया, तथा उसको एक तरफ रख दिया । वे जानते थे कि इसमें उसको नुकसान है और हमें फायदा है । परन्तु वे किसीकी भूलका लाभ लेना नहीं चाहते थे । आरब घर पहुँचा, वडे भाई से सौंदा की बात की । वह घबरा कर बोला—तूने यह क्या किया । इसमें तो अपने को बहुत नुकसान है । अब क्या था । आरब श्रीमद्भूजी के पास आया और सौंदा रट करनेको कहा । व्यापारी-नियमानुसार सौंदा तय हो चुका था । आरब बापिस लेनेका अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमद्भूजी ने सौंदा रह करके उसे मोती बापस दे दिए । श्रीमद्भूजी को इस सौंदे में हजारों का फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए । कितनी निष्प्रहता-लोभवृत्तिका अभाव । आजके व्यापारियों में यदि सत्यता आजाय तो सरकारको नित्य नये नये नियम बनाने की जरूरत ही न रहे और मनुष्यसमाज सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सके ।

श्रीमद्भूजी की दृष्टि वडी विशाल थी । आज भी भिन्न भिन्न सम्प्रदाय वाले उनके बचनोंका रुचि सहित आदरपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं । उन्हें बाढ़ावन्दी पसन्द नहीं थी । वे कहा करते थे कि कुणुरओं ने लोगों की मनुष्यता लूट ली है, विपरीत मार्ग में रुचि उत्पन्न करादी है, सत्य समझानेकी अपेक्षा कुणुर अपनी मान्यता को ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते हैं ।

श्रीमद्भूजी ने धर्मको स्वभावकी सिद्धि करने वाला कहा है । धर्ममें जो भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण दृष्टिकी भिन्नता बतलाया है । इसी बातको वे स्वयं दोहों में प्रगट करते हैं ।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टिनो एह ।

एक तत्त्वना मूलमां, व्याप्या मानो तेह ॥

तेह तत्त्वरूप वृक्षनुँ, आत्मधर्म छे मूल ।

स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूल ॥

अर्थात् भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं, वह सब दृष्टिका भेद है । सब ही मत

एक तत्त्व के मूल में व्याप हो रहे हैं। उस तत्त्वरूप वृक्ष का मूल है आत्मधर्म, जो कि स्वभाव की सिद्धि करता है, और वही धर्म प्राणियोंके अनुकूल है।

श्रीमद्भजीने इस युग को एक अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। वे रूढ़ि या अधश्रद्धा के कहर विरोधी थे। उन्होंने आहम्बरों में धर्म नहीं माना था। मतभतान्तर तथा कदाप्रहादि से बहुत ही दूर रहते थे, बीतरागता की ओर ही उनका लक्ष्य था।

पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुक समयतक खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, वसो और ईंडरके पर्वतमें एकान्तवास किया करते थे। मुमुक्षुओं को आत्मकल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे। इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रस भरा हुआ है। उन पत्रों का मर्म समझने के लिए सन्त समागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेखों का शान्त और एकाग्र चित्त से मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भर के लिए एक अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रन्थ के पत्रों में उनका पारमार्थिक जीवन जहाँ सहा दृष्टिगोचर होता।

श्रीमद्भजी की भारत में अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुमुक्षुओं ने उन्हें अपना मार्ग-दर्शक माना। वस्त्रहीं रहकर भी वे पत्रों द्वारा मुमुक्षुओं को शकाओं का समाधान करते रहते थे। प्रात्-स्मरणीय श्री लघुराज स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे। श्रीमद्भजी द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका ससार में प्रचार हो तथा अनादिसे परिभ्रमण करनेवाले जीवों को मोक्षमार्ग मिले, इस उद्देश्य से स्वामीजीके उपासकोंने गुजरात में अगास स्टेशन के पास 'श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' को स्थापना की थी, जो आज भी उन्हीं की आज्ञा-नुसार चलता है। इसके सिवाय खंभात, बडवा, नरोडा, घासण, आहोर, चवाणिया, काविठा, भादरण, ईंडर, उत्तरसंडा, नार आदि स्थानोंमें भी इनके नाम से आश्रम तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगास के अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है अर्थात् श्रीमद्भजीके तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है।

श्रीमद् एक उच्चकोटि के असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की उम्र में ३ दिन में १०८ पाठवाली 'मोक्षमाला' बनाई थी। आज तो इतनी आयुसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता, जब कि श्रीमद्भजीने एक अपूर्व पुस्तक लिख दाली। पूर्व भवका अभ्यास ही इसमें कारण था। इससे पहले पुष्पमाला, भावना वोध आदि पुस्तकें लिखी थीं। श्रीमद्भजी मोक्षमालाके सम्बन्ध में लिखते हैं कि— "इस (मोक्षमाला) मेरैनै जैन धर्मके समझानेका प्रयत्न किया है; जिनोक भार्ग से

कुछ भी स्थूनाधिक नहीं लिखा है। वीतराग मार्गमें आबाल बृद्ध की रुचि हो, उसके स्वरूपको समझें तथा उसका वीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसीकी बालावब्रोध रूप रखना की है।”

इनकी दूसरी कृति आत्म-सिद्धि है, जिसको श्रीमद्भूजीने १॥ घटे में नडियादमें बनाया था। १४२ दोहोंमें सम्यग्दर्शन के कारणभूत छह पर्दोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह कृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पंचास्तिकायकी मूल गाथाओंका भी इन्होंने अक्षरशः गुजराती में अनुवाद किया है, जो ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थमें छप चुका है।

श्रीमद्भूजीने श्री आनन्दघन चौकीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था। और उसमें प्रथमादि दो स्तवनोंका अर्थ भी किया था, पर न जाने क्यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत भाषापर आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का यथार्थ अर्थ समझानेमें आप बड़े निपुण थे।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमद्भूजीने शरीरकी कोई अपेक्षा न रखी। इससे पौद्वगलिक शरीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने लगी। ऐसे ही अवसर पर आपसे किसी ने पूछा ‘आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है?’ श्रीमद्भूजीने उत्तर दिया—हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा। हमारा पानी आत्मा रूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीर रूपी बगीचा सूख रहा है। देहके अनेक प्रकार के उपचार किए गए। वे चढ़वाण, धर्मपुर आदि स्थानों में रहे, किन्तु सब उपचार निष्फल गए। काढने महापुरुषके जीवनको रखना उचिन न समझा। अनित्य वस्तुका सम्बन्ध भी कहाँ तक रह सकता है। जहाँ संबंध वहाँ वियोग भी अवश्य है। देहत्याग के पहले शाम को श्रीमद्भूजीने श्री रेवाशकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा—‘तुम लोग निश्चिन्त रहना, यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधिपूर्ण रहना। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते रहना।’ प्रभातमें श्रीमद्भूजीने अपने लघु भ्राता मनसुखभाईसे कहा-भाईका समाधि-मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ। फिर वे नहीं बोले। इस प्रकार श्रीमद्भूजीने वि० सं० १९५७ मिती चैत्र चत्ती ५ (गुजराती) मंगलवार को दोपहर के २ बजे राजकोट में इस नश्वर शरीरका त्याग किया।

इनके देहान्तके समाचारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये। अनेक समाचारपत्रोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था।

श्रीमद्भजी का पार्थिव शरीर आज हमारी आँखोंके सामने नहीं है, किन्तु उनका सद्गुप्तदेश, जबतक लोकमें सूर्य, चन्द्र हैं तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंको आत्म-ज्ञानमें एक महान सहायक रूप होगा ।

श्रीमद्भजीने परम सत् श्रुतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी । जिससे मनुष्यममाजमें परमार्थ मार्ग प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुई और तदनुसार परमश्रुत प्रभावक मंडलकी स्थापना हुई । इस मण्डलकी ओरसे दोनों सम्प्रदायोंके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है । इन ग्रन्थोंके मनन अध्ययनसे समाज में अच्छी जागृति आई । गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर में सद्ग्रन्थोंका जो अभ्यास चालू है वह इसी संस्थाका ही प्रताप है । राजचन्द्र जैन ग्रंथमाला मंडलकी अधीनतामें काम करती थी । राष्ट्रविता महात्मा गांधीजी इस संस्थाके द्रस्टी और भाई रेवाशकर जगजीवनदासजी मुख्य कार्यकर्ता थे । भाई रेवाशंकरजीके देहोत्सर्ग के बाद संस्थामें कुछ शिथिलता आगई, परन्तु अब संस्थाका काम श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगासके द्रस्टियोंने संभाल लिया है और सुचारू रूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहा है ।

इस आश्रम की ओर से श्रीमद्भजी का सभी साहित्य सुपाठ्य रूप से प्रकाशित हुआ है ।

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें उनके आध्यात्मिक पत्र तथा लेखोंका अच्छा संग्रह है ।

श्रीमद्भजी के विषयमें विशेष जानने की इच्छावालोंको, इस आश्रम से प्रकाशित ‘श्रीमद् राजचन्द्र जीवन कला’ अवलोकनीय है ।

—गुणभद्र जैन ।



# प्रथमावृत्ति की प्रस्तावना।

## वृहद्द्रव्यसंग्रह

यह वृहद्द्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थरत्न जैनसमाजमें 'द्रव्यसंग्रह' इस नामसे प्रसिद्ध है। प्राय ऐसा कोई भी जिनमन्दिर व सरस्वतीभडार नहीं है, जिसमें यह ग्रन्थ विद्यमान न हो। जैनी भाई इसको तत्त्वार्थनूत्रके समान ही माननीय और उपयोगी समझते हैं। यह समस्त जैनपाठशालाओंमें पढ़ाया जाता है। और ८-१० वर्षकी अवस्थावाले विद्यार्थी भी इसकी गाथाओंको कण्ठस्थ करलेते हैं। जो उनको उपदेशादिके अवसरमें यावज्जीव काम आती हैं। टीकाकारका कथन है कि आचार्यने प्रथम ही २६ गायासुत्रोंका लघुद्रव्यसंग्रह<sup>१</sup> बनाया था। फिर विशेष वर्णन करनेकी इच्छासे वृहद्द्रव्यसंग्रह<sup>२</sup> रचा। तदनुसार ही हमने भी इस धार्मरत्नका नाम वृहद्द्रव्यसंग्रह ही रखा है।

### श्रीनेमिचन्द्र मैद्वानिकचक्रवर्ती

उनके कर्ता श्राव न्मरणीय भगवान् श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिचक्रवर्तीने अपने पवित्र<sup>३</sup> ग्रन्थसे कब विस वसुधामण्डलको महित किया। इत्यादि ऐतिहासिक विषयोंका संक्षिप्त वर्णन सस्तृत उन्दोषद्भुजवलि ( वाहूवलि व गोमट ) चरित्रके अनुसार यहाँ लिखते हैं।

द्राविदेशम् एक मधुरा नामक नगरी थी। जोकि, प्राचीन शास्त्रोंमें दक्षिणमधुरा और बाज कलकी बृगोलोंमें मधुरा नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ पर—

"श्रीदेवीयगणाद्विष्पूर्णभृगभृच्छीर्सिंहनन्दित्रति-  
श्रीपादाम्बुजयुग्ममत्तमधुपः सम्यक्त्वचूडामणिः ।  
श्रीपञ्जैनमतादिवद्वन्नसुधासूर्तिर्महीमण्डले  
रेते श्रीगुणभूपणो द्वुषनुतः श्रीराजमङ्गो नृप ॥ ( वाहूवलीचरित्र ६ )

इस इलोकके अनुसार देवीगणके न्वामी श्रीसिंहनन्दी आचार्यके चरणकमलसेवक गगवदातिल्क श्रीराजमङ्ग नामक भहाराजा हुए। और उनके—

"तस्यामात्यशिखामणि सकलवित्सम्यक्त्वचूडामणि-  
भृद्याम्भोजविद्यन्मणिः सुजनवन्दिन्नात्तचूडामणिः ।  
ब्रह्मक्षत्रियवैश्यगुक्तिसुमणिः कीन्त्रीषमुक्तामणिः,  
पादन्यस्तमहीशमस्तकमणिश्चासुपहभूपोऽप्रणीः ॥ वा व च ११ ॥

(१) प्रथम अधिकारमें नमन्कारगायाके विना जो देव २६ गायानून हैं, इन्होंको श्रीमान् आचार्य महाराजने पहले बनाया था। उन्मित्ये इन २६ गायाओंके अमुदायका नाम ही लघुद्रव्यसंग्रह है। इसमें जीव १, पुद्गल २, घर्म ३, वर्वर्म ४, बाकाद ५ और काल ६, इन ६ द्रव्योंका सामान्य निष्पाण है।

(२) नमन्कारगाया ?, सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादक नामा द्वितीय अधिकारकी ११ गायायें और मोक्षमार्गप्रतिपादक नामा तृतीय अधिकारकी २० गायायें, इन सहित जो लघुद्रव्यसंग्रहकी २६ गायायें हैं, उनका अर्थात् तीनों अधिकारोंकी ५८ गायाओंका नाम वृहद्द्रव्यसंग्रह है।

इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्ड नामा राजा महा अमात्य (वडे मत्री व मुप्ताहिं) हुए। एक दिन राजमल श्रीचामुण्ड सहित सभामें विराज रहे थे। उस समय किसी सेठने<sup>१</sup> आकर प्रणाम करके कहा कि, “महाराज ! उत्तरदिशामें एक पोदनापुर नगर है, वहांपर श्रीभरतचक्रवर्ती द्वारा स्थापित कायोत्सर्ग श्रीवाहृवलीका प्रतिविम्ब है, जोकि वर्तमानमें ‘गोमट’ इस नवीन नामसे भूषित है।” इत्यादि। इस वृत्तान्तको सुनकर राजा व श्रीचामुण्ड मत्री दोनों अत्यत हर्षित हुए। श्रीचामुण्ड उक्त प्रतिविम्बको भावनमस्कार करके घर गये और सब वृत्तान्त अपनी माता कालिका को कह सुनाया। जिसको श्रवण कर वह बहुत आनंदित हुई और तत्काल अपने पुत्र चामुण्डसहित जिनमदिसे जाकर श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके पश्चात् अपने गुरु<sup>२</sup> श्रीसिंहनन्दी आचार्यको नमस्कार किया। तदनन्तर—

पञ्चात्सोऽजितसेनपण्डितमुनिं देशीगणाग्रेसरं  
स्वस्याधिप्यसुखाविवर्द्धनशशीं श्रीनन्दिसद्वा॑धिपम् ।  
श्रीमद्भासुरसिंहनन्दिमुनिपाण्डियम्भोजरोलम्बकं  
चानन्य प्रवदत्सुपौदनपुरोशीऽवर्वलेवृत्तकम् ॥ वा व च २८ ॥

इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्डने देशीगणमें<sup>३</sup> प्रधान श्रीअजितसेन मुनिको नमस्कार करके श्रीवाहृवलीके प्रतिविम्ब सबधी समाचार कहे। और “मैं जवतक श्रीवाहृवलीके प्रतिविवका दर्शन न करूँगा तबतक दूध नहीं पीऊँगा” इस प्रकारकी प्रतिज्ञा उनके समक्ष धारण की। वहांसे आकर राजाको अपनी यात्राका मनोरथ प्रकट किया, और—

“सिद्धान्ताभ्योधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणा उभ्योधिचन्द्रः  
स्याद्वादाभ्योधिचन्द्रः प्रकटितनयनिक्षेपवाराशिचन्द्रः ।  
एकश्वकौधचन्द्रः पदनुतकमल्लब्रातचन्द्रः प्रशस्तो  
जीयाब्जानाविधचन्द्रो मुनिपकुलवियचन्द्रमा नेमिचन्द्र ॥ वा व च ६२ ॥  
सिद्धान्ताभृतसागरं स्वमतिमन्थक्षमाभृदालोऽच्य यः  
लेभेऽसीष्टफलप्रदानपि सदा देशीगणाग्रेसरः ।  
श्रीमद्गोमटलविवित्तविलसत्त्रैलोक्यसारामर-  
क्षमाजश्रीसुरवेनुचिन्तितमणीन् श्रीनेमिचन्द्रो मुनिः ॥ वा व च ६३ ॥

इत्यादि गुणोंके धारक श्रीनेमिचन्द्रस्वामी सहित श्रीचामुण्डने अपनी माताको, अनेक फँड़ोंको तथा चतुरग्सेनाको साथ लेकर गोमटस्वामीकी यात्राके निमित्त उत्तर दिशाको गमन किया। कितने ही योजन गमन करके विद्याचल पर्वतके समीप पहुँचे। वहां किसीसे पर्वतपर स्थित जिनमदिरका

- 
- (१) ‘सेठों पोदनपुरमें गोमटस्वामीका अस्तित्व कैसे मालूम हुआ ?’ इस शाकाका समाचार नहीं हुआ।
  - (२) गोमटसारकी एक गाथासे विद्वित होता है कि श्रीअजितसेनके विद्यागुरु श्रीआर्य मुनि थे।
  - (३) पूर्व जैनमतागमाविधिविद्युवच्छ्रीनन्दिसंघे भवन्, सुक्षानद्वितपोधनाः कुवलयानन्दा गयूखा इव। सत्सद्वे मुवि देशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्धे सति, श्रीदेशीगणो द्वितीयविलसन्नाम्ना मिथ कथयते ॥ वा.व च ८७ ॥” इसके अनुसार जब नदिसंघके आचार्य और मुनि सपूर्ण देशोंमें व्याप्त तथा प्रसिद्ध हो गये, तब नदिसंघ “देशीगण” इस नामसे कहा जाने लगा।

पता पाकर वहा गये और श्रीजिनेन्द्रकी पूजा स्तुति करने के रात्रिको उसी जिनमन्दिरके महप्लमे निवास किया । रात्रिके चतुर्थ प्रहरमे श्रीनेमिचन्द्र, चामुण्ड और चामुण्डकी माता इन तीनोंसे कूप्माण्डीने<sup>३</sup> स्वप्नमे कहा कि, “पोदनपुर जानेका भाग कठिन है । इस पर्वतमे रावणद्वारा स्थापित श्री वाहुवलीका प्रतिविम्ब है । वह धनुषमे गुरुर्णके वाण चढ़ाकर उनसे पर्वतको भेदनेपर प्रकट होगा ।” प्रातःकाल चामुण्डने भुनिको स्वप्नका वृत्तान्त निवेदन किया । जिसको मुनकर मुनिने स्वप्नके अनुकूल प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया । तदनुमार चामुण्ड ने म्नान करके भूप-पौर्णि भूपित होकर, मुनिके समक्ष उपवास धारण करके, दक्षिणदिशामें गड़े होकर धनुपद्मारा मुर्वणका वाण चढ़ाया । जिससे पर्वतमे छिद्र होकर वहापर—

“द्विपञ्चतालसमलक्षणपूर्णगात्रो, विशच्छरासनसमोन्नतभामभूतिः ।

सन्माधवीत्रतिनागलसत्सुकायः, सथः प्रसन्न इति वाहुवली वभूव ॥ वा व. च ४३ ॥

इस लोकके अनुसार दशतालैसम, लक्षणोंसे पूर्ण शरीरका धारक और २० अनुप परिमाण ऊचा श्रीवाहुवलीका प्रतिविम्ब प्रकट हुआ । राजाने बड़ी भक्तिसे दर्शन किये और विधिपूर्वक १००८ करणोंने श्री वाहुवलीके मन्त्रकपर पचामृताभिषेक किया । और पूजन तथा नमस्कार करके धन्य हुआ । निर वहाँसे दलिणमें आकर—

कलक्यवै पटशताल्ये विनुतविमवस्वंवन्धरं मामि चैव  
पञ्चम्या शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे ।

सीमान्ये भस्त्रनामिन प्रकटितभगणे सुप्रशस्ता चकार  
श्रीपञ्चामुण्डराजो वेलगुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम् ॥ वा व. च ५५ ॥

उसके अनुसार कल्पी<sup>४</sup> (शक)के सवत् ६०० (वि. स ७३५.) में श्रीचामुण्डने भीत्र शुक्ल पचमी रुदितारके दिन श्रव वेल्लूड नगरमें श्रीगोमटस्वामीकी प्रतिष्ठा की, और

“भास्त्रदं आगगायेसरसुक्लचिरमिद्वान्तविश्वेमिचन्द्र-

आगदाम्ये भद्रा यण्णवतिदशकातद्रव्यमूम्रामवर्णान् ।

दृक्त्वा आगोमटेऽग्न्यत्ववस्ववननिमिच्छाच्चनायैभवाम्

श्रीपञ्चामुण्डराजो निजपुरमथुरा भंजगाम श्रिनीवा ॥ वा व. च. ६१ ॥”

इस श्रुतिके अनुसार श्रीचामुण्डने श्रीनेमिचन्द्रस्वामीके लक्षणोंकी गार्दीपूर्वक अग्रानथे शृजार दीनार<sup>५</sup> (मोहर)के साँड श्री गोमटस्वामीके उत्तम, अमिमंक व पृथग आदिके निमित्त देखार वर्णित गमन करने-

गाजे वाजे सहित अपनी मथुरापुरीमें प्रवेश किया । और अपने स्वामी राजमल्लसे सब वृत्तान्त कहा । जिसको श्रवण कर महाराजा राजमल्लदेवने भी श्रीनेमिचद्रस्वामीके समीप डेढ़ लाख १५००००० दीनारोंके गाँव श्रीगोमटस्वामीकी सेवा आदिके निमित्त प्रदान किये । और चामुण्डमत्रीको घन्य घन्य कहकर जिनमतके' प्रभावनार्थ 'राय' पद दिया । उसी दिनसे चामुण्ड "श्रीचामुण्डराय" इस नामसे आज तक प्रसिद्ध हैं ।

इस उक्त कथापरसे निस्सन्देह विदित होता है कि, श्रीनेमिचद्रस्वामी नदिसंघस्थ देशीयगणके मुनीश्वर थे । शक स० ६०० (वि० स० ७३५) में द्राविड़देशस्थ मथुरा नगरी किंवा दक्षिणप्रात्तकी भूमिको अपने चरणकमलोंसे पवित्र करते थे । तत्कालीन महाराजा राजमल्लदेव तथा श्रीचामुण्डरायराजाके अतिशय माननीय थे । श्रीसिंहनन्दी और श्रीअजितसेन नामक दो आचार्य भी आपके समकालीन थे । गोमटसार लविसार और त्रिलोकसार आदि परमादरणीय सिद्धान्तशास्त्रोंके निर्माता भी ये ही श्रीनेमिचद्रे' थे । इत्यादि, इत्यादि ।

परतु आजकलके समयमें एक कथासे इतिहाससंबंधी विषयपर सर्वसाधारणको विश्वास नहीं होता है, अतः इस उक्त विषयको सिद्ध करनेके लिये यथाप्राप्त अन्य प्रमाण देदेना भी हम उचित समझते हैं । वे प्रमाण ये हैं —

१ गोमटसारशास्त्रके अन्तमें स्वयं श्रीनेमिचद्राचार्यने निम्नलिखित गाथायें दी हैं —

"जब्ति गुणं विसंता गणहरदेवादिहृष्टपत्ताणं ।  
सो अजियसेणाहो जस्स गुरु जयत् सो राओ ॥ १ ॥  
सिद्धंतुदयत्तुग्ययणिम्मलवरणेमिचंद्रकलिया ।  
गुणरथेणभूसणम्बुहिम्बेला भरहु मुअणतल ॥ २ ॥  
गोमटसंगहपुत्ता गोमटसिहरुवरिगोमटजिणो य ।  
गोमटरायविणिम्मय दक्षिणकुकुकुडजिणो जयत् ॥ ३ ॥  
लेण विणिम्मय पढिमावयणं सव्वट्टसिद्धिदेवेहिं ।  
सव्वपरमोहिजोगिहिं दिट्ट सो गोम्मटो जयत् ॥ ४ ॥" इत्यादि ।

गोमटसारकी सकृतटीकानुसार इन गाथाओंका भावार्थ यह है कि—“गणघर तथा ऋद्धिधारी भुनियोंके गुणोंके धारक श्रीअजितसेन<sup>३</sup> जिसके ब्रत गुरु हैं, वह चामुण्डरायराजी जयवता रहो ॥ १ ॥ सिद्धान्तरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुए ऐसे— श्रीनेमिचद्ररूपी चंद्रमाकी वचनरूप, किरणोंसे स्पर्शित गुणरत्नभूषण (श्रीचामुण्डराय) समुद्रकी वृद्धिरूप वेला (तट व किनारा), भुवनतलको पूर्ण करे ॥ २ ॥ गोमटसार, चामुण्डरायके मंदिरमें विराजमान एक हाथ पर्समाण, ऊँची इन्द्र-नीलमणि<sup>३</sup> (नीलम) की श्रीनेमिनाथजिनेन्द्रकी प्रतिमा और चामुण्डराय द्वारा वनवाया हुआ दक्षि-

(१) सुनते हैं कि नेमिचद्रसहिता अथवा नेमिचद्रप्रतिष्ठापाठके कर्त्ता भी ये नेमिचद्र हैं ।

(२) श्रवणवेलगुलकी गुफाके दक्षिणपार्श्वमें शाके १०५० का खुदा हुआ जो शिलालेख है, उसमें श्रीअजितसेनके विषयमें “गुणा कुन्दस्पन्दोहुमरसमरा वाग्मृतवाः, एलवप्रायप्रेयः प्रसरस-रसा कीर्तिरिव सा । नखेन्दुज्योत्सनाङ्गेनृपचयचकोरप्रणयिनी, न कासा श्लाघाना प्रदम-जितसेनो ब्रतिपतिः ॥ १ ॥” इत्यादि पद्य लिखे हुए हैं ।

(३) इस एक हाथकी नौलमकी प्रतिमाको वर्तमानमें कही भी पता नहीं लगता है । अतः प्रतीत होता है कि, दुष्ट राजाओंके समयमें यह भी खड़ खड़ हो गई ।

कुकुड जिन<sup>१</sup> ये तीनों जयवते रहें । ३ । जिसकी बनाई हुई प्रतिमा के भुखको सर्वार्थसिद्धि के देवोंने और परमावधिज्ञान के धारक मुनियोंने देखा, वह “गोमट (चामुण्ड) राजा जयवता रहो । ४ ।”

२ गोमट्सार की कण्ठाटकवृत्ति के अनुसार सस्कृतटीकाकारने टीका के प्रारभमे निम्नलिखित गद्य दिया है —

श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्याद्वादशामनगुह्याभ्यन्तरनिवासिप्रवादिसिन्धुरसिंहायमान-सिंह-  
नन्दिनन्दितगङ्गवंशल्लाम-राजसनेश्वाद्यनेकगुणनामवेषभागवेय-भीमद्राजमल्लदेवमहीव-  
ज्ञभमहामात्यपदविराजमान-रणरङ्गमल्ल-असहायपराक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननि-  
लयादिविविधगुणनामसमासादितकीर्तिकान्त-श्रीमद्वामुण्डरायप्रहनानुरूप गोमट्सारनाम-  
वेषपश्चसप्रहग्राम्य प्रारम्भमाणः श्रीमात्रेभिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्ती समस्तसैद्धान्तिकजन-  
प्रश्यातविशद्यग्रा विशालमूर्तिरसी भगवान् गोमट्सारप्रथमावयवभूत जीवकाण्डं विर-  
चयन्तदादौ मलगालनादि फलजननसमर्थ मङ्गलं कृतवान् ।

इसका मक्षिप्त भाव यह है कि, स्याद्वादमतरुपी गुफामे सिंहके समान विराजमान और श्रीसिंह-नन्दी आचार्यके प्रभावसे वृद्धिको प्राप्त ऐता जो गगवशतिलक राजमल्लदेव महाराजा है, उसके महामात्य श्रीचामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार गोमट्सार बनाने के इच्छुक श्रीनेभिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्तीने निविधि समाप्तिके बर्यं भगल किया ।

३ थोमस सी राईसने मलवारकाटर्ली रिव्यूमें जो “कण्ठाटकमें जैनियोंका निवास” नामक लेख छपाया है, उसमे लिखा है कि, “मैसूरके जैनराजोंमें अतिप्रसिद्ध विलालवशके राजा थे । जो कि, पहिले द्वारासमुद्दमे राज्य करते थे । पीछे शृङ्गापटामके बारह १२ मील उत्तरको तोनूरके शास्त्रक हुए । इनका आधिपत्य पूर्ण कण्ठाटकमें था । अर्थात् जहाँ जहाँ कनाढी भाषा बोली जाती थी, उन्होंने प्रदेशोंके ये शासनकर्ता (राजा) थे । इस विलाल वशके स्थापक चामुण्डराय थे । जिनका कि राज्य सन् ७१४ ईस्वीमें था ।

४ मराठी<sup>२</sup> भाषाके उत्त्वप्रसारक नामक समाचारपत्रमें जो श्रवणबेलगोलाका इतिहास नामक लेख छपा है, उसमे स्थलपुराणके आधारसे यह लिखा हुआ है—

दक्षिण<sup>३</sup> मथुराका राजा चामुण्डराय जैनी था । वह क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध पाण्डुवशमें उत्पन्न हुआ था । एक बार वह अपने परिवारसहित राज्यचिन्होंको धारण किये हुए पोदनापुरके गोमटेश्वरकी वदनाके लिये चला । और उस समय उसने मार्गमें मिलकेवाले १२५४ जिनदेवोंके दर्शन करने का भी निश्चय किया । तदनुसार जब, वह अनेक क्षेत्रोंकी वदना करके मार्गातिक्रम कर रहा था, उस

(१) ‘दक्षिण कुकुड जिन’ यह श्रवणबेलगुलमें विराजमान श्रीगोमट्स्वामीकी विशाल प्रतिमाका ही नामान्तर प्रतीत होता है ।

(२) गोमट्स्वामीकी प्रतिमा बनवानेसे लोगोंने चामुण्डरायका ‘गोमट’ यह नाम प्रसिद्ध कर दिया । ऐसा अनुमान होता है ।

(३) इस चतुर्थ प्रमाणसे पूर्वोक्त कथाके कई अशोमें विरोध आता है । परतु इन दोनोंमें कौन सत्य है, इसका निर्णय करनेके लिये अभी हमारे पास कोई माध्यन नहीं है ।

(४) शास्त्रोंमें आगेरेके पास जो मथुरा है वह उत्तर मथुरा और द्राविड देशकी मथुरा दक्षिण मथुरा के नाममे प्रसिद्ध है ।

समय उसने यवणदेल्लिगोलब्रेवके गोपटेश्वरकी एक चमत्कारिक कथा सुनी । जिससे उत्तेजित होकर वह वहाँ गया और वडे उत्साहके साथ उमने श्रीगोपटेश्वरभगवान्‌का माभिपेक पूजन किया । अपना नाम च्छिर रखनेके लिये कई मदिरोंका जीर्णोद्धार कराया । और एक स्वधर्मीय मठ स्थापन करके श्रीमतिसद्गानाचार्यको<sup>१</sup> उन गुरुस्थानका अध्यक्ष बना दिया । और १९६००० मुद्रा (जो उस नमय मिक्रो प्रचलित था) की वार्षिक आमदनी वाली जारी, उस क्षेत्रके लिये लगा दी । इसके पश्चात् कलियुग न० ६०५ विभवमवल्सरके चैत्र महीनेमें ४ दिशाओंमें ४ गालागामन नामक स्थायोंकी स्थापना भी इसी नरपतिने की । चामुण्डरायके पीछे जो राजा हुये, उन्होंने १०९ वर्षतक उक्त व्यवस्था चलाई । शक न० ७७७ में चामुण्डराय राजाके द्वारा स्थापित किया हुआ, वह राज्य हृषीगालदेवके स्वामी वल्लालवनीय एक राजाके आधीन हो गया ।"

५ शककी ८ वीं शताब्दीमें भारतको पवित्र करनेवाले श्रीभगवज्जिनसेनाचार्यजीने आदि-पुराणके मगलाचरणमें श्रीनेमिचन्द्रके भमकालीन श्रीसिंहनन्दा आचार्यका निम्नलिखित श्लोकमें स्मरण किया है—

“काव्यानुचिन्तने यस्य जटा प्रवल्वृत्तय ।

अर्थात् स्मानुवदन्तीव जटाचार्यः<sup>२</sup> स नोऽवतात् ॥”

इन सब प्रमाणोंसे श्रीनेमिचन्द्रका द्राविडेशीय प्रतापी राजा चामुण्डरायके साथ अतिशय धार्मिक सम्बन्ध और शक न० ६०५ में अन्तित्व निविवाद सिद्ध होता है ।

अब टीकाकारने वृहद्द्रव्यमग्रह पृष्ठ १ में जो द्रव्यसग्रहके कर्ता आदिका निरूपण किया है, उसको न्यूल टॉपिये देखते हैं तो न्यान, समय और निमित्तकी असमानतासे द्रव्यसग्रहके कर्ता पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रसे भिन्न प्रतीत होते हैं । और—

“मरगप्पभावण्डुं पवयणभत्तिप्पत्रोहिदेण सया ।

भणिदं गंथं पंचरं सोहतु वहुसुदाङ्गिरिया ॥”

इस श्रिलोकसारके अन्तकी गायाके और द्रव्यमग्रहस्य ‘दल्वसगहृमिण’ इस अन्तिम काव्यके आशय और शब्दरचनाकी समानतासे तथा लोकप्रतीतिसे श्रिलोकसारादिके कर्ता जो हैं, वे ही द्रव्यसग्रहके कर्ता भी सिद्ध होते हैं । ऐसी दशामें हम टीकाकारके कथनको अप्रमाण न कहकर, उसको युक्तिवल्से पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रके विषयमें ही सिद्ध कर डालना उचित समझते हैं ।

यद्यपि मालवदेशन्य वारानगरीका राजा भोजदेव विक्रमकी ११ वीं शताब्दीमें हुआ है । परन्तु हमने सुना है, कि इतिहासकारोंको इस भोजके माननेमें नतोप ‘वही होता है । जब वे कभी ‘इस भोजके पहिले मालवाका राजा एक भोज (वृद्धभोज) और होगया है’ ऐसी कल्पना करते हैं । वही कल्पना आज हमारे अन्त करण में भी प्रविष्ट हुई है । और निम्नलिखित प्रमाणसे यह कल्पना कल्पनामात्र ही नहीं, किन्तु सत्य प्रतीत होती है ।

(१) सिद्धान्ताचार्यसे श्रीनेमिचन्द्रका ही ग्रहण करना चाहिये ।

(२) आदिपुराणकी टिप्पणीमें जटाचार्यके स्थानमें सिंहनन्दी लिखा हुआ है । और एक सस्तुत गुर्वावली (आचार्यपट्टावली) में ‘नेमिचन्द्रो भानुनन्दी सिंहनन्दी जटाधरः । चञ्चनन्दी चञ्च-चार्य यह श्रीसिंहनन्दीका ही दूसरा नाम विद्वत् होता है ।

भगवज्जिनसेनाचार्य शककी ८ वी शताब्दीमे हुए हैं। उन्होने आदिपुराणके भगलाचरणमें—

**‘चन्द्राशुश्रेयशसं प्रभाचन्द्रकर्वि स्तुते ।**

**कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदालहादितं जगत् ॥ १ ॥’**

इस श्लोकसे न्यायकुमुदचन्द्रोदयके कर्ता श्रीप्रभाचन्द्रआचार्यकी स्तुति की है। प्रभाचन्द्र आचार्यने न्यायकुमुदचन्द्रोदयमे “सूर्यका उदय तो हुआ, अब चन्द्रका उदय किया जाता है।” इस आशयका गद्य देकर, प्रमेयकमलभार्त्तण्डका कर्तृत्व अपनेमे ही स्वीकार किया है। और प्रमेयकमलभार्त्तण्डकी समाप्तिमे निम्नलिखित पाठ देकर, भोजदेवके राज्यमे धारानगरीमे अपना निवास विदित किया है —

**“इति श्रीभोजदेवराष्ट्रे श्रीमद्भारानिवासिना परमपरमेष्ठिप्रणामाजितामलपुण्यनिराकृत-  
कर्ममलकलङ्केन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदवि-  
वृत्तमिति ।”**

इस प्रभाणसे शककी ८ वी शताब्दीके पूर्व मालवदेशमे एक वृद्ध भोजका होना निश्चित होता है। और यदि वह वृद्ध भोज श्रीनेमिचद्रके समकाल (शककी ७ वी शताब्दी) मे ही हो तो कोई आश्र्य नहीं। अब रही श्रीनेमिचद्रके मालवदेशमे अस्तित्वकी और सोमश्रेष्ठी के निमित्त द्रव्यसग्रह दनानेकी वार्ता, सो यह अमंभव नहीं। क्योंकि, जैननिग्रन्थाचार्य सदा एक स्थानमे न रहकर ग्राम ग्राममे विहार करते हैं। और भव्यजीवोंमे उनका स्वभावसे धार्मिक अनुराग भी रहता है। अत दक्षिणमे विहार करनेके पूर्व उक्त आचार्यने मालवदेशको सुशोभित किया हो, और जैसे श्रीचामु-  
ण्डरायकी प्रार्थनापर गोमट्सारादि शास्त्र रचे, उसी प्रकार सोमश्रेष्ठीके निमित्त द्रव्यसग्रह भी रचा हो, तो कोई आश्र्य नहीं है।

### श्रीनेमिचन्द्रके गुरुजन

उक्त महानुभाव श्रीनेमिचद्रके गुरु कौन, कौन थे? इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमट्सारमे निम्नलिखित गायायें मिली हैं—

**“णभिङ्ग अभयणंदि सुदसागरपारगिंदिगुरुं ।**

**वरवीरणंदिणाह पथडीण पञ्चयं चोच्छं ॥ १ ॥**

**णमह गुणरथणभूसणसिद्धंतामियमहविधभवभावं ।**

**वरवीरणंदिचदं णिम्नलगुणमिदिणंदिगुरु ॥ २ ॥**

**जस्सय पायपसाएणतणससारजलहिमुत्तिणो ।**

**बीरेदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरु ॥ ३ ॥**

**वरइदणंदिगुरुणो पासे सोकण सयलसिद्धंत ।**

**सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्त्वद्वाणं समुद्दिष्टं ॥ ४ ॥”**

अर्थात् ‘मैं अभयनन्दीको, श्रुतसागरके पारगामी इन्द्रनन्दीको और श्रीवीरनन्दीस्वामीको नमस्कार करके प्रकृतिप्रत्यय अधिकारको कहता हूँ। १। गुणरूपी रत्नोके भूषण और सिद्धान्तरूपी अमृत महोदधिसे उत्पन्न ऐसे श्रीवीरनन्दी चद्रमाको और निर्मल गुणोके धारक श्रीइन्द्रनन्दी गुरुको नमस्कार करता हूँ। २। जिनके चरणोके प्रसादसे श्रीवीरनन्दी और इन्द्रनन्दीका शिष्य मैं

समय उसने अवण्डेलिगोलक्षेत्रके गोमटेश्वरकी एक चमत्कारिक कथा सुनी । जिससे उत्तेजित होकर वह वहाँ गया और वडे उत्साहके साथ उसने श्रीगोमटेश्वरभगवान्‌का साभिपक पूजन किया । अग्रना नाम स्थिर रखनेके लिये कई मदिरोंका जीर्णोद्धार कराया । और एक स्वर्वर्माय भठ स्थापन करके श्रीमत्सिद्धान्ताचार्यजी<sup>(१)</sup> उन गुरुस्थानका अध्यक्ष बना दिया । और १९६००० सुन्दर (जो उन नमय सिद्धका प्रचलित था) की वार्षिक आमदनी वाली जागीर, उस क्षेत्रके लिये लगा दी । इसके पश्चात् कलियुग न० ६०५ विभवर्मवत्सरके चैत्र महीनेमें ४ दिशाओंमें ४ जाग्नाशानन नामक नम्यांशोंकी स्थापना भी इसी नरपतिने की । चामुण्डरायके पीछे जो राजा हुये, उन्होंने १०९ वर्षोंके उक्त व्यवस्था चलाई । यक स० ७७७ में चामुण्डराय राजाके द्वारा स्थापित किया हुआ, वह राज्य हृष्टालदेवोंके स्वामी बल्लालवर्णीय एक राजाके बाबीन हो गया ।"

५ वक्तव्य न वीं शताब्दीमें भारतको पवित्र दर्शनेवाले श्रीभगवत्सिद्धान्ताचार्यजीने आदि-पुराणके मगलाचरणमें श्रीनेमिचन्द्रके नमकालीन श्रीसिंहनन्दा आचार्यका निम्नलिखित श्लोकमें स्मरण किया है—

“काव्यानुचिन्तने यत्य जटा प्रवल्वृत्तय ।

अर्थात् स्मानुवदन्तोव जटाचार्यः<sup>(२)</sup> स नोऽवतात् ॥”

इन सब प्रमाणोंसे श्रीनेमिचन्द्रका द्राविडेशीय प्रतापी राजा चामुण्डरायके साथ अतिग्रय धार्मिक सम्बन्ध और यक न० ६०५ में अन्तित्व निविवाद सिद्ध होता है ।

अब टीकाकारने वृहद्द्रव्यमग्रह पृष्ठ १ में जो द्रव्यसग्रहके कर्ता आदिका निरूपण किया है, उसको न्यूल हस्तिरे देखते हैं तो न्यान, समय और निर्मित्तकी असमानतासे द्रव्यमग्रहके कर्ता पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रके मिन्न प्रतीत होते हैं । और—

“मग्नप्पभावण्डुं पवयणभत्तिप्पत्रोहिदेण मया ।

भणिदं गर्थं पष्ठरे सोहृतु वहुसुदाइरिया ॥”

इस त्रिलोकसारके अन्तकी गायाके और द्रव्यसग्रहस्य ‘दच्चवसंग्रहमिण’ इस अन्तिम काव्यके आशय और शब्दरचनाकी समानतासे तथा लोकप्रतीतिसे त्रिलोकसारादिके कर्ता जो हैं, वे ही द्रव्यसग्रहके कर्ता भी सिद्ध होते हैं । ऐसी दशामें हम टीकाकारके कथनको जप्रमाण न कहकर, उसको युक्तिवलसे पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रके विपर्यसे ही सिद्ध कर डालना उचित समझते हैं ।

यद्यपि मालवदेशस्य धारानगरीका राजा भोजदेव विक्रमकी ११ वीं शताब्दीमें हुआ है । परन्तु हमने सुना है, कि इतिहासकारोंको इस भोजके माननेमें मतोप ‘चहीं होता है । अत वे कभी कभी ‘इस भोजके पहिले मालवाका राजा एक भोज (वृद्धभोज) और होगया है’ ऐसी कल्पना करते हैं । वही कल्पना जाज हमारे अन्त करण में भी प्रविष्ट हुई है । और निम्नलिखित प्रमाणसे यह कल्पना कल्पनामात्र ही नहीं, किन्तु सत्य प्रतीत होती है ।

(१) सिद्धान्ताचार्यसे श्रीनेमिचन्द्रका ही ग्रहण करना चाहिये ।

(२) आदिपुराणकी टिप्पणीमें जटाचार्यके स्थानमें सिंहनन्दी लिखा हुआ है । और एक संस्कृत गुरुवली (आचार्यपूर्णवली) में ‘नेमिचन्द्रो भासुनन्दो सिंहनन्दो जटाधरः । वज्रनन्दी वज्र-वृत्तिस्तार्किकाणां महेश्वर ॥१॥’ इस प्रकार सिंहनन्दीके साथ जटाधर विदेशण देनेसे जटाचार्य यह श्रीसिंहनन्दीका ही दूसरा नाम विदित होता है ।

भगवज्जिनमेनाचार्य शककी द वीं शताब्दीमे हुए हैं । उन्होंने आदिपुराणके मगलाचरणमें—

‘चन्द्रांशुशुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकर्वि स्तुवे ।

कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदालहादितं जगत् ॥ १ ॥’

इस श्लोकसे न्यायकुमुदचन्द्रोदयके कर्ता श्रीप्रभाचन्द्रआचार्यकी स्तुति की है । प्रभाचन्द्र आचार्यने न्यायकुमुदचन्द्रोदयमे “सूर्यका उदय तो हुआ, अब चन्द्रका उदय किया जाता है ।” इस आशयका गद्य देकर, प्रमेयकमलमार्त्तिष्ठको कर्तृत्व अपनेमे ही स्वीकार किया है । और प्रमेयकमलमार्त्तिष्ठकी समाप्तिमे निम्नलिखित पाठ देकर, भोजदेवके राज्यमे धारानगरीमे अपना निवास विदित किया है —

“इति श्रीभोजदेवराष्ट्रे श्रीमद्भारानिवासिना परमपरमेष्ठिप्रणामाजितामलपुण्यनिराकृत-  
कर्ममलकलङ्घेन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपद्वि-  
वृत्तमिति ।”

इस प्रमाणसे शककी द वीं शताब्दीके पूर्व मालवदेशमे एक वृद्ध भोजका होना निश्चित होता है । और यदि वह वृद्ध भोज श्रीनेमिचन्द्रके समकाल (शककी ७ वीं शताब्दी) मे ही हो तो कोई आश्र्य नहीं । अब रही श्रीनेमिचन्द्रके मालवदेशमे अस्तित्वकी और सोमश्रेष्ठी के निमित्त द्रव्यसग्रह बनानेकी वार्ता, सो यह असभव नहीं । क्योंकि, जैननिग्रन्थाचार्य सदा एक स्थानमें न रहकर ग्राम ग्राममे विहार करते हैं । और भव्यजीवोंमे उनका स्वभावसे धार्मिक अनुराग भी रहता है । अत दक्षिणमें विहार करनेके पूर्व उक्त आचार्यने मालवदेशको सुशोभित किया हो, और जैसे श्रीचामु-  
ष्डरायकी प्रार्थनापर गोमट्सारादि शास्त्र रखे, उसी प्रकार सोमश्रेष्ठीके निमित्त द्रव्यसग्रह भी रखा हो-तो कोई आश्र्य नहीं है ।

### श्रीनेमिचन्द्रके गुरुजन

उक्त महानुभाव श्रीनेमिचन्द्रके गुरु कौन, कौन थे ? इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमट्सारमे निम्नलिखित गायायें मिली हैं—

‘णमिठण अभयणांदि सुदसागरपारगिंदणदिगुरु ।

वरवीरणदिणाहं पथडीण पच्चयं बोच्छं ॥ १ ॥

णमह गुणरयणभूसणसिद्धंतामियपहचिधभवभावं ।

वरवीरणंदिच्चदं णिम्मलगुणमिदणदिगुरु ॥ २ ॥

जस्सय पायपसाएणतणसंसारजलहिमुत्तिणो ।

वीरेंदणदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरु ॥ ३ ॥

वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धत ।

सिरिकणयणदिगुरुणा सच्छाणं समुद्दिष्टं ॥ ४ ॥”

अर्थात् ‘मैं अभयनन्दीको, श्रुतसागरके पारगामी इन्द्रनन्दीको और श्रीवीरनन्दीस्वामीको नमस्कार करके प्रकृतिप्रत्यय अधिकारको कहता हूँ । १ । गुणरूपी रत्नोंके भूषण और सिद्धान्तरूपी अमृत महोदधिसे उत्पन्न ऐसे श्रीवीरनन्दी चन्द्रमाको और निर्मल गुणोंके धारक श्रीइन्द्रनन्दी गुरुको नमस्कार करता हूँ । २ । जिनके चरणोंके प्रसादसे श्रीवीरनन्दी जीर इन्द्रनन्दीका शिष्य मैं

(नेमिचद्र) ससारसमुद्रसे पार हुआ उन श्रीबभ्यनन्दीको मैं नमस्कार करता हूँ । ३ । श्रीइंड्र-  
नन्दी गुरुके पास सपूर्ण मिद्वात्तको सुनकर श्रीकनकलन्दी गुरुने सत्त्वस्थानका कथन किया । ४ ।

इन गाथाओंसे विदित होता है कि, श्रीअभ्यनन्दी, वीरनन्दी, इन्द्रनन्दी और कनकलन्दी  
ये चारों महाबाचार्य श्रीनेमिचन्द्रके गुरु थे ।

उक्त चारों आचार्य हमारे चरित्रनायकके गुरु हैं । इस कारण प्रसगवश इनका भी सामान्य-  
रीतिसे वर्णन करना उचित समझते हैं । वह इसप्रकार है—

### श्रावभ्यनन्दा

आप श्रीनेमिचन्द्रके ही गुरु थे, किन्तु श्रीवीरनन्दीके भी गुरु थे । इसीलिये श्रीवीरनन्दी-  
स्वामीने स्वविरचितचन्द्रप्रभचरितकाव्यकी प्रशस्तिमे आपको अपना गुरु सूचित किया है । और  
निम्नलिखित काव्यसे आपकी प्रशसा की है —

मुनिजननुनपादः, प्रात्तमिथ्यापवादः

सकटगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्धः ।

अभवदभ्यनन्दी जैनघर्मभिनन्दी,

न्वमहिमजितसिन्धुर्भव्यलोकैकवन्धुः ॥

‘श्रीबभ्यनन्दीके रचे हुये वृहज्ञैनेन्द्रव्याकरण १, श्रेयोविघान २, गोमद्वाराटीका विना  
संहषिकी ३, कर्मप्रकृतिरहस्य ४, तत्त्वार्थसूत्रकी तात्पर्यवृत्ति ५ और पूजाकल्प ६ आदि शास्त्र  
सुने जाते हैं । परन्तु ये सब इन्हींके रचे हुए हैं या अन्यके, यह निर्णय अभी नहीं हुआ ।

### श्रीवीरनन्दी

ये भी प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं । इनके रचे हुए चन्द्रप्रभचरितकाव्य १, आचारसार २ और  
शिल्पसंहिता ३ ये तीन शास्त्र हैं । इनमें शिल्पसंहिता अभी तक देखनेमें नहीं आई । आचार  
सारमें आपने कई स्थलोंमें श्रीमेघचन्द्रत्रैविद्यादेवका अतिशय प्रशसावाचक पदोंमें स्मरण किया है ।  
श्रीअभ्यनन्दीका कहीं भी नाम नहीं लिया । अतः अनुमान होता है कि, श्रीबभ्यनन्दीका  
शिष्यत्व स्वीकार करनेके पूर्व आप श्रीमेघचन्द्रके आश्रयमें रहे हैं । और उआचारसारका निर्वाण  
श्रीमेघचन्द्रके अस्तित्वमें किया है । आपके विषयमें निम्नलिखित महाप्रशसावाचक पद हमको  
वाहूवलीचरित्रमें मिला है—

श्रीचम्पापुरसुप्रसिद्धविलसत्तिसहासनाधीश्वरोः

भास्वत्पञ्चसहस्रशिष्यमुनितारासंकुलैरावृतः ।

श्रीदेशीगणवार्द्धवद्वेनकरो भव्यालिहृत्कैरवा-

नन्दो भाति सुवारनन्दमुनिचन्द्रो वाक्यचन्द्रातपैः ॥

(१) इन श्रीअभ्यनन्दाके गुरु श्रीगुणनन्दो आचार्य थे ।

(२) ‘शिल्पसंहिता’ यह अतिशय उपयोगी शास्त्र है, अतः पाठकोंको इसके अन्वेषण करनेमें  
तत्पर रहना चाहिये ।

(३) आचारसारके कर्ता द्वासरे वीरनन्दी हो तो भी कोई आश्वर्य नहीं । क्योंकि एक नामके धारक  
कहे जैनाचार्य हुए हैं ।

अर्थात् चपापुरस्थ प्रसिद्ध सिहासन (पट्ट) के स्वामी, पांचहजार मुनिशिष्यरूप तारागणसे वेष्टित, भव्यजीवोंके हृदयरूपी कुमुदको आनन्दित करनेवाले और देशीगणरूपी समुद्रके वृद्धिकारक ऐसे श्री वीरनंदीचद्रमा अपनी वचनरूपी चत्रिका (चांदनी) से शोभायमान हैं।

### श्रीइन्द्रनन्दी

इनकी प्रशासा करनेवाले कई श्लोक हमारे देखनेमें आये हैं, परन्तु विस्तारभयसे निम्नलिखित दो श्लोक ही उद्धृत करते हैं।

**मायत्प्रत्यर्थिवादिद्विरदपुघटाटोपकोपापनोदे**

वाणी यस्याभिरामा मृगर्पातपदबीं गाहते देवमान्या ।

स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी

दैवज्ञः कुन्दकुन्दप्रसुपदविनयः स्वागमाचारचञ्चुः ॥१॥ (मल्लिष्णप्रशस्ति)

दुरित्प्रहनिप्रहाद्युं यदि भो भूरि नरेन्द्रवन्दितम् ।

ननु तेन हि भव्यदेहिनो प्रणुत श्रीमुनिमिन्द्रनन्दिनम् ॥२॥ (नीतिसार)

**भाषार्थ—**परवादीरूपी गजेन्द्रोंके कोपको दूर करनेमें जिनकी देवोकरके माननीय वाणी सिहके समान आचरण करती है, वे अनेक भावोंको अनुभव करनेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्यमें भक्तिके बारक, जिनमतानुकूल आचरणमें निपुण और दैवज्ञ ऐसे श्रीइन्द्रनन्दी जगत्में जयवते रहें । १ । हे भव्यजीवो ! यदि तुमको पापरूपी ग्रहकी पीड़ासे भय है, तो वहुतसे राजाओंकरके वदनीय ऐसे श्रीइन्द्रनन्दी मुनिका सेवन करो । २ ।

— उक्त महानुभावके रचे हुए शान्तिचक्रपूजा १ अङ्कुरारोपण २ मुनिप्रायश्चित्त ( प्राकृतमे ) ३ प्रतिष्ठापाठ ४ पूजाकल्प ५ प्रतिमास्कारारोपणपूजा ६ मातृकायंत्रपूजा ७ औषधिकल्प ८ भूमिकल्प ९ समयभूण १० नीतिसार ११ और इन्द्रनदिमहिता प्राकृत १२-इत्यादि १ग्रन्थ-मुनेमें आये हैं। इससे जान पड़ता है कि, आप तिद्वान्तविषयमें ही प्रौढ़ नहीं थे, किन्तु चरणानुयोग और मन्त्रशास्त्रमें भी अतिशय निपुण थे। श्रीनेमिचन्द्रने जो २प्रतिष्ठापाठ बनाया है, वह भी इन्हींके प्रतिष्ठापाठके आधारसे रचा हुआ है। और इनके पश्चात् होनेवाले प्राय सभी पूजा प्रकरण और मन्त्रवाद सबधीं शास्त्रकारोंने आपका भत सादर ग्रहण किया है।

### श्रीकनकनन्दी

इनके विषयमें हमको विशेष परिचय नहीं मिला परन्तु जैसे—श्रीमयनन्दी, श्रीवीरनन्दी, श्रीइन्द्रनन्दी और श्रीनेमिचन्द्र ये चारों आचार्य संद्वान्तिकचक्रवर्तीके पदसे भूषित थे, उसी प्रकार ये भी-संद्वान्तिकचक्रवर्ती थे ।

(१) इनमेंसे नीतिसार, अंकुरारोपण तथा इन्द्रनन्दिसंहिता ये तीन ग्रन्थ हमारे देखनेमें भी आये हैं। सहितोंमें दायेभाग आदिका निरूपण है, परन्तु प्राकृत होनेसे यथार्थ अर्थका भान नहीं होता। यदि इसेकी शूद्र प्राचीन प्रति और टीकां टिप्पणीकी प्राप्ति हो जाय तो उसके आधारसे जैनजातिके दायेभाग आदि कई व्यवहारोंमें शास्त्रानुकूल सुधार हो सकता है। अतः पाठकोंको इसके अन्वेषण में खूब प्रयत्न करना चाहिये ।

(२) श्रीनेमिचन्द्रप्रतिष्ठापाठ की अपूर्ण पुस्तक हमने देखी है। सुनते हैं, दक्षिणमें पूर्ण पुस्तक विद्यमान है।

इस प्रकार हम यथाप्राप्त प्रमाणोद्धारा अतिसंखेषे मूल ग्रन्थकार श्रीनेमिच्छन्दका परिचय पाठ-कोको देकर, अब टीका और टीकाकार श्रीद्वादेवजीके विषयमें कुछ लिखनेका मनोरथ करते हैं ।

### वृहद्द्रव्यसंग्रहकी टीका

यह तीन हजार श्लोकोंकी सख्त्याको धारण करती है। इसमें ग्रन्थके नामानुसार केवल जीव, पुद्गल आदि पट्टद्रव्योंका वर्णन नहीं है, किन्तु पट्टद्रव्योंके परिज्ञानको आत्मप्राप्तिका साधन दिखलाया गया है। इसलिये यह टीका अध्यात्मविषयका एक अच्छा ग्रन्थ है। प्राय निश्चयनयकी मुख्यताको लिये हुए कथन होनेसे अध्यात्मविषय सबसे कठिन विषय है। अल्पज्ञोंकी तो ज्ञाति ही नहीं है कि, वे इसके मर्मको समझ सकें। और जो बुद्धिमान हैं, वे भी अनेकान्तनयमार्गके मर्मको न जाननेसे पदपदमें भ्रमान्वित हो जाते हैं। यही नहीं, किन्तु कितने ही तो जैसे भाषाके प्रसिद्ध कवि और अध्यात्मरसके रसिक बनारसीदासजी केवल सभ्यसारके पढ़नेसे 'करणीको रस भिट गयो भयो न आतम स्वाद'। हुई बनारसीकी दशा जेम ऊटको पाद। १।' इस दोहेके अनुसार एकवार व्यवहारचारित्रको जलांजुली दे चुके थे। उसी प्रकार एकान्तनिश्चयमार्गका अवलभवन कर अनेकान्तनय जिनधर्मके शिखरसे पतनको प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु निश्चयके कथनके साथ साथ ही व्यवहारका कथन भी विद्यमान होनेसे इस टीकामें 'सोना और सुगंध' की कहाँवत चरितार्थ होती है। और इसके पढ़नेसे भ्रम उत्पन्न होनेके बदले अनेक भ्रम भाग जाते हैं। अत अध्यात्ममहलमें चढ़नेके लिये इस टीकाको प्रथम सोपान कहा जावे तो कोई अत्युक्ति नहीं है। इसमें प्रसगवश बहुतसे उपयोगी विषयोंका वर्णन है, जोकि आपको विषयसूचीके अवलोकन करनेसे विदित होगा। सस्कृत इसमें ऐसी सरल है कि, जिससे सरल सस्कृत दूसरी बाँ नहीं सकती है। और प्रकृत विषयकी पुष्टिके लिये यथास्थान 'गोमद्वासार, त्रिलोकसार, पञ्चास्तिकाय, 'तत्त्वानुशासन, लोकविभाग, पञ्चनमस्कारमाहात्म्य और यशस्तिलक्षणंपू आदि प्रसिद्ध शास्त्रोंके प्रमाण भी उक्त' च से लिखे हुए हैं। जिससे किसी भी कथनमें ज्ञाना उत्पन्न नहीं होती है। अत एव यह वृहद्द्रव्यसंग्रहकी टीका-दिग्गम्बरजैनपरीक्षालयीय पंडितपरीक्षाके पठनक्रममें नियन्त है। और जयपुरको सरकारी संस्कृतयूनिवर्सिटीकी उपाध्याय परीक्षामें शीघ्र ही नियत होने वाली है।

### श्रीब्रह्म-देवजी

हमको उक्त टीकाके कर्ता महाशयका नाम देवजी और 'ब्रह्म—यह पदसूचक शब्द जान पड़ता है। जिसको नामके पहिले लगा देनेसे 'ब्रह्म देवजी' ऐसा शब्द बन गया है।

(१) 'तत्त्वानुशासन, लोकविभाग और पञ्चनमस्कारमाहात्म्य ये तीनों ही शास्त्र हमको उनम और अतिग्राम उपयोगी जान पड़ते हैं, परन्तु खेद है कि—इनका पता नहीं। यदि प्रतिष्ठा आदिमे लाखों रुपये लगानेवाले धनाड्य भाई जिनवाणीको श्रीजिनेन्द्रके समान ही समझकर उसकी भक्तिके लिये भी धन मर्च करके समस्त सरस्वतीभडारोका सूचीपत्र बनवालें तो राइमे सुमेरु मिल जावै और जैन सनातन का अज्ञानदारिद्र्य भाग जावै।

(२) 'ब्रह्म' इस शब्दसे गृहत्यागी ब्रह्मचारीरूप अर्थको ग्रहण करना चाहिये।

## श्रीब्रह्म-देवजीका समय

यद्यपि श्रीब्रह्मदेवजीने अपने सङ्घावसे कब किस वसुधामडलको मठित किया ? इत्यादि जिज्ञासा-ओको पूर्तिको लिये हमारे पास कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं है । तथापि वृहद्द्रव्यसग्रहणीका पृष्ठ १६२ मे वारह हजार श्लोक प्रमाण पञ्चनमस्कारमाहात्म्य नामक ग्रन्थका उल्लेख है । अत विदित होता है कि, पञ्चनमस्कारमाहात्म्यके कर्त्ता मालवदेशस्थ-भट्टारक श्रीसिंहनन्दीके समकालमे अथवा पश्चात् आपका प्रादुर्भाव हुआ है । और प्रसिद्ध भट्टारक श्रीशुभचन्द्रजीने स्वामीकार्तिक-चानुप्रेक्षाकी टीकामें द्रव्यमग्रहकी टीकाका कितना ही पाठ उद्धृत किया है । अत यह निश्चित होता है कि—भट्टारक श्रीशुभचन्द्रजीके पूर्व आपका सङ्घाव था ।

भट्टारक श्रीसिंहनन्दी सूरी श्रीश्रुतसागरजीका अस्तित्व विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वाध्यमे वर्थात् स० १५२५ मे कई प्रमाणोंसे सिद्ध है । भट्टारक श्रीशुभचन्द्रने न्यामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाटीकाकी समाप्ति विक्रम स० १६१३ मे की है । इस कारण विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके मध्यमे किसी भी समय श्रीब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवर्षको पवित्र किया । ऐसा हृष्ट अनुमान किया जाता है ।

## श्रीब्रह्मदेवजीके रचे हुए शास्त्र

हमारे पास जो धान्त्रकारांकी नामावली है, उसमे लिखा हुआ है कि, ब्रह्मदेवजीने परमात्म-प्रकाशकी टीका १, वृहद्द्रव्यसंग्रहकी टीका २, तत्त्वदीप ३, ज्ञानदीपक ४, त्रिवर्णचार्दीपक ५, प्रतिष्ठातिलक ६, विवाहपटल ७, और कथाकोश ८, ये आठ शास्त्र रचे हैं । इनके अतिरिक्त हमको समयसारकी तात्पर्यवृत्ति भी इन्हींकी रची हुई जान पड़ती है । क्योंकि उसके और द्रव्यसग्रहकी टीकाके अतका पाठ प्राय समान है ।

## श्रीब्रह्म-देवजीकी रुचि

यद्यपि आपकी रुचि अध्यात्मविषयमे विशेष थी, तथापि आप निश्चयसाधक व्यवहार चारित्रसे पराद्भुत नहीं थे । अत एव आपने जैसे परमात्मप्रकाशटीका आदि अध्यात्मशास्त्रोंका निर्माण किया है, उसी प्रकार त्रिवर्णचारादि व्यवहारशास्त्रोंको भी रचा है । जो लोग निश्चय और व्यवहारमार्गमे एकान्तके धारक हो रहे हैं उनको आपका अनुकरण करके सन्मार्गमे प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

## उपसंहार

इस प्रकार मूल और टीकाकारके विषयमे जो कुछ मुझको प्रमाण मिले उनके अनुसार सम्भवमे यह प्रम्तावना लिखकर पाठकोको समर्पण की है । यदि इसमे प्रमाद अथवा जैनइतिहाससवधी यथोचित साधनोके अभावसे कोई श्रुटि रह गई हो तो विज्ञ पाठक उससे सूचित करें । इत्यलम् ।

जोहरी वजार, वर्वर्ड  
आश्विन शुक्ला ७ रविवार  
श्रीवीरनिर्वाण म २४४२

श्रीमज्जैनाचार्यपादपन्नाराधक—  
श्रीजवाहरलाल शास्त्री

## अनुवादकी प्रार्थना

सज्जन-विद्वल्लन-पाठक महाशय ।

आज मैं आपके करकमलोंमें इस सटीकबृहद्द्रव्यसंग्रहके अभूतपूर्व हिंदीभाषानु-  
चादको समर्पण करके कृताथे होता हूँ । इस सटीकबृहद्द्रव्यसंग्रहकी प्रशंसा प्रस्तावनामें  
बहुत कुछ लिखी जा चुकी है । और इसमें जिन जिन उपयोगों विषयोंका वर्णन है, उनका  
सूचीपत्र भी पृथक् प्रकाशित है । अब यहांपर विशेष वक्तव्य यह है कि, इस अतिशय  
लाभप्रद ग्रन्थरत्नका इस अनुवादके पूर्व कोई अनुवाद नहीं था । जिसके न होनेका कारण  
यह है कि, जैनसमाजमें संस्कृतशास्त्रोंके अनुवाद ( वचनिकायें ) रचकर, उनके द्वारा  
सर्वसाधारणका उपकार करनेवाले श्रीटोडरमल्लजी, व श्रीजयचन्द्ररायजी आदि विद्वान्  
बहुत ही अल्पसंख्याके धारक हुए हैं । उनसे अपने पर्यायमें जितने शास्त्रोंकी वचनिकायें  
वन सकीं, उननी ही वे बनाने पाये । अधिकके लिये विवश रहे । क्योंकि, प्राकृत और  
संस्कृत भाषामय दो अपार पारावार हैं । इनमें इस लोक और परलोकसञ्चारी हितोपदेश-  
रूप प्रकाशके धारक तथा पूर्वापरविरोधादि दोपोंसे रहित होनेके कारण निर्मल ऐसे लक्षा-  
विधि जैनग्रन्थरत्न विद्यमान हैं । उन सबका देशभाषामें अनुवाद कर देना अथवा अवलो-  
कन करना तो दूर रहा, सूचीपत्र बनाना भी दु साध्य है । ऐसी दशामें इस ग्रन्थरत्नका  
भी वचनिकासे वंचित रह जाना सुमंभव ही था ।

आपके पुण्यप्रभावसे जयपुरम्थ पूर्वविद्वानोंद्वारा स्वीकृत वचनिकानिर्माणरूप-  
कार्यका नाममात्र निर्वाह करनेके लिये जो कुछ सामर्थ्य मुझमें उत्पन्न हुआ है, उसीका  
यह फल है कि, मैं २५ वर्षकी अवस्थामें इस दुरवबोध अध्यात्मविषयक महाशास्त्रका  
सचेतः प्रथम अनुवाद रचकर, उसको आपके करकमलोंमें समर्पित करता हूँ ।

यद्यदि मुझको पूर्ववचनिकाकारोंका अनुकरण करके दूँढ़ारीभाषामें ही अनुवाद करना  
उचित था । परन्तु समयके फेरसे पूर्ववचनिकाओंका भी हीनाविक्रियपूर्वक हिंदीभाषामें  
अनुवाद होता हुआ देखकर, आधुनिक जैनसमाजके संतोषार्थ और अन्य अनुवादकोंको  
पिष्टपेणजनित परिश्रमसे रक्षणाणं मैंने सबदेश प्रचलित हिंदीभाषामें ही अनुवाद किया है ।

पूर्ववचनिकाकारोंने स्थल स्थल में भावार्थ देकर कठिन विषयको स्पष्ट भी किया है ।  
परन्तु भावार्थके देनेमें बुद्धिको विशेष स्वातंत्र्य मिलता है । और उस स्वातंत्र्यमें ग्रंथकारके,  
प्रकरणके, व शास्त्रके विरुद्ध लिखे जानेका अनुवादसे भी अधिक भय रहता है । इस  
कारण मैंने प्रायः भावार्थ नहीं दिया है ।

किरने ही विशेषज्ञ मनुष्य हिन्दीभाषाको भी संस्कृतभाषाको लघुप्रगिनी (छोटी वहन) बनानेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं। अर्थात् जैसे सर्वनामशब्दोंका प्रयोग करके और भिन्न भिन्न पदोंको समामर्श्वलामें वाध करके संस्कृतको सक्षिप्त कर लिया जाता है। उसा प्रकार वे हिन्दीभाषाको भी सक्षेपरूपमें लाना चाहते हैं। परन्तु शास्त्रोयविषयमें वह सक्षेर मुझको रुचिकर नहीं है ! क्योंकि-जैसे तारके सक्षिप्त और सकेतिन शब्दोंसे उसके आशयही ही लाभ उठा सकते हैं, उसी प्रकार जो शास्त्रके रहस्यज्ञ हैं, उन्होंको उस सक्षिप्तभाषासे लाभ मिल सकता है। इसलिये सर्वसाधारण कभी कभी अनर्थमें प्रवृत्त होकर लाभके बढ़ाए हानिके भागी हो जाय तो कोई आश्वर्य नहीं। इसो कारण मैंने यथाशक्ति समासितपदोंको भिन्न भिन्न करके अनुवाद किया है।

एकभाषाके अन्दोंका दूसरी भाषाके शब्दोंमें पूर्ण अनुवाद करके उस अनुवादको सर्व-गुणमपन्न और रुचिकर वाक्यपद्धतिमें ले आना कठिन ही नहीं, किन्तु प्राय अमंभव है। अत एव कितने ही अनुवादक मूलके आशयको ग्रहण करके उसको मनोहर भाषामें लिख दालते हैं। परन्तु उससे 'किम पट व वाक्यका कथा अनुवाद है' इस जिज्ञासामें सर्वसाधारणको हताश होना पड़ता है। इसकारण मैंने यह अनुवाद प्राय मूलके अनुमार लिखा है और जहांपर भाषा अतिशय विरम होतो थी, वहांपर मूलके आशयको ग्रहण किया है।

यद्यपि मैंने सावधानतापूर्वक तीन पुस्तकोंके आधारसे मूलको शुद्ध करके, तदनुसार यह अनुवाद लिखा है, तथापि मूलमें अशुद्धता रह जाना समव है। अतः अशुद्धमूलके कारण यदि अनुवाद यथार्थ न हुआ हो तो इस दोषका भागी मैं नहीं हू। छपते समय कापी देनेकी शीघ्रतामें किरना ही प्राकृतका उक्त च पाठ यथार्थ अनुवादसे वचित रह गया था। उसको अति परिश्रमसे स्पष्ट करके विशेष सूचनामें लागा दिया है। एव प्रमादसे अथवा अनुपस्थितिमें बहुतसे फार्मोंके छपनेसे अन्य जो किरनो हो अर्थात् अन्यों क्षुर अशुद्धियाँ रड गई थीं, उनको भी यथाशक्ति शुद्धिपत्रद्वारा शुद्ध कर दो हैं। तथापि जो दुर्जन मनुष्य हैं, वे अपने स्वभावानुकूल अनुवादमें वचनभेद-लिङ्गभेद-दूरान्वय-असं-वद्ध-पुनरुक्ति-भाषावैरस्य और विरामादि चिन्होंको अनुचित योजना आदि तुल्य दोषोंको ग्रहण करके, उनकी कही समालोचना किये विना न रहेंगे। परन्तु यदि वे समालोचनाके प्रतिश्रमको न करके, उन दोषोंसे मुझे सूचित कर देंगे, तो मैं विशेष कृनक्ष होकर द्विरावृत्तिमें उन दोषोंको निकाल डालनेका प्रयत्न करूंगा।

आजकल जेनधर्मज्ञ विद्वानोंके आलय, अनवकाश तथा निस्सीम सज्जनत्वके कारण प्रायः किरने ही, पुस्तकरचयिता निरङ्कुश होकर धर्म व मूलसे विशेष पुस्तकों लिखने लगे हैं। ऐसी पुस्तकोंसे यद्यपि इस, समय विशेष हानि न होगी। परन्तु ये ही कालान्तरमें भाषाके रोचक मनुष्योंके प्रमाणताको प्राप्त होकर धर्म व मूलका तिरस्कार करनेमें समय हो जावेगी।

इन स्थलमें कोई कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह प्रवन्ध किया जावे कि जिससे नवीन पुस्तकोंका निर्माण न हो सके। परन्तु यह अनुचित है। क्योंकि, पूर्वशाखकार सभी छद्मस्थ थे। वे यदि उक्त भयसे डर कर शाख न रचते, तो आज जो समाजमें धर्म व ज्ञानका उद्योग है, वह किसके आधार पर होता। अतः नवीन पुस्तकोंका न बनाना तो सर्वथा हानिकारक है। हाँ, पुस्तकरचयिता और धर्मके विशेषज्ञोंको निरन्तर यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि, कोई पुस्तक विरुद्ध न बन जावे।

यद्यपि मैंने यह अनुबाद बहुत विचारपूर्वक किया है। अतः सहसा अविश्वासका स्थान नहीं है। तथापि सर्वथा निर्दोष है, यह भी मैं नहीं कह सकता। इसलिये समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ कि, वे अपने आलस्यको त्याग कर और मुझपर अनुग्रह करके दोषदर्शकहृष्टिसे इस समस्त अनुबादको मूलसे मिलावें। और जो कुछ विरुद्ध हो, उससे मुझे सूचित करें। जिससे कि यह अनुबाद शुद्ध कर लिया जावे और फिर इस अनुबादकी निर्दोषतामें किसी प्रकारका संशय न रहें।

श्रीपरमश्रुत प्रभावकमण्डलकी तरफसे इस वृहद्द्रव्यसंग्रहका अनुबाद वैयाकरणाचार्य श्री पं. ठाकुरप्रसादजीशमाद्वारा कराया गया था। और मुझको उसका संशोधनभार दिया गया था। परतु कई विशेष कारणोंसे उस अनुबादकी अपेक्षा न रख कर मुझे सर्वथा नूतन अनुबाद करना पड़ा। इसलिये इस अनुबादजनित यश तथा अपयशका भागी मैं ही हूँ।

अन्तमें, जिनकी अहर्निः प्रेरणा और अनुग्रहसे सद्विद्याको प्राप्त करके मैं इस अनुबादके करनेमें समर्थ हुआ, उन श्रीमती लयपुरस्थलैनमहापाठशालाके प्रवन्धकर्ता सौम्य-मूर्ति सद्विद्यारसिक पूज्य श्री पं० भोलेलालजी शेठीको, जिनके अनुरोधसे इस द्रव्यसंग्रहके अनुबादन तथा संशोधनकर्ममें प्रवृत्त हुआ, उन श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक महोदयोंको और जिन विद्वानोंने इसके अनुबादन व संशोधनमें सहायता दी है, उन सबको कोटिः धन्ववाद देकर इस प्रार्थनाको समाप्त करता हूँ। इत्यलम्।

### द्वितीयावृत्तिकी सूचना

पाठकगण ! इस ग्रंथकी पहली आवृत्ति जो छपी थी उसकी प्रतिया न रहनेसे नवीन स्वाध्यायप्रेमियोंको मंगानेकी बहुत उक्तंठा देख यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित कोर्गई है। पहली आवृत्तिमें जो अशुद्धिपत्र था वह निकालकर शुद्ध पाठ किया गया है। और गाथाओंकी सूची भी अकारादिक्रमसे लगाई गई इससे देखनेवालोंको सुभोता है। जहाँ-तक मुझसे हुआ है वहाँतक शुद्धपाठ किया गया है। इतनेपर भी प्रमादवश अशुद्धियों रहगई हों तो पाठकगण मेरेपर क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना है। इत्यलम्।

जैनप्रथउद्धारककार्यालय  
नवरत्नगली, हौदावाडी,  
पं० गिरावच — वंवई.  
मिती० चैत्रसुदि २ द्व०  
म० १९७६ बुधवार }  
{

जैनसमाजका सेवक—  
पं० मनोहरलाल शास्त्री।



गाथा	पृ. सं. गा. सं.	गाथा	पृ. सं. गा. सं.
द्वितीय अधिकारका प्रारंभ	७५	५९ चारित्रिका वर्णन ...	... १३२
६७ 'जीव अजीवके भेदरूप आसावादि पदार्थोंका भी कथन करते हैं' यह कथन ... ... ७५	६० भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जराका कथन ... - ... १३५		
३८ भावास्वर और द्रव्यास्वरके स्वरूपका कथन ... ... ७७	६१ भावमोक्ष और द्रव्यमोक्षका वर्णन ... १३८		
३९ भावास्वरका विशेष वर्णन ... ... ७८	६२ सिद्धोंके सुखका वर्णन ... १३९		
४० द्रव्यास्वरका विशेष वर्णन ... ... ७९	६३ पुण्यपापका स्वरूप और पुण्य तथा पाप प्रकृतियोंके नामोंका वर्णन ... १४२		
४१ भाववद और द्रव्यवदके स्वरूपका कथन ... ... " ... १४५	तृतीय अधिकारके प्रथम अंतराधिकारका प्रारंभ ... १४५		
४२ वधके भेद और कारणोंका वर्णन ... ... ८१	६४ तृतीय अधिकारकी समुदायपात्रिका ... १४५		
४३ भावस्वर और द्रव्यस्वरके स्वरूप का कथन ... ... ८४	६५ व्यवहारमोक्षमार्ग और निश्चयमोक्षमार्गका कथन ... १४६		
४४ सवरके विषयमें नयविभाग ... ... ८५	६६ प्रकारात्मरसे निश्चयमोक्षमार्गका कथन ... १४७		
४५ भावस्वरके भेदोंका वर्णन ... ... ९०	६७ सम्यक्त्वका वर्णन .. ... १४८		
४६ अनित्यभावनाका वर्णन ... ... ९०	६८ सम्यक्त्वके माहात्म्यका कथन ... १४९		
४७ अशरणभावनाका वर्णन ... ... ९१	६९ तीन मूढताओंका वर्णन ... १५०		
४८ मसारभावनाका वर्णन ... ... ९२	७० आठ भद्रोंका वर्णन ... १५१		
४९ एकत्वभावनाका कथन ... ... ९५	७१ छँ ६ अनायतनोंका वर्णन ... १५२		
५० अन्यत्वभावनाका निरूपण ... ... ९६	७२ नि शक गुणका वर्णन ... १५३		
५१ अशुचित्वभावनाका वर्णन ... ... ९७	७३ निष्कौक्षित गुणका वर्णन ... १५४		
५२ आत्मवभावनाका वर्णन ... ... ९८	७४ निर्विचिकित्सा गुणका वर्णन ... १५५		
५३ नवरभावनाका वर्णन ... ... ९९	७५ अमूढहृष्टी गुणका वर्णन ... १५६		
५४ निर्जराभावनाका वर्णन ... ... "	७६ उपशूहन गुणका कथन ... १५७		
५५ लोकभावनाका निरूपण अधोलोकका वर्णन ... ... १००	७७ स्थितीकरण गुणका निरूपण ... १५८		
तिर्यग्लोक(मध्यलोक)का वर्णन ... ... १०२	७८ वात्सल्यगुणका वर्णन ... १५९		
मनुव्यलोक(ढाईद्विप)का वर्णन ... ... १०६	७९ प्रभावनागुणका वर्णन ... १६०		
ज्योतिलोकका कथन ... ... १२०	८० 'अवती सम्यग्यहृष्टियोंका भी नरक आदि बुरे स्थानोंमें जन्म नहीं होता है' यह वर्णन ... १६१		
ऊर्ध्वलोकका वर्णन ... ... १२४	८१ सम्यग्ज्ञानके स्वरूपका वर्णन ... १६२		
५६ दुर्लभभावनाका वर्णन ... ... १२९	८२ व्यवहारसम्यग्ज्ञानके भेदोंका वर्णन ... १६४		
५७ घर्मभावनाका वर्णन ... ... १३०			
५८ वाईस परीषहोंके जीतनेका वर्णन ... ... १३२			

वि सं.	विषय	पृष्ठ	वि सं.	विषय	पृष्ठ
८३	चार अनुयोगोका वर्णन	... १६५	१००	सर्वज्ञकी सिद्धि	... १९१
८४	निश्चयसम्प्रगङ्गानका वर्णन	... १६६	१०१	सिद्धपरमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन	... १९५
८५	निर्विकल्पदर्शनका वर्णन	... १६७	१०२	आचार्यपरमेष्ठीके स्वरूपका कथन...	१९७
८६	'छद्मस्थोके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है और केवलियोंके दर्शन व ज्ञान दोनो एक समयमें होते हैं' यह वर्णन ... ... ... १६९		१०३	उपाध्याय परमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन १९९	
८७	तकर्के अभिप्रायसे दर्शनोपयोगका वर्णन ... ... ... १७०		१०४	साधुपरमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन ... २००	
८८	सिद्धान्तके अभिप्रायसे दर्शनका... वर्णन ... ... ... १७१		१०५	निश्चयध्यानके स्वरूपका वर्णन ... २०२	
८९	व्यवहारचारित्रका वर्णन	... १७५	१०६	'मनवचनकायकी प्रवृत्तिको रोक-कर जो निज आत्मामें स्थिर होना है वही परमध्यान है' यह वर्णन ... २०३	
९०	निश्चयचारित्रका वर्णन तृतीय अधिकारके द्वितीय अंतराधिकारका प्रारम्भ	... १७८	१०७	'ध्यानकी सिद्धिके लिये तप श्रुत और व्रत इन तीनोंमें तत्पर हो' यह वर्णन २०६	
९१	तुम ध्यानका अभ्यास करो	... १८०	१०८	'ध्यानके कारण तप, श्रुत और व्रत कैसे होते हैं' इस शकाका समाधान २०८	
९२	ध्यान करनेवाले पुरुषका लक्षण	... १८१	१०९	'इस समय ध्यान नहीं है' इस शकाका समाधान ... ... २१०	
९३	आर्तव्यानका वर्णन ...	... १८२	११०	'इस समय मोक्ष नहीं है फिर क्या ध्यान से क्या प्रयोजन है' इस शकाका समाधान ... ... २१२	
९४	रौद्रध्यानका वर्णन ...	... १८२	१११	पुन मोक्षके विषयमें नयोंका विचार २१३	
९५	व्रमध्यानका वर्णन ...	... १८३	११२	आत्मा शब्दका अर्थ...'	... २१५
९६	शुक्लध्यानका वर्णन ...	... १९४	११३	शास्त्रकारकी प्रार्थना	... २१७
९७	ध्यानको रोकनेवाले रागादिकका वर्णन ... ... ... १८६		११४	तृतीय अधिकारकी समाप्ति २१८	
९८	पदस्थध्यानका वर्णन ..	... १८७	११५	टीकाकारकी प्रार्थना... ... २१८	
९९	अहंतपरमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन	... १८९	११६	तीनो अधिकारो के नाम और ग्रन्थकी समाप्ति ... ... २१८	

\* इति विषयसूची \*

# ॥ बृहद्रव्यसंग्रहस्य अकारादिकमेण गाथासूची ॥



गाथा	पृ. सं.	गा सं.	गाथा	पृ. सं.	गा सं.
अज्जीवो पुण णेओ	...	४४।१५	दंबसगहमिण मुणिणाहा	२१७।५८	
अटु चतु णाण दसण	.	१५।६	दुविह पि मुक्खहेउ	१८०।४७	
अणुगुरुदेहपमाणो	...	२०।१०	दसणणाणपहाणे	..	१९७।५२
अवगासदाणजोगग	...	५०।१९	दसणणाणसमग्ग	..	२००।५४
असुहादो विणिवित्ती	...	१७।५।४५	दसणपुञ्च णाण	..	१६९।४४
आसवदि जेण कम्म	...	७।७।२।९	घम्माधम्मा कालो	..	५।१।२०
आसववधणसवर	...	७।५।२८	पणतीससोलछप्पण	..	१८७।४९
उमओगो दुवियप्पो	...	१।१।४	पयडिट्ठिविणुभाग	..	८।२।३३
एयपदेसोवि अणू	...	६।३।२६	पुगलकम्मादीण	..	१।८।८
एव छभेयभिद	...	५।१।२३	पुढविजलतेयवाळ	..	२।४।११
गडपरिणयाण घम्मो	...	४।८।१७	वज्जदि कम्म जेण दु	..	८।१।३२
चेदणपरिणामो जो	...	८।४।३४	वहिरवभतरकिरिया	..	१७।८।४६
जहकालेण तवेण य	...	१३।५।३६	मगणगुणठाणेहि य	..	२।७।१३
जावदिय आयास	...	६।५।२७	मा चिह्नह मा जपह	..	२०।३।५६
जीवमजीव दव्व	...	४।१	मा मुज्जह मा रज्जह	..	१८।१।४८
जीवादीसहहण	...	१४।८।४१	मिच्छत्ताविरदिपमा	..	७।८।३०
जीवो उववेगमओ	...	७।२	रयणत्तय ण वट्टुह	..	१४।७।४०
जो रयणत्तयजुत्तो	...	१९।९।५३	लोयायासुपदेसे	..	५।५।२८
ज किचिवि चित्तो	...	२०।२।५५	वण्णरस पच गवा	..	१।७।७
ज चामण्ण गहण	...	१६।८।४३	वदसमिदीगुत्तीओ	..	८।९।३५
ठाणजूदाण वघम्मो	...	४।९।१८	ववहारा सुहुक्ख	..	१।१।९
णटुचदुधाइकम्मो	.	१८।९।५०	सहो वधो सुहुमो	..	४।५।१६
णटुकम्मदेहो	...	१९।५।५१	समणा अमणा णेया	..	२।६।१२
णाणवरणादीण	...	७।९।३।१	सव्वस्स कम्मणो जो	..	१३।८।३७
णाण अटुवियप्प	..	१।२।५	सुहुबसुहभावजुत्ता	..	१।४।२।३८
णिकम्मा अटुगुणा	..	३।६।१४	सति जदो तेणेदे	..	६।०।२४
तवमुदवदव चेदा	..	२।०।६।५७	समद्व सणणाण	..	१।४।६।३९
तिक्काले चदुपाणा		१।०।३	नसयविमोहविभम	..	१।६।३।४२
दव्वपरिवट्टवो	..	५।२।७।१	होति असखा जीवे	..	६।२।२५

॥ इति गाथासूची ममाप्ता ॥

## ❀ शुद्धि-पत्र ❀

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
		सज्जी	सज्जी			विसह	विसाह
१७	५	निपिक्या	निपिक्या	१२	स्वण्डा इन्दुरवी	खण्डारिक्ष्वे इन्दुरवी	
२८	१	समनस्का	समनस्का	१२३	९	तथैय	तथैव
३१	४	किलिट	कुटिट	१२४	५	चत्वारिंशत्	चतुश्चत्वारिंशत्
३१	६	नवत्तिनो	नवत्तिनो	१२५	१२	दृश्यते	दृश्यते
३१	७	वितर्क	वितर्क	१२६	२५	तेतीन	तेतीस
३३	९८	किलिट	कुटिट	१३१	१४	वर्मेष	यमेष
३८	३३	कर्मका	कर्मका	१३४	८	चारिणाश्रा	चारित्राणा
४१	५	अन्येयु	अन्येषु	१४५	१	निदावन्ध	निदानवन्ध
४४	२५	धमो	धम्मो	१४७	३२	ठडाई	ठडाई
४७	७	अयमन्नार्थ	अयमत्रार्थ	१५०	३	विषययुक्त	विषयुक्त
४६	१८	सहकरी	सहकारी	१४		स्वमीके	स्वामीके
५०	४	किं विशिष्ट	किं विशिष्ट ?	१५२	८	त्याज	त्याज्य
५२	२	शक्तिवाशद	शक्तिवशाद	१६२	३	इच्छीण	इत्थीग
५३	३२	(जाडे) के पढ़ने में— मे छान्नो को	पढ़ने के लिये	१६४	४	मङ्गमङ्गवाह्य	मङ्गवाह्य
				२४		प्रज्ञस्यग	प्रज्ञस्यग
५६	३१	परिमाण	परिणमन	१६५	१	त्रिपिष्टा	त्रिपृष्ठा
६५	८	सब्वाणु	सब्वाणु	१९		नारायणो का	नारायणो का
७०	१	सवंगत	सर्वंगत			त्रिपिष्ट	त्रिपृष्ठ
७१	१४	पदर्थ	पदार्थ	१६९	२५	जुवग	जुगव
७३	१२	पदार्थस्य	पदार्थस्य	१८५	१	यत्रकस्मिन्	यत्रैकस्मिन्
	२१	सम्प्यग	सम्प्यग्	१८६	७	तत्रोत्तर	इति ? तत्रोत्तर
२५		दा	दो	१९३	७	परचेतो	परचेतो
७४	५	विषिष्ट	विशिष्ट	१९६	३	कमदेह	कर्मदेह
७९	१	अश्रेत्युक्त	अश्रेत्युक्त	२०१	१	राघरा	राघना
	२४	अज्ञानमिथ्यास्वी	अज्ञानमिथ्यात्वी		३	माझ	मोझ
८०	१९	योग	योग्य	२०५	५	ज्ञान, तदेव	तदेव
९१	७	प्रसाद	प्रासाद	२०७	१	होइ	होह
९२	६	उत्सप्तिण्वसप्तिण्ये उत्सप्तिण्वसप्तिण्ये			८	एयमेव	इयमेव
१०१	२	अघोमुखाद्मु	अघोमुखाद्वंमु		१५	विवक्त	विविक्त
१०५	१२	गच्छभवे	गच्छभवे	२०८	३१	पूव	पूर्व
	१८	उसमे	उससे	२१०	७	तियरण	तिरयण
१२२	९	असलेस	असलेस्स	२११	१८	नीन	तीन




श्रीमद् राजचंद्रजैनशास्त्रमाला ।



श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचितः

बृहद्द्रव्यसंग्रहः ।

( संस्कृतटीकया हिन्दीभाषाटीकया च सहितः )



श्रीब्रह्मदेवकृत-संस्कृतटीका ।

प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् ।

स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलाच्ययम् ॥१॥

शुद्धजीवादिद्रव्यार्णा देशकं च जिनेश्वरम् ।

द्रव्यसंग्रहस्त्राणां वृत्तिं वद्ये समाप्ततः ॥२॥ ( युग्मम् )

अथ मालवद्वैश्वर्ये धारानामनगराविपतिराजभोजदेवाभिवानकलिकालचक्रतिसम्बन्धिनः  
श्रीपालमण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुव्रततीर्थकरवैत्यालये शुद्धा-  
त्मद्रव्यसंविचित्रिसमुत्पन्नसुखामृतरसास्वादविपरीतनारकादिदुःखभयभीतस्य परमात्मभावनो-

पं० जवाहरलालशास्त्रीकृत-भाषाटीका ।

श्रीवीरं जिनमानम्य जीवाजीवावदोधकम् ।

द्रव्यसंग्रहग्रन्थस्य देशभाषां करोम्यहम् ॥१॥

भावार्थः—सिद्ध, त्रैलोक्यसे वंदित, स्वभावसे उत्पन्न जो ज्ञान और सुख है उसे  
स्वरूप, कर्मभलसे रहित तथा अविनाशी ऐसे परमात्माको, (सिद्ध परमेष्ठोक्तो), और शुद्ध-  
जीव आदि घटद्रव्योंका उपदेश देनेवाले श्रीजिनेन्द्रभगवानको प्रणाम करके मैं ( ब्रह्मदेव )  
द्रव्यसंग्रहनामक शाखके सूत्राकी वृत्ति (टोका) को संक्षेपसे कहूँगा ॥ १ । २ ॥

अब मैं ( श्रीब्रह्मदेव ) मालवा नामक देशमें धारा नामक नगरके स्वामी राजा  
भोजदेव नामक कलिकालचक्रतीर्थी संबन्धी जो श्रीपाल मण्डलेश्वर थे, उनसंबंधी आश्रम  
नाम नगरमें श्रीमुनिसुव्रत तीर्थकरके चैत्यालयमें शुद्ध ऐसा जो आत्मारूप द्रव्य है, उसके  
ज्ञानसे उत्पन्न ऐसा जो सुखरूपी अमृतरस, उसके आस्वाद से विपरीत ऐसे जो नरकगति

त्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरक्त्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागा-  
राद्यनेकनियोगाधिकारिसोमाभिधानराजश्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैः पूर्वं  
घड्विशतिगाथाभिर्लघुद्रव्यसंग्रहं कृत्वा पञ्चाद्विशेषतत्त्वपरिज्ञानार्थं विरचितस्य वृहद्द्रव्यसं-  
ग्रहस्याधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन वृत्ति प्रारम्भ्यते । तत्रादौ “जीवमजीवं दब्बं” इत्यादिसप-  
विशतिगाथापर्यन्तं घड्द्रव्यपञ्चात्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं  
“आसववधणं” इत्याद्येकाद्विगाथापर्यन्तं सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादनमुख्यतया द्वितीयो  
महाअधिकारः । ततः परं “सम्महंसणणाणं” इत्यादिविशतिगाथापर्यन्तं मोक्षमार्गकथनमुख्य-  
त्वेन तृतीयोऽधिकारश्च । इत्यष्टाधिकपञ्चाग्रन्थाभिरधिकारत्रयं ज्ञातव्यम् ॥ तत्राप्यादौ  
प्रथमाधिकारे चतुर्दशगाथापर्यन्तं जीवद्रव्यव्याख्यानम् । ततः परं “अज्जीवो पुण ऐओ”

आदि सवधो दुःख हैं, उनके भयसे ढरा हुआ, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी  
अमृतरसका पान करनेको (पीनेको) इच्छा रखनेवाला, भेद अभेद रक्त्रय अर्थात् व्यवहार  
और निश्चय इन दो भेदोंका वारक जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रलूप  
रक्त्रय है उसकी भावना है यारी जिसके, भव्यजनशिरामणी तथा भाङ्डागार (खजाना)  
आदि अनेक नियोगोंका (कामों का) स्वामी ऐसा जो श्रीसोम नामक राजश्रेष्ठ(राजाका  
सेठ) था उसके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवने पहिले छव्वीस २६ गाथासूत्रोंसे  
लघुद्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थ रचकर तत्पञ्चात् विशेषतत्त्वोंके जाननेके लिये जो वृहद्द्रव्यसंग्रह  
नामक शास्त्र निर्मित किया उस वृहद्द्रव्यसंग्रहग्रथकी अधिकारशुद्धिपूर्वकतासे अर्थात् पहिले  
अधिकारोंकी छाट करके तत्पञ्चात् वृत्तिको अर्थात् व्याख्या (विशेषवर्णन) को प्रारंभ करता  
हू॥ उस वृहद्द्रव्यसंग्रहनामक शास्त्रमे प्रथम ही “जीवमजीवं दब्बं” इस गाथाको आदिमे  
लेकर “लावदियं आयासं” इस सत्ताईसवीं गाथापर्यन्तं जीव १ पुद्गल २ धर्म ३ अधर्म ४  
आंकाश ५ और काल ६ इन छहों द्रव्योंको तथा जीव १ पुद्गल २ धर्म ३ अधर्म ४ और  
आंकाश ५ इन पांचों अस्तिकायोंका निरूपण करनेवाला षड्द्रव्यपञ्चास्तिकार्यप्रतिपादक-  
नामा प्रथम अधिकार है । इसके पञ्चात् “आसववंधणसंवरं” इस गाथाको आदिमे लेकर  
“सुहअसुहभावजुत्ता” इस अड्डतीमवीं गाथापर्यन्तं जीव १ अजीव २ आसव ३ वध ४  
सवर ५ निर्जरा ६ और मोक्ष ७, इन सातों तत्त्वोंका और जीव १ अजीव २ आसव ३ वंध ४  
सवर ५ निर्जरा ६ मोक्ष ७ पुण्य ८ और पाप ९, इन नवों पदार्थोंका मुख्यतासे कथन करने-  
वाला सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादक नामा द्वितीय महाअधिकार है । इसके अनन्तर  
“सम्महंसणणाणं” इस गाथासूत्रको आदिमे लेकर वीस २० गाथाओंपर्यन्त मुख्य-  
तासे मोक्षमार्गका कथन करनेवाला मोक्षमार्गप्रतिपादक नामा तृतीय अधिकार है । इस-  
प्रकार अड्डावन गाथाओंसे तीन अधिकार जानने चाहियें । उन तीनों अधिकारोंमें भी

१ प्रथम और द्वितीय अधिकारके मध्यमें “परिणामिजीवमुक्त” इत्यादि दो गाथाओंसे प्रथम अधि-  
कारकी चूल्हिका भी है ।

इत्यादिगाथा षट्कपर्यन्तमजीवद्रव्यकथनम् । ततः परं “एवं छब्दभेयमिदं” एवं सूत्रपञ्चक-पर्यन्तं पंचास्तिकायविवरणम् । इति प्रथमाधिकारमध्येऽन्तराधिकारत्रयमवबोद्धव्यम् ॥ तत्रापि चतुर्दशगाथासु मध्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवादिनवाधिका-रसूचनरूपेण “जीवो उवओगमओ” इत्यादिद्वितीयसूत्रगाथा । तदनन्तरं नवाधिकार-विवरणरूपेण द्वादशसूत्राणि भवन्ति । तत्राप्यादौ जीवसिद्धयर्थं “तिकाले चदुपाणा” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, तदनन्तरं ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयकथनार्थं “उवओगो दुवियप्पो” इत्यादिगाथात्रयम्, ततःपरममूर्त्तर्वकथनेन “वण्णरसपंच” इत्यादिसूत्रमेकम्, ततोऽपि कर्मकर्तृत्वप्रतिपादनरूपेण “पुण्गलकम्मादीणं” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, तदनन्तरं भोक्तृ-त्वनिस्तुपणार्थं “वचहारा सुहुदुख्यं” इत्यादिसूत्रमेकम्, ततःपरं स्वदेहप्रसितिसिद्धयर्थं “अणुगुरुदेहपमाणो” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, ततोऽपि संसारिजीवस्वरूपकथनेन “पुढविज्ञ-लतेउवाऊ” इत्यादिगाथात्रयम्, तदनन्तरं “णिकम्मा अद्गुणा” इतिप्रभृतिगाथापूर्वार्धेन सिद्धस्वरूपकथनम्, उत्तरार्धेन पुनरूर्धवंगतिस्वभाव । इति नमस्कारादिचतुर्दशगाथामेला-पकेन प्रथमाऽधिकारे समुदायपातनिका ॥

आदिका जो प्रथम अधिकार है उसमें चौदह १४ गाथाओंपर्यन्त जीवद्रव्यका व्याख्यान करनेवाला जीवद्रव्यप्रतिपादक नामा प्रथम अन्तराधिकार है इसके अनन्तर “अज्ञीवो पुणे णेओ” इस गाथाको आदिमे लेकर “णिकम्मा अद्गुणा” इस गाथापर्यन्त आठ गाथाओंसे अज्ञीवद्रव्यका वर्णन करनेवाला अज्ञीवद्रव्यप्रतिपादक नामा द्वितीय अन्तराधिकार है । तत्पश्चात् “एवं छब्दभेयमिदं” इसको आदिमे लेकर “जावदियं आयासं” इस गाथापर्यन्त पांच सूत्रोंसे पांचों अस्तिकायोंका निष्पण करनेवाला पंचास्तिकायप्रति-पादक नामा तृतीय अन्तराधिकार है । इस प्रकार प्रथम अधिकारमें तीन अन्तराधिकार समझने चाहिये । अब प्रथम अधिकारके प्रथम अन्तराधिकारमें जो चौदह गाथा हैं उनमें नमस्कारकी मुख्यतासे प्रथम गाथा है । जीव अऽदि नव ९ अधिकारोंके सूचनारूपसे “जीवो उवओगमओ” इत्यादि रूप द्वितीयसूत्रगाथा है । इसके अनन्तर नौ ९ अधिकारोंका विशेषवर्णन करने रूपसे बारह १२ सूत्र हैं । उन १२ सूत्रोंमें भी प्रथम ही जीवकी सिद्धिके लिये “तिकाले चदुपाणा” इत्यादि एक सूत्र है । इसके पश्चात् ज्ञान और दर्शन इन दोनों उपयोगोंका कथन करनेके लिये “उवओगो दुवियप्पो” इत्यादि तीन गाथासूत्र हैं । इसके अनन्तर अमूर्त्ताका कथन करनेरूपसे “वण्णरसपंचगंधा” इत्यादि एक गाथासूत्र है । तत्पश्चात् जीवके कर्मकर्तृताका प्रतिपादन करनेरूपसे “पुण्गलकम्मादीणं” इत्यादि एक गाथासूत्र है । इसके अनन्तर जीवके कर्मफलोंका भोक्तापनेका कथन करनेके लिये “अणुगुरुदेहपमाणो” इत्यादि एक गाथासूत्र है । और इसके अनन्तर संसारीजीवके स्वरूपका कथन करनेरूपसे “पुढविजलतेउवाऊ” इत्यादि तीन गाथासूत्र हैं । इसके पश्चात् “णिकम्मा अद्गुणा” इत्यादि गाथाके पूर्वार्धसे जीवके सिद्धस्वरूपका कथन किया

अथेदानीं गाथापूर्वाद्देवं सम्बन्धाऽभिवेयप्रयोजनानि कथयाम्युत्तराद्देवं च मङ्गला-  
येसिष्टदेवतानमस्कारं करोमीत्यभिप्रायं मनसि वृत्ता भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपोदयति;—  
लीबमजीवं दर्ढं लिणवरवसहेण जेण णिदिहं ।

देविंदिविंदवंदं वन्दे तं सव्वदा सिरसा ॥ १ ॥

**व्याख्या**—‘वंदे’ इत्यादिक्रियाकारकसम्बवेन पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । ‘वंदे’ एकदेशशुद्धनिश्चयनयेन स्वशुद्धात्माराधनलक्षणभावस्तवनेन, असङ्गतव्यवहारनयेन तत्प्रतिपादकवचनरूपद्रव्यस्तवनेन च ‘वन्दे’ नमस्करोमि । परमशुद्धनिश्चयनयेन पुनर्वन्द्यवन्दक-भावो नास्ति । स कः कर्ता ? अहं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवः । कथं वन्दे ? “सव्वदा” सर्वकालम् । केन ? “सिरसा” उत्तमाङ्गेन । “तं” कर्मतापत्रं वीतरागसर्वज्ञम् । तं किंविशिष्टम् ? “देविंदिविंदवंदं” मोक्षपदाभिलाषिदेवेन्द्रादिवन्द्यम्, “भवणालयचालीसा वितरदेवाण होति

गया है, और उत्तराद्दसे जीवके ऊर्ध्वगमनस्वभावका वर्णन किया गया है । इस प्रकार नमस्कारगाथाको आदि लेकर जो चौदह गाथासूत्र हैं, उनका मेल करनेसे प्रथम अधिकारमे समुदायपातनिका है ॥

अब गाथाके पूर्वार्थसे संबन्ध, अभिवेय तथा प्रयोजनका कथन करता हू, और गाथाके उत्तराद्दसे भगलके लिये इष्टदेवताको नमस्कार करता हू । इस अभिप्रायको मनमें धारण करके भगवान् श्रीनेमिचन्द्रस्वामी इसका प्रथम सूत्रका प्रतिपादन करते हैं;—

**गाथाभावार्थः**—मैं ( श्रीनेमिचन्द्र ) जिस जिनवरोमे प्रवानने जीव और अजीव द्रव्यका कथन किया, उस देवेन्द्रादिकोके समूहसे वंदित तोर्थकर परमदेवको सदा मस्तकसे नमस्कार करता हू ॥ १ ॥

**व्याख्यार्थः**—‘वंदे’ इत्यादिपदोंका क्रियाकारकभावसंबन्धसे पदखण्डनारूपसे अर्थात् खंडान्वयकी रीतिद्वारा व्याख्यान किया जाता है । “वंदे” एकदेशमें शुद्धऐसा जो निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे तो निज-शुद्ध आत्माका आराधन करनेवाले भावस्तवनसे और असङ्गतव्यवहारनयकी अपेक्षासे उस निज-शुद्ध-आत्माका प्रतिपादन करनेवाले वचनरूप द्रव्यस्तवनसे नमस्कार करता हूं । और परमशुद्धनिश्चयनयसे वन्द्यवन्दक भाव नहीं है अर्थात् एकदेशशुद्धनिश्चयनय और असङ्गतव्यवहारनयकी अपेक्षासे ही श्रीजिनेन्द्र वंदना करनेयोग्य हैं और मैं वंदना करनेवाला हू । और परमशुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे वन्द्यवन्दक भाव नहीं है । क्योंकि श्रीजिनेन्द्र और मैं इन दोनोंका आत्मा समान हो है । वह नमस्कार करनेवाला कीन है ? मैं द्रव्यसंग्रहग्रन्थका कर्ता श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेव हूं । कव और कैसे नमस्कार करता हू ? “सव्वदा” सत्र काल मैं “शिरसा” उत्तम अग जो मस्तक है उससे नमस्कार करता हू । किसको नमस्कार करता हू “तं” वन्दनक्रियाके कर्मपनेको प्राप्त हुए श्रीवीतरागसर्वज्ञको ( श्रीजिनेन्द्रको ) । कैसे श्रीजिनेन्द्रको ? “देविंद-

वत्तीसा । कप्पामरचउबोसी चंदो सूरो परो तिरिओ ॥ १॥” इति गाथाकथितलक्षणे-न्द्राणा शतेन वन्दित देवेन्द्रवृन्दवन्द्यम् । “जेण” येन भगवता । किं कृतं ? “णिहिंडं” निर्दिष्टं कथितं प्रतिपादितम् । किं, “जीवमजीवं दव्वं” जीवाजीवद्रव्यद्वयम् । तथा—सहजशुद्ध-चैतन्यादिलक्षणं जीवद्रव्यं, तद्विलक्षणं पुद्गादिपञ्चभेदमजीवद्रव्यं च, तथैव चित्तम-त्कारलक्षणशुद्धजीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायानां, परमचित्त्योतिस्वरूपशुद्धजीवादिसप्तत-स्त्वाना निर्दोषपरमात्मादिनवपदार्थानां च स्वरूपमुपदिष्टम् । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता ? “जिणवरवसहेण” जितमिथ्यात्वरागादित्वेन एकदेशजिनाः असंयतसम्यग्छयादयस्तेषां वराः गणधरदेवास्तेषां जिनवराणां वृषभः प्रधानो जिनवरवृषभस्तीर्थकरपरमदेवतेन जिन वरवृषभेणेति ॥ अत्राध्यात्मशाखे यद्यपि सिद्धपरमेष्ठिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवहा-रनयमाश्रित्य प्रत्युपकारस्मरणार्थमहंत्परमेष्ठिनमस्कार एव कृतः । तथा चोक्तं—“श्रेयोमा-र्गस्यं संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः । इत्याहुस्तद्विनिमये शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवाः ॥१॥” अत्र गाथापराद्देन—“नास्तिकत्वपरीहार. शिष्टाचारप्रपालनम् । पुण्यावासिश्च निर्विघ्न. शास्त्रादौ तेन संरक्षितः ॥२” इति श्लोककथितफलचतुष्टयं समीक्षमाणा ग्रन्थकाराः शास्त्रादौ त्रिधा

विंदवंदं” मोक्षपदको चाहने वाले जो देवेन्द्रादि हैं उनसे वन्दितको अर्थात् “भवनवासि-योंके ४० इन्द्र, व्यन्तरदेवोंके ३२ इन्द्र, कल्पवासीदेवोंके २४ इन्द्र, ज्योतिर्ज्ञदेवोंके चन्द्र और सूर्य ये २ इन्द्र, मनुष्यों का १ इन्द्र ( चक्रवर्तीं ) और तिर्यक्षों का १ इन्द्र (सिंहविशेष) ऐसे सब मिलकर सौ १०० इन्द्र हैं । १ ।” इस गाथा में कहे हुये लक्षणं के धारक सौ १००इन्द्रोंसे बदितको । जिस भगवान् ने क्या किया है ? “णिहिंडं” कहा है । किसको कहा है ? “जीवमजीवं दव्वं” जीव और अजीव इस द्रव्यद्वयको कहा है । अर्थात् सहज-शुद्ध-चैतन्य अदि लक्षणका धारक जीव द्रव्य है, और इससे विलक्षण (मिन्न लक्षणका धारकं) पुद्गल १ धर्म २ अधर्म ३ आकाश ४ और काल ५ इन पांच भेदोंका धारक अंजीवं द्रव्य है । तथा इसी प्रकार चित्तच मत्काररूप लक्षणका धारक जो शुद्ध जीव अस्तिकायं है, उसको आदिमें लेकर पांच अस्तिकायोंका, परमज्ञानरूप ज्योतिका धारक जो शुद्ध जीवत्वं है, उसको आदि लेकर नौ ९, पदार्थोंका स्वरूप कहा है । फिर कैसे भगवानने कहा है, कि—“जिण-वरवसहेण” मिथ्यात्व और राग आदिको जीतनेसे असंयतसम्यग्छष्टो आदिक एकदेशो जिन हैं, उनमें जो वर ( श्रेष्ठ ) हैं वे जिनवर अर्थात् गणधरदेव हैं, उन जिनवरों (गण-धरों) में भी जो प्रधान हों, वे जिनवरवृषभ अर्थात् तीर्थकरपरमदेव हैं उनने कहा है । इस अध्यात्मशाखमें यद्यपि सिद्ध परमेष्ठियोंको नमस्कार करना योग्य है तौ भी व्यव-हारनयका अवलम्बन करके अपने प्रति श्रीजिनेन्द्रके उपकारको स्मरण करनेके लिये अहंत्परमेष्ठियोंको ही नमस्कार किया है । सो हो कहा है कि “अहंत्परमेष्ठियोंके प्रसादसे कल्याण ( मोक्ष ) मार्गकी सिद्धि होती है । इस कारण उत्तम मुनियोंने शास्त्र की आदि में

देवतार्थै त्रिधा<sup>१</sup> नमस्कारं कुर्वन्ति । इत्यादिभज्ञलव्याख्यानं सूचितम् । भज्ञलभित्युपलक्षणम् । उक्तं च—“मगलणिमित्तहेऽं परिमाणं णाम तह य कत्तार । वागरिय छप्पि पच्छा वक्षाणड सत्यमायरिओ ॥ १ ॥” “वक्षाणड” व्याख्यातु । स कः? “आयरिओ” आचार्यः । कं? “सत्थं” जाङ्ग “पच्छा” “पञ्चात् । किं कृत्वा पूर्वं? “वागरिय” व्याकृत्य व्याख्याय । कान्? “छप्पि” यडप्पिकारान् । कथंभूतान्? “मंगलणिमित्तहेऽं परिमाणं णाम तह य कत्तार” भज्ञलं निमित्तं हेतुं परिमाणं णाम कर्त्तुं संज्ञाभिति । इति गाथाकथि-तक्षेण मंगलाद्यधिकारषट्कमपि ज्ञातव्यम् ॥ गाथापूर्वाद्वन्न तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि सूचितानि ॥ कथभिति चेत्-विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मस्वरूपादिविवरणरूपे वृत्तिग्रन्थो व्याख्यानम् । व्याख्येयं तु तत्प्रतिपादकसूत्रम् । इति व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धो विज्ञेयः । यदेव व्याख्येयसूत्रमुक्तं तदेवा-भिधान वाचक प्रतिपादक भण्यते, अनन्त-ज्ञानाद्यनन्तरुणाधारपरमात्मादिस्वभावोऽभिधेयो वाच्यः प्रतिपाद्यः । इत्यभिधानाभिधेय-

अहं परमेष्ठीके गुणोंकी स्तुति करनेका कथन किया है । १ । और यहाँ गाथाके उत्तरार्द्धसे “नास्तिकताका त्याग १ शिष्ट ( उत्तम ) पुरुषोंके आचरणका पालन २ पुण्यको प्राप्ति ३ और विनाकी रहितता ४ इन चार लाभोंके लिये शास्त्रकी आदिमे श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति की जाती है । १ ॥” इस प्रकार श्लोकमे कहे हुए जो चार फल है, उनको उत्तम रीतिसे देखते हुए शास्त्रकार अभीष्ट, अधिकृत तथा अभिमत ऐसे तीन प्रकार के देवता के अर्थं मन वचन और काय इन तीनों द्वारा नमस्कार करते हैं । इस प्रकार मंगल का व्याख्यान किया । यहाँ मगल यह उपलक्षण पद् है । सो ही कहा है कि, प्रथम ही आचार्य “मंगलाचरण १ शास्त्र के बनाने का निमित्तकारण २ शास्त्र का प्रयोजन ३ शास्त्र का परिमाण ( श्लोकसख्या ) ४ शास्त्र का नाम ५ और शास्त्र का कर्त्ता ६ इन छह ६ अधिकारों की व्याख्या करके फिर शास्त्रका व्याख्यान करै । १ ॥” इस गाथामें कहे हुये क्रमसे मंगल आदि ६ अधिकारोंको भी जानने चाहिये । और गाथाके पूर्वार्धसे सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजनको सूचित किया है । कैसे सूचित किया है? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि, निर्मल-ज्ञान और दर्शनरूप स्वभावका धारक जो परमात्मा है, उसके स्वरूपको विस्तार से कहनेवाला जो वृत्ति ( इस द्रव्यसंग्रह की टोका ) रूप ग्रन्थ है, वह तो व्याख्यान है, और परमात्मस्वरूप का प्रतिपादक जो गाथा सूत्ररूप द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ है वह व्याख्येय ( व्याख्या करने योग्य ) है । इस प्रकार व्याख्यानव्याख्येयरूप तो सम्बन्ध जानना चाहिये । और जो व्याख्या करने योग्य द्रव्यसंग्रहका सूत्र कहा गया है वही अभिधान अर्थात् वाचक ( कहनेवाला ) कहलाता है । और अनन्तज्ञान आदि अनन्तरुणोंका आधार ( धारक ) जो परमात्मा आदिका स्वभाव है वह अभिधेय है अर्थात् कथन करने योग्य विषय है । इस प्रकार अभिधानाभिधेय का स्वरूप जानना चाहिये ।

१. मनोवचनकार्य ।

स्वरूपं बोद्धव्यम् । प्रयोजनं तु व्यवहारेण षड्द्रव्यादिपरिज्ञानम्, निश्चयेन निजनिरङ्गन-  
शुद्धात्मसचित्तिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादरूपं स्वसंवेदनज्ञानम् ।  
परमनिश्चयेन पुनस्तत्फलरूपा केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूता निजात्मोपादानसिद्धान-  
न्तसुखावाप्निरिति । एव नमस्कारगाथाऽव्याख्याता ॥ १ ॥

अथ नमस्कारगाथायां प्रथम यदुक्त जीवद्रव्य तत्सम्बन्धे नवाधिकारान् सक्षेपेण सूच-  
यामीति अभिप्रायं मनसि सम्प्रधार्य कथनसूत्रमिति निरूपयति ।—

जीवो उवओगमओ अमुक्ति कत्ता भद्रेहपरिमाणो ।

भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्तसोहुगई ॥ २ ॥

व्याख्या—“जीवो” शुद्धनिश्चयनयेनादिमध्यान्तवर्जितस्वपरप्रकाशकाविनश्वरनिरूपाधि-  
शुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादिकर्मवन्धवशादशुद्ध-  
व्यभावप्राणैर्जीवतीति जीवः । ‘उवओगमओ’ शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि सकलविमलके-  
वलज्ञानदर्शनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन क्षायोपशमिकज्ञानदर्शननिवृत्तत्वात् ज्ञानदर्शनो-

व्यवहारनयकी अपेक्षासे ‘षट्द्रव्य आदिका जानना’ यह इस ग्रंथका प्रयोजन है और  
निश्चयनयसे अपने निर्लेप शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो विकाररहित परमआन-  
दरूप लक्षणकार्धारक सुख है, उस सुखरूपी अमृतरसका आस्वादन करनेरूप जो निज  
आत्माके जाननेरूप ज्ञान है, वह इस ग्रंथका प्रयोजन है । और परमनिश्चयसे उस आ-  
त्मज्ञानके फलरूप केवलज्ञानादि अनंतगुणोंके विना न होनेवाली और निज आत्मरूप  
उपादान कारणसे सिद्ध होनेवाली ऐसी जो अनतिसुखकी प्राप्ति है, वह इस द्रव्यसंग्रह  
ग्रन्थका प्रयोजन है । इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा है, उसका व्याख्यान  
किया गया ॥ १ ॥

अब मैं नमस्कारगाथामे जो पहले जीवद्रव्यका कथन किया गया है, उस जीवद्रव्यके  
सवधमे नो अधिकारोंको सक्षेपसे सूचित करता हूँ । इस अभिप्रायको मनमे धारण करके  
आचार्य जीव आदि नौ अधिकारोंको कहनेवाले इस अग्रिम सूत्रका निरूपण करते हैं:—

गाथामावार्थः—जो उपयोगमय है, अमूत है, कर्त्ता है, निज शरोरके बराबर  
हैं, भोक्ता है, संसारमे स्थित है, सिद्ध है, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करनेवाला है, वह  
जीव है ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—“जीवो”यद्यपि यह जीव शुद्धनिश्चयनयसे आदि मध्य और अतसे रहित,  
निज तथा परका प्रकाशक, उपाधिरहित और शुद्ध ऐसा जो चैतन्य (ज्ञान) रूप निश्चय  
प्राण है, उससे जीता है, तथापि अशुद्धनिश्चयनय से अनादिकर्मवन्धनके वशसे अशुद्ध  
जो द्रव्यप्राण और भावप्राण हैं, उनसे जीता है । इसलिये जीव है “उवओगमओ” यद्यपि  
शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे परिपूर्ण तथा, निर्मल ऐसे जो ज्ञान और दर्शनरूप दो उपयोग हैं

पयोगमयो भवति । “अमुक्ति” यद्यपि व्यवहारेण मूर्त्तकम्बाधीनत्वेन स्पर्शस्वगन्धवण-  
सत्त्वा मूर्त्त्वा सहितत्वान्मूर्त्तस्तथापि परमार्थेनामूर्त्तातीन्द्रियशुद्धवृद्धैकस्वभावत्वादमूर्त्तः ।  
“कृत्ता” यद्यपि भूतार्थनयेन निष्क्रियटंकोल्कीर्णक्षायकैकस्वभावोऽयं जीवत्तथाप्यभूतार्थन-  
येन मनोवचनकायव्यापारोत्पादककर्मसहितत्वेन शुभाशुभकर्मकृत्वात् कर्ता । “सदेह-  
परिमाणो” । यद्यपि निश्चयेन सहजशुद्धलोकाकाशप्रसितासङ्ग्येयप्रदेशस्तथापि व्यवहारेण ।-  
नाटिकम्बवन्धाधीनत्वेन शरीरनामकर्मदीयजनितोपसंहारविस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजन-  
स्थप्रदीपवत् स्वदेहपरिमाणः । “मोक्षा” यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन रागादिविकल्पोपाधि-  
रहितस्वात्मोत्थसुखामृतभोक्ता, तथाप्यशुद्धनयेन तथाविधसुखामृतभोजनाभावाच्छुभाशु-  
भकर्मजनितसुखदुःखभोक्त्वाद्वाक्षोक्ता । “संसारत्यो” यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन निःसंसारनि-  
त्यानन्दैकस्वभावस्तथाप्यशुद्धनयेन द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपञ्चप्रकारसंसारे तिष्ठतीति संसा-  
रस्थः । “सिद्धो” व्यवहारेण स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोदयेन यद्यप्यसि-  
द्धस्तथापि निश्चयनयेनानन्तक्षानानन्तगुणस्वभावत्वात् सिद्धः । “सो” स एवं गुणवि-

डुनस्तरूप जोक्त है तथापि अशुद्धनयसे क्षायोपशमिक-क्षान और दर्शनसे रचा हुआ  
है, इसकारण क्षानदर्शनोपयोगमय है । “अमुक्ति” यद्यपि जीव व्यहारनयसे मूर्त्तकर्मोंके  
आधीन होनेसे स्पर्श, रस, गंध और वर्णबाली मूर्त्तिसे सहित होनेके कारण मूर्त्त है तथापि  
निश्चयनयसे अमूर्त्त, इत्रियोंके अगोचर, शुद्ध और शुद्धरूप स्वभावका धारक होनेसे  
अमूर्त्त है । “कृत्ता” यद्यपि यह जीव निश्चयनयसे क्रियारहित, टंकोल्कीर्ण ( निरुपाधि ),  
क्षायकैकस्वभावका धारक है तथापि व्यहारनयसे मन, वचन तथा कायके व्यापारको  
उत्पन्न करनेवाले कर्मोंसे सहित होनेके कारण शुभ और अशुभ कर्मोंका करनेवाला है, इस-  
लिये कर्ता है । “सदेहपरिमाणो” यद्यपि जीव निश्चयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध लोका-  
काशके समान असंख्यात प्रदेशोंका धारक है तथापि शरीरनामकर्मके उदयसे उत्पन्न  
संकोच तथा विस्तारके आधीन होनेसे घट आदि भाजनों में स्थित दीपककी तरह निजदेहके  
परिमाण है । “मोक्षा” यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे रागादिविकल्परूप उपाधियोंसे  
शून्य है और अपनी आत्मासे उत्पन्न जो सुखरूपी असृत है उसका भोगनेवाला है तथापि  
अशुद्धनयसे उत्पन्नके सुखरूपी असृतभोजनके अभावसे शुभकर्मसे उत्पन्न सुख और  
अशुभकर्मसे उत्पन्न जो दुःख हैं उनका भोगनेवाला होने के कारण भोक्ता है । “संसारत्थ”  
संसारमें स्थित है-अर्थात् संसारी है । यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनयसे संसाररहित है और  
नित्य आनन्दरूप एक स्वभावका धारक है तथापि अशुद्धनयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और  
भाव इन भेदोंसे पांचप्रकारके संसारमें रहता है इसकारण संसारस्थ है । “सिद्धो” सिद्ध  
है । यद्यपि यह जीव व्यवहारनयसे निज आत्माकी प्राप्ति स्वरूप जो सिद्धत्व है उसके  
प्रतिपक्षी कर्मोंके उदयसे असिद्ध है तथापि निश्चयनयसे अनन्त क्षान और अनन्त गुण  
स्वभावका धारक होनेसे सिद्ध है । “सो” वह ( इन पहले कहेंहुए गुणोंका धारक जीव )

शिष्टो जीवः । “विस्ससोङ्गर्है” यद्यपि व्यवहारेण चतुर्गतिजनककर्माद्यवशेनोर्ध्वर्धस्ति-र्यगतिस्वभावस्तथापि निश्चयेन केवलज्ञानाद्यनन्तरुणावाप्तिलक्षणमोक्षगमनकाले विस्सा स्वभावेनोर्ध्वर्गतिश्चेति । अत्र पदखण्डनारूपेण शब्दार्थे कथितः, शुद्धाशुद्धनयद्वयविभागेन नयार्थोऽप्युक्तः । इदानी मतार्थः कथ्यते । जीवसिद्धिशार्वाकं प्रति, ज्ञानदर्शनोपयोगल-क्षणं नैयायिकं प्रति, अभूत्तेजीवस्थापन भट्टचार्वाकद्वय प्रति, कर्मकर्तृत्वस्थापनं सांख्यं प्रति, स्वदेहप्रमितिस्थापनं नैयायिकमीमांसकसांख्यत्रयं प्रति, कर्मभोक्तृत्वव्याख्यानं बौद्धं प्रति, संसारस्थव्याख्यानं सदाशिवं प्रति, सिद्धत्वव्याख्यानं भट्टचार्वाकद्वयं प्रति, ऋष्वर्ग-तिस्वभावकथनं माण्डलिकग्रन्थकारं प्रति, इति मतार्थो ज्ञातव्य । आगमार्थः पुनः “अस्त्यात्मानादिवद्”नाभावःसिद्धिरिष्टाइत्यादि प्रसिद्ध एव । शुद्धनयाश्रितं जीवस्वरूपमुपादेयं, शेष च हेयम् । इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थोऽप्यवबोद्धव्य । एवं शब्दनयमतागमभावार्थो यथासम्भवं व्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्य । इति जीवादिनवाधिकारसूचनसूत्रगाथा ॥ २ ॥

अतः पर द्वादशगाथाभिर्नवाधिकारान् विवृणोति, तत्रादौ जीवस्वरूपं कथयतिः—

“विस्ससोङ्गर्है” स्वभावसे ऋष्वर्गमन करनेवाला है । यद्यपि व्यवहारसे चारगतियोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंके उद्दयके बड़से उच्चा, नीचा तथा तिरछा गमन करनेवाला है तथापि निश्चयसे केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंकी प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमें जानेके समय स्वभावसे ऋष्वर्गमन करनेवाला है । यहां पर पदखण्डना रूपसे (खडान्वयकी रीतिसे) शब्दका अर्थ कहा और शुद्ध तथा अशुद्ध इन दोनों नयोंके विभागसे नयका अर्थ भी कहा है । अब मतका अर्थ कहते हैं । चार्वाकके प्रति जीवकी सिद्धि की गई है, नैयायिकके प्रति जीवका ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय लक्षण है यह कथन है, भट्ट तथा चार्वाकके प्रति जीवका अमूर्त स्थापन है, सांख्य के प्रति आत्मा कर्मका कर्ता है ऐसा व्याख्यान है, आत्मा अपने शरीर प्रभाण है यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनोंके प्रति है, आत्मा कर्मोंका भोक्ता है यह कथन बौद्धके प्रति है, आत्मा संसारस्थ है ऐसा व्याख्यान सदाशिवके प्रति है, आत्मा सिद्ध है यह कथन भट्ट और चार्वाकके प्रति है, जीवका ऋष्वर्गमन करना स्वभाव है यह कथन इन सब मतोंके ग्रंथकारोंके प्रति है । ऐसा मतका अर्थ जानना चाहिये । और अनादिकालसे कर्मोंसे बैधा हुआ आत्मा है इत्यादि आगमका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है । शुद्धनयके आश्रित जो जीवका स्वरूप है वह तो उपादेय (प्रहण करने योग्य) है और वाकी सब हेय है । इस प्रकार हेयोपादेयरूपसे भावार्थ भी समझना चाहिये । ऐसे शब्द नय, मत आगमार्थ भावार्थ यथासम्भव व्याख्यानके समयमें सब जगह जानना चाहिये । इस प्रकार जीव आदि नव अधिकारोंको सूचना करनेवाली गाथा समाप्त हुई ॥ २ ॥

अब इसके ऊर्गे द्वादश (१२) गाथाओंसे नव अधिकारोंका विवरण करते हैं, उनमें प्रथम ही जीव का स्वरूप कहते हैं—

तिक्काले चदुपाणा इंदियवलमाउआणपाणो य ।  
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥

**व्याख्या**—‘तिक्काले चदुपाणा’ कालब्रये चत्वारः प्राणा भवन्ति । ते के “इंदियवल-माउआणपाणो य” अतीन्द्रियशुद्धचैतन्यप्राणात्प्रतिशत्रुपक्षभूतः क्षायोपशमिक इन्द्रियप्राणः, अनन्तवीर्यलक्षणवलप्राणादनन्तैकभागप्रसिता मनोवचनकायवलप्राणाः, अनाद्यनन्तशुद्धचैतन्यप्राणविपरीततद्विलक्षणः सादि. सान्तश्चायुः प्राणः, उच्छ्वासपरावत्तोत्पन्नखेदरहितविशुद्धचित्प्राणाद्विपरीतसदृश आनपानप्राणः । “ववहारा सो जीवो” इत्थभूतैश्चतुर्भिर्द्रव्यभावप्राणैर्यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीव. द्रव्ये-न्द्रियादिर्द्रव्यप्राणा अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादि क्षायोपशमिकभावप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चयेन । सत्त्वाचैतन्यवोधादिः शुद्धभावप्राणाः निश्चयनयेनेति “णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स” शुद्धनिश्चयनयतः सकाशादुपादेयभूता शुद्धचेतना यस्य स जीव., एवं “वच्छरक्खभवसारिच्छ, सगणिरयपियराय । चुल्यहंडिय पुण मठड, णव दिहता जाय ॥ १ ॥” इति दोहककथितनवद्यान्तैश्चार्वांकमतानुसारिशिष्यसवोधनार्थं जीवसिद्धिव्याख्यानेन गाथा गता ॥ ३ ॥

**गाथाभावार्थः**—तीनकालमे इन्द्रिय, वल, आयु, और आनपान इन चारों प्राणोंको जो धारण करता है वह व्यवहारनयसे जीव है और निश्चयनयसे जिसके चेतना है वही जीव है ॥ ३ ॥

**व्याख्यार्थः**—“तिक्काले चदुपाणा” तीनकालमे जीवके चार प्राण होते हैं । वे कौनसे “इंदियवलमाउआणपाणो य” इद्रियोंके अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके प्रति शत्रुपक्षभूत क्षायोपशमिक ( क्षयोपशमसे उत्पन्न ) इंद्रिय प्राण है, अनन्त वीर्यरूप जो वलप्राण है उसके अनन्त भागोंमेसे एक भागके प्रमाण मनोवल, वचनवल और काय-वलरूप प्राण हैं, अनादि, अनन्त तथा शुद्ध जो चैतन्य ( ज्ञान ) प्राण है उससे विपरीत ( उलटा ) एवं विलक्षण सादि ( आदिसहित ) और अन्तसहित आयु प्राण है, श्वासो-उच्छ्वासके आवागमनसे उत्पन्न खेदसे रहित जो शुद्ध चित् प्राण है उससे विपरीत अन-प्राण अर्थात् श्वासोच्छ्वास प्राण है । “ववहारा सो जीवो” इस पूर्वोक्तप्रकार रूप चार द्रव्यप्राणों और भावप्राणोंसे जो जीता है, जीवेगा वा पहले जिया है वह व्यवहारनयसे जीव है । अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रव्येन्द्रिय आदि द्रव्य प्राण हैं, और भावेन्द्रिय आदि क्षायोपशमिक भावप्राण अशुद्ध निश्चयनयसे हैं, तथा सत्ता, चैतन्य बोध आदि शुद्धभाव प्राण जो हैं वे निश्चयनयसे हैं । “णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स” शुद्ध-निश्चयनयके मरसे उपादेयभूत ( ग्रहण करने योग्य ) शुद्धचेतना जिसके हो वह जीव माना गया है । इस प्रकार “वच्छरक्खभवसारिच्छ सगणिरय पियराय । चुल्यहंडि-

१. इस दोहे का भावार्थ समझमें नहीं आया (अनुवादक)

अथ गाथात्रयपर्यन्तं ज्ञानदर्शनोपयोगद्वय कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां मुख्यवृत्त्या दर्शनोपयोगव्याख्यानं करोति । यत्र मुख्यत्वमिति बद्धति तत्र यथासभवमन्यदपि विवक्षितं लभ्यते इति ज्ञातव्यम् ।—

उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा ।

चक्रु अचक्रु ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥ ४ ॥

**व्याख्या**—“उवओगो दुवियप्पो” उपयोगो द्विविकल्प “दंसणणं च” निर्विकल्पकं दर्शन सविकल्पकं ज्ञान, च पुनः “दंसण चदुधा” दर्शन चतुर्धां भवति “चक्रु अचक्रु ओही दंसणमध केवलं णेय” चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमवधिदर्शनमथ अथो केवलदर्शनमिति विज्ञेयम् । तथाहि—आत्मा हि जगत्त्रयकालत्रयवर्त्तिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकलविमलकेवलदर्शनम्बभावस्तावत् पञ्चादनादिकर्मवन्धाधीनः सन् चक्षुर्दर्शनावरणक्षयोपगमाद्विरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तसत्त्वासामान्य निर्विकल्पं सव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि निश्चयेन परोक्षपैषेणकदेशेन यत्पश्यति तज्ज्ञानुर्दर्शनम् । तथैव स्पर्शनरसनघाणओत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश—मत्वात्त्वकीयस्वकीयवहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तसत्त्वासामान्यं विकल्परहित परोक्ष-

---

य पुण मडउणव दिष्टता जाय १ ” इस दोहेमे कहे हुए नव दृष्टान्तोद्वारा चार्वाकमतानुयायी शिष्योंको समझानेके लिये जीवकी सिद्धिके व्याख्यानसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ३ ॥

अब तीन गाथा पर्यन्तं ज्ञान तथा दर्शनरूप दो उपयोगोंका वर्णन करते हैं । उनमें भी प्रथम गाथामें मुख्यतासे दर्शनोपयोगका व्याख्यान करते हैं । वहांपर यह कथन हो कि अमुक विषयका मुख्यता ( प्रधानता ) से वर्णन करते हैं, वहांपर गौणतासे अन्य विषयका भी यथासभव कथन मिलेगा, यह जानना चाहिये,—

**गाथार्थः**—दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका हैं । उनमें चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन इन भेदोंसे दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये ॥ ४ ॥

**व्याख्यार्थः**—दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है । उनमें दर्शन तो निर्विकल्पक है और ज्ञान सविकल्पक है । और दर्शनोपयोग चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है, यह जानना चाहिये । इसका विशेष वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम तो आत्मा तीनलोक और भूत, भविष्य तथा वर्तमानरूप तीनों कालोंमें रहनेवाले संपूर्ण द्रव्यसामान्यको ग्रहण करनेवाला जो पूर्ण निर्मल केवलदर्शन स्वभाव है उसका धारक है, पञ्चात् ( फिर ) अनादि कर्मवंघके आधीन होके चक्षुर्दर्शनावरणके क्षयोपशमसे अर्थात् नेत्रद्वारा जो दर्शन होता है उस दर्शनको रोकनेवाले कर्मके क्षयोपशमसे तथा वहिरंग द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त्तसत्त्वासामान्यको जो कि संव्यवहारसे प्रत्यक्ष है तो भी निश्चयसे परोक्षरूप है उसको एक देशसे विकल्परहित

रुपेणैकदेशेन यत्पश्यति तद्वक्षुदर्शनम् । तथैव च मनद्विन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहकारि-  
कारणभूताष्टुदलपश्याकारद्रव्यमनोऽवलम्बनात् मूर्त्तमूर्त्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं वि-  
कल्परहितं परोक्षरुपेण यत्पश्यति तन्मानसमवक्षुदर्शनम् । स एवात्मा यद्विविदर्शनाव-  
रणक्षयोपशमान्मूर्त्तवस्तुगतसत्तासामान्यं निर्विकल्परुपेणैकदेशप्रत्यक्षेण यत्पश्यति तद्व-  
रणक्षयोपशमान्मूर्त्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विविदर्शनाव-  
रणक्षयोपशमान्मूर्त्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं सकलप्रत्यक्षरुपेणैकस-  
मये पञ्चति तदुपादेयभूतं क्षायिकं केवलदर्शनं ज्ञातव्यमिति ॥४॥

अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति:—

णाणं अद्विवियप्पं मदिसुदिओही अणाणणाणाणि ।  
मणपञ्चवकेवलमवि पञ्चक्षपरोक्षमेयं च ॥ ५ ॥

**व्याख्या**—“णाणं अद्विवियप्पं” ज्ञानमष्टविकल्पं भवति । “मदिसुदिओहीअणाणणा-  
णाणि” अत्राष्टविकल्पमध्ये मतिश्रुतावधयो मिथ्यात्वोदयवशाद्विपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञा-

लैसे हो तेंसे जो देखता है वह चक्षुदर्शन है; वैसेही स्पर्शन, रसन, ग्राण तथा ओतेन्द्रि-  
यके आवरणके क्षयोपशमसे और निज निज वहिरंग द्रव्येन्द्रियके आठम्बनसे मूर्त्त सत्तासा-  
मान्यको परोक्षरूप एकदेशसे जो विकल्परहित देखता है वह अचक्षुदर्शन है और इसी-  
प्रकार मन इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशमसे तथा सहकारी कारणभूत जो आठ पाखड़ीके  
कमलके आकार द्रव्य मन है उसके अवलम्बनसे मूर्त्त तथा अमूर्त्त ऐसे समस्त द्रव्योंमें  
विद्यमान सत्तासामान्यको परोक्षरूपसे विकल्परहित जो देखता है वह मानस अचक्षुदर्शन  
है और वही आत्मा जो अवधिदर्शनावरणके क्षयोपशमसे मूर्त्तवस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको  
एकदेशप्रत्यक्षसे विकल्परहित देखता है और जो सहज शुद्ध चिदा-  
नन्द रूप एक स्वरूपका धारक परमात्मा है उसके तत्त्वज्ञानके बलसे केवल दर्शनावरणके  
क्षय होनेपर मूर्त्त अमूर्त्त समस्त वस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको सकल प्रत्यक्षरूपसे एकसम-  
यमें विकल्परहित जो देखता है उसको दर्शनावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्न और ग्रहण करने  
योग्य केवलदर्शन जानना चाहिये ॥४॥

अब आठ विकल्प ( भेद ) सहित जो ज्ञानोपयोग है, उसका कथन करते हैं:—

**गाथामावार्थः**—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और  
केवल ऐसे आठ प्रकारका ज्ञान है। इनमें कुअवधि, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल वे  
चार प्रत्यक्ष हैं और शेष चार परोक्ष हैं ॥५॥

**व्याख्यार्थः**—“णाणं अद्विवियप्पं” ज्ञान आठ प्रकारका है। “मदिसुदिओही  
अणाणणाणाणि” उन आठ प्रकारके भेदोंके मध्यमें मति, श्रुत तथा अवधि ये तीन मिथ्या-  
त्वके उद्यके वशसे विपरीत अभिनिवेशरूप अज्ञान होते हैं ( इसीसे कुमति, कुश्रुत तथा

नानि भवन्ति, तान्येव शुद्धात्मादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन सम्यग्गृहिणीवस्य सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । “भणपञ्चकेवलमवि” मनःपर्यग्ज्ञानं केवलज्ञानमप्येवमष्टविधं ज्ञानं भवति, “पञ्चकस्तपरोक्षमेयं च” प्रत्यक्षपरोक्षभेदं च अवधिमनःपर्यग्द्यमेकदेशप्रत्यक्षं, विभद्धावधिरपि देशप्रत्यक्षं, केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं शेषचतुष्टयं परोक्षमिति । इतो विस्तरः—आत्मा हि निश्चयनयेन सकलविमलाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयकेवलज्ञानरूपस्तावत् । स च व्यवहारेणानादिकमवन्धप्रच्छादितः सन्मतिज्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायश्चयोपशमाच्च बहिरङ्गपञ्चेन्द्रियमनोऽवलम्बनाच्च मूर्त्तिमूर्त्तिं वस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण साव्यवहारिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्ञानाति तत्क्षयोपशमिकं मतिज्ञानम् । किञ्च छद्मस्थाना वीर्यान्तरायक्षयापशम । केवलिना तु निरवशेषक्षये ज्ञान चारित्राद्युत्पत्तौ सहकारी सर्वत्र ज्ञातव्य । सम्यवहारलक्षणं कथ्यते—समीचीनो व्यवहारः संव्यवहारः । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणं सव्यवहारो भण्यते । सव्यवहारे भवं सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यथा घटरूपमिदं यद्या दृष्टमित्यादि । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमानोऽन्दियावलम्बनाच्च प्रकाशोपाध्यायादिवहिरङ्गसहकारिकारणाच्च मूर्त्तिमूर्त्तिवस्तुलोकव्याप्ति-

कुअवधि [विभंगावधि] ) ये इनके नाम हैं तथा वे ही मति, श्रुत तथा अवधि ज्ञान शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वके विषयमें विपरीत अभिनिवेशके अभावके कारण सम्यग्गृहिणीवके सम्यग्ज्ञान हो जाते हैं ( इस रीतिसे मति आदि तीन ज्ञान और तीन ज्ञान उभयस्वरूप होनेसे ज्ञानके ६ भेद हुए ) तथा “भणपञ्चकेवलमवि” मनःपर्यय और केवलज्ञान ये दोनों मिलके ज्ञानके आठ भेद हुए । “पञ्चकस्तपरोक्षमेयं च” इन आठोंमें अवधि और मनःपर्यय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देशप्रत्यक्ष हैं और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष हैं, शेष ( वाकीके ) कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत ये चार परोक्ष हैं । अब यहासे विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं । जैसे—आत्मा निश्चयनयसे सपूर्णरूपसे विमल तथा अखंड जो एक प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप केवलज्ञान है उस ज्ञानस्वरूप है और वही आत्मा व्यवहारनयसे अनादिकालके कर्मवंधसे आच्छादित होकर, मतिज्ञानके आवरणके क्षयोपशमसे तथा वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे और वहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बनसे मूर्त्ते और अमूर्त्तवस्तुको एक देशसे विकल्पाकार परोक्षरूपसे अथवा सांव्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे जो जानता है वह क्षयोपशमिक मतिज्ञान है । अब यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि छद्मस्थोंके तो वीर्यान्तरायका क्षयोपशम सर्वत्र ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण है और केवलियोंके वीर्यान्तरायका सर्वथा क्षय जो है वह ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्तिमें सर्वत्र सहकारी कारण है । अब सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण लिखते हैं—समीचीन अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप जो व्यवहार है वह संव्यवहार कहाता है, संव्यवहारमें जो हो सो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । जैसे—यह घटका रूप मैंने देखा इत्यादि । ऐसेही श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और नोइन्द्रियके अवलम्बनसे प्रकाश

ज्ञानरूपेण यदस्य जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञानं भण्यते । विच्छ विशेषः—शब्दात्मकं श्रुत-  
ज्ञानं परोक्षमेव तावत्, स्वर्गापवर्गादिवहिर्विपयपरिच्छित्तिपरिज्ञानं विकल्परूपं तद्यपि  
परोक्षं, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःखविकल्परूपोऽहमनन्तज्ञानादिरूपोऽहमिति वा तदीषत्परो-  
क्षम्, यच्च निश्चयभावश्रुतज्ञानं तच्च शुद्धात्माभिमुखसुखसंवित्तिस्वरूपं स्वसंवित्त्यकारेण  
सविकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजालरहितत्वेन निर्विकल्पम्, अभेदनयेन तदेव-  
आत्मशब्दवाच्य वीतरागसम्यक्चारित्राविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि संसारिणां  
क्षायिकज्ञानाभावात् क्षायोपशमिकमपि प्रत्यक्षमभिधीयते । अत्राह शिष्य—आद्ये परोक्ष-  
मिति तत्त्वार्थसूत्रे मतिश्रुतद्वयं परोक्षं भणित तिष्ठति कथं प्रत्यक्षं भवतीति । परिहारमाह—  
तदुत्सर्गव्याख्यानम्, इदं पुनरपवादव्याख्यानं, यदि तदुत्सर्गव्याख्यानं न भवति तदिं  
मतिज्ञान कथं तत्त्वार्थं परोक्ष भणित तिष्ठति । तकेशाब्दे साव्यवहारिक प्रत्यक्षं कथं जात ।  
यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञान परोक्षमपि प्रत्यक्षज्ञानं तथा स्वात्माभिमुख भावश्रुत-  
ज्ञानमपि परोक्षं सत्प्रत्यक्ष भण्यते । यदि पुनरेकान्तेन परोक्ष भवति तदिं सुखदुःखादिस-

“और अध्यापक आदि सहकारी कारणके संयोगसे मूर्त्त तथा अमूर्त्त वस्तुको लोक तथा—  
अलोककी व्याप्तिरूप ज्ञानसे जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष श्रुतज्ञान कहते हैं और  
इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो श्रुतज्ञान है वह तो परोक्ष ही है  
तथा स्वर्ग, मोक्ष आदि वाद्य विषयमें बोध करानेवाला विकल्परूप जो ज्ञान है वह भी  
परोक्ष है और जो आभ्यतरमें सुख दुःख विकल्परूप है अथवा मैं अनन्त ज्ञान आदिरूप  
हूँ इत्यादि ज्ञान है वह ईयत् ( किंचित् ) परोक्ष है तथा जो भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध  
आत्माके अभिमुख ( सन्मुख ) होनेसे सुखसंवित्ति ( ज्ञान ) स्वरूप है और वह निज  
आत्मज्ञानके आकारसे सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पसमूह  
हैं उनसे रहित होनेके कारण निर्विकल्प है और अभेद नयसे व्रही आत्मज्ञान इस शब्दसे  
कहा जाता है । तथा वह रागरहित जो सम्यक्चारित्र है उसके विना नहीं होता है ।  
यद्यपि यह केवलज्ञानकी अपेक्षा परोक्ष है तथापि संसारियों को क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न  
होनेसे क्षायोपशमिक होनेपर भी प्रत्यक्ष कहलाता है । यहापर शिष्य आशका करता है  
कि हे गुरो, “आद्ये परोक्षम्” इस तत्त्वार्थसूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानोंको परोक्ष  
कहा है किर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो ? अब शंकाका परिहार इस प्रकार करते  
हैं कि “आद्ये परोक्षम्” इस सूत्रमें जो श्रुतको परोक्ष कहा है सो उत्सर्गव्याख्यान है  
और यह जो हमने कहा है कि भाव श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष है सो उत्सर्गका बाधक जो  
अपवाद है उसकी अपेक्षा से है । यदि तत्त्वार्थसूत्रमें उत्सर्गका कथन न होना तो  
तत्त्वार्थसूत्रमें मतिज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है ? और यदि वह सूत्रमें परोक्ष ही कहा  
गया है तो उकेजाऊमें साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसा हुआ ? इसलिये जैसे अपवाद व्याख्यानसे  
परोक्षरूप भी मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वैसेही निज आत्माके सन्मुख जो

वेदनमपि परोक्षं प्राप्नोति न च तथा । तथैव च स एवात्मा अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपश-  
मानमूर्त्तं वस्तु यदेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्प जानाति तदवधिज्ञानम् । यत्पुनर्भनःपर्येयज्ञा-  
नावरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच स्वकीयमनोऽवलम्बनेन परकीयमनोगत मूर्त्त-  
मर्यमेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्प जानाति तदोहामतिज्ञानपूर्वकं मनःपर्येयज्ञानम् । तथैव  
निजशुद्धात्मतत्त्वसम्बन्धकश्चद्वानज्ञानानुचरणलक्षणेकाग्रध्यानेन केवलज्ञानावरणादिवा तिचतु-  
ष्ट्यक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेव समग्तद्रव्यक्षेत्रकालभावप्राहकं सर्वप्रकारापादेयभूत  
केवलज्ञानमिति ॥५॥

अथ ज्ञानदर्जनंपयोगद्वयव्याख्यानस्य नयविभागेनोपसहारः कथ्यते.—

अहु चदु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणियं ।

ववहारा सुद्धणया सुद्धं पुण दंभणं णाणं ॥६॥

व्याख्या—“अहु चदु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणिय” अष्टविध ज्ञानं चतु-  
र्विधं दशेनं सामान्यं जीवलक्खणं भणितम् । सामान्यमिति कोऽर्थः सासारिज्जीवमुक्तजीव-

भावश्रुतज्ञान है वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । और यदि एकान्तसे ये मति,—  
श्रुत दोनों परोक्षही होवें तो सुख दुःख आदिका जो सवेदन ( ज्ञान ) है वह भी परोक्षही  
होगा और वह सवेदन परोक्ष नहीं है । इसी रीतिसे वही आत्मा अवधिज्ञानावरणके  
क्षयोपशमसे मूर्त्त वस्तुको जो एकदेश प्रत्यक्षद्वारा सविकल्प जानता है वह अवधिज्ञान  
है । और जो मनःपर्येयज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे अपने  
मनके अवलम्बनद्वारा परके मनमे प्राप्त हुए मूर्त्त पदार्थकां एकदेश प्रत्यक्षसे सवित्प  
जानता है वह ईहामतिज्ञानपूर्वकं मनःपर्येय ज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार अपना  
शुद्ध जो आत्मद्रव्य है उसका भले प्रकार शुद्धान करना, जानना और आचरण करना  
इन रूप जो एकाग्र ध्यान उससे केवलज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोङ्ग नाश होनेपर  
जो उत्पन्न होता है वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावको ग्रहण करने-  
बाला और सब प्रकारसे उपादेयभूत ( ग्रहण करने योग्य ) केवलज्ञान है ॥५॥

अब ज्ञान तथा दर्शन इन दोनों उपयोगोंके व्याख्यानका नयके विभागसे उपसंहार  
कहते हैं—

गाथोभावार्थः—आठ प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दर्शनका जो धारक है वह  
जीव है । यह व्यवहार नयसे सामान्य जीवका लक्षण है और शुद्ध नयसे शुद्ध जो ज्ञान  
दर्शन है वह जीवका लक्षण कहा गया है ।

व्याख्यार्थः—“अहु चदु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणिय” आठ प्रका-  
रका ज्ञान तथा चार प्रकारका दर्शन जो है सो सामान्य रूपसे जीवका लक्षण कहा है ।  
यहांपर सामान्य इस कथनका यह तात्पर्य है इस लक्षणमें सभारी जीव व मुक्त जीवकी

चिवक्षा नास्ति, अथवा शुद्धशुद्धज्ञानदर्शनविवक्षा नास्ति । तदपि कथमितिचेद् विवक्षायां अभावः सामान्यलक्षणमिति वचनात्, कस्मात्सामान्यं जीवलक्षणं भणितं, “बवहारा” व्यवहारात् व्यवहारनयात् । अत्र केवलज्ञानदर्शन प्रति शुद्धसद्गुतशब्दवाच्योऽनुपचरित-सद्गुतव्यवहारः, छान्तस्थज्ञानदर्शनापरिपूर्णपैक्षया पुनरशुद्धसद्गुतशब्दवाच्य उपचरित-सद्गुतव्यवहारः, कुमतिकुश्रुतविभङ्गन्ये पुनरपचरितासद्गुतव्यवहारः । सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं णाणं” शुद्धनिश्चयनयात्पुनः शुद्धमखण्डं केवलज्ञानदर्शनद्वयं जीवलक्षणमिति । किञ्च ज्ञानदर्शनोपयोगविवक्षायामुपयोगशब्देन विवक्षितार्थपरिच्छित्तिलक्षणोऽर्थप्रहण-व्यापारो गृहते । शुभाशुभशुद्धपैयोगव्यवक्षायां पुनरपयोगशब्देन शुभाशुभशुद्ध-भावनैकरूपमनुष्टानं ज्ञातव्यमिति । अत्र सहजशुद्धनिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्य साक्षा-दुपादेयभूतस्याक्षयसुखस्योपादानकारणत्वात्केवलज्ञानदर्शनद्वयमुपादेयमिति । एवं नैयायिकं प्रति गुणगुणिभेदैकान्तनिराकरणार्थमुपयोगव्याख्यानेन गाथात्रयं गतम् ॥६॥

अथामूर्त्तीतीन्द्रियनिजात्मद्रव्यसंविचित्रहितेन मूर्त्तपञ्चेन्द्रियविषयासत्तेन च यदुपार्जितं मूर्त्तं कर्म तदुपयेन व्यवहारेण मूर्त्तेऽपि निश्चयेनामूर्त्ते जीव इत्युपदिशतिः—

विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्धशुद्धज्ञान दर्शनकी भी विवक्षा नहीं है । सो कैसे है ? यदि ऐसी शंका करो तो उत्तर यह है कि जीवका सामान्य लक्षण है ऐसा वचन केहनेसे विवक्षाका अभाव है । यह जीवका सामान्य लक्षण किस अपेक्षा से है ? इसका उत्तर यह है कि “बवहारा” अर्थात् व्यवहार नयकी अपेक्षासे है । यहां केवलज्ञान, दर्शनके प्रति तो शुद्ध सद्गुत शब्दसे वाच्य ( कहने योग्य ) अनुपचरित सद्गुत व्यवहार है और छान्तस्थज्ञान दर्शनकी अपेक्षासे तो अशुद्ध सद्गुत शब्दसे वाच्य उपचरित सद्गुत व्यवहार है, तथा कुमति, कुश्रुत व विभंग ( कु अवधि ) इन तीनोंमें उपचरित असद्गुत व्यवहार नय है “सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं णाणं” और शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध अखण्ड केवलज्ञान तथा दर्शन ये दोनोंही जीवके लक्षण हैं । और भी यहां ज्ञान दर्शनरूप उपयोगकी विवक्षामें उपयोग शब्दसे विवक्षित ( कथन करनेको अभिमत ) जो पदार्थ है उस पदार्थके ज्ञानरूप वस्तुके प्रहणरूप व्यापारका प्रहण किया जाता है और शुभ, अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगोंकी विवक्षामें तो उपयोग शब्दसे शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावना एकरूप अनुष्टान जानना चाहिए । यहांपर सहजं शुद्ध निर्विकार परमानन्दरूप एक लक्षणका धारक साक्षात् उपादेय ( आहा ) भूत जो अक्षय सुख है उसके उपादान कारण होनेसे केवलज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं । इस प्रकार नैयायिकोंके प्रति गुण, गुणी अर्थात् ज्ञान और आत्मा इन दोनों का एकान्तरूपसे भेदके निराकरणके लिए उपयोगके व्याख्यानद्वारा तीन गाथा समाप्त हुई ॥६॥

अब अमूर्त्त तथा अतीन्द्रिय जो आत्मद्रव्यका ज्ञान है उससे रहित तथा मूर्त्त जो पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं, उनमें आसक्त जीवने जो- मूर्त्त कर्म उपार्जन किया है

वण रस पंच गंधा दो फासा अहु णिच्छया जीवे ।  
णो संति अमुति तदो ववहारा मुति वंधादो ॥७॥

**व्याख्या**—“वण रस पञ्च गंधा दो फासा अहु णिच्छया जीवे णो सति” श्वेतपीत-नीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, तिक्कटुककषायास्त्वमधुरसङ्घाः पञ्च रसाः, सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञां द्वौ गन्धौ, शीतोष्णस्तिग्नधरुक्षमृदुकर्शगुरुलघुसङ्घा अष्टौ स्पर्शाः, “णिच्छया” शुद्ध निश्चयनयात् शुद्धवृद्धेकस्वभावे शुद्धजीवे न सन्ति । “अमुति तदो” ततः कारणाद-मूर्त्तः, यद्यमूर्त्तस्तहि तस्य कथं कर्मवन्ध इति चेत् “ववहारा मुति” अनुपचरितासद्गूतव्य-वहारान्मूर्त्तो यतस्तदपि कस्मात् “वंधादो” अनन्तज्ञानाद्युपलक्षणमोक्षविलक्षणादनादिकर्मवन्धनादिति । तथा चोक्त-कथचिन्मूर्त्तमूर्त्तजीवलक्षणम्—“वंध पडि एयत्त लक्खणदो हवदि तस्स भिण्णत्त । तम्हा अमुत्तिभावो येगंतो होदि जीवस्स । १” अयमत्रार्थ—यस्यैवामूर्त्तस्यात्मनः प्राप्त्यभावादनादिसंसारे भ्रमितोऽयं जीवः स एवामूर्त्तो मूर्त्तपञ्चे-निद्रियविषयत्यागेन निरन्तर ध्यातव्यः । इति भद्रचार्वाकमतं प्रत्यमूर्त्तजीवस्यापनमुख्यत्वेन सूत्रं गतम् ॥७॥

‘उसके उदयसे व्यवहार नयकी अपेक्षासे जीव मूर्त्त है तो भी निश्चयसे अमूर्त्त है ऐसा उपदेश देते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—निश्चयसे जीवमे पाच वर्ण, पांच रस, दो गध, और पाठ स्पर्श नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्त्त है और वंधसे व्यवहारकी अपेक्षा करके जीव मूर्त्त है ॥ ७ ॥

**व्याख्यार्थः**—“वण रस पंच गंधा दो फासा अहु णिच्छया जीवे णो संति” श्वेत, नील, पीत (पीला), रक्त (लाल) तथा कृष्ण (काला) ये पांच वर्ण, चरपरा, कहुवा, कषायला, खट्टा और मीठा ये पाच रस, सुगन्ध और दुर्गन्ध नामक दो गंध तथा ठंडा गरम, चिकना, लखा, मुलायम, कठोर (कड़ा), भारी और हल्का यह आठ प्रकारका स्पर्श शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध, तुद्ध एक स्वभावका धारक जो शुद्ध जीव है उसमें नहीं है । “अमुति तदो” इस हेतुसे यह जीव अमूर्त्त है अर्थात् मूर्तिरहित है । शंका—यदि जीव मूर्तिरहित है तो मूर्तिसे शून्य जीवके कर्मका वंध कैसे होता है ? उत्तर—“ववहारा मुति” यद्यपि अमूर्त्त है वथापि अनुपचरितअसद्गूतव्यवहारसे मूर्त्त है अतः कर्मवंध होता है । शंका—यह मूर्त्त भी किस कारणसे है ? उत्तर “वंधादो” अनन्तज्ञानादिको प्राप्तिरूप जो मोक्ष है उस मोक्षसे विपरीत अनादिकर्मोंके वंधनसे है । और कथंचित् मूर्त्त तथा अमूर्त्तका लक्षण कहा भी है, जैसे—“वंधके प्रति जीवकी एकता है और लक्षणसे उसकी मिन्नता है इसलिये जीवके अमूर्त्तभाव एकान्तसे नहीं है । १” यहांपर तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त्त आत्माकी प्राप्तिके अभावसे इस जीवने अनादि संसारमें परिभ्रमण किया है उसी अमूर्त्त शुद्धस्वरूप आत्माको मूर्त्त पाचों इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कर ध्याना चाहिये । इसप्रकार भद्र और चार्वाकके मतके प्रति जीवको मूर्त्त स्थापन करनेवाला सूत्र समाप्त हुआ ॥७॥

अथ निष्क्रियामूर्त्तटङ्गोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावेन कर्मादिकर्त्तवरहितोऽपि जीवो व्यवहर-  
रादिनयविभागेन कर्ता भवतीति कथयति,—

पुणगलकस्मादीणं कृता व्यवहारदो दु णिच्छयदो ।  
चेदणकस्माणादा सुद्धमावाणं ॥८॥

**व्याख्या**—अत्र सूत्रे भिन्नप्रकरमरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा व्याख्यानं  
कियते। “आदा” आत्मा “पुणगलकस्मादीण कृता व्यवहारदो दु” पुद्गलकर्मादीनां कर्ता  
व्यवहारतस्तु पुनः, तथा हि—मनोवचनकायव्यापारक्रियारहितनिजशुद्धात्मतत्त्वभावना-  
शून्यः सञ्जनुपवरित्वासद्भूतव्यवहारेण ज्ञानावरणाऽद्रव्यकर्मणमादिशब्देनैदारिकवैक्रि-  
यिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषट् पर्याप्तियोग्यपुद्गलपिण्डरूपनोकर्मणां तथैवोपचरितासद्भूत-  
व्यवहारेण वहिर्विधयघटपटादीनां च कर्ता भवति। “णिच्छयदो चेदणकस्माणादा” निश्च-  
यनयतत्त्वेतनकर्मणा तथथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्क्रियपरमचैतन्यभावनारहितेन  
यद्युपार्जितं रागाद्युत्पादक कर्म तदुदये सति निष्क्रियनिर्मन्स्वसवित्तिमलभमानो भावकर्म-  
शब्दवाच्यरागादिविकल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवति। अशुद्धनिश्चयस्यार्थः

अब क्रियारहित, अमूर्त्त, टंकोत्कीर्ण (शुद्ध), ज्ञानरूप एक स्वभावसे जीव यद्यपि  
कर्म आदिके कर्त्तापनेसे रहित है तथापि व्यवहार आदि नयके विभागसे कर्ता होता है  
ऐसा कथन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—आत्मा व्यवहारसे पुद्गल कर्म आदिका कर्ता है, निश्चयसे चेतन  
कर्मका कर्ता है और शुद्ध नयसे शुद्ध भावोंका कर्ता है ॥८॥

**व्याख्यार्थः**—इस सूत्रमे भिन्न प्रकरमरूप व्यवहित संवंधसे मध्य (बीचके) पटको  
ग्रहण करके व्याख्यान किया जाता है। “आदा” आत्मा “पुणगलकस्मादीणं कृता व्य-  
वहारदो दु” व्यवहार नयकी अपेक्षासे पुद्गल कर्म आदिका कर्ता है। जैसे—मन, वचन तथा  
शरीरके द्यापाररूप क्रियासे रहित निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी जो भावना है उस भावनासे  
शून्य होकर उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंका तथा आदि-  
शब्दसे औदारिक, वैक्रियक और आहारकरूप तीन शरीर तथा आहार आदि द पर्याप्ति-  
योंके योग्य जो पुद्गल पिंडरूप नो (ईषत्) कर्म हैं उनका तथा उसी प्रकार उपचरित  
असद्भूत व्यवहारसे वाह्य विषय घट, पट आदिका भी यह जीव कर्ता है। “णिच्छयणयदो  
चेदणकस्माणादा” और निश्चय नयकी अपेक्षासे तो यह आत्मा चेतन कर्मोंका कर्ता है।  
सो ऐसे हैं कि रागआदि विकल्परूप उपाधिसे रहित निष्क्रिय, परमचैतन्यभावनासे रहित  
ऐसे जीवने जो राग आदिको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उपार्जन किया उन कर्मोंका उदय  
होनेपर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञानको नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भावकर्म इस  
शब्दसे वाच्य जो रागादि विकल्परूप चेतन कर्म हैं उनका अशुद्ध निश्चय नयसे कर्ता

कथ्यते-कर्मोपाधिसमुत्पन्नत्वादशुद्धः, तत्काले तपायः पिण्डवत्तं मयत्वाच्च निश्चयः, इत्युभ-यमेलापकेनाशुद्धनिश्चयो भण्यते । “सुद्धनया सुद्धभावाणं” शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहि-तेन शुद्धवृद्धकस्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुवादिशुद्धभावानां छञ्चस्थावस्थायां भावनारूपेण विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति । किन्तु शुद्धा-शुद्धभावाना परिणममानानामेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यम् । न च हस्तादित्यापाररूपाणामिति । यतो हि नित्यनिरखन्ननिष्क्रियनिजात्मस्वरूपभावनारहिनस्य कर्मा देवरूत्त्वं व्याख्यातम्, तत-स्तत्रैव निजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्या । एव साख्यमतं प्रत्येकान्ताकृत्वनिराकरणमुल्य-त्वेन गाथा गता ॥८॥

अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विकारपरमाहृष्टैकलक्षणसुवासृतस्थ भोक्ता तथाप्यशुद्धनयेन संसारिकसुखदुखस्यापि भाक्तात्मा भवतीत्याख्याति,—

ववहारा सुहदुक्खं पुगलकम्पफलं पभुंजेदि ।

आदा णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्म ॥९॥

**व्याख्या**—“ववहारा सुहदुक्खं पुगलकम्पफलं पभुंजेदि” व्यवहारात्सुखदुखरूप पुढ-

होता है । अब अशुद्ध निश्चयका अर्थ कहते हैं । कर्मरूप उपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुद्ध कहलाता है और उस समय अग्निमे तपे हुये घोहके गोलेके समान तन्मय ( उसीरूप ) होनेसे निश्चय कहा जाता है, इस रीतिसे अशुद्ध और निश्चय इन दोनोंको मिलाके अशुद्ध निश्चय कहा जाता है । “शुद्धनया सुद्धभावाणं” जीव जब शुभ तथा अशुभ मन, वचन, और कायरूप तीनों योगोंके व्यापारसे रहित शुद्ध वृद्ध, एक स्वभावसे परिणमता है तब अनंत ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावोंका छञ्चस्थ अवस्थामें भावनारूप विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय नयसे कर्त्ता होता है और मुक्त अवस्थामे तो शुद्ध निश्चय नयसे अनत ज्ञानादि शुद्ध भावोंका कर्त्ता है । यहाँ विशेष यह है कि शुद्ध अशुद्ध भावोंका जो परिणमन है उन्हीं-का कर्तृत्व जीवमें जानना चाहिये और हस्त आदिके व्यापाररूप परिणमनोंका न समझना चाहिये । क्योंकि नित्य, निरजन, निष्क्रिय ऐसे अपने आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जो जीव है उसीके कर्म आदिका कर्तृत्व कहा गया है । इसलिये उस निज शुद्ध आत्मामें ही भावना करनी चाहिये । ऐसे साख्यमतके प्रति “एकान्तसे जीव कर्त्ता नहीं है” इस मतके निराकरणकी मुख्यतासे गाथा समाप्त हुई ॥८॥

अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नयसे विकाररहित परम आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखरूपी असृत है उसको भोगनेवा है तथापि अशुद्ध नयसे संसारमें उत्पन्न हुये जो सुख द्वाख्य हैं उनका भी भोगनेवाला है ऐसा कथन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—आत्मा व्यवहारसे सुख द्वाखरूप पुद्धल कर्मोंको भोगता है और निश्चय नयसे आत्मा चेतन स्वभावको भोगता है ॥९॥

लकर्मफलं प्रभुड्के । स कः कर्ता “आदा” आत्मा “णिच्छयणयदो चेदणभावं आदस्स” निश्चयनयतश्चेतनभाव भुड्के “खु” स्फुटं कस्य सम्बन्धिनमात्मनः स्वस्येति । तद्यथा-आत्मा हि निजगुद्धात्मसंविच्चिसमुद्धूतपारमार्थिकसुखसुधारसभोजनमलभमान उपचरितासद्गृहव्यवहारेणोभ्यन्तरे सुखदुःखजनक द्रव्यकर्मरूपं सातासातोदयं भुड्के । स एवाशुद्धनिश्चयनयेन हर्षविषादरूप सुखदुःखं च भुड्के । शुद्धनिश्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यक् श्रद्धानज्ञानानुष्ठानोत्पन्न-सदानन्दैकलक्षणं सुखामृतं भुड्क इति । अत्र यस्यैव स्वाभाविकसुखामृतस्य भोजनाभावादि-निद्र्यसुखं भुज्ञानः सन् संसारे परिभ्रमति तदेवातीनिद्र्यसुखं सर्वप्रकारेणोपादेयमित्यमित्यभिप्राय । एव कर्ता कर्मफलं न भुड्क इति वौद्धमतनिषेधार्थं भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण सूत्रं गतम् ॥१॥

अथ निश्चयेन लोकप्रमितासंख्येयप्रदेशमात्रोऽपि व्यवहारेण देहमात्रो जीव इत्यावेदयति;-

अणुगुरुदेहप्रमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा ।

असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥

**व्याख्यार्थः**—“ववहारा सुहदुकर्खं पुगलकम्मप्फलं पभुंजेदि” व्यवहार नयकी अपेक्षासे सुख तथा दुःखरूप पुद्गल कर्मफलों को भोगता है । वह कर्मफलोंका भोक्ता कौन है कि “आदा” अर्थात् आत्मा । “णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स” और निश्चय नयसे तो स्फुट रीतिसे चेतन भावका ही भोक्ता आत्मा है और वह चेतन भाव किस संबन्धी है कि अपना ही संबंधी है । वह ऐसे कि निज शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुखरूप अमृत रस है उसके भोजनको नहीं प्राप्त होता हुआ जो आत्मा है वह उपचरित असद्गृह व्यवहार नयसे इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें उत्पन्न सुख तथा दुःख को भोगता है, ऐसेही अनुपचरित असद्गृह व्यवहारसे अन्तरंगमे सुख तथा दुःखको उत्पन्न करनेवाला जो द्रव्यकर्मरूप सात ( सुखरूप ) असात ( दुःखरूप ) उदय है उसको भोगता है, और वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयसे हर्ष तथा विपादरूप सुख दुःखको भोगता है, और शुद्ध निश्चय नयसे तो परमात्मस्वभावका जो सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, उससे उत्पन्न अविनाशी आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखामृत है उसको भोगता है । यहाँपर जिस स्वभावसे उत्पन्न हुए सुखामृतके भोजनके अभावसे ही आत्मा इन्द्रियोंके सुखोंको भोगता हुआ ससारमें परिभ्रमण करता है, वही जो स्वभावसे उत्पन्न इन्द्रियोंके अगोचर सुख है सो सब प्रकारसे ग्रहण करने योग्य है ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार “कर्ता कर्मके फलको नहीं भोगता है” यह जो वोद्धका मत है उसका खंडन करनेके लिये जीव कर्मफलका भोक्ता है इस व्याख्यानरूप जो सूत्र ( गाथा ) है सो समाप्त हुआ ॥१॥

**व्याख्या—“अणुगुरुदेहप्रमाणो”** निश्चयेन स्वदेहाद्विज्ञस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणराशेर-भिन्नस्य निजशुद्धात्मस्वरूपस्योपलब्धेरभावात्तथैव देहमत्वमूलभूताहारभयमैशुनपरिग्रहसं-ज्ञाप्रभृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्वावाच्च अदुपार्जित शरीरनामकर्म तदुदये सति अणुगुरुदेहप्रमाणो भवति । स कः कर्त्ता “चेदा” चेतयिता जीवः । कस्मात् “उवसहार-प्पस्पदो” उपसंहारप्रसर्पतः शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थः । कोऽ-त्र द्वषान्त्, यथा प्रदीपो महद्वाजनप्रच्छादितस्तद्वाजनान्तर सर्वं प्रकाशयति लघुभाजन-प्रच्छादितस्तद्वाजनान्तर प्रकाशयति । पुनरापि कस्मात् “असमुद्दो” असमुद्धातात् वेदना-कथायविक्रियामारणान्तिकैजसाहारककेवलिसंज्ञसमसमुद्धातवर्जनात् । तथा चोक्तं सप्त-समुद्धातलक्षणम्—“वेयणकसाथवेउविविमारणंतिथोसमुग्रधादो । तेजाहारो छटो सत्तमओ

अब यद्यपि आत्मा निश्चय नयसे लोकप्रमाण असख्यात प्रदेशोंका धारक है तथापि व्यवहारसे देहप्रमाण है यह कथन करते हैं,—

**गाथामावार्थः—**व्यवहार नयसे समुद्धात अवस्थाके विना यह जीव संकोच तथा विस्तारसे छोटे और बड़े शरीरके प्रमाण रहता है और निश्चय नयसे जीव असख्यात प्रदेशोंका धारक है ॥१०॥

**व्याख्यार्थः—“अणुगुरुदेहप्रमाणो”** निश्चय नयसे अपने देहसे भिन्न तथा केवलज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी राशिसे अभिन्न जो अपना शुद्ध आत्मस्वरूप है उसकी प्राप्तिके अभावसे तथा इसी प्रकार देहकी ममताके मूल कारणस्वरूप आहार, भव, मैशुन, परिग्रह रूप जो संज्ञा उनको आदि ले जो समस्त राग आदि विभाव हैं उनमें आसक्तिके होनेसे जो जीवने शरीर नाम कर्म उपार्जन किया उसका उदय होनेसे सूक्ष्म ( छोटा ) तथा गुरु ( बड़ा ) जो देह उसके प्रमाण होता है । वह शरीर प्रमाण होनेवाला कौन है ? “चेदा” चेतनावाला यह जीव है । किस निमित्तसे ? ‘उवसंहारप्पस्पदो’ उपसंहार तथा प्रमर्णण स्वभावसे अर्थात् संकोच तथा विस्तार स्वभावसे । तात्पर्य यह कि शरीर नाम कर्मसे उत्पन्न जो विस्तार तथा संकोचरूप जीवके धर्म हैं उनसे यह जीव देहप्रमाण होता है । इसमें द्वषान्त क्याहै ? कि जैसे दीपक किसी बड़े पात्रमें रख दिया जाता है तो वह उस पात्रके अभ्यन्तर ( अन्तर्गत ) जो पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करता है और जो छोटे पात्रमें रख दिया जाता है तो उस पात्रके अन्तर्गत जो पदार्थ हैं उनको प्रकाशित करता है । फिर किस निमित्तसे यह जीव देहप्रमाण है ? “असमुद्दो” समुद्धातके न होनेसे अर्थात् वेदना, कषाय, विक्रिया, भारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली नामक जो सात समुद्धात हैं उनको छोड़नेसे अर्थात् समुद्धात अवस्थामें तो जीव देहप्रमाण नहीं रहता है और असमुद्धात दशामें देह प्रमाणही रहता है और सप्त ( सात ) समुद्धातोंका लक्षण इस प्रकार कहा है कि “वेदना १ कृषाय २ विक्रिया ३ भारणान्तिक ४ तैजस ५ आहार ६ और ७ केवली ये सात समुद्धात

केवलीणं तु । १।” तदथा ‘मूलसरोरमछडिय उत्तरदेहस जीवपिडस्स । गिरगमणं देहादो हवडि समुग्धादयं णाम ॥ १॥’ तीव्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां बहि-निर्गमनमिति वेदनासमुद्भातः । २। तीव्रकृषायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य धातार्थं पात्म-प्रदेशानां बहिर्गमनमिति कपायसमुद्भातः । ३। मूलशरारमपत्त्वित्य किमपि विकर्तुमात्मप्र-देशानां बहिर्गमनमिति विक्रियासमुद्भातः । ४। मरणान्तपमये मूलशरीरमपत्त्वित्य यत्र झुन्नच्छद्धमायुस्तप्रदेशं स्फुटितुमात्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्भातः । ५। स्वस्य भनोनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नकोधस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्धूरपुञ्जप्रभो दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः सूक्ष्मज्ञुलस-ज्ञेयभागमूलविस्तारो नवयोजनाप्रविस्तारः काहचाकुतिपुरुपो वामस्कन्धानिर्गत्य वा-मप्रदक्षिणेन हृदये निहित विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह स च भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्, असावशुभस्तेज समुद्भातः । लोकं व्याधिदुर्भिक्षादिपीडि-तमवलोक्य समुत्पन्नकृपस्य परमस्यमनिधानस्य महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः पुरुपो दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्भिक्षादिक स्फोटयित्वा पुनरपि

हैं” सो ऐसे हैं कि “अपने मूल शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश देहसे निकलकर उत्तरदेहके प्रति गमन करते हैं उसको समुद्भात कहते हैं” इन सातों समुद्भातोंको क्रमसे दर्शाते हैं । जैसे-तीव्र वेदना ( पीड़ा ) के अनुभवसे मूल शरीरका त्याग न करके जो आत्माके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर जाना सो वेदना समुद्भात है । १। तथा तीव्र क्रोधादिक कपायोंके उदयसे मूल अर्थात् धारण किये हुए शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश दूसरेको मारनेके लिये शरीरके बाहर जाते हैं उसको कथाय समुद्भात कहते हैं । २। किसी प्रकारकी विक्रिया ( कामादिजनित विकार ) उत्पन्न करने वा करनेके अर्थ मूल शरीरको न त्यागकर जो आत्माके प्रदेशोंका बाहर जाना है उसको विकुर्वणा अथवा विक्रिया समुद्भात कहते हैं । ३। तथा मरणान्त समयमे मूल शरीरको न त्याग करके जहा कहीं इस आत्माने आयु बोधा है उसके स्पर्शनेको जो प्रदेशोंका शरीरसे बाह्य गमन करना सो मारणान्तिक समुद्भात है । ४। अपने मनको अनिष्ट ( बुरा ) उत्पन्न करनेवाले किसी कारणको देखकर उत्पन्न हुआ है क्रोध जिसके ऐसा जो संयमका निधान महामुनि उसके बाम ( वायें ) कंधेसे सिंदूरके ढेरकोसी क्रान्तिवाला, बारह योजन लम्बा, सूच्यगुच्छके सख्येय भाग प्रमाण मूल विस्तार और नव योजनके अग्र विस्तारको धारण करनेवाला काहल ( विलाव ) के आकारका धारक पुरुप निकल करके बाम प्रदक्षिणा देकर मुनिके हृदयमें स्थित जो विरुद्ध पदार्थ है उसको भस्म करके और उसी मुनिके साथ आप भी भस्म होजाय, जैसे द्वीपायन मुनिके शरीरसे पुतला निकलके द्वारिकाको भस्म कर उसीने द्वीपायन मुनिको भस्म किया और वह पुतला आप भी भस्म होगया, उसीको त्रुरह जो हो सो अशुभ वैजस समुद्भात है । तथा जगत्को रोग अथवा दुर्मिक्षा आदिसे पीडित देखकर उत्पन्न हुई

स्वस्थाने प्रविशति, असौ शुभरूपस्तेजः समुद्धातः । समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परम-  
द्विसंपत्रस्य महर्षमूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकम-  
ध्यानिर्गत्य यत्र कुत्रचिदन्तर्मुहूर्तमध्ये केवलज्ञानिन् पद्यति तदर्शनात्म स्वाश्रयस्य  
मुनेः पदपदार्थनिश्चय समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति, असावाहारसमुद्धातः । सप्तमः  
केवलिनां दण्डकपाटप्रतरपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्धातः । नयविभागः कथयते ।  
“ववहारा” अनुपचरितासङ्घृतव्यवहारनयात् ‘णिच्छयणयदो असंखदेसो वा’ निश्चयनयतो  
छोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः वा शब्देन तु स्वसवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्र-  
त्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापकः न च प्रदेशापेक्षया नैयायिकमीमास-  
कसांख्यमतवत् । तथैव पञ्चेन्द्रियमनोचिपयविकल्परहितसमाधिकाले स्वसवेदनलक्षणत्रो-  
धसङ्घावेऽपि वहिर्विषययेन्द्रियवोधाभावज्ञः न च सर्वथा साख्यमतवत् । तथा रागादिवि-  
भावपरिणामापेक्षया शून्योऽपि भवति न चानन्तज्ञानादपेक्षया वौद्धमतवत् । किञ्च अणु-  
मात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेधघनाङुलासंख्येयभागप्रमितं लक्ष्यपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीर ग्राह्यं

---

है कृपा जिसके ऐसा जो परमसंयमनिधान महाकृष्णिति उसके मूल शरीरको नहीं त्यागकर  
पूर्वोक्त देहके प्रमाणको धारण करनेवाला अच्छी सौम्य आकृतिका धारक पुरुष दक्षिण  
स्कंधसे निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणाकर रोग दुर्भिक्ष आदिको दूर कर फिर अपने स्थानमें  
प्रवेश कर जाय यह शुभ रूप तैजस समुद्धात है । ५ । उत्पन्न हुई है पद और पदार्थमें  
आनित ( संशय ) जिसके ऐसा जो परम कृष्णिका धारक महर्षि उसके मस्तकमेंसे मूल  
शरीरको न छोड़कर निर्मल स्फटिक ( विलोर ) की आकृति ( रंग ) को धारण करनेवाला  
एक हाथका पुरुष निकलकर अन्तर्मुहूर्तके बीचमें जहाँ कहीं भी केवलीको देखता है और  
उन केवलीके दर्शनमें अपना आश्रय जो मुनि उसके पद और पदार्थका निश्चय उत्पन्न  
कर फिर अपने स्थानमें प्रवेश कर जाय सो यह आहार समुद्धात है । ६ । केवलियोंके  
नो ढढ कपाट प्रतर पूरण होता है सो सातवाँ केवलि समुद्धात है । ७ । अब नयोंका  
विभाग कहते हैं । “ववहारा” यह जो गुरुलघुदेहप्रमाणता जीवकी दर्शाई गई है वह  
अनुपचरित असङ्घृत व्यवहार नयसे है तथा ‘णिच्छयणयदो असंखदेसो वा’ निश्चय-  
नयसे लोकाकाश प्रमाण जो असख्ये प्रदेश हैं उन प्रमाण अर्थात् लोकाकाश प्रमाण  
असख्यात प्रदेशोंका धारक यह आत्मा है और “असंखदेसो वा” यहाँ जो गाथाके अतमे  
वा शब्द दिया गया है उस वा शब्दसे ग्रथकर्त्ताने यह सूचित किया है कि स्वसंवित्ति  
( आत्मज्ञान ) से उत्पन्न हुआ जो केवलज्ञान उसकी उत्पत्तिके प्रस्तावमें अर्थात् केवल  
ज्ञानावस्थामें ज्ञानकी अपेक्षासे व्यवहारनयद्वारा आत्माको लोक और अलोकमें व्यापक माना  
है और जैसे नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य मतवाले आत्माको प्रदेशोंको अपेक्षासे  
व्यापक मानते हैं वैसा नहीं । इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों और मनके विषयोंके जो विकल्प  
उनसे रहित जो समाधिकाल ( ध्यानका समय ) है उसमें आत्मज्ञानरूप ज्ञानके विद्यमान

न च पुद्गलपरमाणुः । गुरुशरीरशब्देन च योजनसहस्रपरिमाण महामत्स्थशरीर मध्यमाव-  
गाहेन मध्यमशरीराणि च । इदमत्र तात्पर्य—देहसमत्वनिमित्तेन देह गृहीत्वा संसारे परि-  
भ्रमति तेन कारणेन देहादिमत्वं त्यक्त्वा निर्मोहनिजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्येति । एवं  
स्वदेहमात्रव्याख्यानेन गाथा गता ॥१०॥

अतः परं गाथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूप तद्वसाने शुद्धजीव स्वरूप च कथ-  
यति । तद्यथा,—

पुटविजलतेयवाऽ वणप्फदी विविहथावरेङ्द्रंदी ।

विगतिगच्छुपंचक्षा तसजीवा होंति मंखादी ॥११॥

**व्याख्या**—“होंति” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । “होंति” अतीन्द्रियामूर्त्तिनिजपरमात्मस्व-  
भावानुभूतिजनितसुखामृतरसस्वभावमलभमानास्तुच्छमपीन्द्रियसुखमभिलषन्ति छवास्थाः,  
तदासक्तः सन्त एकेन्द्रियादिजीवानां धातं कुर्वन्ति तेनोपार्जित यत्त्रसस्थावरनामकर्म तदु-

होनेपर भी वाह्य विषयरूप जो इन्द्रियज्ञान है उसके अभावसे आत्मा जड़ माना गया  
है और सार्वभूतकी तरह आत्मा सर्वथा, जड़ नहीं है । ऐसे ही आत्मा राग, द्वेष आदि  
जो विभाव परिणाम हैं उनकी अपेक्षासे अर्थात् उनके न होनेसे शून्य भी होता है, परतु  
बौद्धमतकी भावि अनन्तज्ञानआदिको अपेक्षासे शून्य नहीं है । और भी विशेष है अणुमात्र-  
शरीर आत्मा है, यहापर अणुशब्दसे उत्सेधनांगुलके असंख्यातवेभाग परिमाण जो लविध  
अपूर्ण ( अपर्याप्त ) सूक्ष्म निगोद शरीर है उसका ग्रहण करना चाहिये और पुद्गल पर-  
माणुका ग्रहण न करना चाहिये । और गुरु शरीर यहापर गुरु शब्दसे एक हजार योजन  
परिमाण जो महामत्स्यका शरीर है उसको ग्रहण करना चाहिये और मध्यम अवगाहसे-  
मध्यम शरीरोंका ग्रहण है । तात्पर्य इस गाथाका यहाँ यह है कि जीव देहके ममत्वरूप  
निमित्त कारणसे देहको ग्रहण कर संसारमें परिभ्रमण करता है इस कारण देह आदिके  
ममत्वको छोड़कर निर्मोह जो अपना शुद्ध आत्मा है उसमें भावना करनी चाहिये । इस  
प्रकार जीव स्वदेह मात्र है इस कथनसे यह गाथा समाप्त हुई ॥१०॥

अब तीन गाथाओंके द्वारा नयके विभागसे मंसारी जीवका स्वरूप तथा उसके अंतमें  
शुद्ध जीवका स्वरूप कहते हैं । वह निम्नलिखित प्रकार है,—

**गाथाभावार्थः**—पृथिवी, जल, तेज, वायु और बनस्पति इन भेदोंसे नाना प्रकारके  
स्थावर जीव हैं और ये सब एक स्पर्शन इंद्रियके ही धारक हैं, तथा शंख आदिक दो,  
तीन, चार और पाच इन्द्रियोंके धारक त्रस जीव होते हैं ॥११॥

**व्याख्यार्थः**—अब ‘होंति’ इत्यादि पदोंकी व्याख्या की जाती है । “होंति” अतीन्द्रिय  
तथा मूर्तिरहित जो निजपरमात्माका स्वभाव है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सुखरूपी  
अमृतरस उसके स्वभावको नहीं प्राप्त करते हुए जीव तुच्छ ( अल्प ) जो इन्द्रियोंसे उत्पन्न

दयेन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति “पुढविजलरेयवाऽवणप्कदो विविहयावरेङ्द्री” पृथिव्यमेजोवायुवनस्पतयः । कतिसंहश्रोपेता, विविवा आगमकथितस्त्रकोयस्त्रकोयान्तर्मटैर्व-हुविवा स्यावरनामकमर्मदयेन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकमर्मदयेन सर्वनेन्द्रिययुक्ता एकेन्द्रिया. नैकेवलमिल्यंभूता स्यावरा भवन्ति । “विगतिगच्छुपंचक्षा तसजीवा”द्वित्रिचतुः-पञ्चाश्रावसनामकमर्मदयेन त्रसजीवा भवन्ति । ते च कथंभूताः “संखादी” शड्खादयः स्पर्शनरसनेन्द्रियद्वययुक्ताः शड्खशुक्तिरूप्यादयो द्वीन्द्रिया, स्पर्शनरसनव्राणचक्षुरिन्द्रियचतुष्प्रयुक्ता दंगम-ग्रकमक्षिकाग्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः, स्पर्शनरसनव्राणचक्षु धोत्रेन्द्रियपञ्चयुक्ता भनुष्यादयः पञ्चन्द्रिया इति । अयमत्रार्थः—विशुद्धज्ञानदर्शनस्त्रभावनिजपरमात्मस्वरूपभावनोत्तनन्नपा-रमार्थिन्सुखमलभमाना इन्द्रियसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां वधं कृत्वा त्रसस्थावरा भवन्तीत्युक्तपूर्वं तस्मात्वसस्यावरोत्पत्तिविनाशार्थं तत्रेव परमात्मनि भावना कर्त्तव्येति॥११॥

तदेव त्रसस्थावरत्वं चतुर्दशजीवसमासरूपेण व्यक्तीकरोति,—

सुख है उसकी अभिलापा करते हैं और अज्ञानतासे उस इन्द्रियजनित सुखमें आसक्त होकर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका धात करते हैं, उस धातसे उपर्यन्त किया जो त्रस तथा स्थावर नामकर्म उसके उदयसे होते हैं । “पुढविजलरेयवाऽवणप्कदो विविहयावरेङ्द्री” पृथिवी, जल, वेज, वायु, तथा चनस्त्रति जीव, कितने-अनेक प्रकारके अर्थात् जाग्रमे कहे हुए जो अपने २ भेद हैं उनसे बहुत प्रकारके, स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर, एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयसे स्पर्शन इन्द्रिय सहित एकेन्द्रिय होते हैं । केवल इस प्रकारके स्थावर ही नहीं होते हैं, किन्तु “विगतिगच्छुपंचक्षा तसजीवा” दो, तीन, चार तथा पांच इन्द्रियोंके धारक त्रस नामकर्मके उदयसे त्रस जीव होते हैं । वे कैसे हैं कि “संखादी” शंख आदिक अर्थात् स्पर्शन और रसन इन दो इन्द्रियों सहित शंख, कृमि आदि दो इन्द्रियोंके धारक जीव हैं, स्पर्शन, रसन, तथा व्राण (नासिका) इन तीन इन्द्रियों सहित कुंशु, पिपीलिका (कीड़ी), यूका (जूँ), मल्कुण (स्टम्ल) आदि त्रीन्द्रिय हैं; स्पर्शन, रसन, व्राण और चक्षु (नेत्र) इन चार इन्द्रियों सहित दंग (डासर), मशक (माछर), मक्षिका (मक्खी) और भौंरा आदि चतुर्तिन्द्रिय जीव हैं, स्पर्शन, रसन, व्राण, चक्षुः और श्रोत्र (कर्ण) इन पांच इन्द्रियों सहित मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय हैं । यद्यपि तात्पर्य यह है कि निर्मल ‘ज्ञान तथा दर्शन स्वभावका धारक जो निज परमात्मस्वरूप उसकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको नहीं प्राप्त होते हुए जीव इन्द्रियोंके सुखमें आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि जीवोंका वध करते हैं उससे त्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले कह चुके हैं, इसलिये त्रस और स्थावरोंमें जो उत्पत्ति होती है उसके नाशके लिये उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्मामें भावना करनी चाहिये ॥११॥

अब उसी त्रस तथा स्थावरपनेको चतुर्दश १४ जीवसमासोंद्वारा व्यक्त(प्रकट)करते हैं,-

समणा अमणा णेया पंचिंदिय णिम्मणा परे सव्वे ।  
वादरसुहमेडंदी सव्वे पञ्चत्त इदरा य ॥ १२ ॥

व्याख्या—“समणा अमणा” समस्तशुभाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रव्यविलक्षणं नाना-विकल्पजालरूप मनो भण्यते तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्काः, तद्विपरीता अमनस्का असंज्ञिनः ‘णेया’ ज्ञेया ज्ञातव्याः । “पंचिंदिय” ते संज्ञिनस्तथैवासंज्ञिनश्च पञ्चेन्द्रियाः । एवं संज्ञसंज्ञिपञ्चेन्द्रियास्तिर्थञ्च एव, नारकमनुष्यदेवाः संज्ञिपञ्चेन्द्रिया एव । ‘णिम्मणा परे सव्वे” निर्मनस्काः पञ्चेन्द्रियात्सकाशादपरे सर्वे द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः “वादरसुहमेडंदी” वादरसूक्ष्मा एकेन्द्रियास्तेऽपि यदष्टपत्रपद्माकार द्रव्यमनस्तदाधारेण क्षिक्षालपोपदेशादिग्राहकं भावमनश्चेति तदुभयाभावादसंज्ञिन एव । “सव्वे पञ्चत्त इद-रा य” एवमुक्तप्रकारेण संज्ञसंज्ञिरूपेण पञ्चेन्द्रियद्वय द्वित्रिचतुरिन्द्रियरूपेण विकलेन्द्रियत्रयं वादरसूक्ष्मरूपेणैकेन्द्रियद्वयं चेति समभेदाः । “आहारसरीरिदिय पञ्चत्ती आण-पाणभासमणा । चत्तारिपंचछपियएइदियवियवस्थसणिसणीण । १ ।” इति गाथाकथित-क्रमेण ते सर्वे प्रत्येकं स्वकीयस्वकीयपर्याप्तिसमवात्सप्त पर्याप्ताः सप्तपर्याप्ताश्च भवन्ति ।

**गाथाभावार्थः—** पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञी ऐसे दो प्रकारके जानने चाहिये और दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय ये सब मनरहित ( असंज्ञी ) हैं । एकेन्द्रिय वादर और सूक्ष्म दो प्रकारके हैं और ये पूर्वोक्त सातों पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं । ऐसे १४ जीव-समास हैं ॥१२॥

**व्याख्यार्थः—** “समणा अमणा” संपूर्ण शुभ तथा अशुभरूप जो विकल्प हैं उन विकल्पोंसे रहित जो परमात्मारूप द्रव्य है उससे विलक्षण नाना प्रकारके विकल्पजालोरूप जो हैं उसको मन कहते हैं । उस मनसे सहित जो हैं उनको समनस्क ( सेनी ) कहते हैं और उनसे विरुद्ध अर्थात् पूर्वोक्त मनसे शून्य अमनस्क अर्थात् असंज्ञी ( असेनी ) “णेया” जानने चाहिये । “पंचिंदिया” पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी तथा असंज्ञी दोनों होते हैं परन्तु संज्ञी तथा असंज्ञी ये दोनों पंचेन्द्रिय तिर्थंच ही होते हैं और नारक, मनुष्य तथा देव ये संज्ञी पंचेन्द्रिय ही होते हैं । “णिम्मणा परे सव्वे” पंचेन्द्रियसे भिन्न अन्य सर्व द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव मनरहित ( असेनी ) हैं । “वादरसुहमेडदी” वादर ( स्थूल ) और सूक्ष्म जो एकेन्द्रिय हैं वे भी आठ पाँखडीके कमलके आकार जो द्रव्यमन और उस द्रव्यमनके आधारसे शिक्षा, वचन और उपदेश आदिका ग्राहक भावमन इन दोनोंके अभावसे असंज्ञी ( मनरहित ) ही हैं । “सव्वे पञ्चत्त इदरा य” इस पूर्वोक्त प्रकारसे संज्ञी असंज्ञीरूप दोनों पंचेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय रूप जो विकल्पय और वादर, तथा सूक्ष्म भेदसे दोनों एकेन्द्रिय ऐसे ये सात भेद हुये । तथा “आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा तथा मन ये षट् ( ६ ) पर्याप्ती हैं, इनमेंसे जो एकेन्द्रिय जीव हैं उनको तो केवल आहार, शरीर, एक इंद्रिये तथा श्वासोच्छ्वास ये चार पर्याप्तियें

एव चतुर्दशजोवसमासा ज्ञातव्यास्तेषां च “इदियकाशाऊणिय पुण्णापुण्णेसु पुण्णगे आणा । वेइदियादि पुण्गे सुवचिमणोसणिण पुण्णेय । १ । दस सणीण पाणा सेसे-गूणति मण्णवे लगा । पञ्चते मिद्रेसुशसत्त दुगे सेसगेगूणा । २ ।” इति गाथाद्वयकथित-क्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिदशगणाश्च विज्ञेयाः । अत्रैतेभ्यो भिन्नं निजशुद्धत्तमतत्त्वमुपादेयमिति भावार्थः ॥१२॥

अथ शुद्धपारिणामिकरमभावग्राहकेण शुद्धत्वार्थिकनयेन शुद्धत्वद्वैकस्त्वभावा । अपि जीवाः पश्चादशुद्धनयेन चतुर्दशमार्गगास्थानचतुर्दशगुगास्थानसहिता भवन्तीति प्रतिपादयति,—

मगणगुणठाणेहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धणया ।

विणेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥

व्याख्या—“मगणगुणठाणेहि य हवंति तह विणेया” यथा पूर्वसूत्रोदितचतुर्दशजो-वसमासैर्भवन्ति मार्गणागुणस्थानैश्च तथा भवन्ति सभवन्तोति विज्ञेया ज्ञातव्याः । कति-

होती हैं, मंज्ञी पचेन्द्रियोंके चार ये पूर्वोक्त, और भाषा तथा मन ये छहो पर्यामियें होती हैं और शेष जीवोंके मनरहित पाच पर्यामियें होतां हैं ।” इस गाथामे कहे हुए क्रमसे वे सब हरएक अपनी २ पर्यामियोंके होनेसे सात तो पर्याम है और सात अपर्याम है । ऐसे चौदह जीवसमास जानने चाहिये ।” पर्याम अवस्थामे सज्जो पचेन्द्रियोंके १० प्राण, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके मनके विना ९ प्राण, चौडियोंके मन और कर्णके विना ८ प्राण, तेझ्रियोंके मन, कर्ण और चक्षुके विना ७ प्राण, दोडियोंके मन, कर्ग, चक्षु और द्राणके विना ६ प्राण और एकेन्द्रियोंके मन, कर्ण, चक्षु, द्राण, रसना तथा वचनबलके विना ४ प्राण होते हैं । अपर्याम अवस्थाके धारक जीवोंमे संज्ञी तथा असंज्ञी इन दोनों पंचेन्द्रियोंके श्वासोव्यास, वचनबल और मनोवलके विना ७ प्राण होते हैं और चौहिंद्रिय आदि एकेन्द्रियपर्यंत शेष जीवोंके क्रमानुसार एक एक प्राण घटता हुआ है । २ । इन दो गाथाओंद्वारा कहे हुए क्रमसे यथामभव इन्द्रियादि दश प्राण समझने चाहिये । यहांपर कथनका अभिप्राय यह है कि इन पूर्वोक्त पर्यामियों तथा प्राणोंसे भिन्न जो अपना शुद्ध आत्मतत्त्व है उसको ग्रहण करना चाहिये ॥१२॥

अथ शुद्ध पारिणामिक परम भावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उससे सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारक हैं तो भी अशुद्धनयसे चौदह मार्गणास्थान और चौदह गुणस्थानोंसहित होते हैं ऐसा कथन करते हैं,—

गाथामावार्थः—संसारी जीव अशुद्ध नयसे चौदह मार्गणास्थानोंसे तथा चौदह गुणस्थानोंसे चौदह २ प्रकारके होते हैं और शुद्धनयसे तो सब संसारी जीव, शुद्ध ही हैं ।

व्याख्यार्थः—“मगणगुणठाणेहि य हवंति तह विणेया” जिस प्रकार “समणा

संख्योपेदैः “चउदसहि” प्रत्येकं चतुर्दशमिः । कस्मात् “असुद्धणया” अशुद्धनयात् सक्षात् । इत्थंभूताः के भवन्ति । “संसारी” सांसारिजीवाः । “सब्बे सुद्धा हु सुद्ध-णया” त एव सर्वे संसारिणः शुद्धाः सहजशुद्धज्ञायकैकस्वभावाः । कस्मात् शुद्धनयात् शुद्धनिश्चयनयादिति । अथागमप्रसिद्धगाथाद्येन गुणस्थाननामानि कथयति । “मिच्छो सासणमिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदोय । विरया प्रमत्त इयरो अपुञ्च अणियहि सुहमो य । १ । उवमत्खीणमोहो सज्जोगिकेवलिजिणो अलोगीया । चउदसगुणठाणाणि य कमेण सिद्धा य णायव्वा । २ ।” इदानीं तेषामेव गुणस्थानानां प्रत्येकं सक्षेपलक्षण कथयते । तथाहि—सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्डकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रवृत्तिष्ठद्वृ-व्यपन्नास्तिकायसप्रतत्वनवपदार्थेषु मूढत्रयादिपञ्चविश्विमलरहितं वीतरागसर्वज्ञप्रणी-तनयचिभागेन यस्य अद्वान नास्ति स मिथ्यादृष्टिर्भवति । पापाणरेखासद्विजानन्तानुव-निधन्यांधमानमायालोभान्यतरोदयेन प्रथममांपशमिकसम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्वं नाद्यापि गच्छतीत्यन्वरालवत्तीं सासादनः । निजशुद्धात्मादितत्वं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीत-

अमणा” इत्यादि पूर्व गाथामें कहे हुये चतुर्दश १४ जीवसमासोंसे जीवोंके चतुर्दश १४ भेद होते हैं उसी प्रकार मार्गणा और गुणस्थानोंसे भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । कितनी संख्याके धारक मार्गणा और गुणस्थानोंसे होते हैं? “चउदसहि” प्रत्येक चतुर्दश १४ संख्याके धारकोंसे । किस अपेक्षासे ? “असुद्धणया” अशुद्ध नयकी अपेक्षासे । चतुर्दश मार्गणा और चतुर्दश गुणस्थानोंसे अशुद्ध नयकी अपेक्षा चौदह चौदह प्रकारके होनेवाले कौन है ? “संसारी” संसारी जीव हैं । “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” वेही सब संसारी जीव शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे शुद्ध अर्थात् स्वभावसे उत्पन्न जो शुद्ध ज्ञायक ( जाननेवाला ) रूप एक स्वभाव उसके धारक हैं । अब आपोंमें प्रसिद्ध जो दों गाथा हैं, उनके द्वारा गुणस्थानोंके नाम कहते हैं । गाथार्थः—“मिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्र ३ अविरतसम्यक्त्व ४ देशविरत ५ प्रमत्तविरत ६ अप्रमत्तविरत ७ अपूर्वकरण ८ अनिवृत्तिकरण ९ सूक्ष्मसापराय १० उपशान्तमोह ११ द्वीणमोह १२ सयोगि केवलि जिन १३ और अयोगि केवलि जिन १४, इस प्रकार क्रमानुसार चौदह गुणस्थान जानने चाहिये । २ ।” अब इन गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका संक्षेप लक्षण कहते हैं,—जैसे स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शनरूप जो अखड प्रत्यक्ष प्रतिभास है तादृश प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो निजपरमात्मा ( अपना शुद्ध जीव ) वह है आदिमें निसके ऐसे जो षट् द्रव्य, पाच अस्तिकाय, सात सत्त्व और नव पदार्थ उनमें तीन मूढता आदि पचीस २५ मल ( दोष ) रहितत्वपूर्वक वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुये नयविभागसे जिस जीवके अद्वान नहीं है वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है । १ । पापाणरेखा ( पत्यरमे की हुई लक्षीर ) के समान जो अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया और दोष ये चार कथाय हैं, उनमेंसे किसी एकके उद्यसे प्रथम जो औपशमिक सम्यक्त्व

च मन्यते यः स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मद्वयेन दधिगुडमिश्रभाववत् मिश्रगुणस्थान-  
वर्ती भवति । अथ मतं-येन केनाप्येकेन सम देवेन प्रयोजनं तथा सर्वे देवा वन्दनीया न  
च निन्दनीया इत्यादिवैनयिकमिथ्याहृष्टिः संशयमिथ्याहृष्टिर्वा तथा मन्यते तेन सह  
सम्यग्मिथ्याहृष्टेः को विशेष इति । अत्र परिहारः—“स सर्वदेवेषु सर्वसमयेषु च भक्ति-  
परिणामेन येन केनाप्येकेन सम पुण्यं भविष्यतीति मत्वा संशयरूपेण भक्ति कुरुते  
निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयोऽस्तीति विशेष । स्वाभाविकानन्तङ्गाना-  
द्यनन्तशुगुणाधारभूत निजपरमात्मद्रव्यगुणादेयम्, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्य हि हेयमित्यर्ह-  
त्सर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसहज-  
क्रोधादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्त तलवरगृहीततस्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्ति-  
न्दियसुखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्गट्टेलक्षणम् । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्हृष्टिः सन्  
भूमिरेखादिसमानक्रोधादिद्वितीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेनैकदेशरागादि-  
रहितस्वाभाविकसुखानुभूतिलक्षणेषु चहिर्विषयेषु पुनरेकदेशाहिंसानृतास्तेयान्विषयपरिग्रहनि-

हैं उससे जीव गिरके जबतक सिथ्यात्मको प्राप्त न हो तबतक सम्यक्त्व और सिथ्यात्म  
इन दोनोंके बीचमे विद्यमान जो जीव है वह सासाठन है । २ । जो अपने शुद्ध आत्मा  
आदि तत्त्वको बीतराग सर्वज्ञका कहा हुआ भी मानता है और अन्य मतके आचार्योंद्वारा  
कहा हुआ भी मानता है वह दर्शनमोहनीय कर्मका भेद जो मिश्रकर्म है उसके उद्यसे  
दही और गुड मिले हुए पदार्थकी भाँति तीसरा जो मिश्रगुणस्थान है उसमे रहनेवाला जीव  
है । ३ । अब कोई शाका करे कि चाहे जिससे हो सुझे तो एक देवसे प्रयोजन है अथवा  
सब देवोंकी वन्दना करनी योग्य है, निन्दा किसीभी देवकी न करनी चाहिये” इस प्रकार  
वैनयिक मिथ्याहृष्टि और सशयमिथ्याहृष्टि मानता है तब उसके साथ मिश्रगुणस्थानवर्ती  
सम्यग् मिथ्याहृष्टिका क्या भेद है अर्थात् वैनयिक वा संशयमिथ्याहृष्टिमें और सम्यग्-मिथ्या-  
हृष्टिमें क्या भेद है जिससे उसको जुदा कहा ? इस शकाका खण्डन यह है कि-वैनयिक  
मिथ्याहृष्टि अथवा सशयमिथ्याहृष्टि तो संपूर्ण देवोंमे तथा सब शास्त्रोंमे किसी एककी  
भक्तिके परिणामसे सुझे पुण्य हागा अर्थात् इन सबकी सेवा करनेसे किसी एककी तो सेवा  
सफल होगी ऐसा मानकर सशयरूपसे भक्ति करता है, क्योंकि, उसको किसी देवमे निश्चय  
नहीं है कि यह सत्य है और मिश्रगुणस्थानवर्ती जीवके दोनोंमें निश्चय है । वस, यही  
विशेष है । जो स्वभावसे उत्पन्न जो अनन्त ज्ञान आदि अनन्त गुण हैं उनका आधारभूत  
निज परमात्मद्रव्य तो उपादेय है और इंद्रियोंके सुख आदि परद्रव्य हेय (त्याज्य) हैं  
ऐसे अर्हत् सर्वज्ञ देवसे प्रणीत निश्चय तथा व्यवहारनयको साध्य साधक भावसे मानता  
है, परन्तु भूमिकी रेखाके तुल्य क्रोध आदि द्वितीय कषायभेदके अर्थात् प्रत्याख्यानकषायके  
उद्यसे मारनेके लिये कोतवालसे पकड़े हुए चोरकी भाँति आत्मनिन्दादिसहित होकर  
इन्द्रियोंके सुखोंका अनुभव करता है वह अविरत सम्यग्हृष्टि नामक चतुर्थं गुणस्थानवर्ती

वृत्तिलक्षणेषु “दसणवयसामाइयपोसहसचिचराइभत्ते य । वंभारंभपरिगगह अणुमण उहिङ्ग देसविरदो य । १ ।” इति गाथाकथितैकादशनिलयेषु वर्त्तते स पञ्चमगुगस्थान-वर्त्ती श्रावको भवति । ५ । स एव सद्दृष्टिर्थूलिरेखादिसद्वशकोधादितृतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेन रागाद्युपाधिरहितस्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेषु वहिर्विषयेषु पुनः सामस्त्येन हिंसानृतस्तेय ब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु च पञ्चमहाब्रतेषु वर्त्तते यदा तदा दुःस्वप्नादिव्यक्तप्रमादसहितोऽपि षष्ठगुणस्थानवर्त्ती प्रमत्तसंयतो भवति । ६ । स एव जलरेखादिसद्वशमउवलनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमादगुद्धा-त्मसंवित्तिमलजनकव्यक्तप्रमादरहित । सन्समगुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्तसंयतो भवति । ७ । स एवातीतसञ्चलनकपायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाहादैकसुखानुभूतिलक्षणपूर्वकरणोपशमकक्षपकसंज्ञोऽष्टमगुणस्थानवर्त्ती भवति । ८ । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षादिरूपममस्त-सङ्कल्परहितनिजनिश्चलपरमात्मतत्त्वैकाग्रध्यानपरिणामेन कृत्वा येषां जीवानामेकसमये ये परस्परं पृथक्कर्तुं नायान्ति ते वर्णसस्थानादिभेदेऽप्यनिवृत्तिकरणीपश्मिकक्षपकसंज्ञा

जीवका स्वरूप हैं । ४ । जो पूर्वोक्त प्रकारसे सम्यग्दृष्टि होकर भूमिरेखादिके समान प्रत्याख्यान क्रोध आदि कपायोंके उदयका अभाव होनेपर अतरगमें निश्चयनयसे एकदेशराग आदिसे रहित स्वाभाविक सुखके अनुभवलक्षण तथा वाह्यमे “हिंसा, शूद्र, चोरी, अब्रहा और परिग्रह इनके एकदेशत्याग लक्षण पाच अणुवतोंमे और दर्शन, ब्रत, सामायिक, प्रोपध, सचिच्चविरत, रात्रिभक्त, ब्रह्मचर्य, आरभविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत तथा उद्दिष्टविरत । १ ।” इस प्रकार गाथामे कहे हुए जो श्रावकके एहादश स्थान हैं उनमे वर्त्तता है वह पचम गुणस्थानवर्त्ती श्रावक जीव होता है । ५ । वहो सम्यग्दृष्टि धूलिरेखा ( माटीकी रेखा ) के समान अप्रत्याख्यान क्रोध आदि तृतीय कषायोंके उदयका अभाव होनेपर निश्चयनयसे अंतरंगमे राग आदिकी उपाधिसे रहित जो निज शुद्ध आत्माका ज्ञान है उससे उत्पन्न सुखामृतके अनुभव लक्षणके धारक और वाह्य विषयोंमें संपूर्ण रूपसे हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रहा और परिग्रहके त्यागरूप लक्षणके धारक पांच महाब्रतोंमें जब वर्त्तता है तब वुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी षष्ठगुणस्थानमें रहनेवाला प्रमत्त संयत होता है । ६ । वहो जलरेखाके तुल्य सञ्चलन कपायका मंद उदय होनेपर प्रमादरहित जो शुद्ध आत्माका ज्ञान है उसमे मल ( दोष ) को उत्पन्न करनेवाले व्यक्त ( प्रकट ) तथा अव्यक्त ( अप्रकट ) इन दोनों प्रमादोंसे वर्जित होकर सप्तम गुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्त संयत होता है । ७ । वहो अतीत सञ्चलन कपायका मन्द उदय होनेपर अपूर्वे परम आल्हाद रूप सुखके अनुभवलक्षण अपूर्व करणमे औपशमिक क्षपक नामका धारक अष्टम गुणस्थानवर्त्ती होता है । ८ । देखे हुए, सुने हुए, और अनुभव किये हुए भोगोंकी वाञ्छादिरूप संपूर्ण सकल्प-तथा चिकिल्परहित अपने निश्चल परमात्मस्वरूपके एकाग्र ध्यानके परिणामसे “जिन, जीवोंके” एक समयमें

द्वितीयकथायाद्येकविश्वतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपजमक्षपणसमर्था नवमगुणस्थान-वर्त्तिनो भवन्ति । ९ । सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावनावलेन सूक्ष्मक्लिष्टगतलोभकषायस्योपशमकाः क्षपकाश्च दशमगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । १० । परमोपशममूर्त्तिनिजात्मस्वभाव-संवित्तिवलेन सकलोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । ११ । उपशमश्रेणि-विलक्षणेन क्षपकश्रेणिभागेण निष्कषायशुद्धत्सभावनावलेन क्षीणकषाया द्वादशगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । १२ । मोहस्त्रणानन्तरमन्तर्मुहूर्त्तकालं स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणैकत्व-वितर्कविचारद्वितीयशुक्लध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायत्रयं युगपदेकसमयेन निर्मल्य मेघपञ्चरविनिर्गतिदिनकर इव सकलविमलकेवलज्ञानकिरणैर्लोकालोकप्रकाशकाख्योदशगुणस्थानवर्त्तिनो जिनभास्करा भवन्ति । १३ । मनोवचन-कायवर्गणालम्बनकर्मादाननिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरहिताश्रुतुर्दशगुणस्थानवर्त्तिनोऽयोगिजिना भवन्ति । १४ । ततश्च निश्चयरक्षयात्मककारणभूतसमयसारसङ्गेन परमयथात्मात्मारित्रेण चतुर्दशगुणस्थानातीताः ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मरहिताः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तर्भूतनिर्नामगोत्राद्यनन्तरगुणाः सिद्धा भवन्ति । अत्राह शिष्यः—केवलज्ञान-

परस्पर पृथक्का करनेमे नहीं आती वे वर्ण तथा अवयवरचनाका भेद होनेपर भी अनिवृत्तिकरणैपशमिक क्षपक संज्ञाके धारक, द्वितीय कषाय आदि इक्कीस २१ भेदोंसे भिन्न अर्थात् इक्कीस प्रकारकी चारित्रमोहनीय कर्मको प्रकृतियोंके उपशमन और क्षपणमें समर्थ नवम गुणस्थानवर्त्तीं जीव हैं । ९ । सूक्ष्म परमात्मतत्त्वको भावनाके बलसे जो सूक्ष्म क्लिष्ट गत लोभ कषायके उपशमक और क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवर्त्तीं हैं । १० । परम उप-शममूर्त्ति निज आत्माके स्वभावके ज्ञानके बलसे संपूर्ण मोहको उपशान्त करनेवाले च्यार-हवें गुणस्थानवर्त्तीं जीव होते हैं । ११ । उपशमश्रेणीसे विलक्षण ( भिन्नरूप ) जो क्षपक श्रेणीका मार्ग उसके द्वारा कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे क्षीण ( नष्ट ) हो गये हैं कषाय जिनके ऐसे वारहवें गुणस्थानवर्त्तीं जीव होते हैं । १२ । मोहके नाश होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त्त कालमें ही निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप एकत्व वितके विचार संक्षक द्वितीय शुक्लध्यानमें स्थित होके उसके अंतिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीनोंको एक कालमें ही सर्वथा निर्मल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्यके सदृश संपूर्ण रूपसे निर्मल केवलज्ञान किरणोंसे लोक तथा अलोकके प्रकाशक तेरहवें गुण-स्थानवर्त्तीं जिन भास्कर ( सूर्य ) होते हैं । १३ । वेही मन, वचन और कायवर्गणाके आलम्बनसे कर्मोंके प्रहण करनेमें कारण जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द ( संचलन ) रूप योग है उससे रहित चौदहवें गुणस्थानवर्त्तीं अयोगि जिन होते हैं । १४ ॥ और इसके पश्चात् निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्ररूप रक्षयेको कारणभूत समयसार संक्षेप जो परम यथात्मात्मारित्र है उससे पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानोंसे रहित, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मोंसे वर्जित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणोंमें नर्मित निनोम

त्पत्ती मोक्षकारणभूतरक्तवयपरिपूर्णतायां सत्यां तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्यं सयोग्ययो-  
गिजिनगुणस्थानद्वये काढो नास्तीति । परिहारमाह-यथाख्यातचारित्रं जातं परं किन्तु  
परमयथाख्यातं नास्ति । अत्र दृष्टान्तः । यथा चौरव्यापाराभावेऽपि पुरुषस्थ चोरस-  
सर्गों दोषं जनयति तथा चारित्रविनाशकचारित्रमोहोदयाभावेऽपि सयोगिकेवलिना  
निष्क्रियशुद्धात्माचरणविलक्षणो योगत्रयव्यापारश्चारित्रमल जनयति, योगत्रयगते पुनर-  
योगिजिने चरमसमय विहाय शेषाधातिकर्मतीव्रोदयश्चारित्रमल जनयति, चरमसमये तु  
मन्दोदये सति चारित्रमलाभावान्मोक्ष गच्छति । इति चतुर्दशगुणस्थानव्याख्यानं  
गतम् । इटानीं मार्गणाः कथयन्ते । “गड इंद्रियं च काये जोए वेए कसाय णाणे य ।  
संयम दंसण लेस्सा भविआ समत्तसाण्णि आहारे । १ ॥” इति गाथाकथितकमेग गत्या-  
दिच्चतुर्दशमार्गणा ब्रातव्याः । तव्याया—स्वात्मोपलब्धिसिद्धिविलक्षणा नारकतिर्यडमनु-  
व्यदेवगतिभेदेन चतुर्विधा गतिमार्गणा भवति । १ । अतीन्द्रियशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूता  
श्वेकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियभेदेन पञ्चप्रकारेन्द्रियमार्गणा । २ । अशरीरात्मतत्त्वविसद्दशो

( नामरहित ), निर्गोत्र ( गोत्ररहित ) आदि अनन्त गुणसहित सिद्ध होते हैं । अब  
यहाँ शिष्य शंका करता है कि केवल ज्ञानकी उत्पत्तिमें जव मोक्षके कारणभूत रक्तवयकी  
पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, आपने जो सयोगी और अयोगी दो  
गुणस्थान कहे हैं इनमें रहनेका कोई समय हो नहीं है । अब इस शंकाका परिहार कहते हैं  
कि केवलज्ञानोत्पत्तिसमयमें यथाख्यात चारित्र तो हो गया परन्तु परम यथाख्यात नहीं  
है । यहाँपर दृष्टान्त यह है कि जैसे कोई मनुष्य चोरी नहों करता है परन्तु उसको चोरके  
संसर्गका दोष लगता है उसी प्रकार सयोग केवलियोंके चारित्रका नाश करनेवाला जो चारित्र-  
मोहका उदय है उसका अभाव है तथापि निष्क्रिय ( क्रियारहित ) शुद्ध आत्माके आचर-  
णसे विलक्षण जो मन, वचन, कायरूप योगत्रयका व्यापार है वह चारित्रके दूषण उत्पन्न  
करता है और तोनों योगोंसे रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अन्तसमयको छोड़कर  
जैप चार अधातिया कर्मोंका तीव्र उदय चारित्रमें दूषण उत्पन्न करता है और अन्त्य सम-  
यमें उन अधातिया कर्मोंका मन्द उदय होनेपर चारित्रमें दोषका अभाव हो जुआता है  
इस कारण उसी समय अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार चौदह गुणस्था-  
नोंका व्याख्यान समाप्त हुआ । अब चौदह मार्गणाओंका कथन किया जाता है । “गति,  
इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भृथत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा  
तथा आहार । १ ॥” इस गाथामें कथित क्रमसे गति आदि चतुर्दश मार्गणा जाननी  
चाहिये । वे इस प्रकार हैं, जैसे-निज आत्माकी प्राप्तिसे विलक्षण नारक, तिर्यग्, मनुष्य तथा  
देवगति भेदसे गतिमार्गणा चार प्रकारकी है । १ । अतीन्द्रिय ( इन्द्रियोंके अगोचर ) जो  
शुद्ध आत्मतत्त्व है उसके प्रतिपक्षभूत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा  
पञ्चेन्द्रिय भेदसे इन्द्रियमार्गणा पांच प्रकारकी है । २ । शरीररहित आत्मतत्त्वसे भिन्न

पृथिव्यमेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन पद्मेदा कायमार्गणा । ३ । निर्बीपारशुद्धात्म-  
पदार्थविलक्षणमनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधा योगमार्गणा, अथवा विस्तरेण सत्यासत्यो-  
भयानुभयभेदेन चतुर्विधो मनोयोगो वचनयोगश्च, औदारिकोदारिकमिश्रैक्रियिकैक्रियिक-  
मिश्राहारकाहारकमिश्रकार्मणकायभेदेन सप्तविधो काययोगश्चेति समुद्रयेन पञ्चदशविधो  
वा योगमार्गणा । ४ । वेदोदयोद्भवरागादिदोपरहितपरमात्मद्रव्याद्विना खीपुंनपुंसकभेदेन  
त्रिधा वेदमार्गणा । ५ । निष्कशायशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलक्रोधलोभमायामानभेदेन चतु-  
र्विधा कपायमार्गणा, विस्तरेण कपायनोक्षाययभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा । ६ । मत्यादि-  
संश्लापव्यक्त कुमत्यादज्ञानत्रयं चेत्यष्टविधा ज्ञानमार्गणा । ७ । सामायिकच्छेदोपस्थापन-  
परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन चारित्रं पञ्चविधम्, संयमासयमस्तथैवा-  
संयमश्चेति प्रतिपक्षद्वयेन सह सप्तप्रकारा सयममार्गणा । ८ । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्श-  
नभेदेन चतुर्विधा दर्शनमार्गणा । ९ । कपायोदयरज्जितयोगप्रवृत्तिविसदृशपरमात्मद्र-  
व्यप्रतिपन्थिनी कृष्णनोलकापोततेजःपद्मशुक्लभेदेन पद्मविधा लेश्यमार्गणा । १० ।

स्वरूपकी धारक पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस कायभेदसे कायमार्गणा हैं  
प्रकारको होती है । ३ । व्यापाररहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विलक्षण मनोयोग, वचनयोग  
तथा काययोग इन भेदोंसे योग मार्गणा तीन प्रकारको है । अयवा विस्तारसे सत्यमनोयोग,  
असत्यमनोयोग, सत्यासत्यमनोयोग और सत्यासत्यमनोयोगसे विलक्षण मनोयोग इन भेदोंसे  
चार प्रकारका मनोयोग है । ऐसेही सत्य, असत्य, सत्यासत्य तथा सत्यासत्यविलक्षण इन  
चार भेदोंसे वचनयोग भी चार प्रकारका है । एवम् औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रि-  
यिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कार्मण इन भेदोंसे काययोग सात  
प्रकारका है । सब मिलके योगमार्गणा पन्द्रह प्रकारको हुई । ४ । वेदके उदयसे उत्तम  
इनेकाले रागादि दोषोंसे रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न खीवेद, पुवेद और नपुं-  
सकवेद इन भेदोंसे वेदमार्गणा तीन प्रकारकी है । ५ । कपायोंसे रहित शुद्ध आत्माके  
स्वभावसे प्रतिकूल (विरुद्ध) क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन भेदोंसे चार प्रकारकी  
कपायमार्गणा है । और विस्तारसे अनन्तानुरंगी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान तथा संज्वलन  
भेदसे कपाय १६ और हास्यादि भेदसे नोक्षाय नव ९ सब मिलके पञ्चोस २५ प्रकारकी  
कपायमार्गणा है । ६ । मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ये पांच ज्ञान तथा  
कुमति, कुश्रुत और विभगावधि ये तीन अज्ञान ऐसे ८ प्रकारकी ज्ञानमार्गणा हैं । ७ ।  
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय तथा यथाख्यात भेदसे पाच  
प्रकारका चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्ष ऐसे सयममार्गणा सात  
७ प्रकारकी है । ८ । चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शन इन भेदोंसे दर्शनमार्गणा  
चार प्रकारकी है । ९ । कपायोंके उदयसे रंजित (रँगी हुई) जो काय आदि योगोंकी  
प्रवृत्ति है उससे भिन्न जो शुद्ध आत्मतत्त्व है उससे विरोध करनेवाली कृष्ण, नील,

भव्याभ्यभेदेन द्विविधा भव्यमार्गणा । ११ । अत्राह शिष्यः—शुद्धपारिणामिकपरम-  
भावरूपशुद्धनिश्चयेन गुणस्थानमार्गणास्थानरहिता जीवा इत्युक्तं पूर्वम्, इदानीं पुनर्भ-  
व्याभव्यरूपेण मार्गणामध्येऽपि पारिणामिकभावो भणित इति पूर्वापरविरोधः । अत्र  
परिहारमाह—पूर्वं शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया गुणस्थानमार्गणानिषेधः कृतः, इदानीं  
पुनर्भव्याभव्यत्वद्वयमशुद्धपारिणामिकभावरूप मार्गणामध्येऽपि घटते । ननु—शुद्धा-  
शुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध एव नैव—यद्यपि सामान्यरूपे-  
षोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभावः कथयते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाशुद्धपारिणा-  
मिकभावोऽप्यस्ति । तथाहि—“जीवभव्याभव्यत्वानि च” इति तत्त्वार्थसूत्रे त्रिधा पारि-  
णामिकभावो भणितः, तत्र—शुद्धचैतन्यरूपं जीवत्वमविनश्वरत्वेन शुद्धद्रव्याश्रितत्वाच्छु-  
द्धद्रव्यार्थिकसब शुद्धपारिणामिकभावो भण्यते, यत्पुनः कर्मजनितदशप्राणरूपं  
जीवत्व, भव्यत्वम्, अभव्यत्व चेति त्रय, तद्विनश्वरत्वेन पर्यायाश्रितत्वात्पर्यायार्थिकसं-  
क्षस्त्वशुद्धपारिणामिकभाव उच्यते । अशुद्धत्व कथमिति चेत्—यद्यप्येतदशुद्धपारिणामि-  
कत्रयं न्यवहारेण संसारिजीवेऽस्ति तथापि “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” इति वचनाच्छु-

कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल इन भेदोंसे ६ प्रकारकी लेश्यमार्गणा है । १० । भव्य और  
अभव्य भेदसे भव्यमार्गणा दो प्रकारकी है । ११ । यहां शिष्य प्रश्न करता है कि “शुद्ध-  
पारिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे जीव गुणस्थान तथा  
मार्गणास्थानोंसे रहित हैं” यह पूर्व प्रकरणमें आपने कहा है और अब यहां भव्य अभव्य  
रूपसे मार्गणामें भी आपने पारिणामिक भाव कहा सो यह पूर्वापरविरोध है । अब इस  
शंकाका परिहार ( खडन ) कहते हैं कि पूर्वप्रसंगमें तो शुद्ध पारिणामिक भावकी अपेक्षासे  
गुणस्थान और मार्गणास्थानका निषेध किया है और यहा अशुद्ध पारिणामिक भावरूपसे  
भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणामें भी कहे हैं सो नयभेदसे यह कथन घटता ( संगत )  
ही है । अब कदाचित् यह कहो कि “शुद्ध अशुद्ध भेदसे पारिणामिक भाव दो प्रकारका  
नहीं है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है” सो योग्य नहीं, क्योंकि यद्यपि सामान्यरूप  
उत्सर्गव्याख्यानसे पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है तथापि अपवाद व्याख्या-  
नसे अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसो हेतुसे “जीवभव्याभव्यत्वानि च”  
अ. २ सू. ७) इस तत्त्वार्थसूत्रमें जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदोंसे पारिणा-  
मिक भावको तीन प्रकारका कहा है । उनमें शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनाशी  
होनेसे शुद्ध द्रव्यके आश्रित है इस कारणसे शुद्ध द्रव्यार्थिकनामा शुद्ध पारिणामिक भाव  
कहा जाता है । और जो कर्मसे उत्पन्न दश प्रकारके प्राणों स्वरूप जीवत्व है वह जीवत्व,  
भव्यत्व तथा अभव्यत्व भेदसे तीन प्रकारका है और ये तीनों विनाशशील होनेसे पर्यायके  
देवगतिः नहैं इसलिये पर्यायार्थिक संक्षक अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । “इसको  
शुद्ध आत्मतरं प्रकारसे कहते हो” ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि यद्यपि ये तीनों अशुद्ध  
पर्याय भेदसे वहारनयसे संसारी जीवमें हैं तथापि “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” इस

द्वनिश्चयेन नास्ति त्रयं, मुक्तजीवे पुनः सर्वथैव नास्ति, इति हेतोरशुद्धत्वं भण्यते । तत्र शुद्धशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणामिकभावो ध्यानकाले ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात् ध्यानपर्यायस्य विनश्वरत्वात्, शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादिय-नश्वरः इति भावार्थः । औपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकसम्यक्त्वमेदेन त्रिधा सम्यक्त्व-मार्गणा मिथ्यादृष्टिसासादनमित्रसङ्खिप्तक्षयमेदेन सह पद्विधा क्षातव्या । १२ । संक्षिप्त्वासङ्खित्वविसदृशपरमात्मस्वरूपाद्विज्ञा सञ्ज्ञसंक्षिप्तमेदेन द्विधा संक्षिमार्गणा । १३ । आहारकानाहारक जीवमेदेनाहारकमार्गणापि द्विधा । १४ । इति चतुर्दशमार्गणास्वरूपं क्षातव्यम् । एवं “पुढविजलतेयवाऊ” इत्यादिगाथाद्ययेन, उत्तीयगाथापादत्रयेन च “गुणजीवापञ्चती पाणा सण्णा य भगणाओय । उव्वोगो विय कमसो बीस तु परुवणा भणिया । १” इति गाथाप्रभृतिकथितस्वरूपं ध्वलजयध्वलमहाध्वलप्रवन्धाभिधान-सिद्धान्तव्रयवीजपद सूचितम् । “सब्वे सुद्धा हु सुद्धण्या” इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशकं उत्तीयगाथाचतुर्थपादेन पञ्चास्तिकायप्रवचनसारसमयसाराभिधानप्राभृतत्रयस्यापि वीजपदं सूचितमिति । अत्र गुणस्थानमार्गणादिमध्ये केवलज्ञानदर्शनद्वयं क्षायिकसम्यक्त्व-

वचनसे ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं, और मुक्त जीवमें तो सर्वथा ही नहीं हैं; इसी कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भावोंमेसे जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यानके समयमें ध्येय ( ध्यान करनेके योग्य ) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । क्योंकि ध्यान पर्याय विनाशशील है और शुद्धपारिणामिक द्रव्यरूप है इस कारण अविनाशी है यह भावार्थ है । औपशमिक, क्षायो-पशमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्वके भेदसे सम्यक्त्वमार्गणा तीन प्रकारको है । तथा मिथ्यादृष्टि, सासादन और मित्र इन तीनों विपक्ष भेदोंसहित छे प्रकारकी भी सम्यक्त्वमार्गणा जाननी चाहिये । १२ । संक्षित्व तथा असंक्षित्वसे विलक्षण जो परमात्माका स्वरूप है उससे मित्र सङ्क्षी तथा असंक्षी भेदसे दो प्रकारकी संक्षिमार्गणा है । १३ । और आहारक तथा अनाहारक जीवके भेदसे आहारमार्गणा भी दो प्रकारको समक्षनो चाहिये । १४ । ऐसे चौदह मार्गणाओंका स्वरूप जानना योग्य है । इस रोतिसे “पुढविजलतेयवाऊ” इत्यादि दो गाथाओंसे और तीसरी गाथा जो “णिकम्मा अहुगुणा” इत्यादि है उसके तीन पादोंसे “गुण जीवा पञ्चती पाणा सण्णा यमरगणाओय । उव्वोगो विय कमसो बीसं तु परुवणा भणिया” इत्यादि गाथामे कहा हुआ स्वरूप ध्वल, जयध्वल और महाध्वल प्रवंध नामक जो तीन सिद्धान्त हैं उनके बीज पदकी सूचना ग्रंथकारने की और “सब्वे सुद्धा हु सुद्धण्या” इस उत्तीय गाथाके चौथे पादद्वारा शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाश करनेवाले जो पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार तथा समयसार नामक तीन प्राभृत ( पाहुड़ ) उनका भी बीजपद सूचित किया । इन गुणस्थान और मार्गणाओंके मध्यमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों तथा क्षायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्ध आत्माका स्वरूप ये तो साक्षात् उपादेय हैं और

मन्त्राहारकशुद्धात्मस्वरूपं च साक्षादुपादेयं, यत्पुनश्च शुद्धात्मसम्यक्शुद्धानश्चानानुचर-  
पलक्षणं कारणसमयसारस्वरूपं तत्स्वैवोपादेयभूतस्य विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन साधक-  
त्वात्पारम्पर्येणोपादेयं, शेषं तु हेयमिति । यज्ञाध्यात्मग्रन्थस्य वीजपदभूतं शुद्धात्मस्वरूप-  
मुक्तं तपुनहृपादेयमेव । अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धशुद्धजीवकथनमुख्यत्वेन  
सम्प्रस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ १३ ॥

अथेदार्ना गाथापूर्वार्द्धेन सिद्धस्वरूपमुक्तरार्द्धेन पुनर्धर्वगतिस्वभावं च कथयति,—

णिकम्मा अद्वगुणा किंचूणा चरमदेहदो सिद्धा ।

लोयगगठिदा णिच्चा उप्पादवयेहि संजुता ॥ १४ ॥

**व्याख्या—**सिद्धा: सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः । किं विशिष्टाः “णिकम्मा अद्वगुणा  
किंचूणा चरम देहां” निकर्मणोऽद्वगुणाः किञ्चिद्दूनाश्वरमदेहतः सकाशादिति सूत्रपू-  
र्वार्द्धेन सिद्धस्वरूपमुक्तम् । ऊर्ध्वगमन कथ्यते “लोयगगठिदा णिच्चा उप्पादवयेहि संजुता”  
ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादव्ययाभ्यां सयुक्ताः । अतो विस्तरः । कर्मारिवि-

जो शुद्ध आत्माका सम्यक्शुद्धान, ज्ञान और आचरण क्रन्तेरूप लक्षणका धारक कारण  
समयसार हैं वह उसी पूर्वोक्त उपादेय भूतका विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे साधक है इस-  
लिये परंपरासे उपादेय हैं, इनके विना सब त्याज्य हैं; और जो अध्यात्मग्रन्थका वीज पदभूत  
शुद्ध आत्माका स्वरूप है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकारसे जीवाधिकारके मध्यमें शुद्ध  
तथा अशुद्ध जीवके कथनकी मुख्यतारूप जो सम्प्रस्थल है उसमें तीन गाथा समाप्त  
हुई ॥ १३ ॥

अब इसके पश्चात् गाथाके पूर्वार्द्धेसे तो सिद्धोंके स्वरूपका और उच्चरार्द्धसे उनका जो  
ऊर्ध्वगमन स्वभाव हैं उसका कथन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः—** जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ  
गुणोंके धारक हैं तथा अन्तिम शरीरसे कुछ कम हैं वे सिद्ध हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभावसे  
लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इन दोनोंसे युक्त हैं ॥ १४ ॥

**व्याख्यार्थः—** “सिद्धा” सिद्ध होते हैं इस रीतिसे यहाँ “भवन्ति” इस क्रियाका  
अव्याहार करना चाहिये । किन विशेषणोंसे विशिष्ट सिद्ध होते हैं “णिकम्मा अद्वगुणा  
किंचूणा चरमदेहदो” कर्मोंसे रहित आठ गुणोंसे सहित तथा अन्तिम शरीरसे किञ्चित्  
उन ( कुछ छोटे ) ऐसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार सूत्रके पूर्वार्द्धसे सिद्धोंका स्वरूप कहा ।  
अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं । लोयगगठिदा णिच्चा उप्पादवयेहि संजुता”  
जोंर वे सिद्धलोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इनसे संयुक्त हैं ।  
अब यहाँसे विस्तारपूर्वक इस गाथाकी व्याख्या करते हैं:—कर्मरूपी शत्रुओंके विच्छंस  
करनमें समर्थ अपने शुद्ध आत्माके बलसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृति और

५ धर्मसंकरशुद्धात्मसंविज्ञिवलेन ज्ञानावरणादिसूलोच्चरगतसमस्तकर्मप्रकृतिविनाशकत्वादप्य-  
कर्मरहिताः “सम्पत्तणाणदसणवीरियसुहुमं तदेव अन्वगहणं । अगुरुलहुअववदाहं आहु-  
गुणा हुति सिद्धाणं । १।” इति गाथाकथितकमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टगुणाः  
कथयन्ते । तथाहि-केवलज्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप निश्चयस-  
म्यकृत्वं यत्पूर्वं तपश्चरणवस्थाया भावितं तस्य फलभूतं समस्तजीवादितत्त्वविषये विपरी-  
ताभिनिवेशरहितपरिणतिरूप परमक्षायिकसम्यकृत्वं भण्यते ॥ पूर्वं द्विष्ठास्थावस्थाया भावि-  
तस्य निविकारस्वस वेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं  
केवलज्ञानम् । निर्विकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावलोकनरूपं यत्पूर्वं दर्शन भावित तस्यैव फलभूतं  
युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतवसामान्यग्राहकं केवलदर्शनम् ॥ कर्मित्वित्स्वरूपचलनकारणे  
जाते सति घोरपरीपहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं धैर्यमवलम्बितं तस्यैव  
फलभूतमनन्तपदार्थपरिच्छेत्तिविषये खेदरहितत्वमनन्तवीर्यम् ॥ सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञा-  
नविधयत्वात्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्वं भण्यते । एकदीपप्रकाशो नानादीपप्रकाशवदेकसिद्ध-  
क्षेत्रे सङ्करव्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावकाशदानसामर्थ्यमवगाहनगुणो भण्यते ।

उत्तरप्रकृतियोंके विनाशक होनेसे अष्टविध कर्मोंसे रहित सिद्ध होते हैं । तथा “सम्यकृत्व,  
ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध ये आठ गुण सिद्धोंके  
होते हैं ।” इस गाथोक्त क्रमसे उन अष्टकर्मरहित सिद्धोंके आठ गुण कहे जाते हैं । अब  
उन गुणोंको विस्तारसे दर्शाते हैं:—केवलज्ञान आदि गुणोंका स्थानरूप जो निज शुद्ध  
आत्मा है वही प्राप्त है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चयसम्यकृत्व जो कि पहले तपश्चरण  
करनेकी अवस्थामें उत्पादित किया था उसका फलभूत, समस्त जीव आदि तत्त्वोंके विप-  
यमें विपरीत अभिनिवेश (जो पदार्थ जिसरूप है उसके विरुद्ध आग्रह) से शून्य परिणाम-  
रूप परम क्षायिक सम्यकृत्व नामा प्रथम गुण सिद्धोंके कहा जाता है । पूर्वं कालमें छव्यस्थ  
अवस्थामें भावनागोचर किये हुये विकाररहित स्वानुभवरूप ज्ञानका फलभूत एकही  
समयमें लोक तथा अलोकके संपूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हुए विशेषोंको जाननेवाला दूसरा केवल-  
ज्ञानानामा गुण है । संपूर्ण विकल्पोंसे शून्य निजशुद्ध आत्माकी सत्ताका अवलोकन (दर्शन)  
रूप जो पहले दर्शन भावित किया था उसी दर्शनका फलभूत, एक कालमें ही लोक अलो-  
कके संपूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हुए सामान्यको ग्रहण करानेवाला केवलदर्शन नामा तृतीय गुण  
है । अतिघोर परीपह तथा उपसर्ग आदिके आनेके समयमें जो पहले अपने निरंजन पर-  
मात्माके ध्यानमें धैर्यका अवलम्बन किया उसीका फलभूत अनन्त पदार्थोंके ज्ञानमें खेदके  
अभावरूप लक्षणका धारक चतुर्थ अनन्तवीर्यनामक गुण है । सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल-  
ज्ञानका विषय होनेसे सिद्धोंके स्वरूपको सूक्ष्म कहते हैं । यह सूक्ष्मत्व पचम गुण है । एक  
दीपके प्रकाशमें जैसे अनेक दीपोंके प्रकाशका समावेश हो जाता है उसी प्रकार एक  
सिद्धके क्षेत्रमें संकर तथा व्यतिकर दोषके परिहार पूर्वक जो अनन्त सिद्धांका अवक्षाश

यदि सर्वथा गुरुत्वं भवति तदा लोहपिण्डवद्वः पतनं, यदि च सर्वथा लघुत्वं भवति तदा वाताहतार्क्तूलवत्सर्वदैव भ्रमणमेव स्यान्न च तथा तस्मादगुरुलघुत्वगुणोऽभिवीयते । सहजशुद्धस्वरूपानुभवसमुन्यश्वरागादिविभावरहितसुखामृतस्य यदेकदेशसवेदनं कृतं पूर्वं तस्यैव फलभूमध्यावाधमनन्तसुखं भण्यते । इति भव्यमरुचिशिष्यपेक्षया सम्यक्त्वा-दिगुणाष्टकं भण्ितम् । मध्यमरुचिशिष्य प्रति पुनर्विशेषभेदनयेत निर्गतित्व, निरिन्द्रियत्वं, निष्काशत्वं, निर्योगत्वं, निर्बेदत्वं, निष्कषणायत्वं, निर्नामत्वं, निर्गोत्रत्वं, निरायुषत्वमित्यादिविजेषगुणास्तथैवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिसामान्यगुणाः स्वागमाविरोधेनानन्ता ब्रातव्याः । सक्षेपुरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विवक्षितभेदनयेनानन्तज्ञानादिचतुष्टयम्, अनन्तज्ञानवशेनसुखत्रयं, कंबलज्ञानदर्शनद्रव्य, साक्षादभेदनयेन शुद्धचैतन्यमेवैको गुण इति । पुनरपि कथंभूताः सिद्धाः चरमशरीरात् किञ्चिदूना भवन्ति तत् किञ्चिदूनत्वं शरीरोपाङ्गजनितनासिकादिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगिचरमसमये त्रिशत्रुत्युदयविच्छेदमध्ये शरीरोपाङ्गनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे जातस्मिति ज्ञातव्यम् ।

देनेका सामर्थ्य है वही छठा अवगाहन गुण कहा जाना है । यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु (भारी) हो तो लोहपिण्डके समान उसका अधःपतन (नीचे गिरना) ही होता रहे और यदि सर्वथा लघु (हल्का) हो तो वायुसे ताडित आक वृक्षका रईके समान उसका निरन्तर भ्रमण ही होता रहे, परन्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नहों है इसलिये सातवां अगुरुलघुगुण कहा जाता है । स्वभावसे उत्पन्न और शुद्ध जो अत्मस्वरूप है उससे उत्पन्न तथा राग आदि विभावोंसे रहित ऐसे सुखरूपी अमृतका जो एकदेश अनुभव पहले किया उसीका फलस्वरूप अव्यावाध अनन्त सुख नामक अष्टम गुण सिद्धोंमें कहा जाता है । ये जो सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण कहे गये हैं सो मध्यमरुचिके धारक शिष्योंके लिये हैं और विस्तारमें मध्यमरुचिके धारक शिष्यके प्रति तो विशेष भेदनयका अश्लम्बन करनेसे गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितत्व, योगरहितत्व, वेदरहितता, कषायरहितत्व, नामरहितत्व, गोव्ररहितत्व तथा आयुरहितत्व आदि विशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण ऐसे अपने जैनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिये । और संक्षेपरुचि शिष्यके प्रति तो विवक्षित अभेदनयसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त धीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, दर्शन सुखस्वरूप तीन गुण वा केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो गुण हैं और साक्षात् अभेदनयसे शुद्ध चैतन्य यह एक ही गुण सिद्धोंका है । पुनः वे निद्रा कैसे हैं इसलिये कहते हैं कि वे सिद्ध चरम (अन्तके) शरीरसे कुड़ छोटे होते हैं और वह जो किंचित् ऊलता है सो शरीरोङ्गोपाङ्गकर्मसे उत्पन्न नासिका आदि छिद्रोंके अपूर्ण होनेपर जिस क्षणमें सयोगीके अन्त समयमें त्रिशत् प्रकृतियोंके उदयका नाश हुआ ' उनमें 'शरीरांगोपांग कर्मका भी विच्छेद होगया अतः उसी समय हुआ है यह जानना चाहिये । अब यहाँ

कश्चिदाह—यथा प्रदीपस्य भाजनाव्यावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह—प्रदीपसंवन्धे योऽसी प्रकाशविस्तारः पूर्वं स्वभावेनैव तिष्ठति पञ्चादावरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्रामन्म्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशानां संवन्धी विस्तारः स स्वभावो न भवति । क्षमादिति चेत्, पूर्वं लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणस्तिष्ठन्ति पञ्चात् प्रदीपवदावरणं जातमेव । तत्र, किन्तु पूर्वमेवानादिसन्तानल्पेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रदेशानां मंहारो न भवति, विस्तारत्र शरीरनाभकर्माधीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरण दीयते—यथा हस्तचतुष्टप्रमाणवद्वां पुरुषेण मुद्रां बद्धं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारो वा न करोति निष्पत्तिकाले सांडू मृन्मयमाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति, तथा जीवोऽपि पुरुषस्यानीयजलस्थानीयशरीराभावे विन्नारसकोची न करोति । यत्रैव सुक्ष्टत्रैव तिष्ठतीति ये केचन बद्धन्ति तन्निषेधार्थं पूर्वप्रयोगादपञ्चत्वाद्वन्धच्छेदान्तथागतिपरिणामाद्वेति हेतुतुष्टयेन तथैवाविद्वकुलालचक्रवद् व्यपगत्ते-

कोई शंका करता है कि जैसे दीपकके आवरण करनेवाले पात्र आदिके हटा लेनेसे उस दीपकके प्रकाशका विस्तार हो जाता है उसी प्रकार देहका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्मा लोकप्रमाण होना चाहिये । अब इसका परिहार कहते हैं—जो यह दीपकसवधी प्रकाशका विस्तार है वह तो पहले स्वभावसे ही दीपकमें रहता है और पीछे उस दीपकके आवरण होता है; और जीवके तो लोकमात्र असंख्यात् प्रदेशत्व स्वभाव है और जो प्रदेशोंका विस्तार है वह स्वभाव नहीं है । कदाचित् यह कहो कि जीवके पहले लोकमात्र प्रदेश विस्तृत हुए आवरणरहित रहते हैं और फिर जैसे ग्रदीपके आवरण होना है वैसेही जीव-प्रदेशोंके भी आवरण हुआ है; सो नहीं, किन्तु जीवके प्रदेश तो पूर्वकालसे ही अनादिकालसे सन्तानरूप चले आये हुये शरीरसे आवरणसहितही रहते हैं । इस हेतुमे जीवके प्रदेशोंका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकर्मके आधीन ही है और जीवका स्वभाव नहीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहीं होता है । इस विषयमें और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे पुरुषकी मुहर्में चार हाथका बख्त वँधा हुआ है, अब वह बख्त यदि पुरुष हो तब ही तो उसकी ग्रेरणासे सकोच व विस्तार कर सकता है और पुरुषके अभावमें सकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता, जैसा उस पुरुषने छोड़ा वैसाही रहता है । अथवा गीला मृत्तिकाका भाजन बनते ममय तो संकोच तथा विस्तारको प्राप्त हो जाता है और जब वह शुष्क हो जाता है तब जलका अभाव होनेसे संकोच व विन्नारसको नहीं प्राप्त होता है, इसी प्रकार जीव भी पुरुषके स्थानमूर्त अथवा जलके स्थानमूर्त शरीरके अभावमें सकोच विस्तारको नहीं प्राप्त होता है । अब कितनेही कहते हैं कि “जीव जिस स्थानमें कर्मोंसे मुक्त होता है वहाँही रहता है ।” इसके निषेधके लिये कहते हैं । पूर्वप्रयोगसे, असंग होनेसे, वंचका नाश होनेसे तथागतिके परि-

पालस्तुषदेरण्डवोजवद्गिशिखावच्चेति दृष्टान्तचतुष्टयेन च स्वभावोद्भूर्गमनं ज्ञातव्यं तथा लोकाग्रपर्यन्तमेव न च परतो धर्मास्तिकायाभावादिति । नित्या इति विशेषणं तु मुक्तात्मना कल्पशतप्रमितकाले गते जगति शून्ये जाते सति पुनरागमनं भवतीति सदाशिववादिनो वदन्ति तत्रिवेधार्थं विज्ञेयम् । उत्पादव्ययसंयुक्तवं विशेषणं सर्वथैवापरिणामित्वनिषेधार्थमिति । किञ्च विशेषः निश्चलाविनश्चरशुद्धात्मस्वरूपाद्विज्ञं सिद्धानां नारकादिगतिषु भ्रमणं नास्ति कथमुत्पादव्ययत्वमिति । तत्र परिहारः । आगमकथितागुरुलघुषट्स्थानपतितहानिवृद्धिरूपेण येऽर्थपर्यायास्तदपेक्षया अथवा येन येनोत्पादव्ययधौत्यरूपेण प्रतिक्षणं ज्ञेयपदार्थां परिणमन्ति तत्परिच्छित्याकारेणानीहितवृत्त्या सिद्धब्रानमपि परिणमति तेन कारणेनोत्पादव्ययत्वम्, अथवा व्यञ्जनपर्यायापेक्षया संसारपर्यायविनाशः, सिद्धपर्यायोन्यादः, शुद्धजीवद्रव्यत्वेन धौत्यमिति । एव नयविभागेन नवाधिकरैर्जीवद्रव्यं ज्ञातव्यम्, अथवा तदेव वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिधा भवति । तद्यथा—

नामसे ऐसे हन चार हेतुओंसे जीवका ऊर्ध्व गमन जानना चाहिये अथवा भ्रमते हुए कुलाल (कुंभकार) के चाकके सदृश, मृत्तिकाके लेपरहित तुंबीके सदृश, एरडके बीजके तुन्य, अथवा अभिकी शिखाके समान, इन चार दृष्टांतोंमें जीवके स्वभावसे ऊर्ध्व गमन जानना चाहिये और वह ऊर्ध्व गमन भी लोकके अप्रभागतक हो होता है और इसके आगे नहीं, क्योंकि वहां धर्मास्तिकायका अभाव है । सिद्ध नित्य हैं । यहांपर जो नित्य विशेषण है सो सदाशिववादी यह कहते हैं कि “१०० कल्प प्रमाण समय व्यतीत होने-पर जब जगत् शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवोंका संसारमें आगमन होता है ।” इस भ्रमका नियेध करनेके लिए है ऐसा समझना चाहिये । सिद्ध उत्पाद तथा व्ययसे युक्त हैं । यहां जो उत्पाद व्यय संयुक्तपना सिद्धोंका विशेषण कहा है वह सर्वथा अपरिणमिताके निषेधके लिये है । यहांपर विशेष यह है कि कोई शंका करै कि सिद्ध तो निरन्तर निश्चल तथा विनाशरहित जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है उसीमें रमते हैं, उससे भिन्न जो नरक आदि गतियोंमें भ्रमण करना है वह सिद्धोंके नहीं है इसलिए सिद्धोंमें उत्पाद तथा व्यय कैसे मानते हो ? इस शंकाका परिहार यह है कि आगममें कहे हुए जो अगुरुलघु आदि वट् स्थानोंमें पड़े हुये हानिवृद्धि स्वरूपसे अर्थ पर्याय हैं उनको अपेक्षासे उत्पाद व्यय है । अथवा जिस जिस उत्पाद व्यय धौत्यरूपसे प्रति समय ज्ञेय पदार्थ परिणमते हैं उन उनको परिच्छित्तिके आकारसे निरच्छक (इच्छारहित) वृत्तिसे सिद्धोंका ज्ञान भी परिणमता है इस कारणसे उत्पाद व्यय है । अथवा सिद्धोंमें व्यञ्जन पर्यायकी अपेक्षासे संसार पर्यायका नाश, सिद्ध पर्यायका उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्य-पनेसे धौत्य है । ऐसे नय विभागसे नौ अधिकारोंद्वारा जीव द्रव्यका स्वरूप जानना चाहिये । अथवा यही जीवात्मा वहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है । वह इस प्रकार है-निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो प्रारम्भिक

स्वसुद्धात्मसंविच्चिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासको वहिरात्मा, तद्विलक्षणोऽन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादि-परद्रव्येष्वेकत्वभावनापरिणतो वहिरात्मा, तस्मात्प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा । अथवा हेयो-पादेयविचारकचिच्चनिर्दोषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो होयाः शुद्धैतन्यलक्षण आत्मन्युक्तलक्षणेषु चित्तदोपात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतेषु अन्येयु वा पदार्थेषु यस्य परस्पर-सापेक्षनयविभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स वहिरात्मा, तस्माद्विसद्वशोऽन्तरात्मेति रूपेण वहिरात्मान्तरात्मनोर्लक्षणं ज्ञातव्यम् ॥ परमात्मलक्षण कथ्यते-मकुर्विमलकेवल-ज्ञानेन येन कारणेन समस्तं लोकालोकं जानाति व्याप्रोति तेन कारणेन विष्णुर्भृणते । परमव्रह्मसंज्ञनिजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसुखामृतवृप्तस्य सत उर्वशीरम्भातिलोक्तमाभिर्वै-कन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचर्यवतं न खण्डित स परमव्रह्म भण्यते । केवलज्ञानादिगुणैश्वर्ययुक्त्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभिलापिणः सन्तो यस्याज्ञा कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति । केवलज्ञानशब्दवाच्य गतं ज्ञान यस्य सुगतः, अथवा शोभनमविनश्वर मुक्ति-

( यथार्थ ) सुख उससे विरुद्ध जो इन्द्रियसुख उससे आसक्त वहिरात्मा है, उससे विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित जो निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्य उस आत्माद्रव्यकी भावनारूप जो भेद-ज्ञान है उससे रहित होनेके कारण देह आदि पर ( अन्य ) द्रव्योंमें जो एकत्व भावनासे परिणत है अर्थात् देह आदिमें यह भावना करता है कि देह आदि में ही हूँ वह वहिरात्मा है । और इस वहिरात्मासे विरुद्ध अर्थात् निज शुद्ध आत्माहीको आत्मा जानेवाला अन्तरात्मा है । अथवा हेय तथा उपादेयका विचार करनेवाला जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मासे भिन्न राग आदि दोष और शुद्धैतन्यरूप लक्षणका धारक आत्मा ऐसे इन पूर्वोक्त लक्षणोंके धारक जो चित्त, दोष और आत्मा हैं इन तीनोंमें अथवा वीतराग सर्वज्ञकथित अन्य पदार्थोंमें जिसके परस्पर अपेक्षाके धारक नयोंके विभागसे श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वह वहिरात्मा है और उस वहिरात्मासे भिन्न लक्षणका धारक अन्तरात्मा है । इस प्रकार वहिरात्मा और अन्तरात्माका लक्षण जानना चाहिये । अब परमात्माका लक्षण कहते हैं—संपूर्ण तथा निर्मल ऐसे केवलज्ञान द्वारा जिस कारणसे समस्त लोक अलोकको जानता है अर्थात् व्याप्त होता है, इस हेतुसे वह परमात्मा विष्णु कहाता है । परब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखामृतसे उप होनेसे उर्वशी, तिळोक्तमा तथा रंभा आदि देवकन्याओंने भी जिसके ब्रह्मचर्य ब्रतको खंडित नहीं किया वह परमव्रह्म कहलाता है । केवलज्ञान आदि गुणरूप ऐश्वर्य युक्त होनेसे जिसके पदको अभिलाघा ( चाह ) करते हुए देवोंके इन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, इसलिये वह परमात्मा ईश्वर इस नामका धारक होता है । केवलज्ञान इस शब्दसे वाच्य ( कहने योग्य ) है सु ( उत्तम ) गत ( ज्ञान ) जिसका वह सुगत है । अथवा सु कहिये शोभायमान अविनश्वर ( नाशरहित ) मुक्तिके स्थानको जो प्राप्त हुआ सो सुगत

पदं गतः सुगतः । ‘शिवं परमकल्याणनिर्बाणं ज्ञानमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परकीर्तिः ॥ १ ॥’ इति श्लोककथितलक्षणः शिवः । कामक्रोधादिदोषजयेनानन्तज्ञानान्नादिगुणसहितो जिनः । इत्यादिपरमागमकथिताष्टोत्रसहस्रसंख्यनामवाच्यः परमात्मा ज्ञातव्यः ॥ एवमेतेषु त्रिविधात्मसु मध्ये मिथ्यादृष्टिभव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण तिष्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयापेक्षया व्यक्तिरूपेण च । अभव्यजीवे पुनर्बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेणैव न च भाविनैगमनयेनेति । यद्यभव्यजीवे परमात्मा शक्तिरूपेण वर्तते तर्हि कथमभव्यत्वमिति चेत् परमात्मशक्तेः केवलज्ञानादिरूपेण व्यक्तिर्ण भविष्यतीत्यभव्यत्वं, शक्तिः पुनः शुद्धनयेनोभयत्र समाना । यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्यजीवे केवलज्ञानं नास्ति तदा केवलज्ञानावरणं न घटते । भव्याभव्यद्वयं पुनरशुद्धनयेनेति भावार्थः । एव यथा मिथ्यादृष्टिसंज्ञे बहिरात्मनि नयविभागेन दर्शितमात्मत्रय तथा शेषगुणस्थानेष्वपि । तद्यथा—बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्वय शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च विज्ञेयम्, अन्त-

---

है । तथा “शिव कहिये शान्त, अक्षय और परम कल्याणरूप निर्बाण मुक्तिपदको जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है । १ ।” इस श्लोकमें कहे हुए लक्षणका धारक होनेसे वह परमात्मा शिव है । काम, क्रोध आदि दोषोंको जीतनेसे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका धारक जिन कहाता है, इत्यादि परमागममें कहे हुए एक हजार आठ नामोंसे वाच्य (कहने योग्य) जो है उसको परमात्मा जानना चाहिये । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों आत्माओंके मध्यमें जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमे बहिरात्मा तो व्यक्तिरूपसे रहता है और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे ही रहते हैं । और भावी नैगमनयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपसे भी रहते हैं । और मिथ्यादृष्टि अभव्यजीवमें तो बहिरात्मा व्यक्तिरूपसे और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे ही रहते हैं । और भावी नैगमनयकी अपेक्षासे अन्तरात्मा तथा परमात्मा अभव्यमें व्यक्तिरूपसे नहीं रहते । कदाचित् यह कहो कि, यदि अभव्य जीवमें परमात्मा शक्तिरूपसे रहता है तो अभव्यत्व कैसे हो सकता है? तो इस शंकाका उत्तर यह है कि अभव्य जीवमें परमात्माकी जो शक्ति है उसकी केवलज्ञान आदि रूपसे व्यक्ति न होगी इसलिये उसमे अभव्यत्व है और शुद्ध नयसे परमात्माकी शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनोंमें समान ही है । और यदि अभव्य जीवमें शक्तिरूपसे भी केवलज्ञान नहीं हो तो केवल ज्ञानावरण कर्म नहीं सिद्ध होते । तथा भव्य अभव्य ये दोनों अशुद्ध नयसे हैं यह भावार्थ है । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि नामक बहिरात्मामें नयविभागसे तीनों आत्माओंका प्रदर्शन किया उसी प्रकार बाकीके जो तेरह गुणस्थान हैं उनमें भी देखना चाहिए । वे इस प्रकार हैं:-बहिरात्माकी दशामे अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे रहते हैं और भावी नैगमनयसे व्यक्तिरूपसे भी रहते हैं ऐसा जानना चाहिये । और अन्तरात्माकी अवस्थामें तो बहिरात्मा भूतपूर्वन्यायसे घृतके घटके

रात्मावस्थायां तु वहिरात्मा भूतपूर्वन्यायेन धृतघटवत्, परमात्मस्वरूपं तु शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थायां पुनरन्तरात्मवहिरात्मद्वयं भूतपूर्वन्यायेनेति । अथ त्रिवात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्यासासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन वहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुस्थाने तद्योग्याशुभलेख्यापरिणतो जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकपायगुणस्थाने पुनरुक्तषुष्टु. अविरतक्षीणकपाययोर्मध्ये मध्यमः, सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन सिद्धसहशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षात्परमात्मेति । अत्र वहिरात्मा हैयः, उपादेयभूतस्थानन्तसुखसाधकत्वादन्तरात्मोपादेयः, परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इत्यभिप्राय । एवं पद्मद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमाधिकारमध्ये नमस्कारादिचतुर्दशगाथाभिर्नवभिरन्तरस्थले जीवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥१४॥

अतःपरं यद्यपि शुद्धशुद्धैकस्वभावं परमात्मद्रव्यमुपादेयं भवति तथापि हेयरूपस्याजीवद्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत्—हेयतत्त्वपरिक्लाने सति पञ्चादुपादेयस्वीकारो भवतीति हेतोः । तद्यथा—

समान और परमात्माका स्वरूप शक्तिरूपसे तथा भावी नैगम नयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपसे समझना चाहिए । और परमात्माकी अवस्थामें अन्तरात्मा तथा वहिरात्मा ये दोनों भूतपूर्वनयसे जानने चाहिये । अब तीनों प्रकारके आत्माओंको गुणस्थानोंमें योजित करते हैं—मिथ्यात्म, सासादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमें तारतम्य न्यूनाधिक भावसे वहिरात्मा जानना चाहिये, अविरत नाम चतुर्थं गुणस्थानमें उसके योग्य अशुद्ध लेख्याओंसे परिणत जघन्य अन्तरात्मा है, और क्षीणकपाय नामक वारहवें गुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । अविरत और क्षीणकपाय अर्थात् चतुर्थं तथा वारहवें गुणस्थानोंके मध्यमें जो सात गुणस्थान हैं उनमें मध्यम अन्तरात्मा है तथा सयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानोंमें विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे सिद्धके सहश परमात्मा है और सिद्ध तो साक्षात् परमात्मा ही है । यहां वहिरात्मा तो हेय है और उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक होनेसे अन्तरात्मा उपादेय है तथा परमात्मा साक्षात् उपादेय है, यह अभिप्राय है । इस प्रकार षट् द्रव्य और पंच अस्तिकायका प्रतिपादन करनेवाले प्रथम अधिकारमें नमस्कार गाथाको आदि ले चौदह गाथाओंसे नव ९ अन्तर ( मध्य ) स्थलोंद्वारा जीव द्रव्यके कथन रूपसे प्रथम अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥

अब इसके पञ्चात् यद्यपि शुद्धशुद्ध एक स्वभावका धारक परमात्मा द्रव्य ही उपादेय है तथापि हेयरूप जो अजीव द्रव्य है उसका आठ गाथाओंद्वारा व्याख्यान (निरूपण) करते हैं । क्योंकि पहले हेयतत्त्वका ज्ञान होनेपर पीछे उपादेय पदार्थका स्वीकार होता है । वह इस प्रकार है;—

अजीवो पुण णेओ पुगलधम्मो अधम्म आयासं ।  
कालो पुगल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा हु ॥ १५ ॥

**व्याख्या**—“अजीबो पुण णेओ” अजीवः पुनर्ज्ञेयः । सकलविमलकेवलज्ञानदर्शन-द्वयं शुद्धोपयोगः, मतिज्ञानादिरूपो विकलोऽशुद्धोपयोग इति द्विविधोपयोगः, अव्यक्त-सुखदुःखानुभवनरूपा कर्मफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादिमन पर्ययपर्यन्तमशुद्धोपयोग इति, स्वेहापूर्वेष्टानिष्टविकलपर्येण विशेषरागद्वेषपरिणमनं कर्मचेतना, केवलज्ञानरूपा शुद्धचेतना इत्युक्तलक्षणोपयोगश्चेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति विज्ञेये । पुनः पश्चात्जीवाधिकारानन्तरं “पुगलधम्मो अधम्म आयासं कालो” स च पुद्गलधर्माधर्मा-काशकालद्रव्यभेदेन पञ्चधा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुद्गल इत्युच्यते । गतिस्थित्यवगा-हृवर्त्तनालक्षणा धर्माधर्माकाशकालाः, “पुगलमुत्तो” पुद्गलो मूर्त्तः । कस्मात् “रूवादि-गुणो” रूपादिगुणसहितो यतः । “अमुत्ति सेसा हु” रूपादिगुणभावादमूर्त्ति भवन्ति पुद्गलाच्छेषाश्वत्वार इति । तथाहि—यथा अनन्तज्ञानदर्शनभुखवीर्यगुणचतुष्यं सर्वजीव-

**गाथामावार्थः**— और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पांचोंको अजीव द्रव्य जानना चाहिये । इनमें पुद्गल तो मूर्त्तिमान् है, क्योंकि रूप आदि गुणोंका धारक है, और शेष ( बाकी के ) चारों अमूर्त्त हैं ॥१५॥

**व्याख्यार्थः**— अब जीवाधिकारके अनन्तर “अजीबो पुण णेओ” अजीव पदार्थको वक्ष्यमाण प्रकारका जानना चाहिये । संपूर्ण रूपसे विमल अर्थात् संपूर्ण द्रव्यं पर्यायका प्रकाशक केवलज्ञान तथा दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं और मतिज्ञान आदिरूप विकल अशुद्ध उपयोग है । इस रीतिसे शुद्ध तथा अशुद्ध भेदसे उपयोग दो प्रकारका है । अव्यक्त (अस्पष्ट) सुखदुःखानुभवस्वरूप कर्मफलचेतना तथा मतिज्ञानसे आदि लेकर मनः-पर्यय पर्यन्त चारों ज्ञानरूप अशुद्ध उपयोग तथा निजचेष्टापूर्वक इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे संपूर्ण रागद्वेष रूपसे जो परिणाम हैं वह कर्मचेतना है, केवल ज्ञानरूप शुद्ध चेतना है । इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणका धारक उपयोग तथा चेतना ये जिसमें नहीं हैं वह अजीव है इस प्रकार जानना चाहिये । “पुगल धमो अधम्म आयासं कालो” और वह अजीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यके भेदसे पाच प्रकारका है । पूरण तथा गलन स्वभाव सहित होनेसे पुद्गल कहा जाता है, अर्थात् पूणे करने और छोड़नेका स्वभाव जिसमें है वह पृथिवी आदि सब पुद्गल पर्याय है । तथा क्रमसे गति, स्थिति, अवगाह और वर्त्तना लक्षण सहित धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चारों द्रव्य हैं, अर्थात् गतिलक्षण धर्म, स्थितिलक्षण अधर्म, अवगाह देनेके लक्षणका धारक आकाश तथा वर्त्तना लक्षण युक्त कालद्रव्य है । “पुगल मुत्तो” पुद्गल मूर्त्त है । क्योंकि वह “रूवादिगुणो” रूप आदि गुणोंसे सहित है । “अमुत्ति सेसा हु” पुद्गलके बिना बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों रूप आदि गुणोंका अभाव होनेसे अमूर्त्त हैं । जैसे अनन्त ज्ञान, अनन्त

सावारणं तथा रूपरसगन्वस्पर्शगुगचतुष्टयं सर्वपुद्गलसाधारणं, यथा च शुद्धदुद्धेकस्व-  
भावसिद्धजीवे अनन्तचतुष्टयमतीन्द्रियं तथैव शुद्धपुद्गलपरमाणुद्रव्ये रूपादिचतुष्टयमती-  
न्द्रियं । यथा रागादिस्तेहरुणेन कर्मवन्धावस्थाया ज्ञानादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं तथा स्तिर्ग-  
रुक्षत्वगुणेन दृष्ट्युक्तादिवधावस्थाया रूपादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं । यथा नि स्तेहनिजपरमा-  
त्मभावनावलेन रागादिस्तिर्गत्वाविनाशो सत्यन-तचतुष्टयस्य शुद्धत्वं तथा जघन्यगुणानां  
वन्धो न भवतोति वचनात्परमाणुद्रव्ये स्तिर्गरुक्षत्वगुगस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतु-  
ष्टयस्य शुद्धत्वमवबोद्धव्यमित्यमिप्रायः ॥१५॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान्प्रतिपादयति;—

सद्गो वन्धो मुहुमो यूलो संठाण भेद तम छाया ।

उज्जादादवसहिया पुगलद्रव्यस्म पज्जाया ॥१६॥

व्याख्या-शब्दवन्धसौक्ष्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमङ्गायातपोशोत्तसहिताः पुद्गलद्रव्यस्य  
पर्याया भवति । अथ विस्तरः—भाषात्मकोऽभाषात्मकञ्च द्विविवः शब्दः । तत्रा-  
शरानक्षरात्मकभेदेन भाषात्मको द्विवा भवति । तत्राप्यक्षरात्मक स्तुकृतप्राकृताप्रभ्रंशपैशा-

---

दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य वे चारों गुण सब जीवोंमें साधारण हैं; उसी प्रकार  
रूप, रस, गंध तथा स्पर्श वे चार गुण सब पुद्गलोंमें साधारण हैं। और जैसे शुद्ध शुद्ध  
एक स्वभावके धारक सिद्ध जीवमें अनन्त चतुष्टय अतीन्द्रिय है; उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल  
परमाणु द्रव्यमें रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। जैसे राग आदि स्तेह गुणसे कर्मवन्धा-  
वस्थामें ज्ञान, दर्शन, सुख तथा वीर्य इन चारोंकी अगुद्धता है; उसी प्रकार स्तिर्गरुक्षत्व  
गुणसे दृष्ट्युक्त आदि वंधावस्थामें रूप आदि चतुष्टयकी अगुद्धता है। जैसे स्तेहरहित निज  
परमात्माकी भावनाके बलसे राग आदि स्तिर्गताका विनाश होनेपर अनन्त चतुष्टयका  
शुद्धत्व है, वैसे “जघन्य गुणोंका वन्ध नहीं होता है”, इस वचनसे परमाणु द्रव्यमें स्तिर्ग  
रुक्षत्व गुणकी जघन्यता होनेपर रूप आदि चतुष्टयका शुद्धत्व समझता चाहिये, यह  
अमिप्राय है ॥१५॥

अब पुद्गल द्रव्यके विभाव व्यंजन पर्यायोंका प्रतिपादन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—शब्द, वन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, चूदोत और  
आतप इन सहित लो हैं वे सब पुद्गल द्रव्यके पर्याय हैं ॥१६॥

व्याख्यार्थः—शब्द, वन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, चूदोत और  
आतप इन सहित पुद्गल द्रव्यके पर्याय होते हैं। अब इस विषयको विस्तारसे कहते हैं-  
भाषात्मक तथा अभाषात्मक इस प्रकार शब्द दो प्रकारका है। उनमें भी स्तुकृत, प्राकृत तथा चनके  
अपभ्रंशरूप पैशाची आदि भाषाओंके भेदसे आर्य, स्तेच्छ मनुष्योंके व्यवहारका कारण

चिकादिभाषाभेदेनार्थम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्च्छुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादि-  
तिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च । अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्रसिकभेदेन द्विविधः ।  
“ततं वीणादिकं ज्ञेय विततं पटद्वादिकम् । घनं तु कांस्यताडादि वंशादि सुषिरं विदुः । १ ।” इति श्लोककथितकमेण प्रयोगे भवः प्रायोगिकश्चतुर्वर्धा भवति । विश्रसा स्वभावेन  
भवो वैश्रसिको मेवादिप्रभवो बहुधा । किञ्च उब्दातोत्तिजपरमात्मभावनाच्युतेन शब्दा-  
दिमनोजामनोज्ञपञ्चेन्द्रियविषयासक्तेन च जीवेन यदुपार्जितं सुस्वरदुःस्वरनामकर्म तदु-  
दयेन यद्यपि जीवे उब्दां दृश्यते तथापि स जीवसंयोगेनोत्पन्नत्वाद् व्यवहारेण जीव-  
उब्दो भण्यते, निश्चयेन पुनः पुद्गलस्वरूप एवेति । वन्धः कथ्यते—मृत्यिण्डादिरूपेण  
योऽसौ बहुधा वन्धः स केवलः पुद्गलवन्धः, यस्तु कर्मनोकर्मरूपः स जीवपुद्गलसंयोग-  
वन्धः । किञ्च विशेष—कर्मवन्धपृथग्भूतस्वगुद्धात्मभावनारहितजीवस्यानुपचरितासद्भू-  
तव्यवहारेण द्रव्यवन्ध, तथैवाशुद्धनिश्चयेन योऽसौ रागादिरूपो भाववन्धः कथ्यते  
सोऽपि शुद्धनिश्चयनयेन पुद्गलवन्ध एव । विल्वाद्यपेक्षया वदरादीनां सूक्ष्मत्वं, परमाणोः  
साक्षादिति । वदराद्यपेक्षया विल्वादीनां स्थूलत्वं, जगद्व्यापिनि महासकन्धे सर्वोक्तुष्ट-

अक्षरात्मक भेद भी अनेक प्रकारका है । और अनक्षरात्मक भेद द्वीन्द्रिय आदि त्रिस जीवोंमें  
तथा सर्वज्ञकों दिव्य ध्वनिमें है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक तथा वैश्रसिक भेदसे  
दो प्रकारका है । उनमें “वीणा आदिसे उत्पन्न उब्दको तेत, ढोल आदिसे उत्पन्न उब्दको  
वितत, मंजीरे तथा तालसे उत्पन्न हुए उब्दको घन और बासके छिर आदिसे अर्थात्  
वंजी आदिसे उत्पन्न उब्दको सुषिर कहते हैं,” इस श्लोकमें कथित क्रमके अनुसार प्रायो-  
गिक ( प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाला ) उब्द चार प्रकारका है, और विश्रसा अर्थात् स्वभावसे  
उत्पन्न वैश्रसिक उब्द जो कि मेघ आदिसे उत्पन्न होता है वह अनेक प्रकारका है ।  
विशेष यहां यह है कि उब्दसे रहित जो निज परमात्मा है उसकी भावनासे गिरे हुए  
और उब्द आदि जो मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्त  
हुए जीवने जो सुस्वर तथा दुःस्वर नामकर्मका उपार्जन किया उस कर्मके उदयसे यद्यपि  
जीवमें उब्द दीख पड़ता है तथापि वह उब्द जीवके सयोगसे उपन्न होनेके कारण  
व्यवहार नयसे जीवका उब्द कहा जाता है और निश्चयनयसे तो वह उब्द पुद्गलस्वरूप  
ही है । अब उंधका निरूपण करते हैं—मृत्यिका आदिके पिंडरूपसे जो घट, गृह, मोदक  
आदि वंध है वह तो केवल पुद्गलवध ही है और जो कर्म नोकर्म रूप वंध है वह जीव  
तथा पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न वंध है । और यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि कर्म-  
वंधसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्मा है उसकी भावनासे रहित जीवके अनुपचरित असद्भूत  
व्यवहार नयसे द्रव्य वंध है, और इसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नयका अपेक्षासे, जो यह  
रागादिरूप भाववंध कहा जाता है वह भी शुद्ध निश्चयनयसे पुद्गलका ही वंध है । विल्व-  
फल (विल) आदिकी अपेक्षा वदर (विर) आदि फलोंमें सूक्ष्मता है और परमाणुमें साक्षात्

मिति । समचतुरस्तन्यप्रोघसातिककुञ्जवामनहुण्डभेदेन पट्प्रकारसंस्थानं यद्यपि व्यवहा-रनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यस्थानाच्चिद्भूत्कारपरिणतेर्भिन्नत्वान्निश्चयेन पुद्गलसंस्थान-मेव । यदपि जीवादन्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुर्ष्कोणादिव्यक्तान्यक्तरूपं वहुधा संस्थानं तदपि पुद्गल एव । गोधूमादिचूर्णरूपेण धृतखण्डादिरूपेण वहुधा भेदो ज्ञातव्यः । दृष्टिप्रतिवन्धकोऽन्धकारस्तम हति भण्यते । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिविम्बरूपा च छाया विज्ञेया । उद्योतश्चन्द्रविमाने खद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति । आतप आदित्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषान्ते पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः । अयमज्ञाथे-यथा जीवस्य शुद्धनिश्चयेन स्वात्मोपलक्षित्वलक्षणे सिद्धस्वरूपे स्वभावव्यञ्जनपर्याये विद्यमानेऽप्यनादि-कर्मवन्धवशान् स्तिर्घरूपस्थानीयरागद्वेषपरिणामे सति स्वभाविकपरमानन्दैकलक्षण-स्वास्थ्यभावभ्रष्टस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति तथा पुद्गलस्यापि निश्चय-नयेन शुद्धपरमाणवस्थालक्षणे स्वभावव्यञ्जनपर्याये सत्यपि स्तिर्घरूपस्त्वाद्रन्धो भवतीति वचनादागद्वेषस्थानीयवन्धयोग्यस्तिर्घरूपस्त्वपरिणामे सत्युक्तलक्षणाच्छब्दादन्येऽपि आग-

- सूक्ष्मता है अर्थात्- वह किसीकी अपेक्षासे नहीं है ऐसी सूक्ष्मता है । बदर आदि फलोंकी अपेक्षा त्रिलक्ष आदि फलोंमें स्थूलत्व ( वडापना ) है और तीन लोकमें व्याप महास्कन्धमें सर्वोत्कृष्ट ( सबसे अधिक ) स्थूलत्व है । समचतुरस्त ( चतुर्ष्कोण ), न्यप्रोघ, सातिक, कुञ्ज, वामन और हुंड इन भेदोंसे पट् ६ प्रकारका संस्थान यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके हैं तथापि संस्थानशून्य जो चेतनचमत्कार परिणाम है उससे भिन्न होनेके कारण निश्चयकी अपेक्षासे पुद्गलका ही संस्थान है, और जो जीवसे अन्य स्थानोंमें गोल त्रिकोण, चौकोर आदि प्रकट तथा अप्रकट रूप अनेक प्रकारका संस्थान है वह भी पुद्गलमें ही है । गोधूम ( गेहू ) आदिके चून रूपसे तथा धी, खाड आदि रूपसे अनेक प्रकारका भेद जानना चाहिये । दृष्टिका प्रतिवन्धक ( रोकनेवाला ) जो अंधकार है उसको तम कहते हैं । वृक्ष आदिके आश्रयसे होनेवाली तथा मनुष्य आदिके प्रतिविम्बरूप जो है वह छाया जाननी चाहिये । चन्द्रमाके विमानमें तथा खद्योत ( जुगनू व आम्या ) आदि तिर्यग्जीवोंमें उद्योत होता है । सूर्यके विमानमें तथा और इससे भिन्न जो सूर्यकान्त आदि मणिके भेद हैं उन रूप पृथ्वीकायमें आतप जानना चाहिये । यहांपर यह आशय है कि जैसे शुद्धनिश्चयनयसे जीवके निज आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्ध स्वरूपमें स्वभाव व्यञ्जन-पर्याय विद्यमान है तो भी अनादि-कालके कर्मवन्धनके बशसे पुद्गलके स्तिर्घरूप तथा रूपगुणके स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होनेपर स्वभाविक परमानन्दरूप स्वास्थ्य भावसे भ्रष्ट हुए जीवके मनुष्य, नारक आदि विभाव व्यञ्जन पर्याय होते हैं, उसी प्रकार पुद्गलके भी निश्चय नयसे शुद्ध परमाणु अवस्थारूप स्वभाव व्यञ्जन पर्यायके विद्यमान होते हुए भी “स्तिर्घरूप तथा रूपस्तासे वंध होता है,” इस वचनसे राग और द्वेषके स्थानको प्राप्त हुए स्तिर्घरूप तथा रूपस्त्वपरिणामके होनेपर पूर्वोक्त लक्षण शब्द आदिके अतिरिक्त अन्य भी

मोक्षलक्षणा आकुञ्चनप्रसारणदधिदुग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्याः । एवम-  
जीवाधिकारमध्ये पूर्वसूत्रोदितरूपादिगुणचुष्टययुक्तस्य तथैवात्र सूत्रोदितशब्दादिपर्याय-  
सहितस्य संक्षेपेणाणुस्कन्धभेदमिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथा-  
द्वयं गतम् ॥१६॥

अथ धर्मद्रव्यमाल्याति,—

गद्धपरिणयाण धर्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।

तोयं लह मच्छाणं अच्छंताणेव सो ऐर्ड ॥१७॥

व्याख्या—गतिपरिणतानां धर्मों जीवपुद्गलानां गमनसहकारिकारणं भवति । हृष्टान्त-  
माह—तोय यथा मत्स्यानाम् । स्त्रयं तिष्ठतो नैव स नयति तानिति । तथाहि—यथा  
सिद्धो भगवान्मूर्त्तोऽपि निष्क्रियस्तयैवाप्रेरकोऽपि सिद्धवृद्धनन्तत्रानादिगुणमवृहोऽइमि-  
त्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्ताना निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपस्वरूपीयोपा-  
दानकारणपरिणतानां भज्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति । तथा निष्क्रियोऽमूर्त्तो-

शास्त्रोक्त लक्षणके धारक आकुञ्चन, प्रसारण, दधि, तथा दुग्ध आदि विभावव्यञ्जन-  
पर्याय जानने चाहिये ॥

इस प्रकार अजीव अधिकारके मध्यमें “अजीवो” इत्यादि पूर्वसूत्रमें कथित रूप, रस  
आदि चार गुणोंसे युक्त तथा इस “सहो वंधो” इत्यादि सूत्रमें कथित जो शब्द वंध आदि  
पर्याय हैं उन सहित तथा अग्न, स्कन्ध आदि भेदोंसे मिन्न जो पुद्गलद्रव्य है उसका  
संक्षेपसे मुख्यपनेसे निखण्ण करनेके द्वारा प्रथम स्थलमें दो गाथायें समाप्त हुईं ॥१६॥

अब धर्मद्रव्यकी व्याख्या करते हैं;—

**गाथाभावार्थः**—गति (गमनमें) परिणत जो पुद्गल और जीव हैं उनके गमनमें  
धर्मद्रव्य सहकारी हैं, जैसे मत्स्योंके गमनमें जल सहकारी है । और नहीं गमन करते हुए  
पुद्गल और जीवोंको वह धर्मद्रव्य कहापि गमन नहीं करता है ॥१७॥

**व्याख्यार्थः**—गतिमें परिणत अर्थात् गमनक्रियासहित जीव तथा पुद्गलोंके धर्म-  
द्रव्य गमनमें सहकारी कारण अर्थात् गतिमें सहायक होता है । इसमें हृष्टान्त देते हैं कि  
जैसे मत्स्योंके गमन करनेमें जल सहायक है । परन्तु स्वयं ठहरे हुए जीव पुद्गलोंको वह  
धर्मद्रव्य गमन नहीं करता है । अब इस विषयको अन्य हृष्टान्त द्वारा पुष्ट करते हैं । जैसे  
सिद्ध भगवान् अमूर्त्त हैं, क्रियारहित हैं तथा किसीको प्रेरणा करनेवाले भी नहीं हैं, तो भी  
“मैं सिद्धोंकी भाँति अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप हूँ” इत्यादि व्यवहारसे सविकल्प सिद्ध-  
भक्तिके धारक और निश्चयसे निर्विकल्प व्याख्यानरूप अपने उपादान कारणसे जो परिणत हैं ऐसे  
भव्यजीवोंके वे सिद्ध भगवान् सिद्ध गतिमें सहकारी कारण होते हैं । इसी प्रकार क्रिया-  
रहित, अमूर्त्त और प्रेरणारहित जो धर्मस्थिकाय है वह भी अपने उपादान कार-

निष्प्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहका-  
रिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादिवदित्यभिप्रायः ॥ एवं धर्म-  
द्रव्यव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥१७॥

अथ धर्मद्रव्यमुपदिशति;—

ठाणजुदाण अधम्मो पुगलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाणं गच्छंता ऐव सो धरई ॥ १८ ॥

व्याख्या-स्थानयुक्तानामधर्मः पुद्गलजीवानां स्थितेः सहकारिकारणं भवति । तत्र  
दृष्टान्तः—छाया यथा पथिकानाम् । स्वयं गच्छतो जीवपुद्गलान्स नैव धरतीति ।  
तथा—स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूपं परमस्वास्थ्य यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिका-  
रणं भवति तथा “सिद्धोऽहं सुद्धोऽहं अणतणाणादिगुणसमिद्धोऽहं । देहप्राणो णिञ्चो  
असखदेसो अमुत्तो य । १ ।” इति गाथाकथितसिद्धभक्तिलेणेह पूर्वं सविकल्पावस्थायां  
सिद्धोऽपि यथा भव्याना वहिरङ्गसहकारिकारण भवति तथैव स्वकीयोपादानकारणेन  
स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानामधर्मद्रव्यं स्थितेः सहकारिकारणम् । लोकःयवद्वारेण तु  
छायावद्वा प्रयिवीवद्वेति सूत्रार्थः ॥ एवमधर्मद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥१८॥

पौसे गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनका सहकारी कारण होता है । लोकमे  
प्रसिद्ध ऐसे दृष्टान्तसे तो जैसे मत्स्य आदिके गमनमें जल आदि सहकारी कारण हैं वैसे ही  
जीव पुद्गलके गमनमें धर्मद्रव्य सहकरी कारण हैं ऐसा जानना चाहिये । यह अभिप्राय है ॥  
इस प्रकार धर्मद्रव्यके व्याख्यान रूपसे यह गाथा भमाप्त हुई ॥१७॥

अब अधर्मद्रव्यका उपदेश करते हैं,—

गाथाभावार्थः—स्थितिसहित जो पुद्गल और जीव हैं उनको स्थितिमें सहकारी  
कारण अधर्म द्रव्य हैं, जैसे पथिकों ( बटोहियों ) की स्थितिमें छाया सहकारी है । और  
गमन करते हुए जीव तथा पुद्गलोंको वह अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता है ॥१८॥

व्याख्यार्थः—स्थितिसहित जो पुद्गल तथा जीव हैं उनकी स्थितिमें सहकारी कारण  
अधर्म द्रव्य हैं । उसमें दृष्टान्त—जैसे छाया पथिकोंकी स्थितिमें सहकारी कारण है ।  
और स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलोंको वह अधर्म द्रव्य कशापि नहीं ठहराता है । जो  
ऐसे हैं—यद्यपि निश्चयसे अपने आत्मज्ञानसे उत्पन्न सुखामृतरूप जो परमस्वास्थ्य है वह  
निजरूपमें स्थितिका कारण होता है, परन्तु “मैं सिद्ध हू, शुद्ध हू, अनन्त ज्ञान आदि  
गुणोंका धारक हू, शरीरप्रमाण हू, नित्य हू, असंख्यात प्रदेशोंका धारक हू तथा अमूर्त  
हू । १ ।” इस गाथामें कहीहुई सिद्धभक्तिके रूपसे इस संसारमें पहले सविकल्प अव-  
स्थामें सिद्ध भी जैसे भव्य जीवोंके वहिरंग सहकारी कारण होते हैं उसी प्रकार अपने २  
उपादान कारणसे स्वयं ही ठहरते हुए जीव पुद्गलोंके अधर्म द्रव्य स्थितिका सहकारी

अथाकाशद्रव्यमाह,—

अवगासदाणजोग्यं लीवादीणं विद्याण आयासं ।

जेण्हं लोगागासं अज्ञोगागासमिदि दुविहं ॥१९॥

**व्याख्या**—जीवादीनामवकाशदानयोग्यमाकाशं विजानीहि हे शिष्य ! कि विशिष्ट “जेण्हं” जिनस्येद जैनं, जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । तब लोकालोकाकाशभेदेन द्विविध-मिति । इदानीं विस्तर —सहजशुद्धसुखाभूतरसास्वादेन परमसमरसीभावेन भरिताव-स्येषु केवलज्ञानाद्यनन्तरुणाधारभूतेषु लोकाकाशप्रमितासस्त्वेयस्वकीयशुद्धप्रदेशेषु यद्यपि निश्चयनयेन सिद्धास्तिष्ठन्ति, तथाप्युपचरितासङ्गतव्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यते इत्युक्तोऽस्ति । स च ईदृशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परमध्यानेनात्मा स्थितः सन् कर्म-दहितो भवति, तत्रैव भवति नान्यत्र । ध्यानप्रदेशे कर्मपुद्गलान् त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमनस्व-भावेन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्ने तिष्ठन्तीति तत उपचारेण लोकाग्रमपि मोक्षः प्रोच्यते । यथा तीर्थंभूतपुरुषसेवितस्थानमपि भूमिजलादिरूपमुपचारेण तीर्थं भवति । सुखवोधार्थं कथितमास्ते यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु

कारण होता है, और लोकके व्यवहारसे जैसे छाया अथवा पृथिवी ठहरते हुए परिकोक्ती स्थितिमें सहकारी होती है वैसे ही स्वयं ठहरते हुए जीवपुद्गलोंकी स्थितिमें अधर्म द्रव्य स्थितिमें सहकारी होता है । यह सूत्रका भावार्थ है ॥ १८ ॥

अब आकाश द्रव्यका कथन करते हैं;—

**गाथामावार्थः**—जो जीव आदि द्रव्योंको अवकाश देनेवाला है उसको श्रीजिनेन्द्र करके कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो । वह लोकाकाश और अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारका है ॥१९॥

**व्याख्यार्थः**—हे शिष्य ! जीवादि द्रव्योंको अवकाश (रहनेको स्थान) देनेकी योग्यता जिसमें है उसको जिन भगवान् संबन्धी अथवा श्रीजिनेन्द्र करके कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो । और वह आकाश लोकाकाश तथा अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारका है । अब इसका वर्णन विस्तारसे करते हैं । स्वाभाविक तथा शुद्ध सुखरूप अभूतरसके आस्त्रादरूप परम समरसीभावसे पूर्ण अवस्थाओंसे युक्त तथा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंके आधारभूत होनेसे जो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात अपनी आत्माके प्रदेश हैं, उनमें यद्यपि निश्चयनयकी अपेक्षासे सिद्ध जीव निवास करते हैं, तथापि उपचरित असङ्गत व्यवहार-नयसे सिद्ध मोक्षशिलामें रहते हैं ऐसा कहा जाता है । यह पहले कह चुके हैं । और वह ऐसा मोक्ष जिस प्रदेशमें आत्मा परमध्यान युक्त होकर कर्मरहित होता है वहां ही ही, अन्यत्र कहीं नहीं । ध्यान करनेके स्थानमें कर्म पुद्गलोंको छोड़कर तथा ऊर्ध्वगमन स्वभावसे

तिष्ठन्ति वथाद्युपचरितासद्गृतव्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीत्यभिप्रायो भगवतां श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥१९॥

तमेव लोकाकाशं विशेषेण दृढयति,—

धर्माऽवधर्मा कालो पुण्यलज्जीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो ततो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥ (.

**व्याख्या**—धर्माधर्मकालपुद्गलज्जीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोकः । तथा चोक्त—  
लोक्यन्ते दृढयन्ते जीवादिपदार्थां यत्र स लोक इति । तस्माज्ञोकाकाशात्परतो वहिर्भर्गे  
पुनरनन्तराकाशमलोक इति । अत्राह मोमाभिधानो राजश्रेष्ठो । हे भगवन् । केवलज्ञान-  
स्यानन्तरभागप्रमितमाकाशद्रव्यं तस्यात्प्रयनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशे लोकस्तिष्ठति । स  
चानादिनिधनं वेनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हृतो न धृतो न च रक्षित । तथैवासं-  
ख्यातप्रदेशस्तत्रासख्यातप्रदेशे लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः, लोकाकाश-  
प्रमितासंख्येयकालाणुद्रव्याणि प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्माधर्मद्रव्यमित्युक्तलक्षणाः  
पदार्थाः कथमवकाशं लभन्त इति ? भगवानाह—एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशव-

गमन कर मुक्त जीव जिस हेतुसे लोकके अग्रभागमे जाके निवास करते हैं उस हेतुसे  
लोकका जो अग्रभाग है वह भी उपचारसे मोक्ष कहलाता है । जैसे कि तीर्थभूत पुरुषोंकरके  
सेवित भूमि तथा जल आदिरूप स्थान भी उपचारसे तीर्थ होता है । यह वर्णन यहांपर  
शिष्योंको सुखसे समझानेके लिए किया गया है । जैसे सिद्ध निजप्रदेशोंमे रहते हैं उसी  
प्रकार निश्चयनयसे यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं, तथापि उप-  
चरित असद्गृत व्यवहार नयसे लोकाकाशमें सब द्रव्य तिष्ठते हैं ऐसा यहांपर भगवान्  
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिप्राय जानना चाहिये ॥१९॥

अब उसी लोकाकाशको विशेषणरूपसे दृढ करते हैं,—

**गाथोभावार्थः**—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये पांचों द्रव्य जितने आका-  
शमें हैं वह तो लोकाकाश है और उस लोकाकाशके आगे अलोकाकाश है ॥२०॥

**व्याख्यार्थः**—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल तथा जीव ये पांचों द्रव्य जितने आकाशके  
भागमें रहते हैं उतने आकाशके भागका नाम लोक अथवा लोकाकाश है । ऐसा कहा भी  
है कि—जहांपर जीव आदि पदार्थ देखनेमे आते हैं वह लोक है । उस लोकाकाशसे परे  
अर्थात् वाह भागमे जो अनन्त आकाश है वह अलोक अथवा अलोकाकाश है । अब  
यहांपर मोम है नाम जिसका ऐसा राजश्रेष्ठो प्रभ करता है कि हे भगवन् । केवल ज्ञानका  
जो अनन्त भाग है उस प्रमाण तो आकाश द्रव्य है और उस आकाशके अनन्त भागों-  
मेंसे एक भागमे सबके बिचले भागमे लोक है और वह लोक आदि तथा अन्तसे रहित  
है, न किसी पुरुषका बनाया हुआ है, न किसीसे विनाशित है, न किसीसे धारण किया

देक्षगूढरसनागगद्याणके वहुसुवर्णवद्धस्मधटमध्ये सूचिकोष्ठद्वयदित्यादिष्टान्तेन विशि-  
ष्टवगाहनशक्तिवाशदसंख्यातप्रदेशोऽपि लोकेऽवस्थानमवगाहो न विरुद्ध्यते । यदि पुनरि-  
त्थंभूतावगाहनशक्तिर्भवति तर्हसंख्यातप्रदेशोष्वसंख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा  
सति सबे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण निरावरणः शुद्धबुद्धैकस्वभावास्तथा  
व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि, न च तथा प्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाच्छेति । एवमाकाश-  
द्रव्यप्रतिपादनरूपेण सूत्रद्वयं गतम् ॥२०॥

अथ निश्चयव्यवहारकालस्वरूपं कथयति,—

द्रव्यपरिवद्वरूपो जो सो कालो हवेइ ववहारो ।

परिणामादीलक्खो वद्वृणलक्खो य परमद्वो ॥२१॥

व्यास्त्य—“द्रव्यपरिवद्वरूपो जो” द्रव्यपरिवर्त्तरूपो यः “सो कालो हवेइ ववहारो”  
स कालो भवति व्यवहाररूपः । स च कथंभूतः “परिणामादीलक्खो” परिणामक्रिया-

हुआ है और न किसीसे रक्षा किया हुआ है । और असंख्यात प्रदेशोंका धारक है । उस  
असंख्यात प्रदेशोंके धारक लोकमें अनन्तों जीव, अनन्त गुणे पुद्गल, लोकाकाश-प्रमाण-  
असंख्यात कालाणु द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण धर्मद्रव्य तथा लोकाकाश प्रमाण ही अधर्मद्रव्य  
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक पदार्थ कैसे अवकाशको प्राप्त होते हैं ? इस शंकाका उत्तर  
कृपा कर दीजिये । अब भगवान् इसके उत्तरमें कहते हैं कि जैसे एक दीपकके प्रकाशमें  
अनेक दीपोंका प्रकाश अवकाशको पाता है उस तरह, अथवा जैसे एक गूढ़ रसविशेषसे  
भरे हुए शीशेके भाँडमें वहुतसा सुवर्ण अवकाश पाता है उस प्रकार, अथवा भस्मसे भरे  
हुए घटमें जैसे सूई और ऊटनीका दूध आदि समाजाते हैं उस प्रकार विशिष्ट अवगाहन  
शक्तिके बशसे असंख्यात प्रदेशवाले लोकमें पूर्वोक्त जीव पुद्गलादिकोंका रहना विरोधको  
प्राप्त नहीं होता । और यदि इस प्रकार अवगाहनशक्ति न हो तो लोकके असंख्यात  
प्रदेशोंमें असंख्यात परमाणुओंका हो निवास हो । और ऐसा होनेपर जैसे शक्तिरूप शुद्ध  
निश्चयनयसे सब जीव आवरणरहित तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारक हैं; वैसेही व्यक्ति-  
रूप व्यवहारनयसे भी हो जाय, और ऐसे हैं नहीं । क्योंकि इस माननेमें प्रत्यक्षसे और  
आगमसे विरोध है ॥ इस प्रकार आकाश द्रव्यके निरूपणसे दो सूत्र चरितार्थ हुए ॥२०॥

अब निश्चयकाल तथा व्यवहारकालके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

गाथामावार्थः—जो द्रव्योंके परिवर्त्तन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है वह  
तो व्यवहारकाल है और वर्तना लक्षणका धारक जो काल है वह “निश्चयकाल  
है ॥२१॥

व्याख्यार्थः—“द्रव्यपरिवद्वरूपो जो” जो द्रव्य परिवर्त्तरूप है “सो कालो हवेइ  
ववहारो” वह व्यवहाररूप काल होता है । और वह कैमा है कि “परिणामादीलक्खो”

परत्वापरत्वेन लक्ष्यत इति परिणामादिलक्ष्यः । इदानीं निश्चयकालः कथयते—“वद्वृण-  
द्वक्षेत्रो य परमटो” वर्त्तनालक्षणश्च परमार्थकाल इति । तथा—जीवपुद्गगलयोऽपरिवर्त्तो  
नवजीर्णपर्यायस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थितिः स्वरूपं यस्य स भवति द्रव्यपर्याय-  
रूपो व्यवहारकालः । तथा चोक्तं सस्कृतप्राभृतेन—“स्थितिः कालसंज्ञका” तस्य पर्या-  
यस्य संबन्धिनी याऽसौ समयघटिकादिरूपा स्थिति सा व्यवहारकालसंज्ञा भवति त  
च पर्याय इत्यभिप्रायः । यत एव पर्यायसंबन्धिपरिणामेन पर्यायेण तथैव देशान्तरचलनरूपया गोदोहनपाकादि-  
परिस्पन्दलक्षणरूपया वा क्रियया तथैव दूरासन्नचलनकालकृतपरत्वापरत्वेन च लक्ष्यते  
ज्ञायते यः स परिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्षण इत्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमाह ।  
स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेवपरिणाममानाना पदार्थानां कुन्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावत्,  
शीतकालाध्ययने अग्निवत्, पदार्थपरिणामेत्यहकारित्वं सा वर्त्तना भण्यते । सैव लक्षणं  
यस्य स वर्त्तनालक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालः । इति व्यवहारकालस्वरूप निश्चय-  
कालस्वरूपं च विज्ञेयम् । कश्चिदाह “समयरूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्यः कालाणुद्र-  
व्यरूपो निश्चयकालो नास्यदर्शनात् ।” तत्रोत्तरं दीयते—समयस्तावत्कालस्तस्यैव पर्यायः ।

परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वसे जाना जाता है, इसलिये परिणामादिलक्ष्य है । अब निश्चयकालका कथन करते हैं । “वद्वृणलक्ष्मेत्रो य परमटो” जो वर्त्तनालक्षण काल है वह परमार्थ (निश्चय) काल है ॥ अब इस व्यवहार तथा निश्चयकालका विस्तारसे वर्णन इस प्रकार है, जैसे—जीव तथा पुद्गगलका परिवर्त्त जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है उस पर्यायकी जो समय, घटिका आदिरूप स्थिति है वही जिसका स्वरूप है वह द्रव्यपर्यायरूप व्यवहारकाल है । सोही सस्कृतप्राभृतने कहा भी है कि “स्थिति जो है वह कालसंज्ञक है” । तात्पर्य यह है कि उस द्रव्यके पर्यायसे मध्यन्ध रखनेवाली जो समय, घटिका आदिरूप स्थिति है वह स्थिति ही “व्यवहारकाल” इस सज्जाकी धारक होती है और वह जो द्रव्यका पर्याय है सो व्यवहारकाल संज्ञाको नहीं धारण करता । और जो पर्यायसंबन्धिनी स्थिति “व्यवहारकाल” इस नामको धारण करती है इसी कारणसे जीव तथा पुद्गगल संधी परिणाम रूप पर्यायसे, तथा देशान्तरमें संचलन रूप अथवा गोदोहन, पाक आदि परिस्पन्दलक्षणको धारक क्रियासे तथा दूर वा समीप देशमें चलन रूप कालकृत परत्व तथा अपरत्वसे यह काल जाना जाता है, इसीलिये वह काल, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरत्व लक्षणका धारक कहा जाता है । अब द्रव्यरूप निश्चयकालका कथन करते हैं । अपने अपने उपादानरूप कारणसे स्वयं ही परिणामनको प्राप्त होते हुए पदार्थोंके जैसे कुभकारके चक्र (चाक) के भ्रमणमें उसके नीचेकी शिला सहकारिणी है उस प्रकार, अथवा शीतकाल (जाड़े) के पड़नेमें अग्नि सहकारी है उस प्रकार जो पदार्थपरिणामिमें सहकारिता है उसीको वर्त्तना कहते हैं, और वह वर्त्तना हो हे लक्षण जिसका सो वर्त्तना

स कथं पर्यायः इति चेत्, पर्यायस्योत्पन्नप्रध्वंसित्वात्। तथाचोक्त “समओ उपण्णण पद्धंसी” स च पर्यायो द्रव्यं विना न भवति, पश्चात्तस्य समयरूपपर्यायकालस्थोपादानकारणभूतं द्रव्यं तेनापि कालरूपेण भाव्यम् । इन्धनाग्रिसहकारिणोत्पन्नस्यौदनपर्यायस्य तन्दुलोपादानकारणवत् । अथ कुम्भकारचक्रचीवरादिवहिरङ्गनिमित्तोत्पन्नस्य मृत्युघटपर्यायस्य मृत्यिष्ठोपादानकारणवत् । अथवा नरनारकादिपर्यायस्य जीवोपादानकारणवदिति । तदपि कस्मादुपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति वचनात् । अथ मतं “समयादिकालपर्यायाणां कालद्रव्यमुपादानकरणं न भवति, किन्तु समयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुस्तथा निमेषकालोत्पत्तौ नयनपुटविघटनं, तथैव घटिकाकालपर्यायोत्पत्तौ घटिकासामग्रीभूतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारो, दिवसपर्याये तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति । नैवम् । यथा तन्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य सदोदनपर्यायस्य शुक्लकृष्णादिवर्णा, सुरभ्युरभिगन्ध - स्निग्धरूक्षादिस्पर्श—मधुरादिरसविशेषरूपा गुणा हृश्यन्ते । तथा

उक्षणका धारक कालाणु द्रव्यरूप निश्चय काल है । इस प्रकार व्यवहारकालका तथा निश्चयकालका स्वरूप जानना चाहिये । यहा कोई कहता है कि समयरूप ही निश्चयकाल है । उस समयसे भिन्न कालाणु द्रव्य रूप कोई निश्चयकाल नहीं है । क्योंकि देखनेमें नहीं आता ॥ अब इसका उत्तर देते हैं कि समय जो है सो तो कालका ही पर्याय है । कदाचित् कहो कि समय कालका पर्याय कैसे है ? तो उत्तर यह है कि पर्याय जो है सो “समओ उपण्णण पद्धंसी” इस आगमोक्त वाक्यके अनुसार उत्पन्न होता है और नाशको प्राप्त होता है और वह पर्याय द्रव्यके विना नहीं होता और फिर यदि समयको ही काल मानलो तो उस समयरूप पर्याय कालका उपादान कारणभूत जो द्रव्य है उसको भी कालरूप ही होना चाहिये । क्योंकि जैसे इंधन, अग्नि आदि सहकारी कारणसे उत्पन्न ओदन पर्याय ( पके चावल ) का उपादान कारण चावल ही होता है; अथवा कुम्भकार, चाक, चीवर आदि वहिरंग निमित्त कारणोंसे उत्पन्न जो मृत्तिकादि रूप घट पर्याय है उसका उपादान कारण मृत्तिकाका पिंड ही है, वा नर नारक आदि जो जीवके पर्याय हैं उनका उपादान कारण जीव ही है, ऐसे ही समय घटिका आदि रूप कालका भी उपादान कारण काल ही होना चाहिये । यह नियम भी क्यों माना गया है कि “अपने उपादान कारणके समान ही कार्य होता है” ऐसा वचन है । अब कदाचित् तुम्हारा ऐसा मत हो कि “समय, घटिका आदि कालपर्यायोंका उपादान कारण कालद्रव्य नहीं है किन्तु समय रूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमें मन्दगतिमें परिणत पुद्गल परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेषरूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमें नेत्रोंके पुटोंका विघटन अर्थात् पलकका गिरना उठना उपादान कारण है, ऐसे ही घटिका रूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमें घटिकाकी सामग्रीरूप जो जलका भाजन और पुरुषके हस्त आदिका व्यापार है वह उपादान कारण है और दिनरूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमें सूर्यका विम्ब उपादान कारण होता है, इत्यादि । सो यह मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि जैसे

पुद्गलपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाजनपुरुषव्यापारादिदिनकरविम्बरूपैः पुद्गलपर्यायैरु-  
पादानभूतैः समुत्पन्नानां समयनिमिपवटिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्लकृष्णादिगुणाः  
प्राप्तुवन्ति न च तथा । उपादानकारणसदृश कार्यमिति वचनात् । किं बहुना । योऽसा-  
वनाद्यनिधनस्तव्येवाभूत्तो नित्यः समयादुपोदानकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितः  
कालाणुद्रव्यरूपः स निश्चयकालो, यस्तु सादिसान्तसमयघटिकाप्रहरादिविवक्षितव्यवहा-  
रविकल्परूपमत्त्वं द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवहारकाल इति । अयमत्र भावः—  
यद्यपि काललक्ष्यविशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनि-  
जपरमात्मतत्त्वस्य सम्यक्श्रद्धानद्वानानुष्टानसमस्तवहिर्द्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरणरूपा  
या निश्चयचतुर्विधाराधना संबंधे तत्रोपादानकारणं आत्मव्यं न च कालस्तेन स हेय इति ॥२६॥

अथ निश्चयकालस्यावस्थानक्षेत्रं द्रव्यनाणनां च प्रतिपादयति,—

लोयायोसपदेसे इक्षिके ले ठिया हु इक्षिका ।

रयणाणं रामी इव ते कालाणु असंखदच्चापि ॥२७॥

तन्दुल ( चावल ) रूप उपादान कारणसे उत्पन्न जो ओढन ( भात ) पर्याय है उसके निज  
उपादान कारणमें प्राप्त गुणोंके समान ही शुक्ल, कृष्ण आदि वर्ण, अच्छा वा बुरा गन्ध,  
चिकना अथवा रुखा आदि स्पर्श, मधुर आदि रस, इत्यादि विशेष गुण देख पड़ते हैं;  
वैसे ही पुद्गल परमाणु, नयनपुटविघटन, जलभाजन, पुरुषव्यापार आदि तथा सूर्यका  
विन्दु इन रूप जो उपादानभूत पुद्गलपर्याय हैं उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घटिका,  
दिन आदि जो कालपर्याय हैं उनको भी शुक्ल, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होते हैं, परन्तु समय  
घटिका आदिमें उपादान कारणोंके कोई गुण नहीं देख पड़ते । क्योंकि उपादानकारणके  
भमान कार्य होता है ऐसा वचन है । अब यहाँ अधिक कहना व्यर्थ है । जो आदि तथा  
अन्तसे रहित है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदिका उपादानकारणभूत है तो भी समय  
आदि भेदोंसे रहित है, और कालाणु द्रव्यरूप है वह तो निश्चय काल है । और जो आदि  
तथा अन्तसे सहित है, समय, घटिका तथा प्रहर आदि विवक्षित व्यवहारके विकल्पोंसे  
युक्त है, वह उसी द्रव्यकालका पर्यायभूत व्यवहारकाल है । यहाँ तात्पर्य यह है कि यद्यपि  
यह जीव काललक्ष्यके बड़से अनन्त सुखका भाजन ( पात्र ) होता है, तथापि विशुद्ध ज्ञान  
दर्शन स्वभावको धारक जो निज परमात्माका स्वरूप है उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आच-  
रण और संपूर्ण वाहा द्रव्योंको इच्छाको दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपश्चरणरूप ऐसे  
दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तपरूप जो निश्चयसे चार प्रकारकी आराधना है वह आराधना  
ही उस जीवके अनन्त सुखकी प्राप्तिमें उपादान कारण है ऐसा जानना चाहिये । और  
काल उपादान कारण नहीं है, इसलिये वह काल हेयः ( त्याज्य ) है ग२६॥

- 'व्याख्या—“लोयायासपदेसे इकिके जे ठिया हु इकिका” लोकाकाशप्रदेशोद्धवेकैकैषु ये स्थिता एकैकसंख्योपेता “हु” स्फुटं । क हव ? “रथणाणं रासी हव” परस्परतादात्म्यप-रिहारेण रत्नाना राशिरिच । “ते कालाणू” ते कालाणव । कति संख्योपेताः ? “असं-खद्वाणि” लोकाकाशप्रसितासंख्येयद्रव्याणीति । तथाहि—यथाङुलिद्रव्यस्य यस्मिन्नेव क्षणे वक्रपर्यायोत्पत्तिस्मिन्नेव क्षणे पूर्वप्राञ्जलपर्यायविनाशोऽङ्गुलिरूपेण ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । यथैव च केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो निर्विकल्पस-माधिरूपकारणसमयसारस्य विनाशस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति वा द्रव्य-सिद्धिः । तथा कालाणोरपि मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुना व्यक्तिकृतस्य कालाणपूदाद-

अब निश्चयकालकी स्थितिका क्षेत्र तथा कालको द्रव्योंमें क्यों गिनागया, इस विषयका प्रतिपादन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—जो लोकाकाशके एक एक प्रदेशमे रत्नोंकी राशिके समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य हैं ॥२३॥

**व्याख्यार्थः**—“लोयायासपदेसे इकिके जे ठिया हु इकिका” एक एक लोकाकाशके प्रदेशोंमें जो एक एक संख्यायुक्त स्पष्ट रूपसे स्थित हैं । किसकीसी तरह ? “रथणाणं रासी हव” परस्पर अभेदको त्याग कर रत्नोंकी राशिके सहश अर्थात् रत्नराशिकी भाँति भिन्न २ स्थित हैं । “ते कालाणू” वे कालाणु हैं । कितनी सख्याके धारक हैं ? “असंखद्वाणि” लोकाकाश परिमाण असंख्यात द्रव्य हैं । अब द्रव्यसिद्धिमे प्रभाण कहते हैं । जैसे जिस क्षणमे अगुलिरूप द्रव्यके वक्र ( वाँके ) पर्यायकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें उसके सरल पर्यायका नाश होता है और अंगुली रूपसे उस अगुलीमें ध्रौव्य है, इस रीतिसे उत्पत्ति, नाश तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे युक्त होनेसे द्रव्यसिद्धि होगई । और भी जैसे केवल ज्ञान आदिकी व्यक्ति ( प्रकटता ) रूपसे कार्य समयसारका अर्थात् केवलज्ञानादि रूपसे परिणत आत्माका उत्पाद होता है उसी समय निर्विकल्प ध्यानरूप जो कारण समयमार है उसका नाश होता है और उन दोनोंका आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य है उस रूपसे ध्रौव्य है, इस रीतिसे भी द्रव्यकी सिद्धि है । उसी प्रकार कालाणुके भी जो मन्द गतिमें परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किये हुए और कालाणुरूप उपादान कारणसे उत्पन्न हुए ऐसे वर्तमान समयका उत्पाद है वही अतीत ( गये हुए ) समयकी अपेक्षा उसका विनाश है और उन वर्तमान तथा अतीत दोनों समयोंका आधारभूत कालद्रव्यपनेसे ध्रौव्य है । ऐसे उत्पाद, वर्ष्यतंथा ध्रौव्यरूप लक्षणके धारक काल द्रव्यकी सिद्धि है । शंका—“लोकके वास्तु भागमें कालाणु द्रव्यके अभावसे अलोकाकाशमें परिमाण कैसे हो सकता है ?” यदि ऐसा कही तो उत्तर यह है कि आकाश अखंड द्रव्य है, इसलिए जैसे चाकके एक देशमें

नकारणोत्पन्नम् य एव वर्चमानसमयस्योत्पादः स प्रातीतसमयापेक्षया विनाशस्तदुभयावारकालाणुद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालद्रव्यसिद्धि । लोकविहिर्भागे कालाणुद्रव्यामावात्क्यमाकाङ्गद्रव्यम् परिणतिरिति चेत्; अखण्डद्रव्यत्वादेकदेशदण्डाद्यत्कुम्भकारचक्रभ्रमणवत्, तथैवेकदेशमनोहरस्यर्थनेन्द्रियविषयानुभवसर्वाङ्गसुखवत्, लोकमध्यस्थितकालाणुद्रव्यधारणेकदेशेनापि सर्वत्र परिगमनं भवतोति, कालद्रव्य द्रेष्ट्रव्याणां परिणते. सहकारिकारणं भवनि । कालद्रव्यम् किं सहकारिकारणमिति । यथा-काशद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यस्यापादानकारणं परिणतेः सहकारिकारणं च भवति तथा सर्वद्रव्यशाणि कालद्रव्येण किं प्रयोजनमिति । नैवम् । यदि पृथग्मूलसहकारिकारणेन प्रयोजनं नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणां साधारणगतिस्थित्यवगाहनविषये धर्माद्यर्थकाशद्रव्यवैषयिपि सहकारिकारणभूते प्रयोजनं नास्ति । किञ्च कालस्य घटिकादिवभास्त्रिकार्यं प्रत्यक्षेण हृत्यते धर्मादीना पुनरागमकृयनमेव प्रत्यक्षेण किमपि कार्यं न हृत्यते । ततस्तेषामपि कालद्रव्य-स्वेच्छामावः प्राप्नोति । ततश्च जीवपुद्गलद्रव्यद्रव्यमेव । स चागमविराधः । किञ्च सर्वद्रव्याणा परिणतिसहकारित्वं कालस्येव गुणं, ब्राणेन्द्रियस्य रसास्वादनमिवान्यद्रव्यम् गुणोऽन्यद्रव्यम् कर्तुं नायाति द्रव्यमंकरदोषप्रमंगादिति । कथिदाह—यावत्कालं जैका-

विद्यमान दंडको प्रेरणासे संपूर्णे कुंभकारके चाकका परिभ्रमण हो जाता है, उस तरहसे अथवा जैसे एक देशमें प्रिय ऐसे सर्वान इन्द्रियके विषयका अनुभव करनेसे समस्त झरी-रमे सुखका अनुभव होता है उस प्रकार लोकके मध्यमे स्थित जो कालाणु द्रव्यको धारण करनेवाला एकदेश आकाश है उससे भी सर्व आकाशमें परिणमन होता है । शका—जैसे कालद्रव्य, जीव पुद्गल आदि द्रव्योंके परिणमनमें सहकारी कारण हैं वैसे ही कालद्रव्यके परिणमनमें सहकारी कारण कौन है ? उत्तर—जैसे आकाश द्रव्य सपूर्ण द्रव्योंका आधार है और अपना आधार भी आप ही हैं, इसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य सब द्रव्योंके परिणमनमें और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण हैं । अब कठाचित् कहो कि जैसे काल-द्रव्य अपना तो उपादान कारण है और परिणमनका सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्योंको अपने उपादान कारण और परिणतिके सहकारी कारण मानो । उन जीव आदिके परिणमनमें कालद्रव्यसे क्या प्रयोजन है ? समाधान—ऐसा नहीं । क्योंकि यदि अपनेसे भिन्न वहिरंग सहकारी कारणसे प्रयोजन नहीं है तो सब द्रव्योंमें साधारण रूप (समानता)-से विद्यमान जो गति, स्थिति तथा अवगाहन हैं उनके विषयमे सहकारी कारणमूल जो धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य हैं उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है । और भी, कालका तो घटिका (घड़ी) दिन आदि कार्यं प्रत्यक्षसे देख पढ़ता है और धर्म द्रव्य आदिका कार्यं तो केवल आगम (शास्त्र) के कथनसे ही माना जाता है; उनका कोई कार्यं प्रत्यक्षसे नहीं दीख पढ़ता । इसलिये, जैसे कालद्रव्यका अभाव मानते हो उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म

काशप्रदेशो परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्कालेन समयो भवतीत्युक्तमागमे । एकसमयेन चतुर्दशरज्जुगमने यावंत आकाशप्रदेशास्तावन्तः समया प्राप्नुवन्ति । परिहारमाह— एकाकाशप्रदेशातिक्रमेण यत्समयव्याख्यानं कृतं तन्मन्दगत्यपेक्षया, यत्पुनरेकंसमये चतुर्दशरज्जुगमनव्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया । तेन कारणेन चतुर्दशरज्जुगमनेऽप्ये— कसमयः । तत्र हृषान्त—कोऽपि देवदत्तो योजनशतं मन्दगत्या दिनशतेन गच्छति । स एव विद्याप्रभावेण शीघ्रगत्या दिनेनैकेनापि गच्छति तत्र किं दिनशतं भवति । किन्त्वेकं एव दिवसः । तथा चतुर्दशरज्जुगमनेऽपि शीघ्रगमनेनैक एव समयः । किञ्च स्वयं विषयानुभवरहितोऽप्ययं जीवः परकीयविषयानुभवं दृष्टं श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलायं करोति तदप्ययानं भण्यते तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पजालरहितं स्वर्संविचित्तिसमुत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादसहित यत्तद्वीतरागचारित्रं भवति । यत्पुनस्तदविनाभूतं तत्रित्वयस्म्यक्त्वं चेति भण्यते । तदेव कालत्रयेषि मुक्तिकारणम् । कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तं “किं पल्लविएण वहुणा जे सिद्धा परवरा गए काले । सिद्धिहिं जेवि भविया तं जाणह सम्ममाहप्यं ॥” इदमत्र

तथा आकाश द्रव्योंका भी अभाव अवश्य प्राप्त होता है । और जब इन काल आदि चारोंका अभाव मानलोगे तो जीव तथा पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जायेंगे । और दो द्रव्योंके माननेपर आगमसे विरोध होगा । और सब द्रव्योंके परिणमनमें सहकारी होना यह केवल काल द्रव्यका ही गुण है । जैसे ग्राण इंद्रिय ( नासिका ) से रसका आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे ही अन्य द्रव्यका गुण भी अन्य द्रव्यके करनेमें नहीं आता । क्योंकि ऐसा माननेसे द्रव्यसकर दोपका प्रसग होगा ( अर्थात् अन्य द्रव्यका लक्षण अन्य द्रव्यमें चला जायगा, जो कि सर्वथा अनुचित है ) । अब यहां कोई कहता है कि जितने कालमें एक आकाशके प्रदेशको परमाणु अतिक्रम करता है अर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें गमन करता है उतने कालका नाम समय होता है यह शाखमें कहा है, और इस हिसाबसे चौदह रज्जु गमन करनेमें जितने आकाशके प्रदेश हैं उतने समय ही लगने चाहिये; परन्तु शाखमें यह भी कहा है कि पुद्गल परमाणु एक समयमें चौदह रज्जु पर्यन्त गमन करता है सो यह कथन कैसे संभव हो सकता है ? इसका खड़न कहते हैं कि आगममें जो परमाणुका एक समयमें एक आकाशके प्रदेशमें गमन करना कहा है सो तो मन्द गमनकी अपेक्षासे है, और जो परमाणुका एक समयमें चौदह रज्जुका गमन कहा है वह शीघ्र गमनकी अपेक्षासे है, इस कारण परमाणुको शीघ्रगतिसे चौदह रज्जु प्रमाण गमन करनेमें भी एकही समय लगता है । इस विषयमें हृषान्त यह है कि जैसे जो देवदत्त मन्द गमन ( धीरो चाल ) से सौ योजन सौ दिनमें जाता है, वही देवदत्त विद्याके प्रभावसे शीघ्र गमन आदि करके १०० सौ योजन एक दिनमें भी जाता है तो क्या उस देवदत्तको शीघ्रगतिसे सौ योजन गमन करनेमें सौ दिन लगेंगे ? किन्तु एक ही दिन लगेगा । इसी प्रकार शीघ्र गतिसे चौदह रज्जु

**तात्पर्य—**कालद्रव्यमन्यद्वा परमागमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागसर्वज्ञव-  
चनं प्रमाणभिति मनसि निश्चित्य विवादो न कर्त्तव्यः । कस्मादिति चेत्—विवादे राग-  
द्वेषौ भवतस्ततश्च ससारवृद्धिरिति ॥२२॥

एवं कालद्रव्यव्याख्यानमुख्यतया पञ्चमस्थले सूत्रद्वय गतम् । इत्यष्टगाथासमुदायेन  
पञ्चमिः स्थलैरजीवद्रव्यव्याख्यानेन द्वितीयांतराधिकारं समाप्तः ॥

अतःपरं सूत्रपञ्चकर्पर्यन्तं पञ्चास्तिकायव्याख्यान करोति । तत्रादौ गाथापूर्वार्द्धेन षड्-  
द्रव्यव्याख्यानोपसहार उत्तरार्धेन तु पञ्चास्तिकायव्याख्यानप्रारम्भः कथयते,—

एवं छब्मेयमिदं जीवाजीवप्पमेददो दव्वं ।

उत्तं कालावजुत्तं णादव्वा दंच अतिथकाया दु ॥२३॥

**व्याख्या—**“एवं छब्मेयमिदं जीवाजीवप्पमेददो दव्वं उत्तं” एवं पूर्वोक्तप्रकारेण षड्-  
भेदमिदं जीवाजीवप्रभेदतः सकाशाद्रव्यमुक्तं कथितं प्रतिपादितम् । “कालविजुत्तं

गमन करनेमे भी परमाणुको एक ही समय लगता है । और भी यहा विशेष जानने योग्य है कि यह जीव स्वयं ( निज स्वभावसे ) विषयोंके अनुभवसे रहित है तथापि अन्यके देखे हुए अथवा सुने हुए विषयके अनुभवको मनमे स्मरण करके जो विषयोंकी इच्छा करता है उसको अपध्यान ( वुरा ध्यान ) कहते हैं । उस विषयकी अभिलाषाको आदि ले, संपूर्ण विकल्पोंका जो समूह है उससे रहित और आत्मज्ञानसे उत्पन्न स्वाभाविक आनन्दरूप सुखके रसके आस्वादसे सहित जो है वह वीतराग चारित्र है । और जो उस वीतराग चारित्रसे व्याप्त है वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है । वह निश्चय सम्यक्त्व ही भूत, भविष्यत्, वर्तमान इन तीनों कालोंमें मुक्तिका कारण है । और काल तो उस निश्चय सम्यक्त्वके अभावमे सहकारी कारण भी नहीं होता है, इस कारण वह कालद्रव्य हेय ( त्याग करने योग्य ) है । सो ही कहा है कि “बहुत कथनसे क्या प्रयोजन है ? जो श्रेष्ठ मनुष्य भूत कालमे सिद्ध हुए हैं तथा अब होंगे, वह सब सम्यक्त्वका माहात्म्य है” । अब यहां तात्पर्य यह है कि कालद्रव्यके तथा अन्य द्रव्योंके विषयमे जो कुछ विचारना हो वह सब परम आगमके अविरोधसे ही विचारना चाहिये और “वीतराग सर्वज्ञका वचन प्रमाण है” । ऐसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमे विवाद नहीं करना चाहिये । क्योंकि विवादमे राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन रागद्वेषोंसे संसारकी वृद्धि होती है ॥२३॥

ऐसे कालद्रव्यके व्याख्यानकी मुख्यतासे पञ्चम स्थलमे दो सूत्र समाप्त हुए । और उक्त रीतिसे आठ गाथोंओंके समुदायसे पांच स्थलोंसे पुद्गल आदि पांच प्रकारके अजीव द्रव्यके निरूपण रूपसे दूसरा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥

अब इसके पश्चात् पांच सूत्र पर्यन्तं पञ्चास्तिकायका व्याख्यान करते हैं । और उनमें भी प्रथम गाथाके पूर्वार्धसे छहों द्रव्योंके व्याख्यानका उपसंहार और उत्तरार्धसे पञ्चास्ति-कायके व्याख्यानका आरंभ करते हैं,—

णादव्या पच अतिथिकाया दु” तदेव घडविधं द्रव्यं कालेन वियुक्तं रहितं ज्ञावव्याः पञ्चास्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३ ॥

पञ्चेति संख्या ज्ञाता नावदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपयति,—

संन्ति जदो तेणेदे अतिथिति भण्टति जिणवरा जह्ना ।

काया इव वहुदेसा तह्ना काया य अतिथिकाया य ॥२४॥

**व्याख्या**—“संन्ति जदो तेणेदे अतिथिति भण्टति जिणवरा” सन्ति विद्यन्ते यत एते जीवाद्याकाशपर्यन्ताः पञ्च तेन कारणेनैतेऽस्तीति भणन्ति जिणवराः सर्वज्ञाः । “जह्ना काया इव वहुदेसा तह्ना काया य” यस्मात्काया इव वहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाश्च भण्टति जिनवराः । “अतिथिकाया य” एव न केवल पूर्वोक्तप्रकारेणास्तित्वेन युक्ता अस्ति-सज्जास्तथैव कायत्वेन युक्ता कायसज्जा भवन्ति किन्तु भयमेलापकेनास्तिकायसंज्ञाश्च

**गाथामावार्थः**—इस प्रकार एक जीव इव्य और पांच अजीव इव्य ऐसे छह प्रकारके इव्यका निरूपण किया । इन छहों इव्योंमें से एक कालके विना शेष पांच अस्तिकाय जानने चाहिये ॥२३॥

**व्याख्यार्थः**—“एवं छठमेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दव्यं उच्चं” ऐसे पूर्वोक्त प्रकारसे जीव तथा अजीवके भेदसे यह इव्य छह प्रकारका कहा गया । “कालविजुतं णादव्या पच अतिथिकाया दु” और कालरहित वही छह प्रकारका इव्य अर्थात् कालके विना शेष पांच इव्योंको पांच अस्तिकाय समझना चाहिये ॥२३॥

अब अस्तिकायसंबन्धिनी पांच यह संख्या तो जानी हुई है ही, इसलिये अस्तित्व तथा कायत्वका निरूपण करते हैं;—

**गाथामावार्थः**—पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पांचों इव्य विद्यमान हैं इसलिये जिनेश्वर इनको ‘अस्ति’ (ह) ऐसा कहते हैं और ये कायके समान वहुप्रदेशोंको धारक करते हैं इसलिये इनको ‘काय’ कहते हैं । अन्ति तथा काय दोनोंको मिलानेसे ये पांचों ‘अस्तिकाय’ होते हैं ॥२४॥

**व्याख्यार्थः**—“संन्ति जदो तेणेदे अतिथिति भण्टति जिणवरा” जीवसे आदि लेके आकाश पर्यन्त ये पूर्वोक्त पांच इव्य विद्यमान हैं इसलिये सर्वज्ञ देव इनको “अस्ति” (ह) ऐसा कहते हैं । “जह्ना काया इव वहुदेसा तह्ना काया य” और काय अर्थात् शरीरके सहश ये वहुत प्रदेशोंके धारक हैं इस कारणसे जिनेश्वर इनको ‘काय’ कहते हैं । “अतिथिकाया य” पूर्वोक्त प्रकार अस्तित्वसे युक्त ये पांचों केवल अस्तिसंज्ञक ही नहीं हैं, तथा कायत्वसे युक्त केवल काय संज्ञाके धारक ही नहीं हैं; किन्तु अस्ति और काय इन दोनोंको मिलानेसे ‘अस्तिकाय’ संज्ञाके धारक होते हैं । अब इन पांचोंके संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिसे यद्यपि परस्पर भेद है तथापि अस्तित्वके साथ अभेद है यह दर्शाते

भवन्ति ॥ इदानीं संज्ञोलक्षणप्रयोजनादिभेदेऽप्यस्तिवेन सहाभेदं दर्शयति । तथाहि-  
शुद्धजीवास्तिकाये सिद्धत्वलक्षणं शुद्धद्रव्यव्यक्तनपर्यायः, केवलज्ञानादयो विशेषगुणाः  
अस्तित्ववस्तुत्वागुरुलघुत्वादयः सामान्यगुणाश्च । तथैवाव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुण-  
व्यक्तिलक्षणस्य कार्यसमयसारस्योत्पादो रागादिविभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य कारणस-  
मयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणं गुणपर्यायैरुत्पाद-  
व्ययध्रौव्यैश्च सह मुक्तावस्थायां संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सत्तारूपेण प्रदेशरूपेण  
च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेत्-मुक्तात्मसत्तायां गुणपर्यायाणागुत्पादव्ययध्रौव्याणां  
चास्तित्वं सिद्धयति, गुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यसत्तायाश्च मुक्तात्मास्तित्वं सिद्धयतीति  
परस्परसाधितसिद्धत्वादिति । कायत्वं कथ्यते-वहुप्रदेशप्रचयं हृष्टा यथा शरीरं कन्यो  
भण्यते तथानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितासंख्येयशुद्धप्रदेशानां प्रचयं  
समूहं संघातं मेलापकं हृष्टा मुक्तात्मनि कायत्वं भण्यते । यथा शुद्धगुणपर्यायोत्पादव्य-  
यध्रौव्यैः सह मुक्तात्मनः सत्तारूपेण निश्चयेनाभेदो दर्शितस्तथा यथासंभवं संसारिजीवेषु  
पुद्गलधर्माधर्माकाशकालेषु च द्रष्टव्यः । कालद्रव्यं विहाय कायत्वं चेति सूत्रार्थः ॥२४॥

हैं—जैसे शुद्ध जीवास्तिकायमें सिद्धत्वं लक्षणं शुद्ध द्रव्यं व्यक्तनं पर्याय है, केवल ज्ञान  
आदि विशेष गुण हैं, तथा अस्तित्वं, वस्तुत्वं और अगुरुलघुत्वं आदि सामान्य गुण हैं,  
और जैसे मुक्तिदशामें अव्यावाध अर्थात् वाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंकी  
व्यक्तिं ( प्रकटता ) रूप कार्यसमयसारका उत्पाद, राग आदि विभावोंसे शून्य परम स्वास्थ्य  
स्वरूप कारणसमयसारका व्यय ( नाश ), और इन दोनोंके अर्थात् उत्पाद तथा व्ययके  
आधारभूत परमात्मारूप जो द्रव्य है उस रूपसे ध्रौव्य ( स्थिरत्व ) है । इस प्रकार पूर्व-  
कथित लक्षणयुक्त गुण तथा पर्यायोंसे और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यके साथ मुक्त  
अवस्थामें सज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिका भेदः होनेपर भी सत्तारूपसे और प्रदेशरूपसे  
किसीका किसीके साथ भेद नहीं है । क्योंकि, जीवोंकी मुक्तिअवस्थामें गुण, द्रव्य तथा  
पर्यायोंकी और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यरूप लक्षणोंकी विद्यमानता ( सत्ता ) सिद्ध होती है  
और गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यकी सत्ताके अस्तित्वको मुक्त आत्मा जो है वह  
सिद्ध करता है । इस प्रकार गुण, पर्याय आदि मुक्त आत्माकी और मुक्त आत्मा गुण  
पर्यायकी सत्ताको परस्पर सिद्ध करते हैं । अब इनके कायत्वका निरूपण करते हैं—वहु-  
तसे प्रदेशोंमें व्याप्त होके स्थितिको देखके जैसे शरीरको कायत्वं कहते हैं अर्थात् जैसे  
शरीरमें अधिक प्रदेश होनेसे शरीरको काय कहते हैं, उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि  
गुणोंके आधारभूत जो लोकाकाशके प्रमाण असख्यात शुद्ध प्रदेश हैं उनके समूह, सघात  
अथवा मेलको देखके, मुक्त जीवमें भी कायत्वका व्यवहार अथवा कथन होता है । जैसे  
शुद्ध गुण, पर्यायोंसे तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षणसे सहित रहनेवाले मुक्त आत्माके  
निश्चय नयसे सत्तारूपसे अभेद दर्शाया गया है, ऐसे ही सकारी जीवोंमें तथा पुद्गल,

अथ कायत्वव्याख्याने पूर्वं यत्प्रदेशास्तित्वं सूचितं तस्य विशेषव्याख्यानानं करोतीत्येका  
पाचनिका, द्वितीया तु कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा भवन्तीति प्रतिपादयति,—

होति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे ।

मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५॥

व्याख्या—“होति असंखा जीवे धम्माधम्मे” भवन्ति लोकाकाशप्रमितासंख्येय-  
प्रदेशा. प्रदीपद्वुपसंहारविस्तारयुक्तेऽप्येकजीवे नित्यं स्वभावविस्तीर्णयोर्वर्मधर्मयोरपि ।  
“अणंत आयासे” अनन्तप्रदेशा आकाशे भवन्ति । “मुत्ते तिविह पदेसा” मूर्त्ते पुद्गल-  
द्रव्ये सख्यातासंख्यानानन्ताणूनां पिण्डाः स्कन्धास्त एव त्रिविधाः प्रदेशा भण्यन्ते न  
च क्षेत्रप्रदेशाः । कस्मात् ? पुद्गलस्यानन्तप्रदेशक्षेत्रेऽवस्थानाभावादिति । “कालस्सेगो”  
कालाणुद्रव्यस्यैक एव प्रदेशः । “ण तेण सो काओ” तेन कारणेन स कायो न भवति ।  
कायस्यैकप्रदेशत्वविषये युक्ति प्रदर्शयति । तथा—किञ्चिद्बूनचरमशरीरप्रभाणस्य सिद्ध-  
त्वपर्यायस्योपादानकारणभूतं शुद्धात्मद्रव्यं तत्पर्यायप्रमाणमेव । यथा वा मनुष्यदेवादि-  
पर्यायोपादानकारणभूतं संसारिजीवद्रव्यं तत्पर्यायप्रमाणमेव, तथा कालद्रव्यमपि सम-  
चरुपस्य कालपर्यायस्य विभागेनोपादानकारणभूतमविभागयेकप्रदेश एव भवति । अथवा

धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्योंमें भी यथासंभव परस्पर अभेद देख लेना चाहिये ।  
और कालद्रव्यको छोड़के अन्य सब द्रव्योंके कायत्व रूपसे भी अभेद है । इस प्रकार  
सूत्रका अर्थ है ॥२४॥

अब कायत्वके व्याख्यानमें जो पहले प्रदेशोंका अस्तित्व सूचन किया है उसका विशेष  
व्याख्यान करते हैं यह तो अग्रिम गाथाकी एक भूमिका है, और किस द्रव्यके कितने  
प्रदेश हैं यह दूसरी भूमिका प्रतिपादन करती है,—

**गाथाभावार्थः—**—जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्यमें असख्यात प्रदेश हैं और आकाशमें  
अनन्त हैं । मूर्त्त ( पुद्गल ) में सख्यात, असख्यात तथा अनन्त प्रदेश हैं और कालके  
एक ही प्रदेश है इसलिये काल काय नहीं है ॥५॥

**व्याख्यार्थः—**—“होति असंखा जीवे धम्माधम्मे” प्रदीपके समान संकोच तथा  
विस्तारसे युक्त एक जीवमें भी और सदा स्वभावसे विस्तारको प्राप्त हुए धर्म तथा अधर्म  
इन दोनों द्रव्योंमें भी लोकाकाशके प्रमाण असख्यात प्रदेश होते हैं । “अणंत आयासे”  
आकाशमें अनन्त प्रदेश होते हैं । “मुत्ते तिविह पदेसा” मूर्त्त अर्थात् पुद्गल द्रव्यमें जो  
सख्यात, असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओंके पिण्ड अर्थात् स्कन्ध हैं वे ही तीन प्रकारके  
प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्ररूप प्रदेश तीन प्रकारके हैं । क्योंकि पुद्गलके अनन्त प्रदेश  
क्षेत्रमें स्थितिका अभाव है । “कालस्सेगो” कालद्रव्यका एक ही प्रदेश है । “ण तेण सो  
काओ” इसी हेतुसे अर्थात् एक प्रदेशी होनेसे वह कालद्रव्य काय नहीं है । अब कालके

मन्देगत्या गच्छत पुद्गलपरमाणोरेकाकाशप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणं भवति ततो ज्ञायते तदव्येकप्रदेशमेव । कश्चिदाह—पुद्गलपरमाणोर्गतिसहकारिकारणं धर्मद्रव्यं तिष्ठति, कालस्य किमायातम् । नैवं वक्तव्यं—धर्मद्रव्ये गतिसहकारिकारणे विद्यमानेऽपि मत्स्यानां जलवन्मनुष्याणा अकटारोहणादिवत्सहकारिकारणानि वहून्यपि भवन्तीति । अथ भत कालद्रव्यं पुद्गलानां गतिसहकारिकारणं कुत्र भणितमास्ते ? तदुच्यते । “पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणादु” इत्युक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवै पञ्चास्तिकायप्राभृते । अस्यार्थः कथयते । धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जीवाना कर्मनोकर्मपुद्गला गते । सहकारिकारणं भवन्ति, अणुस्कन्धभेदभिन्नपुद्गलानां तु कालद्रव्यमित्यर्थः॥२५॥

अथैकप्रदेशस्यापि पुद्गलपरमाणोरूपचारेण कायत्वमुपदिशति,—

एयपदेसो वि अणु णाणाखधप्पदेसदो होदि ।

वहुदेसो उवयाग तेण य काओ भणति सञ्चण्ड ॥२६॥

एक प्रदेशी होनेमें युक्ति कहते हैं । जैसे—अन्तिम शरीरसे किंचित् न्यून प्रमाणके धारक सिद्धत्वं पर्यायका उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत्वं पर्यायके प्रमाण ही है । अथवा जैसे मनुष्य, देव आदि पर्यायोंका उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य, देव आदि पर्यायके प्रमाण ही है, उसी प्रकार कालद्रव्य भी समयरूप जो कालका पर्याय है उसका विभागसे उपादान कारण है तथा अविभागसे एक प्रदेश ही होता है । अथवा मन्द गतिसे गमन करते हुये पुद्गल परमाणुके एक आकाशके प्रदेश पर्यन्त ही कालद्रव्य गतिका सहकारी कारण होता है इम कारण जाना जाता है कि वह काल द्रव्य भी एक ही प्रदेशका धारक है । अब यहाँ कोई कहता है कि पुद्गल—परमाणुकी गतिमें सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, इसमें कालद्रव्यका क्या प्रयोजन है ? सो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि धर्म द्रव्यके विद्यमान रहते भी मत्स्योंकी गतिमें जलके समान तथा मनुष्योंकी गतिमें गाढ़ीपर बैठना आदिके समान पुद्गलकी गतिमें वहृतसे भी सहकारी कारण होते हैं । अब कदाचित् कहो कि “कालद्रव्य पुद्गलोंकी गतिमें सहकारी कारण है” यह कहाँ कहा हुआ है ? सो कहते हैं । श्रीकुन्दकुन्द आचार्य देवने पञ्चास्तिकाय नामक प्राभृतमें “पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणादु” ऐसा कहा है । इसका अर्थ कहते हैं कि धर्म द्रव्यके विद्यमान होते भी जीवोंकी गतिमें कर्म, नोकर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कन्ध इन भेदोंसे भेदको प्राप्त हुए पुद्गलोंके गमनमें कालद्रव्य सहकारी कारण होता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२५॥

अब पुद्गल परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है तथापि उपचारसे उसको काय कहते हैं ऐसा उपदेश करते हैं—

**व्याख्या**—“एयपदेसो वि अणु णाणाखधप्पदेसदो होदि वहुदेसो” एकप्रदेशोऽपि पुद्गलपरमाणुर्नास्कन्धरूपबहुप्रदेशो भवति । “उवयारा” उपचाराद् व्यवहारनयात् “तेण य काओ भणति सञ्चण्हु” तेन कारणेन काथमिति सर्वज्ञा भणन्तीति । तथाहि-यथायं परमात्मा शुद्धनिश्चयनयेन द्रव्यरूपेण शुद्धमत्थैकोऽप्यनादिकर्मबन्धवशात्सिनग्धरूपस्थानीयरागद्वेषाभ्यां परिणम्य नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण व्यवहारेण वहुविधो भवति । तथा पुद्गलपरमाणुरपि स्वभावेनैकोऽपि शुद्धोऽपि रागद्वेष-स्थानीयबन्धयोग्यस्तिनग्धरूपगुणाभ्या परिणम्य द्रव्यणुकादिस्कन्धरूपविभावपर्यायैर्वहुविधो वहुप्रदेशो भवति तेन कारणेन वहुप्रदेशलक्षणकायत्वं रागत्वादुपचारेण कायो भण्यते । अथ मत—यथा—पुद्गलपरमाणोर्द्रव्यरूपैकस्यापि द्रव्यगुकादिस्कःधपर्यायरूपेण वहुप्रदेशरूपं कायत्वं जातं तथा कालाणोरपि द्रव्यैकस्थापि पर्यायेण कायत्वं भवतीति । तत्र परिहारः—स्तिनग्धरूपहेतुकस्य वन्धस्याभावात् भवति । तदपि कस्मात् । स्तिनग्धरूपत्वं पुद्गलस्यैव धर्मो यतः कारणादिति । अणुत्वं पुद्गलसंज्ञा, कालस्थाणुसंज्ञा

**गाथाभावार्थः**—एक प्रदेशका धारक भी परमाणु अनेक स्कन्धरूप बहुत प्रदेशोंसे वहुप्रदेशी होता है इस कारण सर्वज्ञ देव उपचारसे पुद्गल परमाणुको काय कहते हैं ॥२६॥

**व्याख्यार्थः**—“एयपदेसो वि अणु णाणाखधप्पदेसदो होदि वहुदेसो” यद्यपि पुद्गल परमाणु एकप्रदेशी है तथापि नानाप्रकारके द्रव्यणुरु आदि स्कन्धरूप बहुत प्रदेशोंके कारण वहुप्रदेशी होता है । “उवयारा” उपचार अर्थात् व्यवहार नयसे । “तेण य काओ भणति सञ्चण्हु” इसी हेतुसे सर्वज्ञ जिन देव उसको ( पुद्गल परमाणुको ) काय कहते हैं । सो ही पुष्ट करते हैं कि जैसे यह परमात्मा शुद्ध निश्चयनयसे द्रव्यरूपसे शुद्ध तथा एक है तथापि अनादिकर्मबन्धनके वशसे स्तिनग्ध तथा रूपशु गुणोंके स्थानाभन्न ( एवज ) जो राग और द्वेष हैं उनसे परिणामको प्राप्त होकर, व्यवहारनयके द्वारा मनुष्य, नारक आदि विभाव पर्यायरूपसे अनेक प्रकारका होता है, ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभावसे एक और शुद्ध है तथापि राग द्वेषके स्थानभूत जो बंधके योग्य स्तिनग्ध, रूपशु गुण हैं उनसे परिणमनको प्राप्त होके द्रव्यणुक आदि स्कन्धरूप जो विभाव पर्याय हैं उनसे अनेक प्रदेशोंका धारक होता है । इसी हेतुसे वहुप्रदेशतारूप कायत्वके कारणसे पुद्गल परमाणुको सर्वज्ञ देव उपचारसे काय कहते हैं । अब यहांपर यदि ऐसा किसीका मत हो कि जैसे द्रव्यरूपसे एक भी पुद्गल परमाणुके द्रव्यणुक आदि स्कन्ध पर्यायरूपसे वहुप्रदेशरूप कायत्व सिद्ध हुआ है ऐसे ही द्रव्यरूपसे एक होनेपर भी कालाणुके समय, घटिका आदि पर्यायोंसे कायत्व सिद्ध होता है । इस शकाका परिहार करते हैं कि स्तिनग्ध रूपशु गुण हैं कारण जिसमे ऐसे बंधका कालद्रव्यमे अभाव है इस कारण वह काय नहीं हो सकता । सो भी क्यों ? । कि स्तिनग्ध तथा रूपशुपना जो हैं सो पुद्गलका ही धर्म है इसलिये कालमें स्तिनग्ध रूपशुत्व हैं नहीं और उनके विना बंध नहीं ‘होता और बंधके विना कालमें

कथमिति चेत् तत्रोत्तरम्—अणुशब्देन व्यवहारेण पुद्गला उच्यन्ते, निश्चयेन तु वर्णादि-  
गुणानां पूरणगलनयोगात्पुद्गला इति वस्तुत्पत्त्या पुनरणशब्दः सूक्ष्मवाचकः । तद्यथा-  
परमेण प्रकर्षेणाणुः । अणु कोऽर्थः सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणुः । स च सूक्ष्मवाच-  
कोऽणुशब्दो निर्विभागपुद्गलविवक्षाया पुद्गलाणुं बद्धति । अविभागिकालब्रह्मविवक्षायां  
तु कालाणुं कथयतीन्यर्थः ॥२६॥

अथ प्रदेशलक्षणमुपलक्ष्यति,—

जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउद्धद्दं ।

तं सु पदेसं लाणे सञ्चाणुद्वाणदाणरिहं ॥२७॥

व्याख्या—“जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउद्धद्दं तं सु पदेस जाणे” याव-  
त्परमाणमाकाशभिभागिपुद्गलपरमाणुना विष्टव्यं व्यासं तदाकाशं सु स्फुटं प्रदेशं जानीहि  
हे शिष्य ! कथंभूतं ‘सञ्चाणुद्वाणदाणरिहं’ सर्वाणूनां सर्वपरमाणूनां सूक्ष्मस्कन्धानां च  
भ्यानदानस्थावकाशदानस्थाहं योग्य समर्थमिति । यत एवेत्यंभूतावगाहनशक्तिरस्त्याका-  
शस्य तत एवासंस्थातप्रदेशोऽपि लोके अनन्तानन्तजीवात्मेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्गला अव-

---

कायत्वं नहीं सिद्ध होता । कदाचित् कहो कि अणु यह पुद्गलकी सज्जा है । कालकी अणु  
संज्ञा कैसे हुई ? तो इसका उचर सुनो—“अणु” इस शब्दसे व्यवहारसे पुद्गल कहे जाते हैं  
और निश्चयसे तो वर्ण आदि गुणोंके पूरण तथा गलनके संबंधसे पुद्गल कहे जाते हैं,  
और यथार्थमें तो अणु शब्द सूक्ष्मका वाचक है, जैसे परम अर्थात् प्रकर्ष (अविकर्ता)से  
जो अणु हो सो परमाणु है । इस व्युत्पत्तिसे परमाणु शब्द जो है वह अति सूक्ष्म पदार्थको  
कहनेवाला है । और वह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गलकी विवक्षामें तो पुद्गल  
अणुको कहता है और अविभागिं ( विभागरहित ) कालब्रह्मके कहनेकी जब इच्छा होती  
है तब कालाणुको कहता है ॥२६॥

अब प्रदेशका लक्षण दिखाते हैं—

गायामावार्थः—जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणुसे रोका जाता है उसको सब  
परमाणुओंको स्थान देनेमें समर्थ प्रदेश जानो ॥२७॥

व्याख्यार्थः—“जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउद्धद्दं तं सु पदेसं  
जाणे” हे शिष्य ! जितना आकाश विभागरहित पुद्गलपरमाणुसे व्याप्त है उसको स्पष्ट  
रूपसे प्रदेश जानो । वह प्रदेश कैसा है कि “सञ्चाणुद्वाणदाणरिहं” सब परमाणु और  
सूक्ष्म स्कन्धोंको अवकाश ( स्थान ) देनेके लिये समर्थ है । इस प्रकारकी अवगाहन शक्ति  
जो आकाशमें है इसी हेतुसे असंस्थात प्रदेश प्रमोण लोकांकाशमे अनन्तानन्त जीव तथा  
उन जीवोंसे भी अनन्त गुणे पुद्गल अवकाशको प्राप्त होते हैं । सोही जीव तथा पुद्गलके  
विषयमें इसके अवकाश देनेका सामर्थ्य आगममें कहा है । “एक निगोद शरीरमें ब्रह्म-

काशं लभन्ते । तथा चोकं जीवपुद्गलविषयेऽवकाशदानसामर्थ्यम् ॥ “ऐगणिंगोद्देवरोदे”  
जीवा दब्बापमाणदो दिङ्गा । सिद्धेहि अणंतगुणा सञ्चैषं वितीदकालेण ॥ १ ॥ “उगाढ़—  
गाढणिचिदो पुगलकाएहि सञ्चदो लोगो । सुहुमेहि वादरोहि य णंताणंतेहि विविहे  
हैहि । २ ॥” अथ मत मूर्त्तपुद्गलाना भेदो भवतु नास्ति विरोधः । अंमूर्त्ताखण्डस्याका  
शद्रव्यस्य कथं विभागकल्पनेति । तत्र । रागाद्युपाधिरहितस्वसंवेदनप्रत्यक्षभावनोत्पन्नसु  
खामृतरमास्वादरूपस्य मुनियुगलस्यावस्थानक्षेत्रमेकमनेक वाः । यद्येकं तर्हि द्वयोरेकत्वं  
प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा निर्विभागद्रव्यस्यापि विभागकल्पनसायात घटाकाश-  
पटाकाशमित्यादिवदिति ॥ २७ ॥ एव सूत्रपञ्चकेन पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा तृती-  
योऽन्तराधिकारः ॥

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचिते द्रव्यसङ्ग्रहग्रन्थे नमस्कारादिसप्तविंशति-  
गाथाभिरन्तराधिकारत्रयसमुदायेन पडद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादक-  
नामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

प्रमाणसे सब भूतकालके सिद्धोंसे अनत गुणे जीव हृष्ट हैं । १ । यह लोक सब तरफसे  
विविध तथा अनन्तानन्त सूक्ष्म और वादर पुद्गलकायोंद्वारा अतिसघनताके साथ भरा हुआ  
है । २ ॥” अब कदाचित् ऐसा मत हो कि “मूर्तिमान् पुद्गलोंका तो अणु तथा व्यणुक  
स्कर्न्ध आदि विभाग हो, इसमें कुछ विरोध नहीं है, परन्तु अखंड तथा अमूर्त आकाश  
द्रव्यकी विभाग कल्पना कैसे हो सकती है?” सो नहीं । क्योंकि राग आदि उपाधियोंसे  
रहित निज आत्मज्ञानकी प्रत्यक्ष भावनासे उत्पन्न जो सुखरूप अमृतरस है उसके आस्वा-  
दनसे उपर ऐसे मुनियुगल ( दो मुलियों ) के रहनेका स्थान एक है अथवा अनेक ? यदि  
दोनोंका निवासक्षेत्र एक ही है तब तो दोनोंकी एकता हुई; परन्तु ऐसा नहीं है । और  
यदि भिन्न मानो तो घटके आकाश तथा पटके आकाशकी तरह विभागरहित द्रव्यकी  
भी विभागकल्पना सिद्ध हुई ॥ २७ ॥ ऐसे पांच सूत्रोंद्वारा पच अस्तिकायोंका निरूपण  
करनेवाला तृतीय अन्तराधिकार समाप्त हुआ ॥

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिदेवविरचितद्रव्यसप्रहस्य श्रीवृद्धदेवनिर्मितसंस्कृतटीकायाः  
जयपुरनिवासिशास्त्रीत्युपाधिकारकश्रीजवाहरलालदि० जैनप्रणीतभाषा-  
तुवादे नमस्कारादिसप्तविंशतिगाथाभिरन्तराधिकारत्रयसमु-  
दायेन षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽन्त-  
राधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

अतःपरं पूर्वोक्तपद्मद्रव्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—  
परिणामि—जीव—मुक्त, सप्तेषां एय—खेत्र—किरिया य ।  
णिच्च कारण—कर्ता, मञ्चगदामिदरं हि यपवेसे ॥ १ ॥  
दुष्णियः एयं एयं, पंच—त्तिय एय दुष्णिं चउरो य ।  
पंच य एयं एयं, एदेषं एय उत्तरं णेयं ॥ युगमम् ॥ २ ॥

व्याख्या—“परिणामि” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । परिणामपरिणामिनौ जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपर्यावाभ्या कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्मुख्यबृत्या पुनरपरिणामीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः । व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यमावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीवति, जीवितपूर्वो वा जीव पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि

अब इसके पक्षात् पट्टद्रव्योंकी चूलिका ( परिशिष्ट अथवा उपसहार ) रूपसे विशेष व्याख्यान करते हैं । सो इस प्रकार है—

**गाथामावार्थः**—पूर्वोक्त पट्टद्रव्योंमेंसे परिणामी द्रव्य जीव और पुद्गल ये दो हैं, चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान् एक पुद्गल है, प्रदेशसहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पांच द्रव्य हैं, एक संख्यावाले धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य हैं, क्षेत्रवान् एक आकाश द्रव्य है, क्रियासहित जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, नित्यद्रव्य—धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार हैं, कारण द्रव्य—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पाच हैं, कर्त्ताद्रव्य—एक जीव है, सर्वंगत ( सर्वमेव्यापनेवाला ) द्रव्य—एक आकाश है, और ये छहों द्रव्य प्रवेशरहित हैं अर्थात् एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका प्रवेश नहीं होता है ॥ २ ॥ यहां इन दोनों गाथाओं को मिलाके अर्थ कहा गया है ।

**व्याख्यार्थः**—“परिणामि” इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते हैं—स्वभाव तथा विभाव पर्यायोंकरके परिणामसे परिणामी जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं और शेष ( बाकीके ) चार द्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार द्रव्य विभावव्यञ्जनपर्यायके अभावसे मुख्यतासे अपरिणामी हैं । “जीव” शुद्ध निश्चयनयसे निर्मल ज्ञान तथा दर्शन स्वभावका धारक जो शुद्ध चैतन्य है उसीको प्राण शब्दसे कहते हैं । उस शुद्ध चैतन्यरूप प्राणसे जो जीवता है वह जीव है, और व्यवहारनयसे कर्मके उदयसे उत्पन्न द्रव्य तथों

(१) यह गाथा यद्यपि सस्कृतटीकाको प्रतियोगे में नहीं है, तथापि टीकाकारने इसका आशय प्राह्ण किया है और जयचंद्रजीकृत द्रव्यसंग्रहको वैचनिका तथा मूल मुद्रित पुस्तकमें उपलब्ध होती है, अतः उपर्योगों से मंझकर, योंहां लिखा दी गई है । (२) ये दोनों गाथायें किन्तु ग्रन्थको ही इसलिये इनमें मूलक्रमप्राप्त संख्यों नहीं लगाई गई हैं ।

पुनरजीवस्थापणि । “मुत्त” शुद्धात्मनो विलक्षणस्पर्शरसगन्धवर्णवतो मूर्तिरुच्यते, उत्स-  
द्धावान्मूर्त्तः पुद्गलः । जीवद्रव्यं पुनरनुपचरित्वासद्गुत्तव्यवहारेण मूर्तमपि शुद्धनिश्च-  
यनयेनामूर्त्तम्, धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्त्तानि । ‘सपदेसं’ लोकमात्रप्रमितासं-  
स्वेयप्रदेशलक्षणं जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पञ्चद्रव्याणि पञ्चास्तिकायसंक्षानि सप्रदेशानि ।  
कालद्रव्यं पुनर्यहुप्रदेशत्वलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम् । “एय” द्रव्यार्थिकनयेन धर्मा-  
धर्माकाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति । जीवपुद्गलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । “खेच”  
सर्वद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात् क्षेत्रमाकाशमेकम् । शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि ।  
‘किरियाय’ क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती क्रिया, सा विद्यते  
यथोस्ती क्रियावन्ती जीवपुद्गली । धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि पुनर्निर्दिक्षियाणि । “णिक्ष”  
धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायत्वेनानित्यानि, तथापि मुख्यवृत्त्या विभाव-  
न्यस्तनपर्यायाभावान्तित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिकन-  
यापेक्षया नित्ये तथाप्यगुहलघुपरिणतिस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यज्ञनपर्याया-  
पेक्षया चानित्ये । “कारण” पुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य

भाव रूप चार प्रकारके जो इन्द्रिय, वल, आयु और श्वासोच्छूलास नामक प्राण हैं; उनसे  
जो जीवता है, जीवैगा और पूर्वकालमें जीता था वह जीव है । सो एक । और पुद्गल आदि  
पाच द्रव्य जो हैं वे तो अजीव रूप हैं । “मुत्त” अमूर्त जो शुद्ध आत्मा है उससे विल-  
क्षण स्पर्श, रस, गंध तथा वर्णवाली जो है उसको मूर्ति कहते हैं । उस मूर्तिके सद्ग्रावसे  
अर्थात् उस मूर्तिका धारक होनेसे पुद्गल द्रव्य मूर्त है, और जीव द्रव्य यद्यपि अनुपचरित्व  
अमद्गुत्तव्यवहारनयसे मूर्त है तथापि शुद्ध निश्चयनयसे अमूर्त है; तथा धर्म, अधर्म  
आकाश और कालद्रव्य अमूर्त हैं । “सपदेसं” लोकाकाशमात्रके प्रमाण असंख्यात  
प्रदेशोंको धारण करना है लक्षण जिसका ऐसे जीव द्रव्यको आदि लेके पंचास्तिकाय नामके  
धारक जो पांच द्रव्य हैं वे सप्रदेश (प्रदेशसहित) हैं, और वहुप्रदेशपना है लक्षण  
जिसका ऐसा जो कायत्व उसके न होनेसे कालद्रव्य अप्रदेश है । “एय” द्रव्यार्थिकनयसे  
धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं और जीव, पुद्गल तथा काल ये तीन  
द्रव्य अनेक हैं । “खेच” सब द्रव्योंको अवकाश (स्थान) देनेका सामर्थ्य होनेसे क्षेत्र  
एक आकाश द्रव्य है और शेष पांच द्रव्य क्षेत्र नहीं हैं । “किरियाय” एक क्षेत्रसे  
दूसरे क्षेत्रमें गमन रूप अर्थात् हिलनेवाली अथवा चलनेवाली जो है वह क्रिया है, वह  
क्रिया जिनमें रहे वे क्रियावान् जीव तथा पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, और धर्म, अधर्म, आकाश  
तथा काल ये चार द्रव्य क्रियासे शून्य हैं । “णिच्चं” धर्म, अधर्म, आकाश और काल-से  
चार द्रव्य यद्यपि अर्थपर्यायरासे अनित्य हैं तथापि मुख्यवृत्त्यिसे इनमें विभावव्यन्त्रन  
पर्याय नहीं हैं इसलिये ये नित्य हैं; और द्रव्यार्थिक नयसे जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य यद्यपि  
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे नित्य हैं तथापि अगुहलघुपरिणामरूप जो, स्वभाव पर्याय हैं

शरीरवाहुमनः प्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्त्तनाकार्याणि कुर्वन्तीति कारणानि भवन्ति । जीवद्रव्यं पुनर्यश्च पुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् । “कत्ता” शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धद्रव्या-यिकनयेन यद्यपि वन्धमोक्षद्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकर्त्ता जीवस्तथाप्यशुद्ध-निश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन् पुण्यपापवन्धयोः कर्त्ता फलभोक्ता भवति । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यस्य सम्यकश्रद्धानक्षानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्त्ता तत्फलभोक्ता चेति । शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिण-मनमेव कर्तृत्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव कर्तृत्वम् । वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणकर्तृत्वमेव । “सञ्चगदं” लोकालोकन्यात्पेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते । लोकव्याप्त्यपेक्षया धर्माधर्मां च । जीव-द्रव्यं पुनरेकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्थां चिह्नायासर्वगतं, नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवति, पुद्गलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं, शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगतं न भवति, कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति । लोकप्रदेशप्रभाणना-

उनकी अपेक्षासे तथा विभावव्यंजन पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य हैं । “कारण” पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये जो द्रव्य हैं इनमेसे व्यवहारनयकर जीवके-शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है और गति, स्थिति, अवगाह तथा वर्त्तनारूप कार्यको क्रमसे धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं, इसलिये पुद्गलादि पांच द्रव्य कारण हैं, और जीवद्रव्य यद्यपि गुरु, शिष्य आदि रूपसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करता है तथापि पुद्गल आदि पांच द्रव्योंके प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता इसलिये अकारण है । “कत्ता” शुद्ध पारिणामिक परमभावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसकी अपेक्षा यद्यपि वंध मोक्षके कारणभूत द्रव्य-भाव रूप जो पुण्य पाप, घट घट आदि हैं उनका कर्त्ता जीव नहीं है तथापि अशुद्ध निश्चयनयसे शुभ और अशुभ उपयोगोंसे परिणत हुआ पुण्य तथा पाप वंधका कर्त्ता और उनके फलका भोक्ता होता है । तथा विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावका धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप शुद्धोपयोगसे परिणत हुआ यह जीव मोक्षका भी कर्त्ता और उस मोक्षके फलका भोक्ता ( भोगनेवाला ) होता है । यहां सब जगह शुभ, अशुभ तथा शुद्ध परिणामोंका जो परिणमन है उसीको कर्त्ता जानना चाहिये । और पुद्गल आदि पांच द्रव्योंके तो अपने अपने परिणामसे जो परिणमन है वही कर्तृत्व है तथा यथार्थमें तो पुण्य पाप आदि रूपसे अकर्तृता ही है ॥ “सञ्चगदं” लोक और अलोक इन दोनोंमें व्याप्तिकी अपेक्षा आकाशको ही सर्वगत कहते हैं तथा लोकमें व्याप्तिकी अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत हैं । एवं जीव द्रव्य जो है सो एक जीवकी अपेक्षासे लोकपूरणरूप जो अवस्था है उसके बिना असर्वगत है और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे सर्वगत ही होता है,

नाकालाणुविंवक्षया लोके सर्वगतं भवति । “इदरंहि यपवेसे” यद्यपि, सर्वद्रव्याणि व्यवहारणैकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकी-यस्वरूपं न त्यजन्तीति ॥ । अत्र षट्द्रव्येषु मध्ये बीतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वभावं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितं निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति भावार्थः ॥

अत ऊर्ध्वं पुनरपि षट्द्रव्याणा मध्ये हेयोपादेयस्वरूपं विशेषेण विचारयति । तत्र शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण शुद्धबुद्धैकस्वभावत्वात्सर्वं जीवा उपादेया भवन्ति । व्यक्ति-रूपेण पुनः पञ्चपरसेष्ठिन एव । तत्राप्यर्हसिद्धद्रव्यमेव । तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एव । परमनिश्चयेन तु भोगाकाङ्क्षादिरूपसमस्तविकल्पजालरहितपरमसमाधिकाले सिद्धसद्वशः स्वशुद्धात्मैवोपादेयः शेषद्रव्याणि हेयानीति तात्पर्यम् । शुद्धबुद्धैकस्वभाव इति कोऽर्थः ॥

तथा पुद्गल द्रव्य है सो लोकरूप महास्कन्धकी अपेक्षासे तो सर्वगत है और शेष पुद्गलोंकी अपेक्षासे असर्वगत है, पुनः एक कालाणुद्रव्यकी अपेक्षासे तो कालद्रव्य सर्वगत नहीं होता है और लोकप्रदेशप्रमाण नाना कालाणुओंकी अपेक्षासे कालद्रव्य लोकमें सर्वगत है ॥ “इदरंहि यपवेसे” यद्यपि व्यवहारनयसे सब द्रव्य एक क्षेत्रमें अवगाह (रहने) से परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं तथापि निश्चयनयसे चेतना आदि जो अपना २ स्वरूप है उसको नहीं छोड़ते हैं इस कारण परस्पर प्रवेशरहित हैं । इस उपर्युक्त कथनका तात्पर्य यह है कि इन छहों द्रव्योंमें बीतराग, चिदानन्द, एक शुद्ध, बुद्ध आदि गुण ही हैं स्वभाव जिसके ऐसा, और शुभ तथा अशुभ जो मन, वचन और कायके व्यापार हैं उनसे रहित जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है वही उपादेय है ॥

अब इसके उपरान्त फिर भी षट्द्रव्योंमेंसे क्या हेय है और क्या उपादेय है इस स्वरूपको विशेष रीतिसे विचारते हैं । उनमें शुद्ध निश्चयनयसे शक्तिरूपसे शुद्ध, बुद्ध एक स्वभावके धारक सभी जीव हैं इस कारण सर्व जीव ही उपादेय (प्राण्य) हैं । और व्यक्तिरूपसे अहंत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पांच परमेष्ठी ही उपादेय हैं । इन पांचोंमेंसे भी अहंत्-सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं । इन दोमेंसे भी निश्चयकी अपेक्षासे सिद्ध ही उपादेय हैं और परम-निश्चयसे भोगोंकी अभिलाषा आदि रूप जो संपूर्ण विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो परमध्यानका समय है उस समयमें सिद्धोंके समान जो निज शुद्ध आत्मा है, वही उपादेय है । अन्य सब द्रव्य हेय हैं । यह तात्पर्य है । अब ‘शुद्धबुद्धैकस्वभाव’ इस पदका क्या अर्थ है सो कहते हैं-मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्णविभावोंसे रहित होनेके कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है । तथा केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंसे सहित होनेसे आत्मा बुद्ध कहा जाता है । इस प्रकार जहाँ जहाँ ‘शुद्धबुद्धैकस्वभाव’ यह पद आवै वहाँ वहाँ सर्वत्र यही पूर्वोक्त लक्षण समझना चाहिये । इस रीतिसे षट्द्रव्योंकी चूलिका समाप्त हुई । अब ‘चूलिका’ इस शब्दका अर्थ कहते हैं । “चूलिका” किसी

मिथ्यात्वरागादिसमस्तविभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहितत्वा-  
द्वयः । इति शुद्धद्रव्यकलक्षण सर्वत्र ज्ञातव्यम् । इति, षड्द्रव्यत्रूपिका, समाप्ता । चूलिका-  
शब्दार्थः कथयते—चूलिका विशेषव्याख्यानम्, अथवा उक्तानुकृत्याख्यानम्, उक्तानु-  
क्तसंकीर्णव्याख्यान चेति ॥

अतः परं जीवपुद्गलेपर्यायरूपाणामात्रवादिसमपदार्थानामेकादशगाथापर्यन्त व्याख्यानं  
करोति । तत्रादौ “आसववंधण” इत्यादिगाथात्रयं, तत्परं बन्धव्याख्यानकथनेन “वज्ञादि  
कम्म” इति प्रभृतिगाथाद्वय, ततोऽपि संचरकथनरूपेण “चेदणपरिणामो” इत्यादिसूत्रद्वयं;  
ततश्च निर्जराप्रतिपादनरूपेण “जहकालेण तवेण य” इति प्रभृतिसूत्रमेकं, तदनन्तरं  
मोक्षस्वरूपकथनेन “सञ्चरस्स कम्मणो” इत्यादि सूत्रमेक, ततश्च पुण्यपापद्वयकथनेन  
“सुहअसुह” इत्यादि सूत्रमेकं चेत्येकादशगाथाभिः स्थलसप्तकसमुदायेन द्वितीयाधिकारे  
समुदायपातनिका ॥

अत्राह शिष्यः—यद्येकान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनौ भवतस्तदा संयोगपर्यायरूप  
एक एव पदार्थः, यदि उन्नरेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा जीवाजीवद्रव्यरूपौ द्वावेद  
पदार्थके विशेष व्याख्यानको अथवा उक्त ( कहे हुए ) विषयमें जो अनुक्त ( नहीं कहा  
हुआ ) है उसके व्याख्यानको तथा उक्त तथा अनुक्तसे मिला हुआ जो कथन है उसको  
कहते हैं ॥

अब इस चूलिकाके पश्चात् जीव और पुद्गल द्रव्यके पर्याय रूप जो आत्मव्य  
आदि सम उ पदार्थ हैं उनका एकादश ११ गाथाओंद्वारा इस द्वितीय अधिकारमें  
व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम “आसववंधण” इत्यादि २८ वीं एक गाथा अधिकार  
सूत्ररूप है और उसके अनन्तर आत्मवपदार्थके व्याख्यानरूपसे “आसवदि जेण” इत्यादि  
२९।३०।३१ वीं तीन गाथायें हैं । उसके अनन्तर “वज्ञादि कम्म जेण” इत्यादि ३२ वीं  
३३ वीं दो गाथाओंमें वंध पदार्थका निरूपण है । उसके पश्चात् “चेदणपरिणामो”  
इत्यादि ३४।३५ की दो गाथाओंमें संचर पदार्थका कथन है । फिर निर्जरा पदार्थके  
प्रतिपादन रूपसे “जह कालेण तवेण य” इत्यादि ३६ वीं एक गाथा है । उसके अनन्तर  
मोक्षके स्वरूपनिरूपणरूपसे “सञ्चरस्स कम्मणो” इत्यादि एक ३७वीं गाथा है । उसके पश्चात्  
पृण्य, पाप इन दो पदार्थोंके कथन रूपसे “सुहअसुह” इत्यादि एक ३८ वीं गाथा है ॥  
ऐसे एकादश ११ गाथाओं द्वारा सप्त स्थलोंके समुदाय सहित द्वितीय अधिकारकी समु-  
दाय-पातनिका समझनी चाहिये ॥

अब यहांपर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरो ! यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य  
एकान्तसे ( सर्वथा ) परिणामी हो, हैं तो संयोगपर्यायरूप एक हो पदार्थ सिद्ध होता  
है; और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं तो जीव, अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं;

पदार्थों, तत आक्षवादि सप्तपदार्थाः कथं घटन्त इति । तत्रोचरं—कथंचित्परिणामि-  
त्वाद् घटन्ते । कथंचित्परिणामित्वमिति कोऽर्थः ? यद्यपि स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभा-  
वेन निर्मलस्तथापि जपापुष्पागुप्ताधिजनितं पर्यायान्तरं परिणति गृहाति । यद्यप्युपाधि-  
गृहाति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वभावं न त्यजति तथा जीवोऽपि यद्यपि शुद्धदत्यार्थिक-  
नयेन सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावस्तथाप्यनादिकर्मवन्धपर्यायवशेन रागादिपरद्रव्योपा-  
चिपर्यायं गृहाति । यद्यपि परपर्यायेण परिणमति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वरूपं न, त्यजति ।  
पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसामेकत्वं कथंचित्परिणामित्वशब्दस्यार्थः । एवं कथंचित्परिणा-  
मित्वे सति जीवपुद्गलसंयोगपरिणतिनिर्वृत्तत्वादास्त्रादिसप्तपदार्था घटन्ते । ते च पूर्वोक्त-  
जीवाजीवाभ्यां सह नव भवन्ति तत एव नव पदार्थाः । पुण्यपापदार्थद्वयस्याभेदनयेन  
कृत्वा पुण्यपापयोर्वन्धपदार्थस्य वा मध्ये अन्तर्भावविवक्षया सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते ॥ हे

इस कारण आक्षव आदि सप्त पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं ? । अब इसका उत्तर कहते हैं कि  
कथंचित् परिणामी होनेसे सप्त पदार्थोंका कथन संगत होता है । “कथंचित्परिणामित्व”  
इसका क्या अर्थ है ? सो सुनो—जैसे मणियोंके भेदरूप जो स्फटिकमणि है वह यद्यपि  
स्वभावसे निर्मल है तथापि जपापुष्प ( जबा अथवा गुड्हलका फूल ) आदिकी उपाधिसे  
उत्पन्न जो रक्तत्व आदि अन्य पर्याय है उस रूप परिणमता है अर्थात् सर्वथा निर्मल  
स्फटिक मणिके साथ जब जपापुष्पका चोग होता है तब वह उस पुष्पके समान रक्तवर्णका ही  
धारक हो जाता है । यहां स्फटिकमणि यद्यपि उपाधिको ग्रहण करता है तथापि निश्चयसे  
अपना जो निर्मल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ता है । ऐसे ही जीव भी यद्यपि शुद्धदत्यार्थिक-  
नयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध चिदानन्दरूप स्वभावका धारक है तथापि अनादि कर्म-  
वन्ध रूप जो पर्याय है उसके बग्से राग आदि परद्रव्यजनित जो उपाधिपर्याय है,  
उसको ग्रहण करता है । यहां यद्यपि जीव परपर्यायके रूपसे परिणमन करता है तथापि  
निश्चयनयसे जो अपना शुद्ध म्बरूप है उसको नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी  
अन्यकी उपाधिसे परिणमनको प्राप्त होजाता है । इस कारण परस्परकी अपेक्षासहित होना  
यही “कथंचित्परिणामित्व” शब्दका अर्थ है । इस रीतिसे कथंचित्परिणामित्व सिद्ध  
होनेपर जीव और पुद्गलके संयोगकी परिणति ( परिणाम ) से रवे हुए आक्षव आदि सप्त  
पदार्थ घटित होते हैं । और वे आक्षव आदि सप्त पदार्थ पूर्वोक्त जो जीव और अजीव दो  
द्रव्य हैं उन सहित नव ९ होते हैं इसलिये नव पदार्थ कहे जाते हैं । तथा इन नव पदार्थोंमें  
जो पुण्य और पाप नामक दो पदार्थ हैं इनका पूर्व सप्त पदार्थोंसे अभेद करनेसे अथवा  
पुण्य और पाप पदार्थका वन्ध पदार्थमै अन्तर्भाव ( शामिल ) करनेसे सप्त तत्त्व कहे जाते  
हैं । गिर्व्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! यद्यपि कथंचित्परिणामित्व माननेके बलसे भेद-  
प्रधान पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे नव ह पदार्थ तथा सप्त उ तत्त्व सिद्ध हो गये तथापि  
इनसे क्या प्रयोजन मिद्द हुआ ? क्योंकि जैसे अभेदनयसे पुण्य, पाप इन्होंने पदार्थोंका प्रथम

भगवन्, यथपि कर्यचित्परिणामित्वबलेन भेदप्रधानर्यायार्थिकतयेन नवपदार्थाः सप्ततत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि तै फिं प्रयोजनम् । यथैवभेदनयेन पुण्यपापपदार्थद्रव्य-स्थान्तर्भावो जातस्तथैव विशेषाभेदनयविवक्षावामास्त्रवादिपदार्थानामपि जीवाजीवद्रव्य-भव्येऽन्तर्भावे कृते जीवाजीवो द्वावेव पदार्थाविति । तत्र परिहारः—हेयोपादेयतत्त्वप-रिक्षानप्रयोजनार्थमास्त्रवादिपदार्थाः व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति-उपादेयतत्त्वम-क्षयानन्तसुखं, तस्य कारणं मोक्षो, मोक्षस्य कारणं संवरनिर्जराद्रव्य, तस्य कारणं विशुद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वसम्यक्त्रिद्वानानुवरगतक्षणं निश्चयरवत्रयस्वरूपं, तत्साधकं व्यवहाररत्नत्रयरूपं चेति । इदानीं हेयतत्त्वं कथयते—आकुलत्वोत्पादक नारकादिदुःखं निश्चयेनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम् । तस्य कारण संसारः, संसारकारगमास्त्रतत्त्व-पदार्थद्रव्य, तस्य कारणं पूर्वक्त्त्वव्यवहारनिश्चयरत्नत्रयाद्विलक्षणं मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र-त्रयमिति । एवं हेयोपादेयतत्त्वन्याख्याने कृते सति सप्ततत्त्वनवपदार्थाः स्वयमेव सिद्धाः ।

इदानीं कस्य पदार्थस्य कः कर्त्तति कथयते—निजनिरज्ञनगुद्वात्मभावनोत्पत्तपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादपराङ्गमुखो वहिरात्मा भण्यते । स चास्त्रववन्धपापपदार्थ-

सप्त पदार्थोंमें अन्तर्भाव हुआ है उसी प्रकार विशेष अभेदनयकी विवक्षामें आस्त्र आदि पदार्थोंका भी जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंमें अन्तर्भाव करलेनेसे जीव तथा अजीव ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जायेंगे । अब इस शिष्टकी शंकाका परिहार करते हैं कि हे शिष्ट ! कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है इस विषयका ज्ञान होनेके प्रयोजनके लिये आस्त्र आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हैं । अब इसी विषयको कहते हैं कि अविनाशी अनंत सुख जो है वह उपादेय तत्त्व है । उस अक्षय अनंत सुखका कारण मोक्ष है और उस मोक्षके कारण संवर और निर्जरा ये दोना पदार्थ हैं । उन सत्र और निजराका कारण, विशुद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभावका धारक जो निजात्मा है उसके स्वरूपका सम्बन्ध अद्वान, ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, और उस निश्चय रत्नत्रयको साधनेवाला व्यवहाररत्नत्रय है । अब हेयतत्त्वका कथन करते हैं—आकुलताका उत्पन्न करनेवाला जो नरकगति आडिका दुःख तथा इन्द्रियासे उत्पन्न हुआ सुख है वह हेय (त्याज्य) तत्त्व है, उसका कारण संसार है और संसारके कारण आस्त्र तथा वंश ये दो पदार्थ हैं, और उस आस्त्रका तथा वंशका कारण पूर्वकथित जो व्यवहार और निश्चयरत्न त्रय है उससे विपरीत लक्षणके धारक मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये तीन हैं । इस प्रकार हेय और उपादेय तत्त्वका निरूपण करने पर सप्ततत्त्व वया नवपदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो गये ॥

अब किस पदार्थका कौन कर्ता है इम विषयका उपदेश करते हैं । निज निरजन शुद्ध आत्मा जो है उसकी भावना (चित्तवन) से उत्पन्न जो परम आनन्दरूप लक्षणवाला सुखामृतका रस है उसके आस्वादसे पराङ्मुख (रहित) जो जीव है वह वहिरात्मा

त्रयस्य कर्ता भवति । क्वापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्दकषायोदये सति भोगाकाङ्क्षाः-  
दिनिदानवन्धेन भाविकाले पापानुबन्धपुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवति । यस्तु पूर्वो-  
क्तव्यहिरात्मनो विलक्षणः सम्यग्हट्टिः स संवरनिर्जरामोक्षपदार्थत्रयस्य कर्ता भवति ।  
रागादिविभावरहितपरमसामायिके यदा स्थातुं समर्थो न भवति तदा विषयकषायोत्प-  
न्नदुर्ध्यानवद्वनार्थं संसारस्थितिच्छेदं कुर्वन् पुण्यानुबन्धतीर्थकरनामप्रकृत्यादिविष्टपु-  
ण्यपदार्थस्य कर्ता भवति । कर्तृत्वविषये नयविभागः कथ्यते । मिथ्यादृष्टेजीवस्य पुद्गल-  
द्रव्यपर्यायरूपाणांभास्त्रवबन्धपुण्यपापपदार्थानां कर्तृत्वमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीव-  
भावपर्यायरूपाणां पुनरशुद्धनिश्चयनयेनेति । सम्यग्हट्टेस्तु संवरनिर्जरामोक्षपदार्थानां  
द्रव्यरूपाणां यत्कर्तृत्वं तदप्यनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां तु विव-  
क्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयेनेति । परमशुद्धनिश्चयेन तु “ण वि उत्पञ्चःइ. ण वि मरइ वंधु  
ण मोक्षु करेइ । जिउ परमस्थे जोड्या, जिणवरु एम भणोइ ॥ १ ॥” इति वचनाद्व-  
न्धमोक्षां न स्तः । स च पूर्वोक्तविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय आगमभाष्या किं भण्यते—  
स्वशुद्धात्मसम्यक्शुद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्यः, एव भूतस्य भव्यत्वसंज्ञस्य  
पारिणामिकभावस्य भवनिधनी व्यक्तिर्भण्यते । अध्यात्मभाष्या पुनर्द्रव्यशक्तिरूपशुद्धपा-

क्षलाता है । वह बहिरात्मा आस्त्रव, वंध और पाप इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है; और किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्वका उदय मंद होता है तब भोगोंकी अभिलाषा आदि रूप निदानके वंधसे पापसे संबंध रखनेवाले पुण्यपदार्थका भी कर्ता होता है । तथा जो पूर्वोक्त बहिरात्मासे विषरीत लक्षणका धारक सम्यग्हट्टि जीव है वह संवर, निर्जरा तथा मोक्ष इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है, और यह सम्यग्हट्टि जीव जिस समय राग आदि विभावोंसे रहित जो परम सामायिक है उसमें स्थित रहनेको समर्थ नहीं होता है उस समय विषयकषायोंसे उत्पन्न जो दुर्ध्यान उसके वंचनार्थ अर्थात् न होनेके लिये संसारकी स्थितिका नाश करता हुआ पुण्यसे सबंध रखनेवाला जो तीर्थकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ है उसका कर्ता होता है । अब कर्तृत्वके विषयमें नयोंके विभागका निरूपण करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके जो पुद्गल द्रव्यपर्याय रूप आस्त्रव, वंध तथा पुण्य, पाप पदार्थोंका कर्त्तापना है सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे है और जीव भाव ( देव, मनुष्य ) आदि पर्यायरूप पदार्थोंका कर्तृत्व अशुद्ध निश्चयनयसे है । तथा सम्यग्हट्टि जीव जो द्रव्यरूप संवर, निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थका कर्ता है, सोभी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे ही है । तथा जीव भावपर्याय रूपोंका जो कर्ता है सो विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय नयसे है । और परम शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे तो “जो परमार्थदृष्टिसे देखें तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न वंध तथा न मोक्षको करता है, इस प्रकार श्रीजिनेन्द्र कहते हैं” इस वचनसे जीवके वंध और मोक्ष ही नहीं है । इसलिये विव-  
क्षितैकदेश शुद्ध निश्चयनयसे ही जीवभावपर्यायोंका जीवको कर्तृत्व है । अब आगमभाष्यासे

रिणामिकभावविषये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयो-  
गादिकं देति । यत एव भावना मुक्तिकारणं तत एव शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो  
भवति, ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मादिति चेत्-ध्यानभावनापर्यायो विनश्वरः स च  
द्रव्यरूपत्वादविनश्वर इति । इदमत्र तात्पर्य-मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहितनिजशुद्धा-  
त्मभावनोत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखसंवित्तिरूपा च भावना मुक्तिकारणं भवति । तां च  
कोऽपि जनः केनापि पर्यायनामान्तरेण भणतीति । एव पूर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तव्याख्या-  
नेनास्त्रववन्धपूण्यपापपदार्थाः जीवपुद्गलसंयोगपरिणामरूपविभावपर्यायेणोत्पद्यते । संव-  
र्निर्जरामोक्षपदार्थाः पुनर्जीवपुद्गलसंयोगपरिणामविनाशोत्पन्नेन विवक्षितस्वभावपर्याये-  
. जेति स्थितम् ॥

तथाथा—

आमव वंधण संवर पिञ्जर मोक्षो सपुण्णपावा जे ।  
जीवाजीवविसेसा तेवि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥

क्या कहते हैं सो दर्शते हैं—निज शुद्ध आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण  
रूपसे जो होगा उसे भव्य कहते हैं । इस प्रकारका जो भव्यत्व संज्ञाका धारक जीव है  
उसके पारिणामिक भावसे संबंध रखनेवाली व्यक्ति कही जाती है अर्थात् भव्यके पारिणा-  
मिक भावकी व्यक्ति ( प्रकटता ) है । और अध्यात्मभाषासे द्रव्यशक्ति रूप जो शुद्ध  
भाव है उसके विषयमें भावना कहते हैं । अन्य नामोंसे इसी द्रव्य शक्ति रूप  
पारिणामिक भावकी भावनाको निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं ।  
भावना मुक्तिका कारण है । इसी कारण जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्येय ( ध्यान  
करने योग्य ) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । ऐसा क्यों होता है यह पूछो तो  
उत्तर यह है कि ध्यानभावना पर्याय है सो तो विनाशका धारक है और ध्येयभावना  
पर्याय द्रव्यरूप होनेसे विनाशरहित है । तात्पर्य यहांपर यह है कि मिथ्यात्व, राग आदि  
जो विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो निज शुद्ध आत्मा उसकी भावनासे उत्पन्न सहज  
( स्वभावसे उत्पन्न ) आनन्द रूप एक सुखके ज्ञानको धारण करनेवाली जो भावना है  
वही मुक्तिका कारण है । उसी भावनाको कोई पुरुष किसी ( निर्विकल्प ध्यान,  
शुद्धोपयोग आदि रूप ) अन्य नामके द्वारा कहता है ॥

इस पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकान्त ( स्याद्वाद ) का आश्रय कर कथन करनेसे आस्त्रव,  
बंध, पुण्य और पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोग परिणामरूप जो विभाव  
पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं । और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और  
पुद्गलके संयोग रूप परिणामके विनाशसे उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है उससे  
उत्पन्न होते हैं, यह निश्चित हुआ ।

**व्याख्या—“आसव”** निरास्त्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मांग-  
मनमास्त्रवः । “वधूण” वन्धातीतशुद्धात्मोपलम्भभावनाच्युतजीवस्य कर्मप्रदेशौः सह  
संश्लेषो वन्धः । “संवर” कर्मास्त्रवनिरोधसमर्थस्वसवित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मा-  
गमनसंवरणं मंवरः । “णिञ्जर” शुद्धोपयोगभावनासामर्थ्येन नीरसीभूतकम्पुद्गलाना-  
मेकदेशगलनं निर्जरा । “मोक्षो” जीवपुद्गलमंश्लेषपूर्ववन्धस्य विघटने समर्थः स्वशुद्धा-  
त्मोपलवित्तिपरिणामो मोक्ष इति । “सपुण्णपावा जे” पुण्यपापसहिता ये “ते वि समा-  
सेण पभणामो” यथा जीवाजीवपदार्थौ व्याख्यातौ पूर्वं तथा तानप्यास्त्रवादिपदार्थम्  
समासेण सक्षेपेण प्रभणामो वयं, ते च कथभूताः “जीवाजीवविसेसा” जीवाजीववि-  
शेषाः । विशेषा इत्यस्य कोऽर्थः, पर्यायाः । चैतन्या अशुद्धपरिणामा जीवस्य, अचेतनाः  
कर्मपुद्गलपर्याया अजीवस्येत्यर्थः ॥ एवमधिकारसूत्रगाथा गता ॥ २८ ॥

अब पूर्वोक्त पदार्थोंका निरूपण करते हैं, सो इस प्रकार है—

**गाथाभावार्थः—**—अब जो आस्त्रव, वध संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ऐसे  
सात जीव, अजीवके भेदरूप पदार्थ हैं, इनको भी सक्षेपसे कहते हैं ॥ २८ ॥

**व्याख्यार्थः—“आसव”** आस्त्रवसे रहित जो निज आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण  
जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है उस परिणामसे जो शुभ और अशुभ कर्मोंका आगमन है  
सो आस्त्रव है । “वंधूण” वंधसे रहित जो शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्तिस्वरूप जो भावना  
है उस भावनासे गिरे हुये जीवका जो कर्मके प्रदेशोंके साथ परस्पर वध है, इसको वंध  
कहते हैं । “संवर” कर्मोंके आस्त्रवको रोकनेमें समर्थ जो निज आत्मज्ञान है उस ज्ञानमें  
परिणत जीवके जो शुभ तथा अशुभ कर्मोंके आनेका निरोध है वह संवर है । “णिञ्जर”  
शुद्ध उपयोगकी भावनाके बलसे नीरसीभूत (शक्तिहीन) हुए ऐसे कर्मपुद्गलोंका जो  
एकदेशसे गलन अर्थात् नाश है उसको निर्जरा कहते हैं । “मोक्षो” जीव तथा पुद्ग-  
लका जो परस्पर मेलनरूप वंध है उस वंशको नाश करनेमें समर्थ जो निज शुद्ध आत्माकी  
प्राप्तिरूप परिणाम है वह मोक्ष कहा जाता है । “सपुण्णपावा जे” पुण्य तथा पाप  
सहित जो आस्त्रव आदि पदार्थ हैं “ते वि समायेण पभणामो” उनको भी जैसे पहले  
जीव, अजीव कहे उसी प्रकार सक्षेपसे हम कहते हैं—और वे कैसे हैं कि ‘जीवाजीववि-  
सेसा’ जीव तथा अजीवके विशेष अर्थात् पर्याय हैं । तात्पर्य यह कि चैतन्य आस्त्रव आदि  
तो जीवके अशुद्ध परिणाम हैं और अचेतन जो कर्मपुद्गलोंके पर्याय हैं वे अजीवके हैं ।  
इस प्रकार आस्त्रव आदि अधिकारसूत्रकी गाथा गाई (समाप्त हुई) ॥ २८ ॥

अब तीन गाथाओंसे आस्त्रव पदार्थका व्याख्यान करते हैं, उसमें प्रथम ही भावास्त्र  
व्याख्यास्त्रवकी सूचना करते हैं;—

अथ गाथात्रयेणास्त्रव्याख्यात्यानं क्रियते, तत्रादौ भावास्त्रवद्रव्यास्त्रवस्त्ररूप सूचयति;—

आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विष्णेओ ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ॥ २९ ॥

**व्याख्या**—“आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विष्णेओ भावासवो” आस-  
वति कर्म येन परिणामेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्त्रवः । कर्मास्त्रवनिर्मूलनसमर्थशुद्धात्म-  
भावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्त्रवति कर्म कस्यात्मनः स्वस्य स परिणामो भावा-  
स्त्रवो विज्ञेयः । स च कथंभूतः “जिणुत्तो” जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तः । “कम्मासवणं  
परो होदि” कर्मास्त्रवणं परो भवति । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणामास्त्रवणमागमनं परः । पर  
इति कोऽर्थः— भावास्त्रवाद्यन्यो भिन्नो भावास्त्रवनिमित्तेन तैलभृक्षितानां धूलिसमागम  
इव द्रव्यास्त्रवो भवतीति । ननु “आस्त्रवति येन कर्म” तेनैव पदेन द्रव्यास्त्रवो लब्धः,  
पुनरपि कर्मास्त्रवणं परो भवतीति द्रव्यास्त्रवव्याख्यात्यानं किमर्थमिति यदुक्तं त्वया । तत्र ।  
— येन परिणामेन किं भवति आस्त्रवति कर्मे तत्परिणामस्य सामर्थ्यं दर्शितं न च द्रव्यास्त्र-  
वव्याख्यानमिति भावार्थः ॥ २९ ॥

**गाथाभावार्थः**— जिस परिणामसे आत्माके कर्मका आस्त्रव होता है उसको श्रीजिने-  
न्द्रद्वारा कहा हुआ भावास्त्रव जानना चाहिये । और भावास्त्रवसे भिन्न ज्ञानावरणादि रूप  
कर्मोंका जो आस्त्रव है सो द्रव्यास्त्रव होता है ॥ २९ ॥

**व्याख्यार्थः**—“आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विष्णेओ भावासवो”  
आत्माके जिस परिणाममें कर्मेका आस्त्रव हो वह परिणाम भावास्त्रव है, यह जानना चाहिये ।  
भावार्थ यह है कि कर्मास्त्रवके दूर करनेमें समर्थं जो शुद्ध आत्माकी भावना है उस भाव-  
नाके प्रतिपक्षभूत ( विरोधी ) जिस परिणामसे अपने आत्माके कर्मका आस्त्रव होता है उस भाव-  
परिणामको भावास्त्रव जानना चाहिये । वह भावास्त्रव कैसा है कि “जिणुत्तो” जिन जो  
श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनसे कहा हुआ है । “कम्मासवणं परो होदि” कर्मोंका जो  
आस्त्रवण है वह पर होता है अर्थात् ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंका जो आस्त्रवण (आगमन)  
है वह पर है । पर गठनका अर्थ यह है कि भावास्त्रवसे भिन्न । भावार्थ—जैसे तेलसे चुपड़े  
हुए पदार्थोंके धूलका समागम होता है उसी प्रकार भावास्त्रवके निमित्तसे जीवके द्रव्यास्त्रव  
होता है । अब यहाँ कोई शका करते हैं कि “आमवदि जेण कम्मं” ( जिससे कर्मका  
आस्त्रव होता है ) इसी पदसे द्रव्यास्त्रवकी प्राप्ति होगई फिर “कम्मासवणं परो होदि”  
( इससे भिन्न कर्मास्त्रव होता है ) इस पदसे द्रव्यास्त्रवका व्याख्यात किस प्रयोजनके लिये  
किया ? समाधान—यह शका जो तुमने कही सो ठीक नहीं । क्योंकि “जिस परिणामसे  
क्या होता है कि कर्मका आस्त्रव होता है” यह जो कथन है उससे परिणामका सामर्थ्य  
दिखाया गया है, द्रव्यास्त्रवका व्याख्यात नहीं किया गया । यह भावार्थ है ॥ २९ ॥

अथ भावास्तवस्तरूपं विशेषेण कथयति,—

**मिच्छत्ता विरदिपमादजोगकोधादओऽथ विष्णेया ।**

एण पण पणदम तिथ चहु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ ३० ॥

व्याख्या । “मिच्छत्ता विरदिपमादजोगकोधादओ” मिथ्यात्वाविरतिप्रभादयोगकोधादयः । अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिविषये विपरीताभिनिवेशजनकं, बहिर्विषये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभृतिसमस्तद्रव्येषु विपरीताभिनिवेशोत्पादकं च मिथ्यात्वं भण्यते । अभ्यन्तरे निजपरभात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपरमसुखामृतरतिविलक्षणा बहिर्विषये पुनरब्रतरूपा चेत्यविरतिः । अभ्यन्तरे निष्प्रभादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूपः बहिर्विषये तु मूलोत्तरगुणमलजनकश्चेति प्रभादः । निश्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यान्तरायक्षयोपशमोत्पन्नो मनोवचनकायवर्गणावलम्बनः कर्मादानहेतुभूत आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्युच्यते । अभ्यन्तरे परमोपशममूर्तिकेवलज्ञानाच्चनन्तरगुणस्वभावपरमात्मस्वरूपक्षेभकारकाः बहिर्विषये तु परेषां सबन्धितवेन क्रूरत्वाद्यावेशरूपाः क्रोधाद-

अब भावास्तवके स्वरूपका विशेष रीतिसे कथन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः—**—अब प्रथम जो भावास्तव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, योग और क्रोध आदि कषाय ऐसे पाच भेद जानने चाहिये, और मिथ्यात्व आदिके क्रमसे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन और चार भेद समझने चाहिये । अर्थात् मिथ्यात्वके पाच भेद, अविरतिके पाच भेद, प्रभादके पन्द्रह भेद, योगके तीन भेद और क्रोध आदि कषायोंके चार भेद जानने ॥ ३० ॥

**व्याख्यार्थः—**मिच्छत्ता विरदिपमादजोगकोधादओ” मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, योग तथा क्रोध आदि वक्ष्यमाण लक्षण तथा संख्यायुक्त भाव आस्तवके भेद हैं । इनमेंसे अन्तरंगमे जो वीतराग निज आत्मतत्त्वके अनुभवमें रुचि है उसके विषयमें विपरीत अभिनिवेश ( आग्रह ) का उत्पन्न करानेवाला तथा बाह्य विषयमें परसबधी शुद्ध आत्मतत्त्वसे आदि लेकर संपूर्ण द्रव्योंमें जो विपरीत अर्थात् उलटे आग्रहका उत्पन्न करानेवाला है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं । तथा अभ्यन्तरमें निज परमात्माके स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न जो परम सुखरूप अमृत है, उस परम सुखमें जो रति ( प्रीति ) है उससे विलक्षण, तथा बाह्य विषयमें ब्रत आदिका धारण न करने रूप जो है सो अविरति है । तथा अभ्यन्तरमें प्रभादरहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुभवसे चलन ( द्विगाने ) रूप और बाह्य विषयमें जो मूलगुण तथा उत्तर गुण हैं उनमें अतिचार उत्पन्न करानेवाला प्रभाद है । निश्चयसे क्रियारहित परमात्माके भी जो व्यवहारसे वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न तथा मन, वचन और काय वर्गणाको अबलम्बन करानेवाला, कर्मोंके ग्रहण करनेमें

अब तीनस्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द ( संचलन ) है उसको योग कहते हैं । तथा अभ्यन्तरायका द्रव्यास्तवमूर्तिवाला तथा केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंरूप स्वभावका धारक

अश्रेत्युक्तलक्षणाः पञ्चास्त्वा ॥ “अथ” अथोऽचिणेया विज्ञेया ज्ञातव्याः । किंतिभे-  
दास्ते “पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा हु” पञ्चपञ्चपञ्चदशन्निरुभेदाः कमशो  
भवन्ति पुनः । तथाहि ‘एयंतद्युद्धिदरसी विवरीओ वस्त्रावसो विणओ । इंदो विय  
ससडदो मकडिओ चेव अण्णाणी । १ ॥’ इति गाथाकथितलक्षणं पञ्चविधं मिथ्यात्म् ।  
हिंसानृतस्तेयाव्रशपरिप्रहाकाङ्गारुपेणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मनसहितपञ्चेन्द्रि-  
यप्रवृत्तिपृथिव्यादिपटकायविराघनाभेदेन द्वादशविधा । “विकहा तहय कसाया इन्दि-  
यणिदा य तह य पणयां य । चदु चदु पणमेगेग हुति पमादा हु पणरसा । १ ॥’ इति  
गाथाकथितक्षेण पञ्चदश प्रमादा । मनोवचनकायव्यापारभेदेन त्रिविधो योगः,  
विस्तरेण पञ्चदशभेदो वा । क्रोधमानमायालोभभेदेन कपायावत्वार, कषायनोकषा-  
यभेदेन पञ्चविशतिविधा वा । एते सर्वे भेदाः कस्य संबन्धिनः “पुञ्चस्स” पूर्वसूत्रोदि-  
तभावाभ्रवस्येत्यर्थः ॥ ३० ॥

अथ इयास्त्वरूपमुद्योतयतिः—

णाणावरणादीणं जोग्नं नं पुणगलं समासवदि ।

दव्यासवो भ णेओ अणेयमेओ जिणकखादो ॥ ३१ ॥

जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें क्रोभको उत्पन्न करनेवाले तथा वाह्य विषयमें परके संबंधी-  
पनेसे क्रूरता आदिके आवेश रूप जो क्रोध आदि हैं उनको कपाय कहते हैं । इस प्रकार  
पूर्वोक्त लक्षणके धारक मिथ्यात्म, अविरति, प्रमाद, योग तथा कपाय ये पांच भावास्त्रव हैं । ये  
“अथ” पूर्वकथनके अर्थात् १९ वीं गाथामें कहे हुए कथनके पश्चात् “चिणेया” जानने  
चाहिये । अब इन पांच भावास्त्रवोंके कितने भेद हैं सो कहते हैं—“पण पण पणदस  
तिय चदु कमसो भेदा हु” और उन मिथ्यात्म आदिके क्रमसे पाच, पांच, पन्द्रह, तीन  
और चार भेद हैं । वे इस प्रकार हैं “वौद्धमतवाले आदि एकान्तमिथ्यात्मी हैं १. यज्ञ  
करनेवाले ब्राह्मण आदि विपरीतमिथ्यात्मके धारक हैं २. तापस आदि विनयमिथ्यात्मी हैं  
३ इन्द्राचार्य आदि संशयमिथ्यात्मी हैं ४ और मस्करी आदि अज्ञानमिथ्यात्मी हैं ५.”  
हिंसा, असत्य, चोरी, अत्रह और परिग्रहमें इच्छारूप अविरति भी पांच प्रकारकी है, अथवा  
यही अविरति मन और पाचों इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिरूप ६ भेद तथा छहकार्यके जीवाको  
विराघनारूप ७ भेद ऐसे दोनोंके मिलानेसे वारह प्रकारकी भी है । “चार विकथा, चार  
कपाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और राग ऐसे पन्द्रह प्रमाद होते हैं ॥ १ ॥” इस गाथा-  
कथित क्रमसे प्रमाद पन्द्रह हैं । मनोव्यापार, वचनव्यापार और कायव्यापार इन भेदोंसे  
योग तीन प्रकारका है अथवा विस्तारसे १५ प्रकारका है । क्रोध, मान, माया तथा लोभ  
इन भेदोंसे कपाय चार प्रकारके हैं, अथवा १६ कपाय और ९ नोकषाय इन भेदोंसे पचास  
प्रकारके कपाय हैं । ये सब भेद किस आस्त्रवके संबंधी हैं कि “पुञ्चस्स” पूर्वगाथामें  
कहा हुआ जो भावास्त्रव है उसके भेद हैं । इस प्रकार गाथाका अर्थ है ॥ ३० ॥

**व्याख्या—**“गाणावरणादीणं” सहजशुद्धकेवलज्ञानमभेदेन केवलज्ञानायनन्तरुणा-वारभूत ज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरणं, तदादिर्येषां तानि ज्ञानावरणादीनि तेषां ज्ञानावरणादीनां “जोगं” योगयं “जं पुगलं समासवदि” स्नेहा-भ्यक्षशरोराणां धूडिरेणुसमागम इव निष्कशायशुद्धात्मसवित्तिच्युतजोवानां कर्मवर्गणारूपं यत्पुद्गलद्रव्यं समाप्तवति “दव्वासओ स ऐओ” द्रव्यास्त्रवः स विज्ञेयः। ‘अणेयमेओ’ स च ज्ञानदर्शनावरणोयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायसंब्रानामष्टमूलप्रकृतीनां भेदेन, तथैव “पग णव दु अटुवोसा चउ तियगवदी य दोणि पंचेव। बावण्णहीण वियसय-पयडिविणासेण हाँति ते सिद्धा ॥ १ ॥” इति गाथाकथितरुमेगाष्टवत्वारिंशदविकशत-संख्याप्रमितोत्तरप्रकृतिभेदेन तथा चासंख्येयलोकप्रमितपूर्थिवोक्तयनामकर्मायुत्तरोत्तरप्रकृतिरूपेणानेकभेद इति “जिणक्खादो” जिनस्यातो जिनप्रणीत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ एवमा-स्वव्याख्यानगाथान्नयेण प्रथमस्थलं गतम् ।

अब द्रव्यास्त्रवके स्वरूपको प्रकट करते हैं,—

**गाथाभावार्थः—**ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंके योग्य जो पुद्गल आवा है उसको द्रव्यास्त्रव जानना चाहिये । वह अनेक भेदोंसहित है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है ॥ ३१ ॥

**व्याख्यार्थः—**“गाणावरणादीणं” सहज शुद्ध केवल ज्ञानको अथवा अभेदनयकी विवक्षासे केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत ‘ज्ञान’ इस शब्दसे कहने योग्य जो परमात्मा है उसको जो आवृत करे अर्थात् ढके सो ज्ञानावरण है । वह ज्ञानावरण है आदिमें जिनके ऐसे जो ज्ञानावरणादि हैं उनके “जोगं” योग “जं” जो “पुगलं” पुद्गल “समासवदि” आवा है अर्थात् जैसे तैलसे लिप (चुपडे हुए) शरीरवाले जीवोंके धूलके कणोंका आगमन होता है उसी प्रकार कषायरहित शुद्ध आत्माके ज्ञानसे रहित जीवांके जो कर्मवर्गारूप पुद्गल द्रव्य आवा है “दव्वासओ स ऐओ” उसको द्रव्यास्त्रव जानना चाहिये । “अणेयमे-ओ” और वह अनेक प्रकारका है अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय नामक जो आठ मूल प्रकृतिके भेद हैं उनसे, अथवा “ज्ञानावरणीयके ५, दर्शनावरणीयके ९, वेदनीयके २, मोहनीयके २८, आयुके ४, नामके ९३, गोत्रके २, और अन्तरायके ५ इस प्रकार वावन कम दोसौ (१४८) प्रकृतियोंका नाश होनेसे वे सिद्ध होते हैं ।” इस गाथामें कहे हुए क्रमसे एकसौ अड्डतालीस १४८ सख्या प्रमाण जो उत्तरप्रकृतियां हैं उनके भेदोंसे तथा असख्यात लोक प्रमाण जो पूर्थिवी काय नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृतिभेद हैं उनसे अनेक प्रकारका है । “जिण-क्खादो” यह द्रव्यास्त्रवका सूत्र श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है । इस प्रकार गाथाका अर्थ है ॥ ३१ ॥

इस पूर्वोक्त प्रकारके आस्त्रवके व्याख्यानकी तीन गाथाओंसे प्रथम स्थल समाप्त हुआ ।

अतः चरं सूक्ष्मद्वयेन वन्धन्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ गाथापूर्वार्थिन भाववन्धमुत्तरार्थेन  
तु द्रव्यवन्वस्वरूपमावेदयति,—

वज्ज्ञादि कर्म्मं जेण दु चेदणभावेण भाववंधो सो ।

कर्म्मादपदेशाण अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥३२॥

व्याख्या—“वज्ज्ञादि कर्म्मं जेण दु चेदणभावेण भाववंधो सो” वध्यते कर्म येन चेत्-  
नभावेन स भाववन्धो भवति । समस्तकर्मवन्धविध्वसनसमर्थाखण्डकप्रत्यक्षप्रतिभासम-  
वपरमचैतन्यविज्ञानशुण्णकानगुणस्य, अभेदनयेनानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतपरमात्मनो  
वा संबन्धिनी या तु निर्मलानुभूतिस्तद्विपक्षभूतेन मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपेण वाऽग्नु-  
द्धचेतनभावेन परिणामेन वध्यते ज्ञानावरणादि कर्म येन भावेन स भाववन्धो भण्यते ।  
“कर्म्मादपदेशाण अण्णोण्णपवेसण इदरो” कर्मात्मप्रदेशानामन्थोन्प्रपवेशनमितरः ।  
तेनैव भाववन्धनिमित्तेन कर्मप्रदेशानामात्मप्रदेशानां च क्षोरनोरवदन्योन्य प्रवेशन संश्लेषो  
द्रव्यवन्ध इति ॥३२॥

अथ तस्यैव वन्धस्य गाथापूर्वार्थिन प्रकृतिवन्धादिभेदचतुष्टयं कथयति, उत्तरार्थेन तु  
प्रकृतिवन्धादीनां कारणं चेति ॥

अब इसके आगे दो गाथासूत्रोंसे वध पदार्थका व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम  
गाथाके पूर्वार्थसे भाववध और उत्तरार्थसे द्रव्यवंधके स्वरूपका उपदेश करते हैं ।

गाथाभावार्थः—जिस चेतनभावसे कर्म वैधता है वह तो भाववंध है, और कर्म तथा  
आत्माके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेशन रूप अर्थात् कर्म और आत्माके प्रदेशोंका एकाकार  
होने रूप दूसरा द्रव्यवंध है ॥३२॥

व्याख्यार्थः—“वज्ज्ञादि कर्म्मं जेण दु चेदणभावेण भाववंधो मो” जिस चेतनके  
भावसे कर्म वैधता है, वह भाववध है; अर्थात् सपूर्ण कर्मोंके वधको नष्ट करनेमें समर्थ तथा  
अखण्ड ( पूर्ण ) एक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप जो परम चैतन्य विलास लक्षणका धारक ज्ञान  
गुण है, उससे अथवा अभेदनयकी विवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका आवारभूत जो  
परमात्मा है उससे संबंध रखनेवाली जो निर्मल अनुभूति ( अनुभव ) है उससे विपक्षभूत  
( विरोधी ) अथवा मिथ्यात्व, राग आदिमें परिणति रूप अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जो  
परिणाम है उससे जो कर्म वैधता है वह भाववंध कहलाता है । “कर्म्मादपदेशाण  
अण्णोण्णपवेसण इदगे” कर्म और आत्माके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेशनरूप दूसरा है,  
अर्थात् उसी पूर्वोक्त भाववंधके निमित्तसे कर्मके प्रदेशोंका और आत्माके प्रदेशोंका जो दूध  
वथा जलकी भाँति एक दूसरेमें प्रवेश होना अर्थात् मिल जाना है, सो द्रव्यवध है ॥३२॥

अब गाथाके पूर्वार्थसे उसी वधके प्रकृतिवंध आदि चार भेदोंको कहते हैं और  
उत्तरार्थसे उन प्रकृतिवंध आदिके कारणका कथन करते हैं ।

पयंडिद्विदिअणुभागपदेसमेदादु चदुविधो वंधो ।

जोगा पयंडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥

व्याख्या । “पयंडिद्विदिअणुभागपदेसमेदादु चदुविधो वंधो” प्रकृतिस्थित्यनुभागपदे-शमेदाच्चतुर्विधो वन्धो भवति । तथा हि—ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? देवतामुखव्यामिव ज्ञानप्रच्छादनता । दर्शनावरणीयस्य का प्रकृतिः ? राजदर्शनप्रतिषेधकप्रती-हारवहर्शनप्रच्छादनता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृतिः ? मधुलिप्तव्यज्ञधारास्वादनवदल्पसुखवहुदुःखोत्पादकता । मोहनीयस्य का प्रकृतिः ? मद्यपानवद्वेषोपादेयविचारविकलता । आयुःकर्मणः का प्रकृतिः ? निगडवद्गत्यन्तरगमननिवारणता । नामकर्मणः का प्रकृतिः ? चित्रकारपुरुषवन्नानारूपकरणता । गोत्रकर्मणः का प्रकृतिः ? गुरुलघुभाजन-कारककुम्भकारवहुचनीचगोत्रकरणता । अन्तरायकर्मणः का प्रकृतिः ? भाण्डागारिकव-हानादिविघ्नकरणतेति । तथा चोक्तं—“पटपडिहारसिमज्जाहडिचित्तकुलालभंडयारीण । जह एदेसि भावा तहविह कम्मा मुणेयव्वा ॥ १ ॥” इति दृष्टान्ताष्टकेन प्रकृतिवन्धो

गाथाभावार्थः— प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन भेदोंसे वंध चार प्रकारका है । इनमे योगोंसे प्रकृति तथा प्रदेशवंध होते हैं और कपायोंसे स्थिति तथा अनुभाग वंध होते हैं ॥ ३३ ॥

व्याख्यार्थः—“पयंडिद्विदिअणुभागपदेसमेदादु चदुविधो वंधो” प्रकृति-वंध, स्थितिवंध, अनुभागवंध, और प्रदेशवंध इन भेदोंसे वंध चार ४ प्रकारका है । सो ही विशेषतासे दिखलाते हैं—ज्ञानावरणी कर्मकी प्रकृति ( स्वभाव ) क्या है, इस जिज्ञासामें उत्तर यह है कि जैसे देवताको मुखवस्त्र आवरण ( पहडा ) आच्छादित कर लेता है अर्थात् ढक लेता है उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञानको ढक लेना है । दर्शनावरणीकी प्रकृति क्या है ? राजाके दर्शनकी रुकावट जैसे द्वारपाल करता है उसी प्रकार दर्शनावरणी दर्शनको नहीं होने देता है । सातावेदनी और असातावेदनी नामक दो भेदोंका धारक जो वेदनी कर्म है उसकी क्या प्रकृति है ? मधु ( शहद ) से लिपटी हुई तलवारकी धार चाटनेमे जैसे अल्प सुख और अधिक दुःख उत्पन्न होता है, वैसे ही वेदनी कर्म भी अल्प सुख और अधिक दुखको देनेवाला है । मद्य ( मदिरा ) पानके समान हैय ( त्यागने योग्य ), उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) पदार्थके ज्ञानकी रहितता यह मोहनी कर्मकी प्रकृति है । चित्रकार ( चितेरा ) मुरुपके तुल्य नानाप्रकारके रूपका करना यह नामकर्मकी प्रकृति है । छोटे बड़े भाजन ( घट आदि ) को करनेवाले कुंभारकी भाँति उच्च तथा नीच गोत्रको करना यह गोत्र कर्मकी प्रकृति है । भडारीके समान दान आदिमे विनां करना यह अन्तराय कर्मकी प्रकृति है । सो ही कहा है—“पट ( वस्त्र ), प्रतीहार ( द्वारपाल ), तलवार, मद्य, वेडी, चितेरा, कुम्भकार और भडारी इन आठोंका जैसा स्वभाव है वैसा ही क्रमसे ज्ञानावरण आदि

ज्ञातव्यः ॥ अजागोमहिष्यादिदुर्घानां प्रहरद्वयादिस्वकीयमधुररसावस्थानपर्यन्तं यथा स्थितिर्भवते तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्कालं कर्मसंबन्धेन स्थितिस्तावत्कालं स्थितिबन्धो ज्ञातव्य । यथा च तेषामेव दुर्घानां तारतम्येन रसगतशक्तिविशेषोऽनुभागो भवत्यते तथा जीवप्रदेशस्थितकर्मस्कन्धानामपि सुखदुःखदानसमर्थशक्तिविशेषोऽनुभागबन्धो विज्ञेयः । सा च घातिकर्मसम्बन्धिनी शक्तिर्लतादार्वस्थिपाषाणभेदेन चतुर्धा । तथैवाशुभाऽधातिकर्मसंबन्धिनी निम्बकाञ्जीरविप्रहालाहलूपेण । शुभाधातिकर्मसंबन्धिनी पुनर्गुडस्खण्डशक्तरमृतरूपेण चतुर्धा भवति । एकैकात्मप्रदेशो सिद्धान्तैकभागसंख्या अभव्यानन्तराणुप्रभिता अनन्तानन्तपरमाणवः प्रतिक्षणवन्धमायान्तीति प्रदेशवन्धः ॥ इदानी वन्धकारणं कथ्यते । “जोगा पयद्विपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुति” । योगात्प्रकृतिप्रदेशी, स्थित्यनुभागौ कपायतो भवत इति । तथाहि—निश्चयेन निष्क्रियाणामपि शुद्धात्मप्रदेशानां व्यवहारेण परिस्पदनहेतुर्योगः, तस्मात्प्रकृतिप्रदेशवन्धद्वय भवति ।

आठों कर्मोंका स्वभाव है ॥ १ ॥” इस प्रकार गाथामे कहे हुए आठ दृष्टान्तोंके अनुसार प्रकृति बंध जानना चाहिये ॥ तात्पर्य यह कि कर्मपुद्गलोंका ज्ञानावरण आदि शक्ति सहित हो जाना ही प्रकृतिवध है । तथा वकरी, गौ, महिषी ( भैंस ) आदिके दुर्घांमे जैसे दो प्रहर आदि अपने मधुर रसमे रहनेकी स्थिति कही जाती है । अर्थात् वकरीका दूध दो प्रहर तक अपने मधुर रसमे स्थित रहता है, इत्यादि स्थितिका कथन है उसी प्रकार जीवके प्रदेशोंमें जितने काल पर्यन्त कर्मसंबन्धसे स्थिति है उतने कालको स्थितिवन्ध जानना चाहिये । और जैसे उन पूर्वोक्त वकरी आदिके दूधोंमें तारतम्यसे ( न्यूनाधिकतासे ) मधुर-रसमे प्राप्त शक्तिविशेषरूप अनुभाग कहा जाता है उसी प्रकार जीवके प्रदेशोंमें स्थित जो कर्मोंके प्रदेश हैं उनके जो सुख तथा दुःख देनेमें समर्थ शक्तिविशेष है उसको अनुभाग वन्ध जानना चाहिये । और वह धाति कर्मसे संबन्ध रखनेवाली शक्ति लता ( चेल ), काष्ठ, हाढ और पाषाण भेदसे चार प्रकारकी है, इसी प्रकार अशुभ अधातिया कर्मों संबन्धिनी शक्ति निव, कांजीर ( काली जीरी ), विष तथा हालाहल रूपसे चार प्रकारकी है । और शुभ अधातिया कर्मों संबन्धी शक्ति गुड,खांड, मिश्री तथा अमृत इन भेदोंसे चार तरहकी है । एक एक आत्माके प्रदेशमे सिद्धोंसे अनन्तैकभाग ( अनन्तमेसे एक भाग ) संख्याके धारक और अभव्यराशिसे अनन्तराणु परिमाणके धारक ऐसे अनन्तानन्त परमाणु प्रत्येक क्षणमे वधको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार प्रदेशवन्धका स्वरूप है । अब बंधके कारणको कहते हैं—“जोगा पयद्विपदेमा ठिदिअणुभागा कसायदो हुति” । योगसे प्रकृति तथा प्रदेशवन्ध होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग ये दो बन्ध कषायोंसे होते हैं । इसका स्पष्टीकरण यह है कि, निश्चयनयसे, जो क्रियारहित भी शुद्ध आत्माके प्रदेश हैं, उनका व्यवहारसे जो परिस्पदन ( चलायमान करनेका ) कारण है उसको योग कहते हैं । उस योगसे प्रकृति तथा प्रदेश नामक दो बंध होते हैं । और दोषरहित जो परमात्मा है, उसकी भावना

निदोषपरभात्मभावनाप्रतिवन्धकक्रोधादिकषायोदयात् स्थित्यनुभागवन्धद्वयं भवतीति  
आस्त्रवे वन्धे च मिथ्यात्वाविरत्यादिकारणानि समानानि को विशेष इति चेत्, नैवं—  
प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनमास्त्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ जीवप्रदेशोद्वव-  
स्थानं वन्ध इति भेदः। यत एव योगकषायाद्वन्धचतुष्टयं भवति तत एव वन्धविनाशायं  
योगकषायत्यगेन निजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्येति तात्पर्यम् ॥ ३३ ॥ एवं वन्धव्या-  
स्थानेन सूत्रद्वयेन द्वितीयं स्थल गतम् ॥

अत ऊर्ध्वं गाथाद्वयेन संवरपदार्थः कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां भावसवरद्रव्यसंवर-  
स्वरूप निरूपयति,—

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू ।  
सो भावसवरो खलु दब्बासवरोहणे अण्णो ॥३४॥

व्याख्या—‘चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू सो भावसंवरो खलु’  
चेतनपरिणामो यः कथभूतं कर्मास्त्रवनिरोधने हेतुः स भावसंवरो भवति, खलु निश्च-  
येन । “दब्बासवरोहणे अण्णो” द्रव्यकर्मास्त्रवनिरोधने सत्यन्यो द्रव्यसंवर इति ।

( ध्यान ) के प्रतिवधक ( रांकनेवालं ) जे क्रोध आदि कषाय हैं उनके उद्युग्मसे स्थिति  
और अनुभाग ये दो वध होते हैं । कदाचित्-आस्त्र और वंधके होनेमें मिथ्यात्व, अवि-  
रति, आदि कारण समान हैं । इसलिये आस्त्र और वंधमें क्या भेद है ? ऐसी शंका करो तो  
वह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रथम क्षणमें जो कर्मस्कन्धोंका आगमन है, वह तो आस्त्र है और  
कर्मस्कन्धोंके आगमनके पीछे द्वितीय, तृतीय आदि क्षणोंमें जो उन कर्मस्कन्धोंका जीवके प्रदे-  
शोंमें स्थित होना है सो वंध है । यह भेद आस्त्र और वंधमें है । जिस कारणसे कि योग और  
कषायोंसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नामक चार वध होते हैं उसी कारणसे वंधका  
नाश करनेके अर्थ योग तथा कषायका त्याग करके अपने शुद्ध आत्मामें भावना करनी  
चाहिये । यह तात्पर्य है ॥ ३२ ॥

ऐसे वंधके व्याख्यान रूप जो दो गात्रासूत्र हैं, उनके द्वारा द्वितीय अध्यायमें द्वितीय  
स्थल समाप्त हुआ ।

अब इसके आगे दो गाथाओंसे संवर पदार्थका कथन करते हैं । उनमें प्रथम गाथामें  
भावसंवर और द्रव्यसवर के स्वरूपका निरूपण करते हैं;—

**गाथाभावार्थः**—जो चेतनका परिणाम कर्मके आस्त्रवको रोकनेमें कारण है, उसको  
निश्चयसे भावसंवर कहते हैं । और जो द्रव्यास्त्रको रोकनेमें कारण है सो दूसरा अर्थात्  
द्रव्यसंवर है ॥ ३४ ॥

**व्याख्यार्थः**—“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू सो भावसंवरो  
खलु” जो चेतनका परिणाम कर्मके आस्त्रवको रोकनेका कारण होता है, वह निश्चयसे  
भावसंवर है । “दब्बासवरोहणे अण्णो” द्रव्य कर्मोंके आस्त्रका निरोध होनेपर दूसरा

तद्यथा—निश्चयेन स्वतः सिद्धत्वात्परकारणनिरपेक्षः, स चैवाविनश्वरत्वान्नित्यः परमो-  
द्योतस्वभावत्वात्स्वपरप्रकाशनसमर्थः, अनाद्यनन्तत्वादादिभूत्यान्तसुक्तः, दृष्टश्रुतानुभूत-  
भोगकाद्यक्षारूपनिदानवन्धादिसमस्तरागादिविभावमलरहितत्वादत्यन्तनिर्मलः, परमचैत-  
न्यविलासलक्षणत्वाच्चिदुच्छलननिर्मलः, स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणत्वात्परमसुखमूर्च्छिः,  
निरास्त्वसहजस्वभावत्वात्संवर्कर्मसंवरहेतुरित्युक्तलक्षण. परमात्मा तत्स्वभावेनोत्पन्नो  
योऽसौ शुद्धचेतनपरिणामः स भावसंवरो भवति । यस्तु भावसंवरात्कारणभूतादुत्पन्नः  
कार्यभूतो नवतरद्रव्यकर्मागमनाभावः स द्रव्यसंवर इत्यर्थः ॥

अथ संवरविषयनयविभागः कथ्यते । तथा हि—मिथ्यादृष्टिक्षीणकथायपर्यन्तसु-  
पर्युपरि मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिश्चयो वर्तते । तस्य मध्ये पुनर्गुणस्थानभेदेन  
शुभाशुभशुद्धानुष्ठानरूपयोगत्रयव्यापारस्तिष्ठति । तदुच्यते—मिथ्यादृष्टिसासादनमिथ्या-  
णस्थानेषुपर्युपरिमन्दत्वेनाशुभोपयोगो वर्तते, ततोऽन्यसंयतसम्यगदृष्टिश्रावकप्रमत्तसंयतेषु  
पारम्यर्थेण शुद्धोपयोगसाधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वर्तते, तदनन्तरप्रमत्त-  
तादिक्षीणकपायपर्यन्तं जघन्यमध्यमोक्षभेदेन विवक्षितैकदेशशुद्धनयरूपशुद्धोपयोगो

द्रव्यसंवर होता है । सो इस प्रकार है—निश्चयनयसे स्वयं सिद्ध होनेसे अन्य कारणकी  
अपेक्षासे शून्य, अविनाशी होनेसे नित्य, परम उद्योग ( प्रकाश ) स्वभाव होनेसे अपने  
आंर परके प्रकाशनमें समर्थ, अनादि अनन्त होनेसे आदि मध्य और अन्तरहित, केवल  
सुने आंर अनुभवमें किये हुये जो भोग हैं उनकी आकृक्षा ( चाह ) रूप जो निदान घंघ  
आदि समस्त रागादिक विभावमल उनसे रहित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल, परम चैत-  
न्यविलासरूप लक्षणका धारक होनेसे चित् चमत्कार ( चिन्मय ) स्वरूप, स्वाभाविक पर-  
मानन्द स्वरूप होनेसे परम सुखकी मूर्चिका धारक और आस्तवरहित सहज स्वभाव  
होनेसे सब कर्मोंके सबर ( रोकने ) में कारण, इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणोंका धारक जो पर-  
मात्मा है उसके स्वभावसे उत्पन्न जो यह शुद्ध चेतन परिणाम है सो भावसंवर है ।  
और कारणभूत भावसंवरसे उत्पन्न हुआ जो कार्यरूप नवीन द्रव्य कर्मोंके आगमनका  
अभाव है सो द्रव्य संवर है । इस प्रकार गाथार्थ है ।

अब सबरके विषयमें नयोंका विभाग कहते हैं । सो इस प्रकार है कि—मिथ्यात्वगुण-  
स्थानको आदि लेकर क्षीणकथाय नामक वारहवें गुणस्थान पर्यन्त ऊपर मन्दतासे तारत-  
न्यसे अशुद्ध निश्चय वर्तता है । और उसके मध्यमे गुणस्थानोंके भेदसे शुभ, अशुभ और  
शुद्ध अनुष्ठान रूप तीन योगोंका व्यापार रहता है । सो कहते हैं—मिथ्यादृष्टि, सासादन  
और मिथ्र इन तीनों गुणस्थानोंमें ऊपर २ मन्दतासे अशुभ उपयोग रहता है, अर्थात्  
जो अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थानमें है, उससे कम दूसरेमें और दूसरेसे अल्प तीसरेमें  
है । उसके आगे असंयत सम्यगदृष्टि, श्रावक और प्रमत्त नामक जो तीन गुणस्थान हैं  
इनमें परंपरासे शुद्ध उपयोगका साधक ऊपर २ तारतम्यसे शुभ उपयोग प्रवर्तता है ।

वर्तते, तत्रैवं. मिथ्याहृष्टिगुणस्थानेषु “सोऽसपण-  
वीसणभं दसचउछकेकधबोल्हिणा। दुगतीसचदुरपुव्वे पणसोल्स जोगिणो एको । १।”  
इति वन्वविच्छेदत्रिभज्ञीकथितकमेणोपर्युपरि प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति। अशुद्धनिश्च-  
यमध्ये मिथ्याहृष्टिगुणस्थानेपूपयोगत्रय व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कर्थं  
घटत इति चेत्तत्रोत्तरं—शुद्धोपयोगे शुद्धवुद्धेकस्त्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन कार-  
णेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्छुद्धोपयोगो घटते। स च  
संवरशब्दवाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणभूतमिथ्यात्वरागाद्यशुद्धपर्यायवद्गुद्धो न  
भवति तथैव फलभूतकेवलब्रानलक्षणशुद्धपर्यायवत् शुद्धोऽपि न भवति किन्तु ताध्याम-  
शुद्धशुद्धपर्यायाभ्या विलक्षण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरक्त्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेश-  
व्यक्तिरूपमेकदेशनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्तर भण्यते ।

**कश्चिदाह—केवलज्ञानं सकलनिरावरणं शुद्ध तस्य कारणेनापि सकलनिरावरणेन**

इनके पञ्चात् अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम,  
उत्कृष्ट भेदसे विवक्षित एकदेश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है। इनमें  
व्यवस्था इस प्रकार है कि—मिथ्याहृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें तो संवर है ही नहीं  
और सासादन आदि गुणस्थानोंमें “सोलसपणवांसणभं दस चउछकेक वंधवोल्हिणा।  
दुगतीस चदुरपुव्वे पणसोलह जोगिणो एको । १।” इस प्रकार वधविच्छेद  
त्रिभगीमें कहे हुए क्रमके अनुसार ऊपर २ अधिकतासे संवर जानना चाहिये। ऐसे  
अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमे मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अशुभ, शुभ और शुद्धरूप  
तीनों उपयोगोंका व्याख्यान किया। इस अशुद्ध निश्चयमें शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध  
हो सकता है ऐसा प्रश्न करो तो उसमें उत्तर यह है कि शुद्ध उपयोगमें शुद्ध शुद्ध एक  
स्वभावका धारक जो निज आत्मा है सो ध्येय होता है, इस कारण शुद्ध ध्येय ( ध्यान  
करने योग्य पदार्थ ) होनेसे शुद्ध अवलम्बन ( आधार ) पानेसे तथा शुद्ध आत्मस्वरूपका  
साधक होनेसे शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। और वह ‘संवर’ इस शब्दसे कहे जाने योग्य  
जो शुद्धोपयोग है सो संसारके कारणभूत जो मिथ्यात्व, राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उन-  
की सी तरह अशुद्ध नहीं होता है और इसी प्रकार फलभूत जो केवलज्ञान स्वरूप शुद्ध  
पर्याय है उसकी भाँति शुद्ध भी नहीं होता है, किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्यायोंसे  
विलक्षण, शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरूप निश्चय रत्नत्रयरूप, मोक्षका कारण, एक  
देशमें व्यक्तिरूप ( प्रकटरूप ) और एक देशमें आवरणरहित ऐसा तृतीय अवस्थान्तर-  
रूप कहा जाता है।

अब यहां कोई शंका करता है कि केवलज्ञान समस्त आवरणोंसे रहित और  
शुद्ध है इसलिये केवलज्ञानका कारण भी समस्त आवरणों रहित तथा शुद्ध होना चाहिये।  
क्योंकि, उपादान कारणके समान कार्य होता है ऐसा वचन है। अब इस शंकाका उच्चर-

शुद्धेन भाव्यम्, उपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति वचनात् । तत्रोच्चर दीयते-युक्तमुक्तं भवता परं किन्तूपादानकारणमपि षोडशवर्णिकासुवर्णकार्यस्याधस्तनवर्णिकोपादानकारण-वत्, मृत्मयकलशकार्यस्य मृत्पिण्डस्थासकोशकुशूलोपादानकारणवदिति च कार्यदेकदे-शेन भिन्न भवति । यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहायेदो भेदो वा भवति तर्हि पूर्वोक्तसुवर्णमृत्तिकादृष्टान्तद्वयवत्कार्यकारणभावो न घटते । ततः किं सिद्ध—एक-देशेन निरावरणत्वेन क्षायोपशमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूपं विवक्षितैकदेशे शुद्धतयेन संवरशाद्वाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं मुक्तिकारणं भवति । यच्च लव्यपर्याप्तसूक्ष्मनिगोदजीवे नित्योद्धारां निरावरण ज्ञानं प्रयत्ने तदपि सूक्ष्मनिगोदसर्वजग्न्यक्षयोपशमापेक्षया निरावरण न च सर्वथा । कस्मादिति चेत्—तदावरणे जीवाभावः प्राप्नोति । चस्तुत उपरितनक्षायोपशमिकज्ञानापेक्षया केवलज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणं संसारिणां क्षायिकज्ञानाभावाच्च क्षयोपशमिकमेव । यदि पुनर्लोचनपटलस्यैकदेशनिरावरणवत्केवलज्ञानाश-

दिया जाता है कि आपने ठीक कहा परन्तु उपादान कारण भी सोलह बानीके सुवर्णरूप कार्यके अधोभागवर्तिनी ( पूर्ववर्तिनी ) वर्णिकारूप उपादान कारणके समान और मृत्तिकारूप कलशकार्यके प्रति मृत्तिकाका पिण्ड, स्थास, कोश, एवं कुशूलरूप उपादान कारणके सदृश कार्यसे एक देशसे भिन्न होता है अर्थात् सोलह बानीके सोनेके प्रति जैसे पहलेकी सब पन्द्रह वर्णिकायें उपादान कारण हैं और घटके प्रति जैसे मृत्तिकापिण्ड, स्थास, कोश, कुशूल आदि उपादान कारण हैं सो सोलह बानीके सुवर्ण और घटरूप कार्यसे एकदेशभिन्न हैं ( सर्वथा सोलह बानीके सुवर्णस्वरूप तथा घटरूप नहीं है ) इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कार्यसे एकदेश भिन्न होते हैं । और यदि सर्वथा उपादानकारणका कार्यके साथ अभेद हो तो पूर्वोक्त जो सुवर्ण और मृत्तिकाके दो दृष्टान्त हैं उनके समान कार्य और कारणभाव ही नहीं सिद्ध हो अर्थात् सोलह बानीके सुवर्णको ही सोलह बानीके सुवर्णरूप कार्यके प्रति उपादान कारण माना जावे अथवा घटको ही घटके प्रति उपादान कारण मानें तो यह इसका कारण है यह इसका कार्य है इस प्रकारका कार्य कारणभाव नहीं हो सकता । इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एकदेश निरावरणतासे क्षयोपशमिक ज्ञानरूप लक्षणका धारक एकदेश व्यक्तिरूप और विवक्षित एक देशमे शुद्ध नयसे “संवर” इस शब्दसे बाच्य जो शुद्ध उपयोगका स्वरूप है सो मुक्तिका कारण होता है । और जो लघिध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवमें नित्य उद्धाट ( खुला हुआ ) तथा आवरणरहित ज्ञान सुना जाता है वह भी सूक्ष्म निगोदमें सर्वजग्न्य जो क्षयोपशम है उसकी अपेक्षासे आवरणरहित है, सर्वथा नहीं । ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि यदि ज्ञानका आवरण ही हो तो जीवका अभाव प्राप्त होता है । यथार्थमें तो उपरिवर्तीं क्षयोपशमिक ज्ञानको अपेक्षासे और वेवल ज्ञानको अपेक्षासे वह ज्ञान भी आवरणसहित है और संसारी जीवोंके क्षायिक ज्ञानका अभाव है

रूपं भवति तर्हि तेनैकदेशेनापि लोकालोकप्रत्यक्षतां प्राप्नोति न च तथा दृश्यते । किन्तु प्रचुरमेघप्रच्छादितादित्यविम्बवन्निविडलोचनपटलवद्वा स्तोकं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥

अथ क्षयोपशमलक्षणं कथयते—सर्वप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कर्मशक्तयः सर्वधा-तिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, विवक्षितैकदेशेनात्मगुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशधातिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, सर्वधातिस्पर्द्धकानामुदयभाव एव क्षयस्तेषामेवास्तित्वमुपशम उच्यते, सर्वधा-त्युदयाभावलक्षणक्षयेण सहित उपशम, तेषामेकदेशधातिस्पर्द्धकानामुदयश्चेति समुदा-येन क्षयोपशमो भण्यते । क्षयोपशमे भवति क्षयोपशमिको भावः । अथवा देशधा-तिस्पर्द्धकोदये सति जीव एकदेशेन ज्ञानादिगुणं लभते यत्र स क्षयोपशमिको भावः । तेन कि सिद्धं—पूर्वोक्तमुक्तमनिगोदजीवे ज्ञानावरणीयदेशधातिस्पर्द्धकोदये सत्येकदेशेन ज्ञानगुणं लभ्यते, तेन कारणेन तत् क्षयोपशमिकं ज्ञान न च क्षायिक कस्मादेकदेशो-दयसद्वावादिति । अयमत्रार्थः—यद्यपि पूर्वोक्तं शुद्धोपयोगलक्षणं क्षयोपशमिकं ज्ञानं मुक्तिकारण भवति तथापि ध्यात्मपुरुषेण यदेव सकलनिरावरणमखण्डैकसकलविमुक्तेव-

इसलिये क्षयोपशमिक ही है । और यदि नेत्रपटलके एकदेशमें निरावरणके तुल्य वह ज्ञान केवल ज्ञानाशरूप हो तो उस एकदेशसे भी लोक तथा अलोकका प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाय अर्थात् लोक अलोक प्रत्यक्षमें जान पड़ें; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, किन्तु अधिक मेघों (वहलों) से आच्छादित सूर्यके विम्बके समान अथवा निविड नेत्रपटलके भ्रमान वह किंचित् किंचित् प्रकाश करता है, यह तात्पर्य है ॥

अब क्षयोपशमका लक्षण कहते हैं—सब प्रकारसे आत्माके गुणोंको प्रच्छादन करनेवाली जो कर्मोंकी शक्तियाँ हैं उनको सर्वधातिस्पर्द्धक कहते हैं । और विवक्षित एकदेशसे जो आत्माके गुणोंको प्रच्छादन करनेवाली कर्मशक्तियाँ हैं वे देशधातिस्पर्द्धक कहलाती हैं । सर्वधातिस्पर्द्धकोंके उदयका जो अभाव है सो ही क्षय है और उन्हीं सर्वधातिस्पर्द्धकोंका जो अस्तित्व (विद्यमानत्व) है वह उपशम कहलाता है । सर्वधातिस्पर्द्धकोंके उदयका अभा-वरूप जो क्षय है उस सहित जो उन एकदेश धातिस्पर्द्धकोंका उदयरूप उपशम सो क्षयो-पशम, ऐसे समुदायसे क्षयोपशम कहा जाता है । क्षयोपशममें जो हो वह क्षयोपशमिक भाव है । अथवा देशधातिस्पर्द्धकोंके उदयके भी होते हुये जीव जहांपर एकदेशसे ज्ञानादिगुण प्राप्त होते हैं इस कारण वह ज्ञान क्षयोपशमिक है और क्षायिक नहीं, क्योंकि, एकदेशमें उदयका सद्वाव है । यहांपर तात्पर्य यह है कि यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षणका धारक क्षयोपशमिक ज्ञान मुक्तिका कारण है तथापि ध्यान करनेवाले पुरुषको “जोही सकल आवरणों रहित, अखण्ड एक सकल विमल केवल ज्ञानरूप परमात्माका

लज्जानलक्षणं परमात्मस्वरूपं तदेवाह न च खण्डज्ञानरूपं इति भावनीयम् । इति संवर-  
तत्त्वव्याख्यानविषये नयविभागो ज्ञातव्यं इति ॥ ३४ ॥

अथ संवरकारणभेदान् कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु कैः कृत्वा संवरो भव-  
तीति प्रष्टे प्रत्युत्तरं ददातीति पातनिकाद्यं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपाद्यति भगवान्—

वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य ।

चारित्तं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३५ ॥

व्याख्या । ‘वदसमिदीगुत्तीओ’ ब्रतसमितिगुप्तयः “धम्माणुपेहा” धर्मस्तथैवानुप्रेक्षाः “परीसहजओ य” परीषहजयश्च “चारित्तं बहुभेया” चारित्र बहुभेदयुक्त “णायव्वा भावसंवरविसेसा” एते सर्वे मिलिता भावसंवरविशेषा भेदा ज्ञातव्याः । अथ विस्तरः— निश्चयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखसुधास्वादबलेन समस्तशुभा-  
शुभरागादिविकल्पनिवृत्तिर्तम्, व्यवहारेण तत्साधक हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिप्रहाच्च  
यावल्लीबनिवृत्तिलक्षणं पञ्चविधं ब्रतम् । निश्चयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम्

स्वरूप है सोही मैं हूँ और खड़ ज्ञानरूप नहीं” ऐसा व्यान करना चाहिये । इस प्रकार संवर तत्त्वके व्याख्यानके विषय में नयका विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥

अब भंवरके कारणोंके भेद कहते हैं । यह तो एक भूमिका है और किनसे संवर होता है ? इस प्रइनमें उत्तर देनेवाली दूसरी भूमिका है । इन दोनों पातनिका (भूमिका)ओंको मनमें धारण करके, भगवान् श्रीनेमिचन्द्र स्वामी इस अग्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन करते हैं—

गाथाभावार्थः—पांच ब्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परीषहोंका जय तथा अनेक प्रकारका चारित्र, इस प्रकार ये सब भावसंवर के भेद जानने चाहिये ॥

व्याख्यार्थः—“वदसमिदीगुत्तीओ” ब्रतसमिति और गुप्तियाँ, “धम्माणुपेहा” धर्म तथा अनुप्रेक्षा “परीसहजओ य” और परीषहोंका जीतना “चारित्तं बहुभेया” अनेक प्रकारका चारित्र “णायव्वा भावसंवरविसेसा” ये सब मिले हुए भावसंवरके भेद जानने चाहिये । अब इस उक्त विषयका विस्तारसे वर्णन करते हैं—निश्चयनयसे विशुद्ध ज्ञान और दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निज आत्मतस्व उसकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी अमृत उसके आस्वादके बलसे संपूर्ण शुभ तथा अशुभ राग आदि विकल्पोंसे जो रहित होना सो ब्रत है, और व्यवहारसे उस निश्चय ब्रतको साधनेवाला हिंसा, अनृत (झूठ), चोरी, अब्रह्म और परिप्रहसे जीवनपर्यन्त रहिततारूप लक्षणका धारक पांच प्रकारका ब्रत है । निश्चयनयकी विवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि स्वभावका धारक जो निज आत्मा है उसमें ‘सभ्’ भले प्रकार अर्थात् समस्त राग आदि विभावोंके त्याग द्वारा आत्मामें ठीन

सम्यक् समस्तरागादिविभावपरित्यागेन तज्जीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन अयनं गमनं परिण-  
मनं समितिः, व्यवहारेण तद्विहिरङ्गसहकारिकारणभूताचारादिचरणग्रन्थोक्ता ईर्याभाष्ये-  
षणादाननिक्षेपोत्सर्गसंब्ना. पञ्च समितियः । निश्चयेन सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गूढस्थाने  
संसारकारणरागादिभयात्स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं ह्यस्पन प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यव-  
हारेण विहिरङ्गसाधनार्थं मनोवचनकायव्यापारनिरोधो गुप्ति । निश्चयेन संसारे पतन्त-  
मात्मानं धरतीति विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षणनिजशुद्धात्मभावनात्मको धर्मः, व्यवहारेण तत्सा-  
धनार्थं देवेन्द्रनरेन्द्रादिवन्द्यपदे धरतीत्युत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकि-  
ञ्चन्यत्रहाचर्यलक्षणो दक्षप्रकारो धर्मः ।

द्वादशानुप्रेक्षा. कथ्यन्ते—अध्रुवाशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्त्रवसंवरनिर्जरालोकबो-  
धिदुर्लभधर्मानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । तांश्च कथ्यन्ते । तद्यथा—द्रव्यार्थिकनयेन टङ्गोत्कोर्णज्ञाय-  
कैक्षस्वभावत्वेनाविनश्वरस्वभावनिजपरमात्मद्रव्यादन्यद् भिन्नं यज्जीवसंवन्वे अशुद्धनिश्च-  
यनयेन रागादिविभावरूपं भावकर्म, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मनोकर्मरूपं च  
तथैव तत्स्वस्वामिभावसम्बन्धेन गृहीत यज्ञेतन वनितादिकम्, अचेतनं सुवर्णादिकं तदु—

होना, आत्माका ध्यान करना, आत्मरूप होना आदिरूपसे जो अयन कहिये गमन अर्थात्  
परिणमन सो समिति है । व्यवहारसे उस निश्चय समितिके विहिरंग सहकारी कारणभूत  
और आचार आदि चारित्र विषयक ग्रंथोंमें कही हुई ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपणा,  
और उत्सर्ग इन नामोंकी धारक पांच समितियाँ हैं । निश्चयसे सहज शुद्ध आत्माकी भावना-  
रूप लक्षणके धारक गूढ ( गुप्त ) स्थानमें संसारके कारणभूत जो रागादि हैं उनके भयसे  
अपने आत्माका जो गोपन ( छिपाना ) प्रच्छादन, झंपन, प्रवेशन अथवा रक्षण करना है  
सो गुप्ति है । व्यवहारसे विहिरंग साधनके अर्थं जो मन, वचन तथा कायके व्यापारको  
रोकना है, सो गुप्ति है । निश्चयसे संसारमें गिरते हुए आत्माको धारण करै सो विशुद्ध  
ज्ञान तथा दर्शन लक्षण निज शुद्ध आत्माकी भावनास्वरूप धर्म है । व्यवहारसे उसके  
साधनके लिये इन्द्र, चक्रवर्ती आदिका जो बद्दने योग्य पद है उसमें धारण करनेवाला  
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिंचन्य तथा ब्रह्मचर्यरूप  
लक्षणका धारक दश प्रकार धर्म है ।

अब वारह अनुप्रेक्षाओंका कथन करते हैं—अध्रुव, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व,  
अशुचित्व, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म इनका जो विचार करना  
है सो अनुप्रेक्षा है । उनको कहते हैं । सो ऐसे हैं—द्रव्यार्थिक नयसे टकोत्कोर्ण ज्ञायक एक  
स्वभावपनेसे अविनाशी स्वभावका धारक जो निज परमात्मा द्रव्य है उससे भिन्न जो  
अशुद्ध निश्चयनयसे रागादि विभावरूप भावकर्म और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे  
द्रव्यकर्म तथा नोकर्मरूप, तथा उसके स्वस्वामिभावसंबंधसे ग्रहण किया हुआ जी आदि  
चेतन द्रव्य, सुवर्ण आदि अचेतन द्रव्य और चेतन तथा अचेतनसे मिला हुआ मिश्र

भयमिश्रं चेत्युक्तलक्षणं तत्सर्वमधुवमिति भावयितव्यम् । तद्गावनासहितपुरुषस्य तेषां वियोगेऽपि सत्युच्छिष्टेष्विव भमत्वं न भवति तत्र भमत्वाभावाद्विनश्वरनिजपरमात्मानं मेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति, यादृशमविनश्वरमात्मान भावयति तादृशमेवाक्षयानन्तसुखस्वभाव मुक्तात्मानं प्राप्नोति । इत्यग्नुवानुप्रेक्षा गता ।

अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणत स्वशुद्धात्मद्रव्यं तद्विहरज्ञसहकारिकारणभूतं पञ्चपरमेष्ठाराधनञ्च शरणम्, तस्माद्विहीन्ता ये देवेन्द्रचक्रवर्त्तिसुभट्टकोटिभट्टपुत्रादिचेतना गिरिदुर्गभूविवरमणिमन्त्राङ्गाप्रसादौषधादयः पुनरचेतनास्तदुभयात्मका मिश्राश्च मरणकालादौ महाटत्व्या व्याघ्रगृहीतमृगवालस्येव महासमुद्रे पोतच्युतपक्षिण इव शरणं न भवन्तीति विज्ञेयम् । तद्विज्ञाय भोगाकाङ्क्षारूपनिदानधन्यादिनिरालम्बने स्वसवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतसालम्बने स्वशुद्धात्मन्येवावलम्बन कृत्वा भावना करोति । यादृशं शरणभूतमात्मानं भावयति तादृशमेव सर्वकालशरणभूत अरणागतवज्रपञ्चरसदृश निजशुद्धात्मानं प्राप्नोति । इत्यशरणानुप्रेक्षा व्याख्याता ॥

पदार्थ इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणोंसहित जो ये हैं सो सब अध्रुव हैं, इस प्रकार भावना चाहिये । उस भावनासहित जो पुरुष है उसके उनके वियोग होनेपर भी उच्छिष्ट (जँड़े) भोजनोंके समान भमत्वं नहीं होता है । और उनमें भमत्वका अभाव होनेसे अविनाशी निज परमात्माको ही भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे भावन करता (भावता) है और जैसे अविनश्वर आत्माको भावता है, वैसे ही अक्षय अनन्त सुखरूप स्वभावका धारक जो मुक्त आत्मा है उसको प्राप्त होता है । इस प्रकार अध्रुव भावना पूर्ण हुई ।

अब अशरण अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । निश्चयरत्नत्रयमें परिणत जो निजशुद्धात्मद्रव्य है सो और उसका वहिरग सहकारी कारणभूत जो पञ्चपरमेष्ठियोंका आराधन है सो शरण है । उससे वहिर्भूत ( भिन्न ) जो देव, इन्द्र, चक्रवर्तीं, सुभट्ट, कोटिभट्ट और पुत्र आदि चेतन, पर्वत, किला, भूविवर ( भौहरा ), मणि, मन्त्र, आङ्गा, प्रसाद और औषध आदि अचेतन तथा चेतन और अचेतन इन दोनोंसे मिश्र, ये सब पदार्थ मरण आदिके समयमें जैसे महावनमें व्याघ्रसे पकड़े हुए हिरणके वच्चेको अथवा महासमुद्रमें जहाजसे च्युत ( रहित ) हुए पक्षीको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण नहीं होते हैं, यह जानना चाहिये । और अन्य वस्तुको अपना शरण न जानकर, भोगको वालारूप निदानवंध आदिके अवलम्बन ( आधार )से रहित तथा स्व ( आत्म ) ज्ञानसे उत्पन्न सुखरूप अमृतका धारक जो निजशुद्ध आत्मा है, उसीका अवलम्बन करके, उसकी भावनाको करता है । और जैसे आत्माको यह शरणभूत भावता है, वैसेही सब कालमें शरणभूत और शरणमें आये हुएके अर्थ वज्रके पीजरेके समान जो निजशुद्ध आत्मा है, उसको प्राप्त होता है । इस प्रकार द्वितीय अशरण अनुप्रेक्षाका व्याख्यान हुआ ॥

अथं शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूर्वापूर्वमिश्रपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण  
शरीरपोषणार्थाशनपानादिपञ्चेन्द्रियविषयरूपेण चानन्तवारान् गृहीत्वा विमुक्तानीति  
द्रव्यसंसारः । स्वशुद्धात्मद्रव्यसवन्धिसहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशेभ्यो भिन्ना  
ये लोकक्षेत्रप्रदेशासतत्रैकैकं प्रदेश त्याप्यानन्तवारान् यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स  
कोडपि प्रदेशो नास्तीति क्षेत्रसंसारः । शुद्धात्मानुभूतिरूपनिविकल्पसमाधिकालं विहाय  
प्रत्येकं दशकोटाकोटिसागरेण प्रमितोत्सपिण्यवसपिण्येकैकसमये नानापरावर्त्तनकालेना-  
नन्तवारानय जीवो यत्र न जातो न मृतः स समयो नास्तीति कालसंसारः । अभेद-  
त्तन्त्रयात्मकसमाधिवलेन सिद्धगतौ स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धपर्यायरूपेण योऽसाकुसादो  
भवस्तं विहाय नारकतिर्यग्मनुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरत्नत्रयभावनारहित-  
भोगाकाङ्क्षानिन्दानपूर्वकद्रव्यतपश्चरणरूपजिनदीक्षावलेन नवग्रैवेयकपर्यन्तं ‘सवको सकक-  
महिस्ती दक्षिणाङ्काय लोयवाला य । लोयतिया य देवा तच्छ चुदा पिण्डुदि जंति ।  
१ ।’ इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धान्यपदानि च त्यक्त्वा भवविध्वंसकन्ति-

अब तृतीय ससारानुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मद्रव्यसे भिन्न जो सपूर्व,  
अपूर्व तथा मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य हैं, उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म रूपसे तथा शरीरके  
पोषण के लिये भोजन पान आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप से इस जीवने अनन्त वार  
ग्रहण करके छोड़ा है । इस प्रकार द्रव्यसंसार है । निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्यसंबंधीजो सहज  
शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यत प्रदेश हैं, उनसे भिन्न जो लोकरूप क्षेत्रके प्रदेश हैं ।  
उनमें, एक एक प्रदेशको व्याप करके, जिस प्रदेशमें अनंत वार यह जीव नहीं उत्पन्न  
हुआ हो और न मरा हो, वह कोई भी प्रदेश नहीं है । यह क्षेत्रसंसार है । निजशुद्ध  
आत्माके अनुभवरूप निर्विकल्प समाधि (ध्यान)के समयको त्यागकर, दशकोटाकोटी-  
सागर प्रमाण जो उत्सपिणी काल और दशकोटाकोटिसागर प्रमाण ही जो अबसर्पिणी  
काल है, उसके एक एक समयमें अनेक परावर्त्तन कालसे यह जीव यहांपर अनन्तवार  
न जन्मा हो और न मरा हो वह समय नहीं है । इस प्रकार कालसंसार है । अभेद रत्न-  
त्रयस्वरूप ध्यानके बलसे सिद्धगतिमें निज आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्यायरूप जो  
उत्पाद (जन्म) है उसको त्यागकर नारक, तिर्यङ्ग, मनुष्य और देवोंके भावोंमें निश्चय-  
रत्नत्रयकी भावनासे रहित भोग वांछादि निदान सहित जो द्रव्यतपश्चरणरूप जिन-  
दीक्षा (मुनिपना) है उसके बलसे नव ग्रैवेयक पर्यन्त “प्रथम स्वर्गका इन्द्र, प्रथम  
स्वर्गकी महा इन्द्राणी शची, दक्षिण दिशाके इन्द्र, लोकपाल और लौकान्तिक देव ये सब  
स्वर्गसे च्युत होकर निर्वृति (मोक्ष)को प्राप्त होते हैं । १ ।” ऐसे गाथामें कहे हुए  
पूर्वोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगममें निषिद्ध (मना किये हुए) उत्तम पद हैं  
उनको छोड़कर, भवका नाश करनेवाली जो निज आत्माकी भावना है उससे रहिव तथा  
भवको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यात्म राग आदि जो भाव हैं उनसे रहित हुआ यह जीव

जशुद्धात्मभावनारहितो भवोत्पादकमिथ्यात्वरागादिभावनासहितश्च सन्नय जीवोऽनन्तवारान् जीवितो मृतश्चेति भवसंसारो ज्ञातव्यः ।

अथ भावसंसारः कथ्यते । तद्यथा—सर्वजघन्यप्रकृतिवन्धप्रदेशवन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यमनोवचनकायपरिस्पन्दरूपाणि श्रेष्ठसख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि सर्वजघन्ययोगस्थानानि भवन्ति । तथैव सर्वोत्कृष्टप्रकृतिवन्धप्रदेशवन्धनिमित्तानि भवोत्कृष्टमनोवचनकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेष्ठसख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यस्थितिवन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यकायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासंख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपतितानि च भवन्ति । तथैव च सर्वोत्कृष्टकपायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपतितानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यानुभागवन्धनिमित्तानि मर्वजघन्यानुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपतितानि भवन्ति । तथैव च सर्वोत्कृष्टानुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि घट्स्थानपतितानि च विज्ञेयानि । तेनैव प्रकारेण स्वकीयस्वकीयजघन्योत्कृष्टयोर्मध्ये वारतन्मेन मध्यमानि च भवन्ति । तथैव जघन्यादुत्कृष्टपर्यन्तानि ज्ञानावरणादिमूले-चरप्रकृतीनां स्थितिवन्धस्थानानि च । तानि सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तवारान्

अनन्तवार जन्मा हैं और मरा है । इस प्रकार यह पूर्वकथित भवसंसारका स्वरूप जानना चाहिये ।

अब भाव संसारका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सबसे जघन्य प्रकृति वंध तथा प्रदेश वंधके कारणभूत और उसके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण बृद्धि हानि रूप चार स्थानोंमें पतित जो सर्वजघन्य मन, वचन तथा कायके परिस्पन्द हैं, वे सर्वजघन्य योगस्थान होते हैं । इसी प्रकार सबसे अधिक प्रकृतिवध तथा प्रदेशवंधके निमित्त, उनके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण चार स्थानोंमें पतित जो सर्वोत्कृष्ट मन, वचन और कायके व्यापार हैं, वे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्वजघन्य स्थिति वंधके कारण जो सर्वजघन्य कपायोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी उनके योग्य असंख्येय लोक प्रमाण तथा बृद्धिहानिरूप घट्स्थानोंमें पतित होते हैं । एवमेव जो सर्वोत्कृष्ट कपायोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्येय लोक प्रमाण और पट्स्थानोंमें पतित होते हैं । और इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग वंधके कारण जो सबसे जघन्य (निकृष्ट) अनुभागोंके अध्यवसाय स्थान हैं वे भी असंख्यात लोक प्रमाण तथा घट्स्थानोंमें पतित होते हैं । तथा इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग वंधके निमित्तभूत जो सर्वोत्कृष्ट अनुभागके अध्यवसाय स्थान हैं उनको भी असंख्यात लोक प्रमाण और घट्स्थानोंमें पतित जानना चाहिये । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे ही अपने अपने जघन्य और उत्कृष्टोंके वीचमें वारतन्म से मध्यम ऐद भी होते हैं । और ऐसेही जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त ज्ञानावरण आदि

भ्रमितान्यनेन जीवेन परं किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृतिवन्धादीनां सद्ग्रावविनाशकारणानि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्वसम्यग्मक्षद्वानज्ञानानुचरणरूपाणि यानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि तान्येव न लब्धानि । इति भावसंसारः ।

एव पूर्वोक्तप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं भावयतोऽस्य जीवस्य संसारातीतस्वशुद्धात्मसवित्तिनाशकेषु संसारवृद्धिकारणेषु मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाय-योगेषु परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखास्वादे रतो भूत्वा भ्वशुद्धात्मसंवित्तिवलेन संसारविनाशकनिजनिरञ्जनपरमात्मन्येव भावनां करोति । ततश्च याद्वशमेव परमात्मानं भावयति ताद्वशमेव लब्ध्वा संसारविलक्षणे मोक्षेऽनन्तकालं तिष्ठतीति । अयं तु विशेष—नित्यनिगोदजीवान् विहाय पञ्चप्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातऽयम् । कस्मादिति चेत्—नित्यनिगोदजीवानां कालव्रयेऽपि त्रसत्वं नास्तीति । तथा चोक्त—“अतिथ अणंता जीवा लेहिं ण पत्तो तसाणं परिणामो । भावकलंकसुपउरा णिगोदवासं ण मुच्चंति । १ ।” अनुपममद्वितीयमनादिमिथ्याद्वशेऽपि भरतपुत्राख्योविंशत्यधिकनवडात-परिमाणास्ते च नित्यनिगोदवासिनः क्षपितकर्माणं इन्द्रगोपाः संजातास्तेषां च पुज्जीभूतानामुपरि भरतहस्तिना पादो दत्तस्ततस्ते मृत्वापि वद्वेनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते

---

मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिवधके स्थान होते हैं । वे सब परमागममें कही हुई—आज्ञाके अनुसार इस जीवने अनन्त बार प्राप्त किये हैं, परन्तु पूर्वोक्त संपूर्ण प्रकृतिवध आदिके सद्ग्रावके नाशके कारण जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावका धारक निज परमात्मा तत्त्व है उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उन्हींको इस जीवने प्राप्त नहीं किया । इस प्रकार भावसंसारका स्वरूप है ।

इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप जो पांच प्रकारका संसार है, उसको भावते हुए इस जीवके संसारसे हटानेको कारण जो निजशुद्ध आत्माका ज्ञान है, उसका नाश करनेवाले और संसारकी वृद्धिके कारणभूत ऐसे जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं उनमें परिणाम नहीं होता है, किन्तु वह जीव संसारसे अतीत ( नहीं होनेवाला ) जो सुख है उसके आस्वादमें रत ( तत्पर ) होके, निजशुद्ध आत्माके ज्ञानके बलसे संसारको नष्ट करनेवाला निज निरञ्जन परमात्मा है, उसीमें भावना करता है । और इसके पश्चात् जैसे परमात्माको भावता है, वैसे ही परमात्माको प्राप्त होके संसारसे विलक्षण जो मोक्ष है, उसमें अनन्त काल निवास करता है ॥ यहापर विशेष यह है कि नित्य निगोदके जीवोंको छोड़कर, इस उक्त पंच प्रकारके संसारका व्याख्यान जानना चाहिये, अर्थात् नित्य निगोद जीव इस पंच प्रकारके संसारमें परिभ्रमण नहीं करते हैं । क्योंकि—नित्य निगोदवर्तीं जो जीव हैं उनके तीन कालमें भी त्रसता अर्थात् दोइन्द्रीपने आदिका धारण करना नहीं है । सो ही कहा है—“ऐसे अनन्त जीव हैं, कि जिन्होंने अस पर्यायको प्राप्त ही नहीं किया और भावं कलंकों ( अशुभं परिणामों )से भरपूर हैं, जिससे” वे

च केनचिदपि सह न वदन्ति । ततो भरतेन समवसरणे भगवान् पृष्ठो, भगवता च प्राकृतनं वृत्तान्तं कथितम् । तच्छ्रुत्वा ते तपो गृहीत्वा क्षणस्तोककालेन मोक्षं गताः । आचाराराधनाटिष्पणे कथितमास्ते । इति ससारानुप्रेक्षा गता ॥

अथैकत्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रैकलक्षणैकत्वभावनापरिणतस्यास्य जीवस्य निश्चयनयेन सहजानन्दसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं केवलज्ञानमेवैकं सहजं शरीरम् । शरीर कोऽर्थः स्वरूप न च सप्तधातुमयौदारिकशरीरम् । तथैवार्त्तर्त्त्रद्वुर्ध्यानविलक्षणपरमसामायिकलक्षणैकत्वभावनापरिणतं निजात्मतत्त्वमेवैकं सदा शाश्वतं परमहितकारि न च पुत्रकलन्त्रादिः । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षासंयमलक्षणैकत्वभावनासहितः स्वशुद्धात्मपदार्थं एक एवाविनश्वरहितकारो परमोऽर्थः न च सुवर्णार्थः । तथैव निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दकलक्षणानाकुलत्वस्वभावात्मसुखमेवैकं सुख न चाकुलत्वोत्पादकेन्द्रियसुखमिति । कस्मादिदं देहवन्धुजनसुवर्णार्थेन्द्रियसुखादिकं जीवस्य निश्चयेन निराकृतमिति चेत्, यतो मरणकाले जीव एक एव गत्यन्तरं गच्छति न च देहानिगोदके निवासको नहीं छोडते हैं” । और यह बात अनुपम और अद्वितीय है कि “आनादिकालसे मिथ्यादृष्टिऐसे भी नीसी तेझस ( ९२३ ) भरतजीके पुत्र जो कि नित्य निगोदके निवासी थे और नित्य निगोदमें कर्मोंकी निर्जरा होनेसे वे इन्द्रगोप ( सावनकी डोकरी ) नामक कीड़े हुए, सो उन सबके ढेरपर भरतके हाथीने पैर रख दिया इससे वे मरकर, भरतजीके वर्द्धनकुमार आदि पुत्र हुए और वे किसीके साथ भी नहीं बोलते थे । इस कारण, भरतजीने समवसरणमें भगवान् से पूछा तो भगवान् ने पुराना सब वृत्तान्त कहा । उसको सुनकर, उन सब वर्द्धनकुमारादि पुत्रोंने तप ग्रहण किया और वहुत ही अल्प कालमें मोक्ष ले गये ।” यह कथा आचाराराधनाकी टिष्पणीमें कही हुई है । इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षाका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

अब एकत्व अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । वह इस प्रकार है—निश्चयरत्नत्रयरूप एकलक्षणका धारक जो एकत्व है उसकी भावनामें परिणत इस जीवके निश्चयनयसे सहज आनन्द, सुख आदि अनन्त गुणोंका आधाररूप जो केवल ज्ञान है वह एक ही सहज ( स्वभाव )से उत्पन्न शरीर है । यहाँ ‘शरीर’ शब्दका अर्थ स्वरूप समझना, न कि सात धातुओंसे निर्मित औदारिक शरीर । इसी प्रकार आर्त्त और रौद्र इन दोनों ध्यानोंसे विलक्षण ( उलटी ) जो परमसामायिक रूप एकत्व भावना है उसमें परिणत जो एक अपना आत्मतत्त्व है वही सदा अविनाशी और परम हितका करनेवाला है, और पुत्र, मित्र, कलन्त्र आदि हितके कर्त्ता नहीं । पूर्वोक्त रीतिसे ही परम उपेक्षा संयमरूप जो एकत्व भावना है, उससे सहित जो निज शुद्धात्म पदर्थ है, वह एक ही अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ ( धन ) है, और सुवर्ण आदिरूप अर्थ ( धन ) परम अर्थ नहीं है । एवमेव निर्विकल्प ध्यानसे उत्पन्न तथा निर्विकार परम आनन्दमय लक्षण और आकुलता-

दीनि । तथैव गोगव्याप्तिकाले विषयकषायादिदुर्ध्यानरहितः स्वशुद्धात्मैकसहायो भवति । तदपि कथमिति चेत् ? यदि चरमदेहो भवति तर्हि केवलज्ञानादित्यक्तिरूप मोक्षं नयति, अचरमदेहस्य तु ससारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवेन्द्राद्यभूदयसुखं दत्वा च पश्चात् पार-म्पर्येण मोक्षं प्रापयतीत्यथेः । तथा चोक्तं—“सरग तवेण सब्दो, वि पावए किंतु ज्ञाण-जोयेण । जो पावइ सो पावइ, पर भवे सासद्यं सोक्ख । १ ।” एवमेकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मैकत्वभावना कर्त्तव्या । इत्येकत्वानुप्रेक्षा गता ॥ ४ ॥

तथान्यत्वानुप्रेक्षा कथयति । तथा हि—पूर्वोक्तानि यानि देहवन्धुजनसुवर्गाद्यर्थेन्द्रियसुखादीनि कर्माधीनत्वे विनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सर्वाणि टङ्गोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेन नित्यात्सर्वप्रकारोपादेयभूतान्निर्विकारपरमचैतन्यचित्वमत्कारस्वभावान्निर्जपरमात्मपदार्थान्नित्यनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्यु पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र

रहित स्वभावका धारक ऐसा आत्मसुख ही एक सुख है, और आकुलताको उत्पन्न करने-वाला इन्द्रियजन्य जो सुख है सो सुख नहीं । ये पूर्वोक्त जो जीवके शरीर, वधुजन, सुवर्ण-आदि अर्थ, और इन्द्रियसुख आदि हैं इनका निश्चयनयसे खड़न क्यों किया है ? ऐसी शंका करो तो समाधान यह है कि जब मरणका समय आता है तब यह जीव एक ( अकेला ) ही दूसरी गतिमें गमन करता है और देह आदि इस जीवके साथ नहीं जाते, किन्तु यहाँके यहाँ ही रह जाते हैं । और जब यह जीव रोगोंसे व्याप्त होता है तब विषय तथा कषाय आदिरूप जो खोटे ध्यान हैं उनसे रहित एक निजशुद्ध आत्मा ही इसका सहायक होता है । और वह सहायक भी कैसा होता है ? इसका उत्तर यह है कि यदि उस जीवका अंतिम शरीर हो तब तो केवलज्ञान आदिकी प्रकटतारूप जो मोक्ष है उसमें ले जाता है और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह शुभ ध्यानरूप शुद्ध आत्मा उस जीवकी जो मसारकी स्थिति है उसको अल्प करके और देव, इद्र आदि पर्यायसंबंधी सुखोंको देकर, फिर परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति करता है । यह भावार्थ है । सो ही कहा भी है—“तपके करनेसे स्वर्ग सब कोई पाते हैं, परंतु शुभ ध्यानके योगसे जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम भवमें शाश्वत सुख अर्थात् मोक्षको पाता है ॥ १ ॥” ऐसे एकत्वभावनाके फलको जानकर, सदा निज शुद्ध आत्माके एकत्वरूप भावना ही करनी चाहिये । इस प्रकार एकत्व नामक चतुर्थ अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ४ ॥

अब पंचम अन्यत्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं । सो इस प्रकार है—पूर्व एकत्व भावनामे कहे हुए जो देह, वंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इन्द्रियसुख आदि हैं वे मव कर्मोंके आधीन हैं इसी कारण विनाश स्वभावके धारक हैं तथा हेय ( त्याज्य ) स्वरूप भी हैं । इस कारण टङ्गोत्कीर्ण एवं ज्ञायक रूप एक स्वभावसे नित्य, सब प्रकारोंसे उपादेय भूत और विकाररहित परमचैतन्यचित् चमत्कार स्वभावका धारक जो निज परमात्मा पदार्थ

भाव एकत्वानुप्रेक्षायामेकोऽहमित्यादिविधिरूपेण व्याख्यानं, अन्यत्वानुप्रेक्षायां तु देहाद्यो मत्सकागादन्ये मदीया न भवन्तीति नियेवरूपेण । इन्येकत्वान्यत्वानुप्रेक्षायां विधि-नियेवरूप एव विशेषस्तान्पर्यं तदेव । इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ५ ॥

अतः परमशुचित्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तथा—मर्वाशुचिशुक्राणोणितकारणोत्पन्नत्वात्-यैव “वसान्तमासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः” इत्युक्ताशुचिसप्तातुमयत्वेन तथा नाभिकादिनवरन्नद्वारैरेति न्वरूपेणाशुचिन्वात्तथैव मूत्रपुरीयाद्यशुचिमलानामुत्पत्तिस्या-नत्वाच्चाशुचिरन् देहः । न केवलमशुचिकारणत्वेनाशुचिः स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन चाशुचिः । शुचि भुगन्धभालयवस्थानीतामशुचित्वोत्पादकत्वाच्चाशुचिः । इदानीं शुचित्वं कथ्यते—सहजशुद्धकेवलब्रान्नादिगुणानामाधारभूतत्वान्वय निश्चयेन शुचिरूपत्वाच्च परमात्मैव शुचिः । ‘जीवो वक्षा जीवह्यि चेव चरिया हविज्ञ जो जटिणो । तं जाण वह्य-चैव विमुक्ष्यरदेवभक्तोए । १ ।’ डॉति गाथाकथितनिर्मलब्रह्मचर्यं तत्रैव निजपरमात्मनि

हैं, उसमें वे सब निश्चयनयकां अपेक्षासे भिन्न हैं । और आत्मा भी उनसे भिन्न है । भावार्थ यहोपर यह है कि—एकत्व अनुप्रेक्षामें तो मैं एक हूँ इत्यादि प्रकारसे विधिरूप न्यायान हैं और इस अन्यत्व अनुप्रेक्षामें ‘देह आदिक पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, ये मेरे नहीं हैं’ इत्यादि नियेवरूपसे वर्णन है । इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षाओंमें विधि तथा नियेवरूप हीं विशेष (भेद) हैं और तात्पर्य तो दोनोंका एक ही है । ऐसे अन्यत्व अनुप्रेक्षा नमाम हुई ॥ ५ ॥

अब आगे अशुचित्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सबसे अपवित्र ऐसे शुक्र (पिताका वीर्य) और जोणित (माताका रुधिर) रूप कारणसे उत्पन्न होनेके कारण तथा “वसा, रुधिर, मास, भेद, अस्थि (हाढ़), मज्जा, और शुक्र ये धातु हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त अपवित्र जो सप्त वातु हैं उनरूप होनेसे तथा नाक आदि नौ ९ छिड़ोद्वारा न्वरूपसे भी अशुचि होनेसे और इसी भानिसे मूत्र, पुरीष (विष्टा) आदि अशुचि मलोंकी उत्पत्तिका स्थान होनेसे यह देह अशुचि है । और केवल अशुचि कारणसे उत्पन्न होनेके कारण ही यह अशुचि नहीं है, किन्तु यह शरीर स्वरूपसे भी अशुचि है और अशुचि मल आदिका जनक होनेसे भी अशुचि है । और पवित्र जो सुगन्ध, माला, वस्त्र आदि हैं उनमें भी यह जरीर अपने ससर्गसे अपवित्रता उत्पन्न करता है, इस कारण भी अशुचि है । अब पवित्रताका कथन करते हैं—सहज शुद्ध ऐसे जो केवलब्रान आदि गुण हैं उनका आधारभूत होनेसे और निश्चयसे अपने आप पवित्र होनेसे यह परमात्मा ही शुचि है । “जीव ब्रह्म है, जीवहीमें जो मुनिकी चर्या (प्रवृत्ति) होवे उसको छोड़ी है परदेहकी सेवा जिसने ऐमा ब्रह्मचर्य जानो । १ ।” इस गाथामें कहा हुआ जो निर्मल ब्रह्मचर्य है, सो उस परमात्मामें स्थित हुए जीवोंके ही मिलता है । और इसी प्रकार

स्थितानमेव लभ्यते । तथैव “ब्रह्मचारी सदा शुचि” रितिवचनात्तथाविधब्रह्मचारिणमेव शुचित्वं न च कामकोषादिरतानां जलस्नानौदिशौचैऽपि । तथैव च—“जन्मना जायते शुद्धः क्रियया द्विज उच्यते । श्रुतेन श्रोत्रियो ज्ञेयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः । १ ।” इति वचनात् एव निश्चयशुद्धाः ब्राह्मणाः । तथा चोक्तं नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदी-स्नानमेव परमशुचित्वकारणं न च लौकिकगङ्गादितीर्थे स्नानादिकम् । “आत्मा नदी सय-मतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा द्यौर्मीमः । तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धथति चान्तरात्मा” । १ । इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा गता ॥ ६ ॥

अत ऊर्ध्वमास्त्रवानुप्रेक्षा कथयते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवदयं जीव इन्द्रियाद्यास्त्रवैः संसारसागरे पततीति वार्त्तिकम् । अतीन्द्रियस्वशुद्धास्त्रवित्तिविलक्षणानि स्पर्शनरसनव्रा-णचक्षु-श्रोत्राणीन्द्रियाणि भण्यन्ते । परमोपशम्भूतिं परमात्मस्वभावस्य क्षोभोत्पादकाः क्रोष्मानमायालोभकषाया अभिधीयन्ते । रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपायाः शुद्धात्मानुभूतेः प्रतिकूलानि हिंसानुतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहप्रवृत्तिरूपाणि पञ्चात्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारा-त्मतत्त्वाद्विपरीता भनोवचनकायव्यापाररूपाः परमागमोक्ताः सम्यक्त्वक्रिया मिथ्वात्म-क्रियेत्यादिपञ्चविंशतिक्रियाः उच्यन्ते । इन्द्रियकषायाब्रतक्रियारूपास्त्रवाणा स्वरूपमेत-

“ब्रह्मचारी सदा पवित्र है” इस वचनसे उन पूर्वोक्त प्रकारके ब्रह्मचारियोंके ही पवित्रता है । और जो काम तथा क्रोष्म आदिमें तत्पर जीव हैं उनके जलस्नान आदि शौचोंके करनेपर भी पवित्रता नहीं है । क्योंकि, इसीप्रकार “जन्मसे शुद्ध होता है, क्रियासे द्विज कहलाता है, श्रुत ( शास्त्र )से श्रोत्रिय जानना चाहिये और ब्रह्मचर्यसे ब्राह्मण जानना चाहिये । १ ।” ऐसा वचन है । इसलिये पूर्वोक्त परमात्मामें जो तत्पर हैं, वे ही निश्चयनयसे शुद्ध ब्राह्मण हैं । और नारायणने युधिष्ठिरसे कहा है कि शुद्ध जो आत्मारूपी नदी है उसमे स्नान करना ही परम पवित्रताका कारण है, किंतु लौकिक जो गंगा आदि तीर्थोंमें स्नान करना आदि है सो शुचित्वका कारण नहीं । इस विषयमें जो श्लोक है उसका अर्थ यह है—“संयम-रूपी जलसे पूर्ण, सत्यको धारण करनेवाली शीलरूप तट और द्यामय तरङ्गोंकी धारक ऐसी जो आत्मारूप नदी है उसमें हे पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) स्नान कर, क्योंकि, अन्तरात्मा जलसे शुद्ध नहीं होता । १ ।” इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

अब इसके अनन्तर सप्तम आस्त्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं । ‘जैसे छिद्रसहित नौका ( नाव ) समुद्रमें छूतती है, ऐसे ही इन्द्रिय आदि छिद्रों द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्रमें गिरता है’ यह वार्त्तिक है । इन्द्रियोंके अगोचर जो निज शुद्ध आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण स्पर्शन, रसन ( लिहा ), नासिका, नेत्र और कान ये पांच इन्द्रिया कहलाती हैं । परम उपशम स्वरूपका धारक जो परमात्माका स्वभाव है उसके क्षेमको उत्पन्न करनेवाले क्रोष्म, मान, माया और लोभ ये चार कषाय कहे जाते हैं । राग आदि विकल्पोंसे रहित जो शुद्ध आत्माका अनुभव है उससे प्रतिकूल ऐसे हिंसा, शूद्र, चोरी, अव्रज्ञ और परिप्रह इन-

द्विन्द्रियम् । यथा समुद्रेऽनेकरत्नभाण्डपूर्णस्य सच्छिद्रपोतस्य जलप्रवेशे पातो भवति न च वेलापत्तनं प्राप्नोति । तथा सम्यगदर्शनव्वानचारित्रलक्षणामूल्यरत्नभाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूर्वोक्तान्वयवद्वारैः कर्मजलप्रवेशे मति संसारममुद्रे पातो भवति न च केवलज्ञानाव्यावाद-वसुत्वाद्यनन्तरुणरत्नपूर्णमुक्तिवेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवमास्त्रवगतदोषात्तुचिन्तनमास्त्रवा-नुप्रेक्षा ज्ञानव्ययेति ॥ ७ ॥

अथ नंवरात्तुप्रेक्षा कथ्यते—यथा तदेव जलपात्रं छिद्रस्य इस्यने सति जलप्रवेशाभावे निर्विवेन वेलापत्तनं प्राप्नोति, तथा जीवजलपात्रं निजशुद्धान्मसविच्चिवलेन इन्द्रियाद्यास्त्र-वच्छिद्राणां इस्यने मति कर्मजलप्रवेशाभावे निर्विवेन केवलज्ञानाव्यावादनन्तरुणरत्नपूर्णमुक्ति वेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवं भवत्वगतगुणात्तुचिन्तन सवरात्तुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥

अथ निर्जरात्तुप्रेक्षा प्रतिपादयति । यथा कोऽप्यजीर्णदोषेण मलमध्यये जाते सन्याहारं त्वक्त्वा किमपि हर्मनक्यादिकं मलपाचकमग्निदोषकं चोषयं गृह्णाति । तेन च मलपाकेन

पांचांमें प्रवृत्तिस्य पांच अन्नत द्वैं । क्रियारहित और निर्विकार ऐसा जो आत्मतत्त्व है उससे विपरीन मन, वचन तथा कायके व्यापाररूप एवं ज्ञानमें कहीहुई सम्यक् किया, मिथ्यान्त्र किया इत्यादि पञ्चोंस किया कड़ी जाती हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त इन्द्रिय, कृपाय, अन्नत तथा क्रियारूप आस्त्रवोंका स्वरूप जानना चाहिये । जैसे समुद्रमें अनेक रत्नोंके भाँडोंमें भरे हुए छिद्रनहित पोतका ( जहाज ) जलके प्रवेश होनेपर पतन होता है और वह पांत समुद्रके किनारे जो पत्तन ( नगर ) है उसको नहीं प्राप्त होता है । उसी प्रकार सम्यगदर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप जो अमूल्य रत्नोंके भाँड़े हैं उनसे पूर्ण इस जीव नामा पोतमें पूर्वोक्त इन्द्रिय आदि आस्त्रवोंद्वारा जब कर्मरूपी जलका प्रवेश हो जाता है तब मसाररूपी समुद्रमें हो पतन होता है । और केवलज्ञान, अव्यावाद सुव आदि अनन्त गुणमय रत्नोंमें पूर्ण जो मुक्तिस्वरूप वेलापत्तन ( ससार समुद्रके किनारेका शहर ) है उसको यह जीव नहीं प्राप्त होता है । इत्यादि प्रकारमें आस्त्रवमें प्राप्त दोषोंका जो विचार करना है, वह आस्त्रवात्तुप्रेक्षा जानना चाहिये ॥ ७ ॥

अब भवर अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । जैसे वही समुद्रका पोत अपने छिद्रोंके बद्द हो जानेसे जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विज्ञतापूर्वक वेलापत्तनको प्राप्त हो जाता है; उसी प्रकार जीवरूपी पोत अपने शुद्ध आत्माके ज्ञानके बलसे इन्द्रिय आदि आस्त्रवरूप छिद्रोंके मुँद जानेसे कर्मरूप जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विज्ञ केवलज्ञान आदि अनन्तगुण रत्न से पूर्ण जो मुक्तिस्वरूप वेलापत्तन है, उसको प्राप्त होता है । ऐसे संवरमें विद्यमान जो गुण हैं उनके चितवन स्वरूप संवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिये ॥ ८ ॥

अब निर्जरात्तुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—जैसे किसी मनुष्यके अजीर्ण दोषसे मलका मंचय ( पेटमें मलका जमाव ) हो जावे तो वह मनुष्य आहारको छोड़ करके, मलको

मलानां पातने गलद् निर्जरणे सति सुखी भवति । तथायं भव्यजीवोऽप्यजीर्णजनकाहा-  
रस्थानीयमिथ्यात्वरागाद्यज्ञानभावेन कर्ममलसञ्चये सति मिथ्यात्वरागादिकं त्यक्त्वा  
परमौषधस्थानीयं जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखादिसमभावनाप्रतिपादक कर्ममलपाचकं  
शुद्धध्यानाग्निदीपकं च जिनवचनौपयं सेवते । तेन च कर्ममलाना गलने निर्जरणे सति  
सुखी भवति । किञ्च यथा कोऽपि धीमानजीर्णकाले यद्युद्गुःखं जातं तदजीर्णे गतेऽपि न  
विस्मरति ततश्चाजीर्णजनकाहारं परिहरति तेन च सर्वदैव सुखीभवति । तथा विवेकिज-  
नोऽपि “आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति” इति वचनाद्युद्गुःखोत्पत्तिकाले ये धर्मपरिणामा  
जायन्ते तान् दुःखे गतेऽपि न विस्मरति । ततश्च निजपरमात्मानुभूतिवलेन निर्जरार्थं  
दृष्टश्रतानुभूतभोगाकाढ़क्षादिविभावपरिणामपरित्यागरूपै संवेगवैराग्यपरिणामैर्वर्त्तत इति ।  
संवेगवैराग्यलक्षणं कथ्यते—“धर्मे य धर्मफलह्य दसणे य हरिसो य हुति संवेगो ।  
संसारदेहभोगेसु विरक्तमावो य वैरग्यं । १ ।” इति निर्जरानुप्रेक्षा गता ॥ ९ ॥

अथ लोकानुप्रेक्षा प्रतिपादयति । तथाया—अनन्तानन्ताकाशवहुमध्यप्रदेशे घनोदधि-

पचानेवाले तथा अग्निको तीव्र करनेवाले किसी हरड़े आदि औषधको ग्रहण करता है ।  
और जब उस औषधसे मल पड़जाते हैं, गलजाते हैं अथवा निर्जर जाते हैं तब वह मनुष्य  
सुखी होता है । उसी प्रकार यह भव्यजीव भी अजीर्णको उत्पन्न करनेवाले आहारके स्थान-  
भूत (एवज) जो मिथ्यात्व, राग तथा अज्ञान आदि भाव हैं उनसे कर्मरूपी मलका संचय  
होनेपर मिथ्यात्व, राग आदिको छोड़कर, परम औषधके स्थानभूत जीवन, मरणमें, लाभ  
अलाभमें और सुख दुःख आदिमें समान भावनाको उत्पन्न करनेवाला, कर्ममलको पकाने-  
वाला तथा शुद्ध ध्यानरूप अग्निको दीप करनेवाला जो जिनवचनरूप औषध है उसका  
सेवन करता है । और उससे जब कर्मरूपी मलोंका गलन तथा निर्जरण होजाता है तब  
सुखी होता है । और भी विशेष है कि जैसे कोई बुद्धिमान् अजीर्णके समयमें जो दुःख  
हुआ उसको अजीर्णके नाश होजानेपर भी नहीं भूलता है और उसके स्मरणपूर्वक अजी-  
र्णको उत्पन्न करनेवाले आहारको छोड़ देता है और इस कारण सदा ही सुखी होता है,  
वैसे ही विवेकी ( ज्ञानी ) मनुष्य भी “दुःखी मनुष्य धर्ममें तत्पर होते हैं” इस वाक्यानु-  
सार दुःखके उत्पन्न होनेके समय जो धर्मरूप परिणाम होते हैं उनको दुःख नष्ट होजाने  
पर भी नहीं भूलता है । और इसके पश्चात् निज परम आत्माके अनुभवके बलसे निर्जराके  
निमित्त जो देखे, सुने तथा अनुभवमें किये भोगवाण्डादि रूप विभाव परिणाम हैं उनके  
परित्याग ( त्याग ) रूप संवेग तथा वैराग्यरूप परिणामोंके साथ रहता है ॥ संवेग और  
वैराग्यका लक्षण कहते हैं—“धर्ममें, धर्मके फलमें और दर्शनमें जो हर्ष होता है सो तो  
संवेग है, और संसार, देह तथा भोगोंमें विरक्त भावरूप वैराग्य है । १ ।” ऐसे निर्जरानु-  
प्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ६ ॥

अब लोकानुप्रेक्षाका निरूपण करते हैं । वह इस प्रकार है—अनन्तानन्त जो आकाश है

घनवाततनुवाताभिघानवायुत्रयेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चलासंख्यातप्रदेशो लोकोऽस्ति । तस्याकारः कथ्यते - अधोमुखाद्गुरजस्योपरि पूर्णे मुरजे स्थापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः पर किन्तु मुरजो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेष । अथवा प्रसारितपादस्य कटितटन्यस्तहस्तस्य चोर्ध्वस्थितपुरुषस्य यादृशाकारो भवति तादृगः । इदानीं सस्यैवोत्सेधायामविस्तारा कथ्यन्ते - चतुर्दशरज्जुप्रमाणोत्सेधस्तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणाचामो भवति । पूर्वपञ्चमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तार । ततश्चाधो-भागात् क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोक एकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तते मध्य-लोकाद्यर्धं क्रमवृद्धया वर्द्धते यावद् ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपञ्चकविस्तारो भवति । ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावल्लोकान्ते रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव लोकस्य पुनरुदूखलस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनालिकेव चतुःकोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरज्जुविष्टकम्भा चतुर्दशरज्जुत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्त्वधोभागे सप्तरज्जबोऽधोलोकसव-निधन्यः । ऊर्ध्वभागे मध्यलोकोत्सेधसवन्धिलक्ष्योजनप्रमाणमेरुत्सेध सप्तरज्जव ऊर्ध्व-लोकसंवन्धिन्यः ॥

क ३२९९ ( .२२८२<sup>१</sup>)

उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमें घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक तीन पवनोंसे वेष्टित ( वेढा हुआ ), आदि और अंतरहित, अकृत्रिम, निश्चल और असख्यात प्रदेशका धारक लोक है । उसके आकारका कथन करते हैं । नीचे मुख किये हुए आधे मृदंगके ऊपर पूरा मृदंग रखनेपर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोकका है, परन्तु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है । अथवा फैलाये हैं पाद ( पैर ) जिसने और कटिके टटपर रखते हैं हाथ जिसने ऐसे खड़ेहुए मनुष्यका जैसा आकार होता है वैसा लोकका आकार है । अब उसी लोककी ऊँचाई, लंबाई तथा विस्तारका निरूपण करते हैं-चौदह १४ रज्जु प्रमाण ऊचा तथा दक्षिण उत्तरमें सब जगह सात राजू लम्बा यह लोक है और पूर्व पञ्च-ममें नीचेके भागमें सात राजू विस्तार है और फिर उस अधोभागसे क्रमहानिरूपसे इतना घटता है कि, मध्य ( वीच ) मे एक रज्जु विस्तारका धारक होजाता है, फिर मध्यलोकसे ऊपर क्रमवृद्धिसे बढ़ता है सो बढ़ता २ ब्रह्मलोक अर्थात् पचम स्वर्गके अन्तमे पाच रज्जुके विस्तारका धारक होता है । उसके ऊपर फिर भी घटता है सो यहांतक घटता है कि लोकके अन्तमें जाकर, एक रज्जु प्रमाण विस्तारवाला होता है । और इसी लोकके मध्यमे उदूखल ( ऊखल ) के मध्यभागसे नीचेकी ओर छिद्र करके एक वासकी नाली रक्खी जावे उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चौकोर त्रस नाडी है, वह एक रज्जु व्यासकी धारक और चौदह रज्जु ऊँची जाननी चाहिये । उस त्रस नाडीके अधोभागकी जा सात रज्जु हैं वे अधोलोक संबन्धी हैं और ऊर्ध्वभागमें मध्यलोककी ऊँचाई सबन्धी लक्ष्योजन प्रमाण मेरुकी ऊँचाई है, इससहित सात रज्जु ऊर्ध्वलोकसबन्धी हैं ॥

अतः परमधोलोकः कथयते । अधोभागे मेरोराधारभूता रत्नप्रभाख्या प्रथमपृथिवी । तस्याधोऽधः प्रत्येकमेकैकरज्जुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापङ्कधूमतमो-महातमसङ्गा पड़ भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाणं क्षेत्रं भूमिरहितं निगो-दादिपञ्चस्थावरभूतं च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवातवत्तुवातव्र-यमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । कस्यां पृथिव्यां कति नरकविलानि सन्तीति प्रश्ने यथा-क्रमेण कथयति—“तासु त्रिगत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चानैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम्” ८४००००० । अथ रत्नप्रभादिपृथिवीनां क्रमेण पिण्डस्थ प्रमाणं कथयति । पिण्डस्थ कोर्ड्यः मन्द्रत्वस्य वाहुल्यम्बेति । अगीतिसहस्राधिकैकलक्ष तथैव द्वार्तिंशतष्टा-विगतिचतुर्विंशतिषोदशाष्टसहस्रप्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । तिर्यग्विस्तारस्तु चतु-दिंगभागे यद्यपि त्रसनाड्यपेश्यैकरज्जुप्रमाणस्तथापि त्रसरहितवहिर्भागे लोकान्तप्रमाण-मिनि । तथा चोक्तं “मुवामन्ते स्पृशन्तीना लोकान्त सर्वदिक्षु च” । अत्र विस्तारेण तिर्यग्विस्तारपर्यन्तमन्द्रत्वेन मन्दरावगाहयोजनसहस्रवाहुल्या मध्यमश्चोके या चित्रा पृथिवी तिष्ठति वस्या अधोभागे षोडशसहस्रवाहुल्य । खरभागस्तिष्ठति । तस्मादप्यध्रु-

इसके आगे अधोलोकका कथन करते हैं—अधोभागमे मेरुकी आधारभूता रत्नप्रभा नामा प्रथम पृथिवी है । उस रत्नप्रभा पृथिवीके नीचे नीचे प्रत्येक एक एक रज्जु प्रमाण आकाशमे चलकर क्रमानुसार शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा नामकी धारक ६ भूमि हैं । उनके अधोभागमे जो भूमिरहित एक रज्जुप्रमाण क्षेत्र है वह निगोद आदि पंच स्थावरोंसे भरा हुआ है । रत्नप्रभा आदि प्रत्येक पृथिवीके घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक जो तीन वातवलय हैं वे आधारभूत हैं अर्थात् रत्न-प्रभादि पृथिवी इन तीनों वातवलयोंके आधारसे हैं, यह जानना चाहिये । किस पृथिवीमे कितने नरकोंके विल हैं ? इस प्रश्नपर यथाक्रमसे उत्तर कहते हैं कि, उनमें प्रथम भूमिमे तीस लाख, द्वितीयमे पचीस लाख, तृतीयमे पढ़ह लाख, चतुर्थमे दश लाख, पंचममे तीन लाख, पठीमें पांच कम एक लाख तथा सप्तमी पृथिवीमें पांच, इस प्रकार सब मिलके चौ-रासी लाख ८४००००० नरकोंके विल हैं । अब रत्नप्रभा आदि भूमियोंका क्रमसे पिंड प्रमाण कहते हैं । यहा पिंड शब्दका अर्थ गंभीरता ( गहराई ) है । उनमें प्रथम पृथिवीका पिंड एक लाख अस्सी हजार योजन, दूसरीका एक लाख चौसठ हजार, तीसरीका एक लाख अट्ठाईस हजार, चौथीका एक लाख चौवीस हजार, पाचवींका एक लाख बीस हजार, छठीका एक लाख सोलह हजार और सातवींका एक लाख आठ हजार योजन प्रमाण पिंड जानना चाहिये । और तिर्यग् अर्थात् तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रसनाडीकी अपेक्षासे एक रज्जु प्रमाण है, तथापि त्रसोंसे रहित जो वाह्यभाग है उसमें लोकके अन्ततक है । सोही कहा है कि, “अन्तको स्पर्श करती हुई भूमियोंका प्रमाण सब दिशाओंमें लोकान्त प्रमाण है ।” अब यहा विस्तारसे तिर्यग्विस्तार पर्यन्त मंद्रतासे मेरुके अवगाह रूप जो एक हजार

तुरशीतियोजनसहस्रवाहुल्यः पङ्कभागस्तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अशीतिसहस्रवाहुल्यो अच्चहुलभागस्तिष्ठतीत्येवं रत्नप्रभा पृथिवी त्रिभेदा ज्ञातव्या । तत्र खरभागेऽसुरकुलं विहाय नवप्रकारभवनवासिदेवानां तथैव राक्षसकुलं विहाय सप्तप्रकारव्यन्तरदेवानां आवासा ज्ञातव्या हति । पङ्कभागे पुनरसुराणां राक्षसानां चेति । अच्चहुलभागे नारकास्तिष्ठन्ति ।

तत्र बहुभूमिकप्राप्तादवदधोऽधः सर्वपृथिवीषु स्वकीयस्वकीयवाहुल्यात् सकाशादध उपरि चैकैक्योजनसहस्रं विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशैकाढ-शनवसप्तपञ्चञ्चेकसंख्यानि, तान्येव सर्वसमुदायेन पुनरेकोनपञ्चाशत्प्रमितानि । पटलानि कोऽर्थः ? प्रस्तारा इन्द्रका अन्तर्भूमय इति । तत्र रत्नप्रभाया सीमन्तसंज्ञे प्रथम-पटलविस्तारे नृलोकवत् यत्सख्येययोजनविस्तारवत् मध्यविलं तस्येन्द्रसज्जा । तस्यैव चतुर्दिंगिभागे प्रतिदिशं पंक्तिरूपेणासख्येययोजनविस्ताराण्येकोनपञ्चाशद्विलानि । तथैव

योजन हैं, उन प्रमाण वाहुल्य ( गहराई ) को धारण करनेवाली जो मध्यठोकमें चित्रा पृथिवी है, उसके नीचेके भागमें सोलह हजार योजन वाहुल्यका धारक खर भाग है । उस खर भागके भी नीचे चौरासी हजार योजन प्रमाण वाहुल्यवाला पक भाग स्थित है । उसके भी नीचेके भागमें अस्सी हजार योजनके वाहुल्यका धारक अच्चहुल भाग है । इस प्रकार रत्नप्रभा पृथिवी है सो खरभाग, पंकभाग और अच्चहुल भागतीसे तीन प्रकारकी जाननी चाहिये । उनमें खर भागमें असुरकुमार जातिके देवोंके समूहको छोड़कर, नव प्रकारके भवनवासी और इसी प्रकार राक्षसोंके समूहके विना सात प्रकारके व्यन्तर देवोंके आवास ( निवासस्थान ) जानने चाहिये । पंकभागमें असुर तथा राक्षसोंके निवास हैं । अच्चहुल भागमें नारक हैं ॥

उनमें बहुतसे खनोंवाले प्राप्ताद ( महल ) के समान नीचे २ सव पृथिवियोंमें अपने २ वाहुल्यसे नीचे और ऊपर एक एक हजार योजनको छोड़कर, जो बीचका भाग है उसमें भूमि ( तल्ला, खण्ड, अथवा मजिला ) के क्रमसे पटल होते हैं । उनमें प्रथम भूमिमें तेरह, दूसरीमें चारह, तीसरीमें नव, चौथीमें सात, पांचवीमें पाँच, छहमें तीन और सातवीं पृथिवीमें एक, ऐसे ये सव समुदायसे उनचास ४२ संख्या प्रमाण पटल हैं । यहाँ पटल शब्दका अर्थ प्रस्तार ( तह ) इन्द्रक अथवा अन्तर्भूमि है । उनमें रत्नभानामक प्रथम पृथिवीमें सीमन्त नामक पहले पटलके विस्तारमें जो ढाई द्वीपके समान संख्येय ( ४५००००० ) योजन विस्तारका धारक बीचका विल है उसकी इंद्रक सज्जा है । उस इन्द्रककी चारों दिशाओंमें प्रत्येक दिशामें असंख्य योजन विस्तारके धारक उनचास विल हैं । और इसी प्रकार चारों दिशाओंमें प्रत्येक दिशामें पक्षिलुप ( कतारदार ) जो अवतालीस ( ४८ ) विल हैं वे भी असंख्यात योजन प्रमाण विस्तारके धारक हैं, इन दोनों प्रकारके विलोंको

विदिकृचतुष्टये प्रतिदिशा पक्षिरूपेण यान्यष्टचत्वारिंशद्विलानि तान्यप्यसख्यातयोजनवि-  
स्ताराणि । तेषामपि श्रेणीवद्धसंज्ञा । दिग्बिदिग्नष्टकान्तरेषु पंक्तिरहितत्वेन पुष्पप्रकरबत्का-  
तिचित्तमस्येययोजनविस्ताराणि कानिचिदसंख्येययोजनविस्ताराणि यानि तिष्ठन्ति तेषां  
प्रकीर्णकमज्ञा । इतीन्द्रकश्रेणीवद्धप्रकीर्णकरूपेण त्रिधा नरका भवन्ति । इत्यनेन क्रमेण  
प्रथमपटलव्याख्यान विज्ञेयम् । तथैव पूर्वोक्तेषोनपञ्चाशत्पटलेष्वयमेव व्याख्यानक्रमः  
किन्त्वष्टुश्रेणिष्वेकैकपटल प्रत्येककं हीयते यावत्सप्तमपृथिव्या चतुर्दिनभागेष्वेक विलं  
तिष्ठनि ॥

रत्नप्रभादिनरकदेहोत्सेध कथ्यते प्रथमपटले हन्तत्रयम् ततः क्रमवृद्धिवशात् त्रयोदशप-  
टले सप्तचापानि हस्तत्रयमड्गुलपटकं चेति । ततां द्वितीयपृथिव्यादिषु चरमेन्द्रकेषु द्विगु-  
णद्विगुणे क्रियमाणे सप्तमपृथिव्या चापशतपञ्चकं भवति । उपरितते नरके य उत्कृष्टोत्सेधः  
सोऽवस्थाने नरके विशेषाविकां जघन्यां भवति, तथैव पटलेषु च ब्रातश्च । आयुःप्रमाण

हो । श्रेणीवद्ध यह संज्ञा है अर्थात् इन्द्रकक्षी दिशा और विदिशाओंमें जो पक्षिरूप विल हैं वे श्रेणीवद्ध कहलाते हैं । चारों दिशा और चारों विदिशा इन आठोंके बीचमें जो पंक्ति (सिद्धिले) के बिना होनेसे विखरे हुए पुष्पोंके समान किनने ही संख्यात योजन विस्तार-  
के धारक और किनने ही असंख्यात योजन विस्तारके धारक विल हैं, उनका “प्रकीर्णक”  
यह नाम है । ऐसे इन्द्रक श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णकरूपसे तीन प्रकारके नरक होते हैं । इस पूर्वोक्त क्रमसे प्रथम पटलका व्याख्यान जानना चाहिये । इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातों  
पृथिवियोंमें उत्तचास पटल हैं उनमें भी यही व्याख्यानका क्रम है, परंतु विशेष यह है कि,  
आठों दिशाओंकी जो आठों श्रेणियाँ हैं उनमें प्रत्येक पटलमें एक एक विल घटता है, सो  
यहातक कि, सप्तम पृथिवीमें चारों दिशाओंमें एक एक विल ही रह जाता है ॥

अब रत्नप्रभानि पृथिवियोंमें जो नारक निवास इरते हैं उनके देहकी ऊँचाईका कथन  
करते हैं—प्रथम पटलमें तीन हाथका उत्सेध है और यहांसे क्रम क्रम बढ़नेके बग्से तेरहवें  
पटलमें सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुलका उत्सेध है । इसके अनन्तर द्वितीय  
आदि पृथिवियोंके अन्तर्के इन्द्रक विमानोंमें दूनादूना वृद्धिरूप करनेसे सप्तम पृथिवीमें  
पाँचमीं धनुषका उत्सेध होता है । ऊपरके नरकमें जो उत्कृष्ट उत्सेध है उससे कुछ  
अधिक नीचेके नरकमें जघन्य उत्सेध होता है । इसी प्रकार पटलोंमें भी जानना चाहिये ।  
अब नरकोंके आयुका प्रमाण वर्णन करते हैं । प्रथम पृथिवीके प्रथम पटलमें जघ-  
न्यतासे दक्ष हजार वर्षोंका आयु है, उसके पश्चात् आगममें कही हुई क्रमानुसार  
वृद्धिसे अन्तका जो तेरहवां पटल है, उसमें सर्वोन्कृष्टतासे एक सागर प्रमाण आयु है । इसके अनन्तर क्रमसे दूसरी पृथिवीमें तीन सागर, तीसरीमें सात सागर, चौथीमें  
दक्ष सागर, पाचवीमें सत्रह सागर, छठीमें बाईस सागर और सातवीमें तेतीस सागर

कर्यते । प्रथमपृथिव्यां प्रथमे पटले जघन्येन दशवर्षसहस्राणि तत आगमोक्तकमवृद्धि-  
वशादन्तपटले सर्वोत्कर्षेणैकसागरोपमम् । ततः परं द्वितीयपृथिव्यादिषु क्रमेण त्रिसप्त-  
दशसप्तदशद्वाविंशतित्रय छिंशत्सागरोपममुक्तुष्टजीवितम् । यज्ञ प्रथमपृथिव्यामुक्तुष्टं  
तद्द्वितीयार्था समयाधिकं जघन्य, तथैव पटलेषु च । एवं सप्तमपृथिवीपर्यन्तं ज्ञातव्यम् ।  
स्वशुद्धात्मसंविच्छिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयविलक्षणैस्तीत्रमिथ्यात्वदर्शनज्ञानचारित्रैः परिणताना-  
मसंहिपञ्चेन्द्रियसरठपक्षिसर्पसिंहखोणा क्रमेण रत्नप्रभादिषु षट्पृथिवीषु गमनशक्तिरस्ति  
सप्तम्यां तु कर्मभूमिजमनुष्याणां मत्स्यानामेव । किञ्च यदि कोऽपि निरन्तरं नरके गच्छति  
तदा पृथिवीक्रमेणाष्टसप्तद्वयचतुष्टिद्विमध्यवारानेव । किन्तु सप्तमनरकादागताः  
पुनरत्येकवार तत्रान्यत्र वा नरके गच्छन्तीति नियमः । नरकादागता जीवा वलदेववा-  
सुदेवप्रतिवासुदेवचक्रवर्तिसंज्ञाः शलाकापुरुषा न भवन्ति । चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमनर-  
केभ्यः समागता क्रमेण तीर्थकरचरमदेहभावसंयतभावका न भवन्ति । तर्हि किं  
भवन्ति ? “णिरयादो णिस्मरिदो णर्तातरएकन्मसणिपञ्चत्तो । गव्वभवे उपज्ञदि  
सत्तमणिरयादु तिरिएव । १ ॥” ॥

प्रभाण उत्कृष्ट आयु है । जो प्रथम पृथिवीमें उत्कृष्ट आयु है, वह दूसरीमें कुछ समय अधिक  
जघन्य आयु है । एवमेव जो प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु है सो दूसरेमें समयाधिक जघन्य  
है । ऐसे सप्तम पृथिवीतक जानना चाहिये । निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप लक्षणका धारक  
जो निश्चय रत्नत्रय है उसमें विलक्षण जो तीत्र मिथ्यादर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं इनसे  
परिणत असंज्ञी पचेन्द्रिय, सरठ, पक्षी, सर्प, सिंह और श्वी पर्यायके धारक जो जीव हैं  
उनके क्रमसे रत्नप्रभादि षट् पृथिवियोंमें गमन करनेकी शक्ति है अर्थात् असंज्ञी पचेन्द्रिय प्रथम  
भूमिमें, सरठ दूसरीमें, पक्षी तीसरीमें, सर्प चौथीमें, सिंह पांचवीमें तथा श्वीका जीव छही  
भूमिमें जाकर नारक हो सकता है और सातवीं पृथिवीमें कर्मभूमिके उत्पन्न हुए मनुष्य  
और मगरमच्छ ही जासकते हैं । और भी विशेष यह है कि यदि कोई जीव निरन्तर नर-  
कमें जाता है तो प्रथम पृथिवीमें क्रमसे आठ वार, दूसरीमें सात वार, तीसरीमें छह वार,  
चौथीमें पाच वार, पांचवीमें चार वार, छहीमें तीन वार और सातवींमें दो वार ही जाता है ।  
और सातवें नरकसे आये हुए जीव फिर भी एक वार उसी वा अन्य किसी नरकमें  
जाते हैं, यह नियम है । नरकसे आये हुए जीव वलदेव, नारायण, प्रतिनारायण और  
चक्रवर्त्तिसंज्ञक शलाका पुरुष नहीं होते । और चौथे नरकसे आये हुए तीर्थकर, पांच-  
वेंसे आये हुए चरमशरीरी, छठेसे आये हुए भावलिंगी मुनि और सातवेंसे आये हुए  
आवक नहीं होते हैं । तो क्या होते हैं ? सो कहते हैं—“नरकसे आये हुए जीव मनुष्य,  
तिर्यंच, कर्मभूमिमें सज्जीपर्याप्त तथा गर्भज होते हैं और सातवें नरकसे आये हुए तिर्यंग-  
गतिमें ही उत्पन्न होते हैं ॥

इदानीं नारकदुःखानि कथयन्ते । तथा—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्व-सम्यक् श्रद्धानशानानुष्ठानभावनोत्पन्न—निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखागृहतरसास्वादरहितैः पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादलम्पटैर्मिथ्याहृष्टीवैर्यंदुपार्जितं नरकायुर्नरकगत्यादिपापकर्म तदुदयेन नरके समुत्पद्य पृथिवीचतुष्टये तीव्रोष्टदुःखं, पञ्चम्यां पुनरुपरितनत्रिभागे तीव्रोष्टदुःखमधोभागे तीव्रशीतदुःखं, पष्टीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नदुःखमनुभवन्ति । तथैव छेदनभेदनक्रकच्च विदारणयन्त्रपीडनशूलारोहणादितीत्रदुःखं सहन्ते । तथा चोक्तं—“अच्छिणिमीलणमित्तं णत्थि सुहं दुःखमेव अणुवद्दं । णिरये णेरयियाणं अहोणिस पञ्चमाणाणं । १ ।” प्रथमपृथिवीत्रयपर्यन्तमासुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा नारकदुःखविनाशार्थं भेदाभेदरक्षत्रयभावना कर्तव्या । संक्षेपेणाधोलोकव्याख्यानं ज्ञातव्यम् ॥

थतः परं तिर्यग्लोकः कथयते—सम्बूद्धीपादिशुभनामानो द्वीपाः, लबणोदादिशुभनामानः समुद्राश्च द्विगुणद्विगुणविस्तारेण पूर्वं पूर्वं परिवेष्य वृत्ताकाराः स्वयम्भूरभूमणपर्य-

अब नारक जीवोंके दुःखोंका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निज शुद्ध परमात्मतत्त्व है उसके सम्यक् श्रद्धान्, ज्ञान और आचरणकी भावनासे उत्पन्न जो विकाररहित परम आनन्दमय सुखरूपी अमृत उसके आस्वादसे रहित और पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके सेवनमें लम्पट ऐसे मिथ्याहृष्टि जीवोंने जो नरक आयु तथा नरक गति आदि रूप पाप कर्म उपार्जन किया उसके उदयसे वे नरकमें उत्पन्न होते हैं । वहांपर पहलेकी जो चार पृथिवियें हैं उनमें तीव्र उष्ण ( गर्भी ) का दुःख, और पांचवीं पृथिवीमें ऊपरके त्रिभागमें अर्थात् पंचम पृथिवीके पहले तीसरे हिस्सेमें तीव्र उष्णका दुःख और नीचेके जो दो त्रिभाग हैं उनमें तीव्र शीत ( ठंड वा जाड़ ) का दुःख सथा छही और सातवीं पृथिवीमें अत्यन्त शीतसे उत्पन्न हुए दुःखका अनुभव करते हैं । और इसी प्रकार छेदने, भेदने, करोतीसे चीरने, धानीमें पेरने और गूलीपर चढाने आदिरूप तीव्र दुःखको सहन करते हैं । सोही कहा है कि “नरकमेरातदिन दुःखरूप अग्निमें पचते हुए नारकोंके नेत्रोंके दिमकार मात्र भी सुख नहीं है, किन्तु सोदा दुःख ही लगा रहता है । १ ।” और पहली तीन पृथिवियोंतक असुरकुमार जातिके देवोंसे शकट किये हुए दुःखको भी सहते हैं । ऐसा जानकर, नरकसंवधी दुःखके नाशके लिये भेद तथा अभेद रूप जो रक्षत्रय है उसकी भावना करनी चाहिये । ऐसे संक्षेप दीतिसे अधोलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

अब इसके अनन्तर तिर्यग्लोक अर्थात् भूयलोकका वर्णन करते हैं । अपने दूने दूने विस्तारसे पूर्वपूर्व द्वीपको समुद्र और समुद्रको द्वीप इस क्रमसे वेढ करके गोल आकारवाले जंदूद्वीप आदि शुभ नामोंके धारक द्वीप और लबणोद आदि शुभ नामोंके धारक समुद्र, स्वयंभूरभूमण समुद्रपर्यन्त तिर्यग्लोकविस्तारसे विस्तृत होकर ( फैल कर ) स्थित हैं, इस कार-

न्तास्तिर्यग्विस्तारेण विस्तोर्णस्तिष्ठन्ति यतस्तेन कारणेन तिर्यग्लोको भण्यते, मध्यलोकम् । तद्यथा—तेषु साद्वृत्तीयोद्धारसागरोपमलोमच्छेदप्रसितेष्वसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु मध्ये जन्मद्वीपस्तिष्ठति । स च जन्मवृक्षोपलक्षितो मध्यभागस्थितमेहर्पर्वतसहितो वृत्ताकारलक्ष्ययोजनप्रमाणस्तद्विद्विगुणविष्कम्भेण योजनलक्ष्यद्वयप्रमाणेन वृत्ताकारेण वहिर्भागे लवणसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि लवणसमुद्रस्तद्विद्विगुणविस्तारेण योजनलक्ष्यचतुष्टयप्रमाणेन वृत्ताकारेण वहिर्भागे धातकीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । सोऽपि धातकीखण्डद्वीपस्तद्विद्विगुणविस्तारेण योजनाष्टलक्ष्यप्रमाणेन वहिर्भागे कालोदकसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि कालोदकसमुद्रस्तद्विद्विगुणविस्तारेण पोदशयोजनलक्ष्यप्रमाणेन वृत्ताकारेण वहिर्भागे पुष्करद्वीपेन वेष्टितः । इत्यादिद्विगुणद्विगुणविष्कम्भः स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्तो ज्ञातव्यः । यथा जन्मद्वीपलवणसमुद्रविष्कम्भद्वयसमुदयाद्योजनलक्ष्यत्रयप्रसितात्सकाशाद्वातकीखण्ड एकलक्षणाघिकमत्यैवासंख्येयद्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्यः स्वयम्भूरमणसमुद्रविष्कम्भ एकलक्षणाघिको ज्ञातव्यः । एवमुक्तलक्षणेष्वसंख्येयद्वीपसमुद्रेषु व्यन्तरदेव नां पर्वताद्युपरिगता आवासा, अधोभूभागगतानि भवनानि, तथैव द्वीपसमुद्रादिगतानि पुराण च, परमागमोक्तभिन्नलक्षणानि । तथैव खरभागपङ्कभागस्थितप्रतरासंख्येयप्रमाणे

एसे इसको तिर्यक् लोक कहते हैं और मध्यलोक भी कहते हैं । वह इस प्रकार है—साढे-तीन उद्धार सागर समान लोमोंके टुकड़ोंके बराबर जो असंख्यात द्वीप समुद्रके मध्य (वीच)-में जबूद्वीप स्थित है वह जंबू (जामून) के वृक्षसे चिह्नित तथा 'मध्य भागमें स्थित जो मेरु है उससे सहित है तथा गोलाकार लाख योजन प्रमाण है । और गोलाकार दो लाख योजन प्रमाण अपनेसे दूने विष्कम्भ (परिधि) का धारक जो वाह्य भागमें लवण समुद्र है उससे वेष्टित (वेढा हुआ) है । वह लवण समुद्र भी अपने विस्तारसे दूने विस्तारवाला जो चार लाख योजन प्रमाण गोलाकार वाह्य भागमें धातकीखण्ड नामक द्वीप है उससे वेष्टित है । वह धातकीखण्ड द्वीप भी अपनेसे दूने विस्ताररूप आठ लाख योजन प्रमाण जो वाह्य भागमें कालोदक समुद्र है उससे वेष्टित है । वह कालोदक समुद्र भी अपने दूने विस्ताररूप सोलह लाख योजन प्रमाण गोलाकार वाह्य भागमें जो पुष्कर द्वीप है उससे वेष्टित है । इसको आदि ले, यह दूना दूना दूना विष्कम्भ स्वयम्भूरमण द्वीप तथा स्वयम्भूरमण समुद्रपर्यन्त जानना चाहिये । और, जैसे जंबूद्वीपका विष्कम्भ एक लाख योजन, लवण समुद्रका विष्कम्भ दो लाख योजन, इन दोनोंके समुदायरूप जो तीन लाख योजन प्रमाण है, उससे धातकीखण्ड एक लाख योजन अधिक अर्थात् चार लाख योजन है, इसी प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंका जो विष्कम्भ है उससे एक लाख योजन अधिक स्वयम्भूरमण समुद्रका विष्कम्भ जानने योग्य है । ऐसे पूर्वोक्त लक्षणके धारक असंख्यात द्वीप समुद्रोंमें व्यन्तर देवोंके पर्वत आदिके ऊपर प्राप्त आवास (स्थान), अधोभूभाग (नीचेकी पृथि-बीके भाग) में प्राप्त भवन और द्वीप तथा समुद्र आदिमें मिले हुए पुर हैं । ये आवास,

णासंस्वेयव्यन्तरदेवावासाः, तथैव द्वासपतिलक्ष्माधिककोटिसप्रमितभवनवासिदेवसंब-  
न्धिभवनान्यकुत्रिमजिनचैत्यालयसहितानि भवन्ति । एवमतिसंक्षेपेण तिर्यग्लोको  
व्याख्यात ॥

अथ तिर्यग्लोकमध्यस्थितो मनुष्यलोको व्याख्यायते - तन्मध्यस्थितजन्मद्वीपे सप्त-  
क्षेत्राणि भण्यन्ते । दक्षिणदिग्बिभागादारभ्य भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावत-  
संज्ञानि सप्तक्षेत्राणि भवन्ति । क्षेत्राणि कोऽर्थः ? वर्षा वशा जनपदा इत्यर्थः । तेषां  
क्षेत्राणा विभागकारकाः षट् कुलपर्वताः कथयन्ते—दक्षिणदिग्बिभागमादीकृत्य हिमवन्म-  
हाहिमवन्निषधनीलुकिमशिखरिसंज्ञा भरतादिसप्तक्षेत्राणामन्तरेषु पूर्वापरायताः षट्  
कुलपर्वताः भवन्ति । पर्वता इति कोऽर्थः । वर्षधरपर्वताः सीमापर्वता इत्यर्थः । तेषां  
पर्वतानामुपरि क्रमेण हृदा कथयन्ते । पद्ममहापद्मतिर्गिच्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीक-  
संज्ञा अकृत्रिमा षट् हृदा भवन्ति । हृदा इति कोऽर्थः ? सरोवराणीत्यर्थः । तेभ्यः पद्मादि-  
षहृदेभ्यः सकाशादागमकथितक्रमेण निर्गता याश्रतुर्दश नद्यस्ताः कथयन्ते । तथाहि—  
हिमवत्पर्वतस्यपद्मनाममहाहृदादर्थकोशावगाहकोशार्धार्धविकषट्योजनप्रमाणविस्तारपूर्वतोर-  
णद्वारेण निर्गत्य तत्पर्वतस्यैवोपरि पूर्वदिग्बिभागेन योजनशतपञ्चक गच्छति, ततो गङ्गा-  
कूटसमीपे दक्षिणेन व्याख्यात्य भूमिस्थकुण्डे पतति तस्माद् दक्षिणद्वारेण निर्गत्य भरत-  
क्षेत्रमध्यमभागस्थितस्य दीर्घत्वेन पूर्वापरसमुद्रस्पर्शिनो विजयार्द्धस्य गुहाद्वारेण निर्गत्य

भवन तथा पुर परमागममें कहे हुए जो भिन्न भिन्न लक्षण हैं, उनके धारक हैं । और इसी  
प्रकार रत्नप्रभा भूमिके खर भाग और पंक भागमें स्थित प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण  
असंख्यात व्यंतर देवोंके आवास हैं और सात करोड़ वहतर लाख सख्याके धारक भवनवासी  
देवों संबंधी भवन हैं, वे सब अकृत्रिम जिन चैत्यालयों सहित हैं । इस प्रकार अत्यन्त  
संक्षेपसे तिर्यग् लोक ( मध्यलोक ) का व्याख्यान किया गया ॥

अब तिर्यग् लोक ( मध्यलोक ) के मध्यमें स्थित जो मनुष्य लोक ( ढाई द्वीप ) है  
उसका व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम ही तिर्यग् लोकके बीचमें स्थित जो जंवद्वीप है  
उसमें जो सात क्षेत्र हैं उनका कथन करते हैं । दक्षिण दिशाके भागसे आरभित होकर भरत,  
हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत इन नामोंके धारक सात क्षेत्र हैं ।  
यहाँ क्षेत्र शब्दसे वर्ष, वंश अथवा जनपद अर्थका ग्रहण है । उनके नाम कहते हैं—दक्षिण दिशाके भागको  
आदि लेकर हिमवत् १, महाहिमवत् २, निषध ३, नील ४, रुक्मी ५ और शिखरी ६, इन  
नामोंके धारक, पूर्व पश्चिम लंबे कुलपर्वत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रोंके बीचमें हैं । पर्वत  
का अर्थ वर्षधरपर्वत अथवा सीमापर्वत है । उन पर्वतोंके ऊपर नमसे जो हृद हैं वे  
कहते हैं । पद्म १, महापद्म २, तिर्गिंछ ३, केसरी ४, महापुण्डरीक ५ और पुण्डरीक ६, इन  
नामोंवाले अकृत्रिम षट् हृद हैं । हृदका अर्थ सरोवर है । अब उन पद्म आदि ६ हृदोंसे

उत आर्यस्पण्डार्दभानो पूर्वेण व्यावृत्य प्रथमावगाहापेक्षया दशगुणेन गन्धूतिपञ्चकाव-  
गाहेन तथैव प्रथमविष्कम्भापेक्षया दशगुणेन योजनार्द्धसहितद्विषष्टियोजनप्रमाणविस्ता-  
रेण च पूर्वसमुद्रे प्रविष्टा गङ्गा । तथा गङ्गावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पर्वतस्थपद्मह-  
दात्पत्रेतत्स्वैवोपरि पश्चिमद्वारेण निर्गत्य पश्चाद्विष्णिणदिग्विभागोनागत्य विजयार्द्धगुहाद्वारेण  
निर्गत्यार्यस्पण्डार्दभानो पश्चिमेन व्यावृत्य पश्चिमसमुद्रे प्रविष्टेति । एवं दक्षिणदिग्विभाग-  
समागतगङ्गासिन्धुभ्यां पूर्वपरायतेन विजयार्द्धपर्वतेन च पट्खण्डीकृतं भरतक्षेत्रम् ॥

अथ महाहिमवत्पर्वतस्थमहापद्महदाद्विष्णिणदिग्विभागेन हैमवतक्षेत्रमध्ये समागत्य  
तत्रस्यनामिगिरिपर्वतं योजनार्थेनास्युशन्ती तस्यैवार्थे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितपूर्वसमुद्रं  
गता । तथैव हिमवत्पत्रेतस्थितपद्महदादुत्तरेणागत्य तमेव नामिगिरिं योजनार्थेनास्युशन्ती

आगममें कहे हुए क्रमके अनुसार जो चौहट नदियाँ निकली हैं उनका वर्णन करते हैं ।  
वे इस प्रकार हैं- हिमवत् पर्वतपर स्थित जो पद्मनामक महाहृष्ट है उससे अर्ध कोस प्रमाण  
गहराई और साढे छः योजन प्रमाण चौडाईकी धारक गंगा नामक नदी पूर्वतोरण द्वारसे  
निकलकर, उसी हिमवत् पर्वतके ऊपर पूर्व दिशामें पांचसौ योजनतक जाती है, फिर  
वहाँसे गंगाकूटके पास दक्षिण दिशाको मुड़कर, भूमिमें स्थित जो कुँड है उसमें वह गंगा  
गिरती है । वहाँसे दक्षिण द्वार (दरवाजे) से निकलकर, भरत क्षेत्रके मध्यमागमें स्थित जो  
लंबाईसे पूर्व पश्चिम समुद्रको स्पर्शित करनेवाला विजयार्द्ध पर्वत है उसकी गुहाके द्वारसे  
निकलकर, वहाँसे आर्यखंडके अर्धभागमें पूर्वसे लौटकर, प्रथम अवगाहकी अपेक्षा दशगुणी  
अर्थात् ५ गन्धूति (कोस) की गहराई और इसी प्रकार प्रथमके विष्कंभसे दशगुण जो  
साढे वासठ योजन प्रमाण विस्तार है उस सहित गगानदी पूर्व समुद्रमें प्रवेश करती है ।  
और इस गंगाकी भाति सिंधुनामक महानदी भी उसी हिमवत्पर्वतपर विद्यमान पद्महृष्टके  
पश्चिमद्वारसे निकलकर, पर्वतपर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशाको आकर, विजयार्द्धकी  
गुहाके द्वारसे निकलकर, पश्चिमको मुड़कर, आर्य खंडके अर्धभागमें आकर, पश्चिम समु-  
द्रमें प्रवेश करती है ॥ इस प्रकार दक्षिण दिशाको आई हुई जो गगा और सिंधु नामक  
दो नदियाँ हैं, इनसे और पूर्व तथा पश्चिमके समुद्रतक लंबा जो विजयार्द्ध पर्वत है उससे  
पट खंड (छ. विभागोमें वटा) हुआ भरते क्षेत्र है ॥

अब पूर्वकथनके पश्चात् वर्णन करते हैं- महाहिमवत् पर्वतपर स्थित जो महापद्मनामा  
हृष्ट है, वहाँसे चलकर, दक्षिणकी दिशाकी ओरसे हैमवत क्षेत्रके मध्यमें आकर, वहाँपर  
स्थित जो नामिगिरि नामक पर्वत है, उसको आवे योजनतक स्पर्श करती हुई, उसी पर्व-  
तकी आधी प्रदक्षिणा करती हुई रोहित् नामा नदी पूर्वसमुद्रको गई है । और इसी प्रकार  
रोहितास्या नामा जो नदी है वह हिमवत् पर्वतके पद्महृष्टसे उत्तरको आकर, उसी नामिगि-  
रिको अर्ध योजनपर्यन्त स्पर्श करती हुई, उसी पर्वतकी आवे प्रदक्षिणा करके पश्चिम

तस्यैवार्द्धप्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं गता । इति रोहिद्रोहितास्यासंज्ञं नदी-द्वन्द्व हैमवत्सक्षजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । अथ निषधपर्वतस्थितिगिङ्गलनामह-दादक्षिणेनागत्य नाभिगिरिपर्वतं योजनार्थेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धप्रदक्षिणं कृत्वा हरितपूर्व-समुद्रं गता । तथैव महाहिमवत्त्वर्वतस्थमहापद्मनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य तमेव नाभिगिरि योजनार्थेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धप्रदक्षिणं कृत्वा हरिकान्ता नाम नदी पश्चिम-समुद्रं गता । इति हरिद्वारिकान्तासंज्ञं नदीद्वय हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे विज्ञेयम् । अथ नीलपर्वतस्थितिकेसरिनामहदादक्षिणेनागत्योत्तरकुरुसङ्गोत्तकृष्टभूमिक्षेत्रे मध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्थेन मेरुं विहाय पूर्वभद्रशाल-वनस्य मध्येन पूर्वविदेहस्य च मध्ये शीतानामनदी पूर्वसमुद्रं गता । तथैव निषधपर्वतस्थितिगिङ्गलहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य देवकुरुसंज्ञोत्तमभोगभूमिक्षेत्रमध्येन गत्वा मेरुस-मीपे गजदन्तपर्वतं भित्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्थेन मेरुं विहाय पश्चिमभद्रशालवनस्य मध्येन पश्चिमविदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्रं गता । एवं शीताशीतोदासंज्ञं नदीद्वय विदेहाभिधाने कमभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । यत्पूर्वं गङ्गा सिन्धुनदीद्वयस्य विस्तारावगाहप्रमाणं भणितं तदेव क्षेत्रे क्षेत्रे नदीयुगलं प्रति विदेहपर्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं ज्ञात-व्यम् । अथ गङ्गा चतुर्दशसहस्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि तथा, तद्विगुणसंख्यानं

समुद्रमें गई है । ऐसे रोहित और रोहितास्या नामकी धारक दो नदियें हैमवत नामक जो जघन्य भोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी चाहिये । और हरित नामा नदी निषध पर्वतके तिगिंछहदसे दक्षिणको आकर, आवे योजनतक नाभिगिरि पर्वतको छूती हुई उसी पर्वतकी आधी प्रदक्षिणा करके पूर्वसमुद्रमें गई है । एवमेव हरिकान्ता नामा नदी महाहिमवत् पर्वतके महापद्म नामक हदसे उत्तर दिशाकी ओर आकर, उसी नाभिगिरिको आवे योजनतक स्पर्शती हुई उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्रमें गई है । ऐसे हरित् और हरि-कान्ता नामक दो नदियां हरि नामका धारक जो मध्यम भोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी चाहिये । अब शीता नामा नदी नील पर्वतके केसरी नामा हदसे दक्षिणको आकर, उत्तर-कुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमिक्षेत्रके बीचमें होकर, मेरुके पास जाकर, गजदंत पर्वतको भेद-कर और आवे योजन पर्यन्त प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़कर, पूर्व भद्रशालवन और पूर्व विदेहके मध्यमे होकर, पूर्व समुद्रको गई है । इसी प्रकार शीतोदा नामा नदी निषधपर्वत पर विद्य-मान जो तिगिंछहद है, वहासे उत्तरको आकर, देवकुरु सङ्गक उत्तम भोगभूमि क्षेत्रके बीच-मेंसे जाकर मेरुके पास गजदंत पर्वतको भेदकर और आवे योजन प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़-कर, पश्चिम भद्रशाल वनके और पश्चिम विदेहके मध्यमे गमन करके, पश्चिम समुद्रको गई है । ऐसे शीता और शीतोदा नामक नदियोंका युगल विदेह नामक कर्मभूमिके क्षेत्रमें जानना चाहिये । जो विस्तार और अवगाहका प्रमाण पहले गंगा और सिंधु नामक दो नदियोंका कहा है, उससे दूना दूना प्रत्येक क्षेत्रमें जो नदियोंका युगल है, उसका विस्तार

रोहितोहितास्याद्वयम्, ततोऽपि द्विगुणसंख्यानं हरिद्वरिकान्ताद्वयमिति । तथा षट्विं-  
शत्यधिकयोजनशतपञ्चकमेकोनविंशतिभागीकृतैकयोजनस्य भागषट्कं च यद्विक्षिणोन्तरेण  
कमंभूमिसंज्ञभरतक्षेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं तद्विगुणं हिमवत्पर्वते, तस्माद्विगुण हैमवत्क्षेत्रे,  
इत्यादि द्विगुणं द्विगुणं विदेहपर्यन्तं शातव्यम् । तथा पद्महदो योजनसहस्रायामस्तदद्वं-  
विष्कमो दशयोजनावगाहो योजनैकप्रमाणपद्मविष्कम्भस्तस्मान्महापञ्चे द्विगुणस्तस्मा-  
दपि तिगिव्छे द्विगुण इति ॥

अथ यथा भरते हिमवत्पर्वतान्निर्गतं गङ्गासिन्धुद्वय, तथोन्तरे कमंभूमिसंज्ञैरावतक्षेत्रे  
शिखरिपर्वतान्निर्गत रक्तारक्तोदानदीद्वयम् । यथा च हैमवत्सज्जे जघन्यभोगभूमिक्षेत्रे  
महाहिमवद्विमवन्नामपवेतद्वयात्कमेण निर्गतं रोहितरोहितास्यानदीद्वय, यथोन्तरे हैरण्यवत-  
संज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे शिखरिकिमसंज्ञपवेतद्वयात्कमेण निर्गतं सुवर्णकूलाखूप्यकूलान-  
दीद्वयम् । तथैव यथा हरिसज्जमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे निषधमहाहिमवन्नामपवतद्वयात्कमेण  
निर्गतं हरिद्वरिकान्तानदीद्वय, तथोन्तरे रम्यकसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे रुक्मिनीलनाम-  
पर्वतद्वयात्कमेण निर्गतं नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम् । सुषमसुषमादिषट्टकाल-

जानना चाहिये । अब गंगा चौदह हजार परिवारकी नदियोंसहित है । सिंधु भी चौदह  
हजार परिवार नदियोंकी धारक है । इनसे दूने अर्थात् अड्डाईस हजार संख्या प्रमाण परिवार  
की धारक रोहित तथा रोहितास्याको समझना चाहिये । और हरित, हरिकान्ता ये दो नदियाँ  
इनसे भी दूने परिवारकी धारक हैं । और पांचसौ छब्बीस योजन तथा एक योजनके उन्नीस  
भागोंमें से ६ भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तरसे कर्मभूमि संज्ञक भरतक्षेत्रके विष्कंभका प्रमाण  
है । उससे दूना हिमवत्पर्वतमें, हिमवत् पर्वतसे दूना हैमवत् क्षेत्रमें ऐसे उत्तरोत्तर दूना दूना  
विष्कंभ विदेह क्षेत्रपर्यन्त जानना चाहिये । और पद्महद जो एक हजार योजन लवा,  
पांचसौ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा है और जो उसमें एक योजन प्रमाण विष्कं-  
भका धारक कमल है, उससे दूना महापद्महदमें और उससे दूना तिगिछ हृदमें जानना ।

अब जैसे भरतक्षेत्रमें हिमवत् पर्वतसे गगा तथा सिंधु ये दो नदियाँ निकली हैं वैसे ही  
उत्तर दिशामें कर्मभूमि संज्ञक जो ऐरावत् क्षेत्र है उसमें शिखरी पर्वतसे निकली हुई रक्ता  
तथा रक्तोदा नामक दो नदिया हैं । और जैसे हैमवत् नामक जघन्य भोगभूमिके क्षेत्रमें महा-  
हिमवत् और हिमवत् नामक दो पर्वतोंसे क्रमानुसार रोहित तथा रोहितास्या ये दो नदियाँ  
निकली हैं, इसी प्रकार उत्तरमें हैरण्यवत् संज्ञक जो जघन्य भोगभूमि क्षेत्र है उसमें शिखरी  
और रुक्मी नामक दो पर्वतोंसे क्रमानुसार सुवर्णकूला तथा रुप्यकूला ये दो नदियाँ निकली  
हैं । इसी प्रकार हरिसंज्ञक मध्यम भोगभूमि क्षेत्रमें निषध और महाहिमवत् नामक दो  
पर्वतोंसे जैसे क्रमानुसार हरित तथा हरिकान्ता ये दो नदियाँ निकली हैं, उसी प्रकार उत्त-  
रमें रम्यक नामा मध्यम भोगभूमिके क्षेत्रमें रुक्मी और नीलसंज्ञक दो पर्वतोंसे नारो तथा  
नरकान्ता इन दो नदियोंको क्रमानुसार निकली हुई जानना चाहिये । सुषमसुषमा आदि

संवन्धिपरमागमोक्तायुक्तसेधादिसहिता दशसागरोपमकोटिकोटिप्रमितावसर्पिणी तथो-त्सर्पिणी च यथा भरते वर्तते तथैवैरावते च । अयन्तु विशेष., भरतम्लेच्छखण्डेषु विज-यार्घनगेषु च चतुर्थकालसभयाद्यन्ततुल्यकालोऽस्ति नापरः । किं वहुना, यथा खट्वाया एकभागे ज्ञाते द्वितीयभागम्तथैव ज्ञायते तथैव जम्बूद्वीपस्य क्षेत्रपर्वतनदीहृदादीर्ना यदेव दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि विज्ञेयम् ।

अथ देहमत्वमूलभूतमिथ्यात्वरागादिविभावरहिते केवलज्ञानदर्शनसुखाद्यनन्तगुणसहिते च निजपरमात्मद्रव्ये यथा सम्यगदर्शनज्ञानचारित्रभावनया कृत्वा विगतदेहा देह-रहिता. सन्तो मुनयः प्राचुर्येण यत्र मोक्ष गच्छन्ति स विदेहो भण्यते । तस्य जम्बूद्वीपस्य मध्यमवर्त्तिनः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—नवनवतिसहस्रयोजनोत्सेध एकसहस्रावगाह आदी भूमितले दशयोजनसहस्रप्रवृत्तविस्तार उपर्युपरि पुनरेकादशाशहानिक-मेण हीयमानत्वे सति मस्तके योजनसहस्रविस्तार आगमोक्ताकृत्रिमचैत्यालयदेववनदेवावासाद्यागमकथितानेकाश्रयसहितो विदेहक्षेत्रमध्ये महामेरुर्नाम पर्वतोऽस्ति । स च गजो जातस्तस्मान्मैसुगजात्सकाशादुत्तरमुखे दन्तद्वयाकारेण यन्निर्गतं पर्वतद्वयं तस्य

छहों कालों स्ववधी जो परमागममें कहे हुए आयु तथा उत्सेध आदि हैं उनसहित दश-कोटिकोटि सागर प्रमाण अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी काल जे से भरत मे है वैसे ही ऐरावतमे भी है । और यह विशेष है कि भरतके म्लेच्छखंडोंमे और विजयाधे पर्वतोंमे चतुर्थकालकी आदि तथा अन्तके समान काल है, इसके सिवाय दूसरा नहीं । विशेष क्या कहें-जैसे खट्वा (खाट) का एक भाग जान लिया जावै तो उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार समझ लिया जाता है, इसी प्रकार जंबूद्वीपके क्षेत्र, नदी, पर्वत और हृद आदिका जो दक्षिण दिशा सर्वांगी व्याख्यान है वही उत्तर दिशामें भी जानना चाहिये ॥

अब शरीरमें भमत्वके कारणभूत जो मिथ्यात्व तथा राग आदि विभाव हैं उनसे रहित और केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंसे सहित जो निज परमात्मा द्रव्य है, उसमें जिस सम्यगदर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप भावना करके मुनिजन विगतदेह अर्थात् देहरहित होकर अधिकतासे मोक्षको गमन करते हैं उसको विदेह कहते हैं । इस-लिये जंबूद्वीपके मध्यमें वर्तमान जो विदेह क्षेत्र है उसका विस्तारसे वर्णन करते हैं । वह डस प्रकार है—निन्यानवै हजार योजन ऊँचा, एक हजार योजन गहरा और, प्रथम भूमितलमें दशहजार योजन प्रमाण गोल विस्तारका धारक तथा ऊपर ऊपर एकादशांश (यारहवें हिस्से) हानि क्रमसे घटते घटते होनेपर भस्तक (शिखर) पर एक हजार योजन विस्तारका धारक और शास्त्रमें कहेहुए अकृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा देवोंके स्थान आदि नाना प्रकारके आश्रयोंसहित ऐसा विदेह क्षेत्रमें-महामेरु नामक पर्वत है । वही मानों गज (हाथी) होगया । अतः उस मेरुरूप गजसे उत्तर दिशामें दो दन्तोंके आकारसे जो दो पर्वत निकले हुए हैं, उनकी 'दो गजदन्त' यह संज्ञा है । और वे दोनों उत्तर भागमें जो

गजदन्तद्वयसंज्ञेति, तथोत्तरे भागे नीलपर्वते लग्नं तिष्ठति । तयोर्मध्ये चन्द्रिकोणाकारक्षेत्रमुच्चमभोगभूमिरूपं तस्योत्तरकुरुमंडा । तस्य च मध्ये मेरोरीग्रान्तिरिवभागे शीतानी-पर्वतयोर्मध्ये परमागमवर्गितानायकुत्रिमपार्थिवो जम्बूवृक्षस्तिष्ठति । तस्या एव शीताया उभयतटे यमलगिरिसंज्ञं पर्वतद्वय विद्वेयम् । तस्मात्पर्वतद्वयाहस्तिणमागे कियन्त्तमध्वानं गत्वा शीतानदीमध्ये अन्तरान्तरेण पद्माद्विहृदपञ्चकमस्ति । तेषा हठानामुभयपाइर्वयोः प्रत्येकं सुवर्णरत्नमयजिनगृहमण्डिता लोकानुयोगव्याख्यानेन दग्ध दश सुवर्णपर्वता भवन्ति । तथैव निश्चयव्यवहारक्त्रयाराघकोचमपात्रपरमभक्तिचाहारदानफलेनोत्प-न्नानां तियेमनुष्याणां स्वशुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वाद-विलक्षणस्य चक्रवर्त्तिभोगसुखादप्यधिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियभोगसुखस्य प्रदायका ज्योति-र्गृहप्रदीपतूर्यभोजनव्यमाल्यभाजनभूपणरागमटोत्पादकरसाङ्गसंज्ञा दशप्रकारकल्पवृक्षाः भोगभूमिक्षेत्र व्याप्त तिष्ठन्तीत्यादिपरमागमोक्तप्रकारेणानेकाश्रयोणि ज्ञातव्यानि । तस्मा-देव मेरुगजादस्तिणदिग्विभागेन गजदन्तद्वयमध्ये देवकुरुसंज्ञमुच्चमभोगभूमिक्षेत्रमुच्चरकु-रुवद्विष्णेयम् ॥

नील पर्वत है उसमें लगे हुए हैं । उन दोनों गजदंतोंके मध्यमें जो त्रिकोण आकारवाला ( तिकोना ) उच्चम भोगभूमिरूप क्षेत्र है, उसका 'उत्तरकुरु' नाम है । और उसके मध्यमें मेरुकी ईशान दिशामें शीता नदी और नील पर्वतके बीचमें परमागममें कहा हुआ अनादि, अकुत्रिम तथा पृथ्वीका विकाररूप जबू वृक्ष है । उसी शीता नदीके दोनों किनारोंपर यमलगिरि नामक दो पर्वत जानेचाहिये । उन दोनों यमलगिरि पर्वतोंसे दक्षिण दिशामें कितने ही मार्गके चले जानेपर शीता नदीके बीच बीच में पद्म आदि पांच हूँ हैं । उन हूँदोंके दोनों पार्वों ( पसवाहों ) में से प्रत्येक पार्वमें लोकानुयोगके व्याख्यानके अनुसार सुवर्ण तथा रत्ननिर्मित ऐसे जिनचेत्यालयोंसे भूषित दग्ध दश सुवर्णपर्वत हैं । इसी प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप रक्त्रयकी आराधना करनेवाले जो उच्चम पात्र हैं, उनको परम भक्तिसे दिया हुआ जो आहारदान उसके फलसे उत्पन्न ऐसे तिर्यक्ष और मनुष्योंको निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निर्विकार एवं सदा आनदरूप सुखामृत रसके आम्बादसे विलक्षण और चक्रवर्तिके जो भोगसुख हैं उनसे भी अधिक ऐसे नानाप्रकारके पञ्चेन्द्रियों संबन्धी भोग सुखोंको देनेवाले ज्योतिरङ्ग, गृहाङ्ग, प्रवीपांग, तूर्यांग, भोजनांग, वस्त्रांग, माल्यांग, भाजनांग, भूपणांग तथा राग एवं मद्दको उत्पन्न करनेवाले रसांग इन उक्त नामोंके धारक दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । वे भोगभूमि क्षेत्रको व्याप्त करके, स्थित हैं । इत्यादि परमागमकथित प्रकारसे अनेक आश्र्वय समझने चाहिये और उसी मेरुगजसे निकले हुए दक्षिण दिशामें जो 'दो गजदन्त' हैं उनके मध्यमें उत्तरकुरुके समान देवकुरु नामक उच्चम भोगभूमिका क्षेत्र जानने योग्य है ॥

तस्मादेव मेरुपर्वतात्पूर्वस्यां दिशि पूर्वपरेण द्वार्चिंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भं सर्वेदिकं भद्रशालवनमस्ति । तस्मात्पूर्वदिनभागे कर्मभूमिसंक्षेपः पूर्वविदेहोऽस्ति । तत्र नीलकुलपर्वताद्विष्णुमागे शीतानया उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां विभागः कथ्यते । तथाहि—मेरोः पूर्वदिशाभागे या पूर्वभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पूर्वदिनभागे प्रथम क्षेत्र भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पवते भवति, तदनन्तरं क्षेत्र तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तरं विभङ्गानदी भवति, ततोऽपि क्षेत्र, तस्मादपि वक्षारपर्वतस्तिष्ठति, ततश्च क्षेत्र, ततोऽपि विभङ्गानदी, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततः परं वक्षारपर्वतोऽस्ति, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विभङ्गानदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पूर्वसमुद्रसमीपे यदेवारण्यं तस्य वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्टक्षेत्राणि छातव्यानि । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्ता ५, लाङ्गलावर्ता ६, पुष्कला ७, पुष्कलावती ८ चेति । इदानां क्षेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी ४, खङ्गा ५, मञ्जूषा ६, औषधी ७, पुण्डरीकिणी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीताया दक्षिणविभागे निषधपर्वतादुत्तरविभागे यान्यष्टक्षेत्राणि तानि कथ्यन्ते । तथाया—पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रमस्ति, तदनन्तरं

उसी मेरुपर्वतसे पूर्व दिशामें पूर्व पश्चिमको वाईस हजार योजन विष्कम्भका धारक वेदी-सहित भद्रशाल बन है । उससे पूर्व दिशामें कर्मभूमि संक्षेप पूर्व विदेह है । वहां नील नामक कुलाचलसे दक्षिण दिशामें और शीता नदीके उत्तर भागमें मेरुकी प्रदक्षिणा रूप जो क्षेत्र हैं उनके विभागोंका कथन करते हैं । सो इस प्रकार है—मेरुसे पूर्वदिशाके भागमें जो पूर्वभद्रशालवनकी वेदिका स्थित है, उससे पूर्व दिशाके भागमें प्रथम क्षेत्र है, उसके पीछे दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है, उसके पीछे क्षेत्र है, उसके भी आगे विभगों नाम नदी है, उससे भी आगे क्षेत्र है, उस क्षेत्रके अनन्तर भी वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर भी विभगों नाम नदी है, उससे भी आगे क्षेत्र है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, उससे आगे फिर विभगों नदी और फिर क्षेत्र है उससे आगे फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उसके अनन्तर पूर्व समुद्रके पास जो देवारण्य नाम बन है, उसकी वेदिका है । ऐसे नी मित्तियों ( दीवारों ) से आठ क्षेत्र जानने चाहिये । उनके क्रमसे नाम कहते हैं—कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्ता ५, लाङ्गलावर्ता ६, पुष्कला ७ और पुष्कलावती ८, ऐसे यह क्रमानुसार आठों क्षेत्रोंके नाम हैं । अब क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित जो नगरियां हैं, उनके नाम कहते हैं । वे क्रमसे ये हैं—क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी, ४, खङ्गा ५, मञ्जूषा ६, औषधी ७ और पुण्डरीकिणी ८ ॥

इसके आगे शीता नदीसे दक्षिण भागमें निषध पर्वतसे उत्तर भागमें जो आठ क्षेत्र हैं उनको कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—पहले कही हुई जो देवारण्यकी वेदी है उसके पश्चिम

वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्रं, तस्माद्वक्षारपर्वतस्ततश्च क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, तत. क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतः, ततः क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो मेरुदिग्भागे पूर्वभद्रशालवनवेदिका भवतीति नवभित्तिमध्येऽष्टौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । इदानीं तेषां क्रमेण नामानि कथयन्ते—वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मङ्गलावती ८ चेति । इदानीं तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथयन्ते—सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अङ्गा ५, पद्मा ६, शुभा ७, रत्नसंचया ८ चेति । इति पूर्वविदेहक्षेत्रविभागव्याख्यान समाप्तम् ॥

अथ मेरोः पश्चिमदिग्भागे पूर्वापरद्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्टकम्भो पश्चिमभद्रशालवनानन्तरं पश्चिमविदेहस्तिष्ठति । तत्र निपधपर्वतादुत्तरविभागे शीतोदानद्या दक्षिणभागे यानि क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथाहि—मेरुदिग्भागे या पश्चिमभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पठिच्चमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वक्षारपर्वतस्तिष्ठति, तदनन्तरं क्षेत्र, ततो विभंगा नदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो विभंगा नदी, ततः क्षेत्र, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्र, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्रसमीपे यद्भूतारण्यवन तिष्ठति तस्य वेदिका चेति नवभित्तिपु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां नामानि कथयन्ते । पद्मा १, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना

भागमें क्षेत्र है, तदनन्तर वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, उसके पश्चात् क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है और फिर क्षेत्र है, तत्पश्चात् विभगा नदी है, फिर क्षेत्र है, पुनः वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर विभगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उससे आगे मेरुकी ( उत्तर ) दिशाके भागमें पूर्वभद्रशालवनकी वेदी है । ऐसे नौ भित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र जानने योग्य हैं । उन क्षेत्रोंके क्रमसे नाम कहते हैं—वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७ और मगलावती ८ । अब उन क्षेत्रोंमें स्थित जो नगरियां हैं उनके नाम कहते हैं—सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अंका ५, पद्मा ६, शुभा ७ और रत्नसंचया ८ । इस प्रकार पूर्वविदेहक्षेत्रके विभागोंका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

अब मेरुसे पश्चिम दिशाके भागमें पूर्व पश्चिममें वाईस हजार योजन विष्टकंभका धारक पश्चिम भद्रशालवनके पश्चात् पश्चिम विदेह है । वहां निषध पर्वतसे उत्तरके विभागमें और शीतोदा नदीके दक्षिण विभागमें जो क्षेत्र हैं, उनका विभाग कहा जाता है । सोही दिखाते हैं—मेरु दिशाके ( उत्तरके ) भागमें जो पश्चिम भद्रशालवनकी वेदिका है, उसके पश्चिम भागमें क्षेत्र है, उससे आगे दक्षिण उत्तर लवा वक्षार पर्वत है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, और फिर क्षेत्र है, उसके आगे वक्षार पर्वत है, उसके पश्चात् क्षेत्र है, फिर विभगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्रके पश्चात् वक्षार पर्वत है,

६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणा नामानि कथयन्ति—अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी, ६ अशोकापुरी ७, विशोकापुरी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीतोदाया उत्तरभागे नीलकुलपर्वतादक्षिणे भागे यानि क्षेत्रात्रि तिष्ठन्ति तेषां विभागभेदं कथयति । पूर्वभणिता या भूतारण्यवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे क्षेत्रं भवति । तदनन्तरं वक्षारपर्वतस्तदनन्तरं क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतः, ततश्च क्षेत्रं, ततश्च विभङ्गा नदी, ततोऽपि क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, वतश्च वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिम-भद्रशालवनवेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां क्रमेण नामानि कथयन्ते-वप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा, ३, वप्रकावती, ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिला ७, गन्धमालिनी ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणा नामानि कथयन्ते । विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खड़पुरी ६, अयोध्या ७, अब्ध्या ८ चेति ॥

पश्चात् क्षेत्र है, उसके अनन्तर पश्चिम संमुद्रके समीपमें जो भूतारण्य नामक वन है उसकी वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र होते हैं । उनके नाम कहते हैं,—पद्मा १, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, और सलिला ८. उन क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित नगरियोंके नाम कहते हैं । अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकापुरी ७ और विशोकापुरी ८ ॥

अब इसके अनन्तर शीतोदाके उत्तरभागमे और नील कुलाचलसे दक्षिणभागमे जो क्षेत्र हैं उनके विभाग—भेदका वर्णन करते हैं । पहले कही हुई जो भूतारण्यवनकी वेदिका है उसके पूर्वभागमें क्षेत्र है १, और उसके पश्चात् वक्षार नामा पर्वत है, उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है २, उसके पश्चात् विभगा नदी है, उसके पश्चात् पुनः क्षेत्र है ३, उसके पश्चात् पुनः वक्षार पर्वत है, उसके अनन्तर पुन क्षेत्र है ४, उसके पश्चात् पुन. विभगा नदी है, उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है ५, उसके पश्चात् पुनः वक्षारपर्वत है, उसके पश्चात् पुनः क्षेत्र है ६, उसके पश्चात् पुनः विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है ७, उसके पश्चात् वक्षारपर्वत है, उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है ८, उसके अनन्तर मेरुकी दिशाके भागमे पश्चिम भद्रशालवनकी वेदिका है । इस रीतिसे नौ भित्तियोंके मध्यमे आठ क्षेत्र हैं । अब क्रमसे उनके नाम कहते हैं—वप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा ३, वप्रकावती ४, गधा ५, सुगधा ६, गंधिला ७ और गंधमालिनी ८, ये अष्ट क्षेत्र हैं । अब क्षेत्रोंके मध्यमे वर्त्तमान नगरियोंके नाम कहते हैं । विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खड़पुरी ६, अयोध्या ७ और अब्ध्या ८, ये क्रमसे हैं ॥

अथ भरतक्षेत्रे यथा गङ्गासिन्धुनदीद्वयेन विजयार्थपर्वतेन च स्लेच्छखण्डपञ्चकमा-  
र्यखण्ड चेति षट् खण्डानि जातानि । तथैव तेषु द्वार्तिशक्तेष्वेषु गङ्गासिन्धुसमाननदी-  
द्वयेन विजयार्थपर्वतेन च प्रत्येक षट् खण्डानि ज्ञातव्यानि अयं तु विशेषः । एतेषु  
सर्वदैव चतुर्थकालादिसमानकालः, उत्कर्षेण पूर्वकोटिजीवितं, पञ्चशतचापोत्सेधश्चेति  
विज्ञेयम् । पूर्वप्रमाण कथ्यते । “पुञ्चस्त हु परिमाणं सदर्ति खलु सदसहस्रकोडीओ ।  
च्छप्पणं च सहस्रा बोधव्वा वासगणनाओ । १ ॥” इति संक्षेपेण जन्मूद्धीपव्याख्यानं  
समाप्तम् ॥

तदनन्तरं यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसमुद्रेषु च द्वीपसमुद्रमर्यादाकारिका योजनाष्टकोत्सेधा  
वज्ञवेदिकास्ति तथा जन्मूद्धीपेऽप्यस्तीति विज्ञेयम् । तद्विभागे योजनलक्ष्मद्वयवलयवि-  
ष्कम्भ आगमकथित षोडशसहस्रयोजनजलोत्सेधाद्यनेकाश्चर्यसहितो लवणसमुद्रोऽस्ति ।  
तस्मादपि विभागे योजनलक्ष्मचतुष्टयवलयविष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च  
दक्षिणभागे लवणोदधिकालोदधिसमुद्रद्वयवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायामः सहस्रयोजनवि-  
ष्कम्भः शतचतुष्टयोत्सेध इक्ष्वाकाकारनामपर्वतोऽस्ति । तथोत्तरविभागोऽपि । तेन पर्वतद्व-  
येन खण्डीकृतं पूर्वापरधातकीखण्डद्वयं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुर-

अब भरतक्षेत्रमें जैसे गंगा और सिंधु इन दोनों नदियोंसे तथा विजयार्थ पर्वतसे पांच  
स्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड ऐसे छः खंड हुए हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्त जो बच्चीस  
विदेह क्षेत्र हैं उनमें गगा सिंधुके समान दो नदियों और विजयार्थ पर्वतसे प्रत्येक क्षेत्रके  
छः खंड जानने चाहिये और यह विशेष ( अधिकता ) है कि इन सब क्षेत्रोंमें सदा ही  
चौथे कालकी आदिमें जैसा काल रहता है वैसा ही है । उत्कर्ष ( उत्कृष्टता ) से कोटि पूर्व  
प्रमाण तो आयु है, और पाँचसौ घनुष प्रमाण शरीरका उत्सेध है, यह जानना चाहिये ।  
पूर्वका प्रमाण कहते हैं-“सन्तर लाख कोडि छप्पन हजार” ये वरसगणनासे पूर्वका प्रमाण  
जानना चाहिये । ऐसे सक्षेपसे जन्मूद्धीपका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

उस जन्मूद्धीपके पश्चात् जैसे सब द्वीप और समुद्रोंमें द्वीप और समुद्रकी मर्यादा (सीमा  
हह) करनेवाली आठ योजन ऊँची वज्रकी वेदिका ( दीवार ) है, उसी प्रकारसे जन्मू-  
द्धीपमें भी है, यह जानना चाहिये । उस वेदिकाके बाह्य भागमें दो लाख योजन प्रमाण  
गोलाकार विष्कम्भका धारक शाखामें उक्त सोलह हजार योजन जलकी ऊँचाई आदि अनेक  
आश्रयों सहित लवणसमुद्र है । उस लवणसमुद्रके बाह्य भागमें चार लाख योजन गोल  
विष्कम्भका धारक धातकीखड़ द्वीप है । और वहापर दक्षिण भागमें लवणोदधि और कालो-  
दधि इन दोनों समुद्रोंकी वेदिकाको स्पर्श करनेवाला, दक्षिणसे उत्तरको ओर लंबा, एक  
हजार विष्कम्भका धारक तथा चारसौ योजन ऊचा इक्ष्वाकाकारनामा पर्वत है । और इसी  
प्रकार उत्तर भागमें भी एक इक्ष्वाकार पर्वत है । इन दोनों पर्वतोंसे खड़ल्प हुए ऐसे,

शीतिसहस्रयोजनोत्सेषः । सहस्रयोजनावगाहः क्षुल्लकमेरुरस्ति । तथा पश्चिमधातकीख-  
ण्डेऽपि । यथा जन्मवृद्धीपमहामेरौ भरतादिक्षेत्रहिमवदादिपर्वतगङ्गादिनदीपद्मादिहृदानां  
दक्षिणोत्तरेण व्याख्यानं कृत तथात्र पूर्वधातकीखण्डमेरौ पश्चिमधातकीखण्डमेरौ च  
ज्ञातव्यम् । अत एव जन्मवृद्धीपापेक्षया संख्या प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न  
च विस्तारायामापेक्षया । कुलपर्वता, पुनर्विस्तारापेक्षयैव द्विगुणा नत्वायामं प्रति । तत्र  
धातकीखण्डद्वीपे यथा चक्रस्यारास्तथाकाराः कुलपर्वता भवन्ति । यथा चाराणां विव-  
राणि छिद्राणि मध्यान्यभ्यन्तरे सङ्कीर्णानि वहिर्भागे विस्तीर्णानि तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ॥

इत्थभूतं धातकीखण्डद्वीपमष्टलक्ष्योजनवलयविष्कम्भः कालोदकसमुद्रः परिवेष्य  
तिष्ठति । तस्माद्वहिर्भागे योजनलक्षाष्टकं गत्वा पुष्करद्वीपम्ब्य वलयाकारेण चतुर्दिशाभागे  
मानुषोत्तरनाम पर्वतस्तिष्ठति । तत्र पुष्करार्धेऽपि धातकीखण्डद्वीपवदक्षिणोत्तरेणेक्ष्वा-  
कारनामपर्वतद्वयं पूर्वापरेण क्षुल्लकमेरुद्वयं च । तथैव भरतादिक्षेत्रविभागश्च बोद्धव्यः ।  
पर किन्तु जन्मवृद्धीपभरतादिस्यापेक्षया भरतक्षेत्रादिद्विगुणत्वं न च धातकीखण्डापे-

पूर्वधातकीखंडं तथा पश्चिमधातकीखण्डं ऐसे दो खण्ड जानने चाहिये । उनमें जो पूर्वधात-  
कीखण्ड नामा द्वीप है उसके मध्यमें चौरासी हजार योजन ऊंचा और एक हजार योजन  
गहरा छोटा मेरु है । और उसी प्रकार पश्चिमधातकीखण्डमें भी एक छोटा मेरु है ।  
और जैसे जन्मवृद्धीपके महामेरुमें भरत आदि क्षेत्र, हिमवत् आदि पर्वत, गंगा आदि नदी  
और पद्म आदि हृदोंका दक्षिण उत्तर रूपसे व्याख्यान किया है, वैसे ही इस पूर्वधातकी-  
खंडके मेरु और पश्चिमधातकीखण्डके मेरुमें जानना चाहिये । और इसी कारण धातकी-  
खडमें जन्मवृद्धीपकी अपेक्षा गिनतीमें ही भरत आदि दूने होते हैं, परन्तु विस्तार तथा  
आयामकी अपेक्षासे नहीं । और जो कुलपर्वत हैं वे तो विस्तारकी अपेक्षा ही द्विगुण हैं,  
न कि आयाम ( लंबाई ) की अपेक्षासे । उस धातकीखंडद्वीपमें जैसे चक्रके आरा होते  
हैं वैसे आकारके धारक कुलाचल हैं । और जिस प्रकार चक्रके आरोंके छिद्र भीतरसे तो  
सकीर्ण ( सकडे ) होते हैं और वाह्य देशमें विस्तीर्ण ( बडे ) होते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रोंको  
समझना चाहिये ॥

इस प्रकार जो धातकीखंड द्वीप है उसको आठ लाख योजनप्रमाण विष्कंभका धारक  
कालोदक समुद्र वेदे हुए स्थित है । उस कालोदक समुद्रके बाह्य भागमें आठ लाख  
योजन चलकर पुष्करवर द्वीपके अर्ध भागमें गोलाकार रूपसे चारों दिशाओंमें मानु-  
षोत्तर नामा पर्वत विद्यमान है । उस पुष्करार्ध द्वीपमें भी धातकीखडनामक द्वीपके समान  
दक्षिण तथा उत्तर दिशा में इक्ष्वाकार नामके धारक दो पर्वत, पूर्वपश्चिममें दो छोटे मेरु,  
और इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग जानना चाहिये । प्ररन्तु विशेष यह है कि  
जन्मवृद्धीप के भरत आदिकी अपेक्षासे यहा द्विगुण, द्विगुण (दूने दूने) भरत आदि क्षेत्र हैं और

क्षया । कुलपर्वतानां तु धातकीखण्डकुलपर्वतापेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ आयामश्च । उत्सेधप्रमाणं पुनर्द्विष्णिभागे विजयार्थपर्वते योजनानि पञ्चविंशतिः, हिमवति पर्वते शतं, महाहिमवति द्विशतं, निषव्वे चतुशतं, तथोत्तरभागे च । मेरुसमीपगजदन्तेषु शतपञ्चकं, नदीसमीपे वक्षारेषु चान्त्यनिषधनीलसमीपे चतुशतं च, शेषपर्वताना च मेरुं त्यक्त्वा यदेव जम्बूद्वीपे भणितं तदेवार्थरुतीयद्वीपेषु च विज्ञेयम् । तथा नामानि च क्षेत्रपर्वतनदीदेशनगरादीना तान्येव । तथैव क्रोशद्वयोत्सेधा पञ्चशतधनुविस्तारा पद्मरागरत्नमयी वनादीना वेदिका सर्वत्र समानेति । अत्रापि चक्राकारवत्पर्वता आरविवरसंस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषोत्तरपर्वतादभ्यन्तरभाग एव मनुष्यास्तिष्ठन्ति न च वहिर्भागे । तेषां च जघन्यजीवितमन्तर्मुहूर्तप्रमाणम्, उत्कर्षेण पल्यत्रयं, मध्ये मध्यमविकल्पा वहवस्तथा तिरश्चां च । एवमसंख्येयद्वीपसमुद्रविस्तीर्णतिर्यग्लोकमध्येऽर्धरुतीयद्वीपप्रमाणः संक्षेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः ॥

अथ मानुषोत्तरपर्वतसकाशाद्विर्भागे स्वयम्भूरमणद्वीपाधं परिक्षिप्य योऽसौ नागेन्द्र-

धातकीखंडकी अपेक्षा भरत आदि दूने नहीं हैं । और कुलपर्वतोंका विष्कम्भ तथा आयाम धातकीखंडके कुलपर्वतोंकी अपेक्षा द्विगुण है । और ऊँचाईका प्रमाण जो दक्षिण भागमें विजयार्थपर्वत है उसमें पश्चीम योजन है, हिमवत् पर्वतमें सौ १०० योजन, महाहिमवान् पर्वतमें दोसौ योजन, निषधमें चारसौ योजन प्रमाण है । तथा उत्तर भागमें भी इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण हैं । मेरुके समीप भागमें जो गजदत हैं उनमें पांचसौ योजनकी ऊँचाई है । नदीके निकटवर्ती जो वक्षार पर्वत हैं उनमें तथा अन्तिम नील और निषध पर्वतके पास चारसौ योजनकी ऊँचाई है । और मेरुको छोड़कर जो शेष (वाकीके) पर्वत हैं उनमें जो जबूद्वीपमें कही है सोही ढाई द्वीपमें जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी, देश, नगर आदिके नाम भी वेही हैं जो कि जंबूद्वीपमें हैं । और इसी प्रकार दो कोश ऊँची पांचसौ घनुष चौड़ी पद्मराग रत्ननिर्मित जो बन आदिकी वेदिका है वह सब द्वीपोंमें समान है । इस पुष्करार्थ द्वीपमें भी चक्रके आकार समान पर्वत हैं और आरोंके छिद्रोंके समान क्षेत्र हैं, यह समझना चाहिये । मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर (अंदर) के भागमें ही मनुष्य निवास करते हैं और वाह्य भागमें नहीं, और उन मनुष्योंका जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तके तथा उत्कृष्ट आयु तीन पल्यके वरावर है । मध्यमें मध्यम विकल्प बहुतसे हैं । तिर्यचोंका आयु भी मनुष्योंके आयुके सदृश ही है । इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंसे विस्तारको प्राप्त जो तिर्यग्लोक है, उसके मध्यमे ढाई द्वीप प्रमाण जो मनुष्यलोक है उसका संक्षेपसे व्याख्यान किया ॥

अब मानुषोत्तर पर्वतसे वाह्य भागमें स्वयंभूरमण नामा द्वीपके अर्धभागको वेदकर जो नागेन्द्र नामक पर्वत है उस पर्वतके पूर्व भागमें जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें यद्यपि

नामा पवतस्तस्मात्पूर्वभागे ये संख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनाद् व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पत्यप्रमाणायुषां तिरश्चां संबन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम् । नागेन्द्रपर्वताद्विर्भागे, स्वयंभूरमणद्वीपार्थे समुद्रे च पुनर्विदेहवत्सर्वदैव कर्मभूमिश्चतुर्थकालश्च । पर किन्तु मनुष्या न सन्ति । एवमुक्तलक्षणतिर्यग्लोकस्य, तदन्तरं मध्यमभागवर्तिनो मनुष्यलोकस्य च प्रतिपाददेन संक्षेपेण मध्यमलोकव्याख्यानं समाप्तम् । अथ मनुष्यलोके द्विहीनशनचतुष्टयं तिर्यग्लोके तु नन्दीश्वरकुण्डलरुचकाभिधानद्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपञ्चाशज्जतुष्टयचतुष्टयसख्याश्चाकृत्रिमा । स्वतन्त्रजिनगृहा ज्ञातव्याः ॥

अत ऊर्ध्वं व्योतिर्लोकः कथ्यते । तद्यथा—चन्द्रादित्यप्रहनक्षत्राणि प्रकीर्णतारकाश्चेति ज्योतिष्कदेवा पञ्चविधा भवन्ति । तेषां मध्येऽस्माद्भूमितलादुपरि नवत्यधिकसप्तशतयोजनान्याकाशे गत्वा तारकविमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशक गत्वा सूर्यविमानाः, ततः परमशीतियोजनानि गत्वा चन्द्रविमाना, ततोऽपि त्रैलोक्यसारकथितक्रमेण योजनचतुष्टयं गते

व्यन्तर देव निरन्तर रहते हैं, इस वचनसे व्यन्तर देवोंके आवास हैं तथापि एक पल्य प्रमाण आयुके धारक तिर्यचों सबधिनी जघन्य भोगभूमि है ऐसा जानना चाहिये । तथा नागेन्द्रपर्वतसे बाह्य भागमें जो स्वयंभूरमण नामक आधा द्वीप और पूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र है, उसमें विदेहक्षेत्रके समान सदा ही कर्मभूमि और चतुर्थ काल रहता है । परन्तु विशेष यह है कि वहाँपर मनुष्य नहीं हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक तिर्यग्लोकके तथा उसके पश्चात् उस तिर्यक् लोकके मध्यमें विमान जो मनुष्य लोक है उसके संक्षेपसे निरूपणद्वारा मध्यलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ । और मनुष्यलोकमें तीनसौ अड्डानवे ३९८ और तिर्यक् लोकमें नन्दीश्वर द्वीपमें बावन ५२, कुण्डल द्वीपमें ४ तथा रुचक द्वीपमें ४, इस प्रकार सब मिलके मध्यलोकमें चारसौ अड्डावन ४५८ अकृत्रिम स्वतंत्र चैत्यालय जानने चाहिये ॥

अब इसके अनंतर ज्योतिष्कलोकका वर्णन करते हैं । वह इस प्रकार है—चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णकतारा ऐसे ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके होते हैं । उनके मध्यमें इस पृथ्वीतलसे ऊपर सातसौ नव्वे ७२० योजन आकाशमें जाकर तारोंके विमान हैं, और वहाँसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्यों के विमान हैं । उसके पश्चात् अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाके विमान हैं । उसके अनंतर त्रैलोक्यसारमें कहे हुए क्रमानुसार चार योजन ऊपर जाकर अधिनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उनके पश्चात् चार योजन ऊपर जाकर द्वितीयके विमान हैं । और वहाँसे तीन योजन ऊपर चलकर वृहस्पतिके विमान हैं । उसके पश्चात् तीन योजनपर मंगलके विमान हैं । और वहाँसे भी तीन योजनके अनन्तर शनैश्चरके विमान हैं । सोही कहा है—

अधिन्यादिनक्षमविमानाः, ततःपरं योजनचतुष्टय गत्वा बुधविमानाः, ततः पर योजनन्त्रयं गत्वा शुक्रविमानाः, ततो योजनन्त्रये गते बृहस्पतिविमानाः, ततो योजनन्त्रयानन्तर मङ्गलविमानाः, ततोऽपि योजनन्त्रयानन्तरं शनैश्चरविमाना इति । तथा चोक्तं “णवदुत्तरस-क्षसया दस सीढी चउदुग तु तिचउक । तारारविससिरिक्षवा बुहभगवर्णं गिरारसणी । १ ।” ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धरुतीयद्वीपेषु निरन्तर मेरोः प्रदक्षिणेन परिभ्रमणगतिं कुर्वन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिवसादिरूपः स्थूलव्यवहारकालः समयनिमिषादिसूक्ष्मव्यवहारकालवत् यद्यप्यनादिनिधनेन समयघटिकादिविवक्षितविकल्परहितेन कालाणुद्रव्यरूपेण निश्चयकालेनोपादानभूतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिज्योतिष्कदेवविमानगमना-गमनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन सृतिषण्डोपादानजनितघट इव व्यज्यते प्रकटीकि यते ज्ञायते तेन कारणेनोपचारेण ज्योतिष्कदेवकृत इत्यभिधीयते । निश्चयकालस्तु तद्विमानगतिपरिणतेर्वहिरङ्गसहकारिकारणं भवति कुम्भकारचक्ष्रमणस्याधस्तनशिलावदिति ॥

इदानीमर्धरुतीयद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथयते । तथाहि—जम्बूद्वीपे चन्द्रद्वय सूर्य-द्वय च. लवणोदे चतुष्टय, धातकीखण्डद्वीपे द्वादश चन्द्रादित्याश्च, कालोदकसमुद्रे द्विच-त्वारिशशचन्द्रादित्याश्च, पृष्कराधें द्वीपे द्वासप्तिचन्द्रादित्याश्चेति । ततः पर भरतैरावतस्थितजम्बूद्वीपचन्द्रसूर्ययोः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे योजनाना-

“सातसाँ नव्वे, दस, अस्सी, चार, चार, तीन, तीन, और तीन योजन ऊपर क्रमसे तारा, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मगल और शनैश्चर के विमान हैं । १ ।” वे ज्योतिष्कदेव ढाई द्वीपमें निरन्तर ( सदा ) मेरुकी प्रदक्षिणापूर्वक परिभ्रमण ( गमन ) करते हैं । उन ढाई द्वीपोंमें घटिका, प्रहर, दिवस आदिरूप स्थूल ( मोटा ) व्यवहार काल है । समय, निमिष आदि सूक्ष्म कालके समान यद्यपि यह काल अनादिनिधन ( आदि और अन्तरहित ) और समय, घटिका आदि विवक्षित भेदोंसे रहित जो कालाणुद्रव्यरूप उपादानभूत निश्चयकाल हैं उससे उत्पन्न होता है; तथापि जैसे निमित्तभूत कुम्भकारद्वारा मृत्तिकार्पिण्ड है उपादानकारण जिसका ऐसा घट प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार चन्द्र, सूर्य आदि ज्योतिष्कदेवोंके विमानोंके गमनागमन ( जाने आने )से यह काल जाना जाता है, इस कारण उपचारसे “व्यवहार काल ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ है” ऐसा कहा जाता है । और जो निश्चय काल है वह तो जैसे कुम्भकारके चक्र ( चाक )के भ्रमणमें उस घक्के नीचेकी शिला बहिरंग सहकारी कारण है उस प्रकार उन ज्योतिष्कदेवोंके विमानोंकी गति-परिणति ( गमनरूप परिणाम )में बहिरंग सहकारी कारण होता है ॥

अब ढाई द्वीपोंमें जो चन्द्र और सूर्य हैं उनकी संख्याका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—जंबूद्वीपमें दो चन्द्रमा और दो सूर्य हैं, लवणोदकसमुद्रमें चार चन्द्रमा और चार सूर्य हैं, धातकीखण्ड द्वीपमें बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं, कालोदक समुद्रमें बयालीस ४२ चन्द्रमा और बयालीस ४२ ही सूर्य हैं तथा पुष्करार्ध द्वीपमें बहत्तर ७२ चन्द्रमा

मशीतिशर्तं वहिर्भागे लवणसमुद्रसंबन्धे त्रिशद्धिकशतत्रयमिति समुदायेन दशोत्तरयो-  
जनशक्तपञ्चकं चारक्षेत्रं भण्वते तच्चन्द्रादित्ययोरेकमेव । सत्र भरतेन वहिर्भागे तस्मिंश्चा-  
रक्षेत्रे सूर्यस्य चतुरशीतिशतसंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र जम्बूद्वीपा-  
भृन्सरं कर्कटसंकान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपर्वतम्योपरि प्रथममार्गे सूर्यः प्रथ-  
मोदयं करोति । यत्र सूर्यविमानस्थं निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्याकृत्रिमं जिनविम्बं  
प्रत्यक्षेण हृष्टा अग्नेयानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्चलिमुत्क्षि-  
प्याधै ददातीति । तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादित्यस्यैरावतादित्येन सह तथापि चन्द्रस्यान्यचन्द्रेण  
सह यदन्तरं भवति तद्विशेषणागमतो ज्ञातव्यम् ॥

अथ “सदभिस भरणी अहा सादी असलेस जेहुमवरवरा । रोहिणिविसहपुणव्वसु  
तिउत्तरा मज्जिमा सेसा । १ ।” इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योत्कृष्टमध्यनक्षत्राणि  
तेषु मध्ये कस्मिन्क्षेत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यन्तिष्ठानीति । “इन्दुरबीदो रिक्खा सत्तद्विष-  
पंचमयनखंडहिया । अहियहिदरिक्खखडा इन्दुरबीअत्थण्णमुहुत्ता । १ ।” इत्यनेन गाथा-  
सूत्रेणागमकथितक्रमेण प्रथक् पृथगानीय मेलापके कृते सति षड्धिकषष्ठियुतत्रिशतसंख्य-

और वहत्तर ही सूर्य हैं । इसके अनन्तर भरत और ऐरावतमें स्थित जो जम्बूद्वीपके चन्द्र-  
तथा सूर्य हैं उनका कुछ धोड़ासा विचरण करते हैं । वह इस प्रकार है-जम्बूद्वीपके भीतर-  
एकसौ अस्सी और वाहा भागमें अर्थात् लवणसमुद्रके सबंधमें तीनसौ तीस योजन ऐसे  
दोनों मिलकर पांचसौ दश योजन प्रमाण सूर्यका चारक्षेत्र ( गमनका क्षेत्र ) कहलाता है ।  
सो चन्द्र तथा सूर्य इन दोनोंका एक ही है । इनमें भरक्षेत्रसे वाहा भागमें उस चारक्षेत्रमें  
सूर्यके एकसौ चौरासी मार्ग होते हैं और चन्द्रमाके पन्द्रह ही मार्ग हैं । उनमें जंबूद्वीपके  
भीतर कर्कट संकान्तिके दिवस जब कि दक्षिण अयनका प्रारंभ होता है तब निषध पर्वतके  
ऊपर प्रथम मार्गमें सूर्य प्रथम चढ़ाय करता है । जहांपर सूर्यके विमानमें वर्तमान जो  
निर्दोष परमात्मा श्रीजिनेन्द्र हैं उनके अकृत्रिम जिनविंवको अग्नेया नगरीमें स्थित भरत-  
क्षेत्रका चक्रवर्ती निर्मल सम्यक्त्वके अनुरागसे अवलोकन करके, पुष्पांजलि उछालकर, अर्घ  
देवा है । उस प्रथम मार्गमें स्थित जो भरतक्षेत्रका सूर्य है उसका ऐरावत क्षेत्रके सूर्यके  
साथ तथा चंद्रमाका चन्द्रमाके साथ और भरतक्षेत्रके सूर्य चन्द्रमाओंका मेरुके साथ जो  
अन्तर ( फासला व दूरी ) रहता है वह विशेषतासे आगमोंसे जानना चाहिये ॥

अब “शतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाती, आठलेषा, व्येष्टा ये छः नक्षत्र जघन्य हैं ।  
रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्युनी, उत्तरापाढा, और उत्तराभाद्रपद ये ६ नक्षत्र  
उत्कृष्ट हैं । इनके अतिरिक्त शेष जो नक्षत्र हैं वे मध्यम हैं । १ । इस गाथामें कहे हुए  
क्रमके अनुसार जो जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र हैं, उनमें किस नक्षत्रमें कितने दिन  
सूर्य ठहरता है सो कहते हैं । एक मुहूर्तमें चन्द्र १७६८, सूर्य १८३० और नक्षत्र १८३५  
गगनखंडोंमें गमन करते हैं, इसलिये अधिकभागोंसे नक्षत्रखंडोंके भाग देनेसे जो मुहूर्त

दिनानि भवन्ति । तस्य दिनसमूहार्धस्य यदा द्वीपाभ्यन्तराहस्त्रिणेन बहिर्भागेषु दिनकरो  
गच्छति तदा उक्षिणायनसंज्ञा, यदा पुनः समुद्रात्सकाशादुत्तरेणाभ्यन्तरसमागमेषु समायाति  
तदोत्तरायणसंज्ञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममार्गपरिधीं कर्कटसक्रान्तिदिने दक्षि-  
णायनप्रारम्भे तिष्ठत्यादित्यस्तदा चतुर्णवतिसहस्रपञ्चविंशत्यधिकपञ्चयोजनशतप्रमाण  
दत्कर्पणादित्यविमानस्य पूर्वापरेणातपविस्तारो ज्ञेयः । तत्र पुनरष्टादशमुहूर्चेदिवसो  
भवति द्वादशमुहूर्चे रात्रिरिति । ततः ऋमेणातपहानी सत्यां मुहूर्चद्वयस्यैकघष्ठिभागीकृत-  
स्यैको भागो दिवसमच्ये दिनं प्रति होयते यावल्लवणसमुद्रेऽवसानमार्गं माघमासे मकर-  
सक्रान्तादुत्तरायणादिवसे त्रिपठिसहस्राधिकपोदशयोजनप्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य  
पूर्वापरेणातपविस्तारो भवति । तर्यां द्वादशमुहूर्चेऽर्द्धिवसो भवत्यष्टादशमुहूर्चे रात्रिश्चेति ।  
शेषं विशेषव्याख्यानं लोकविभागादौ विज्ञेयम् ।

ये तु मनुष्यक्षेत्राद्विर्भागे ज्योतिष्कविमानास्तेषां चलनं नास्ति । ते च मानुषोत्तरप-  
र्वताद्विर्भागे पञ्चाशत्सहस्राणि योजनानां गत्वा वलयाकारं पक्षिकमेण पूर्वक्षेत्रं परिवेष्ट्य  
प्राप्त होते हैं, उन मुहूर्तोंको चंद्र और सूर्यके आसन्न मुहूर्च जानने चाहिये । अर्थात्  
उत्तने मुहूर्तों तक चन्द्रमा और सूर्यको एक नक्षत्र पर स्थिति जाननी चाहिये । इस प्रकार  
इस गाथामें कहे हुए क्रमसे भिन्नभिन्न दिनोंको लेकर, उनको जोड़नेसे तीनसौ छ्यासठ  
३६६ दिन होते हैं । जब द्वीपके भीतरसे दक्षिण दिशाके बाह्य मार्गमें सूर्य गमन  
करता है तब तीनसौ छ्यासठ दिनके आधे जो एकसौ तिरासी १८३ दिन हैं उनकी  
दक्षिणायन संक्षा होती हैं, और इसी प्रकार जब सूर्य समुद्रसे उत्तर दिशाको अभ्यन्तर  
मार्गमें आता है तब शेष जो १८३ दिन हैं उनका उत्तरायण नाम होता है । उनमें  
जब द्वीपके अभ्यन्तर भागमें कर्कट संक्रान्तिके दिन दक्षिण अयनके प्रारंभमें सूर्य प्रथम  
मार्गकी परिविमें स्थित होता है तब चौरानवे हजार पाचसौ पचीस योजन प्रमाण सूर्यके  
विमानका पूर्व पश्चिमसे आतप (धूपका) विस्तार (फैडाव) होता है यह जानना  
चाहिये । और उस समय अठारह मुहूर्तोंसे दिन और बारह मुहूर्तोंसे रात्रि होती है ।  
फिर यहासे क्रम क्रमसे आतपकी हानि होनेपर दो मुहूर्तोंके इक्सठ भागोंमेंसे एक भाग  
प्रतिदिन दिवसमें घटता है । यह तबतक घटता है जबतक कि लवणसमुद्रके अन्तके  
मार्गमें माघमासमें मकर संक्रान्तिमें उत्तरायण दिवसके प्रारंभमें जघन्यतासे सूर्यके विमा-  
नका आतप विस्तार ब्रेसठ हजार सोलह योजन प्रमाण होता है । उस समय उसी प्रकार  
बारह मुहूर्तोंसे दिन और अठारह मुहूर्तोंसे रात्रि होती है । इसके अतिरिक्त अन्य जो  
विशेष वर्णन है सो लोकविभाग आदिसे जानना चाहिये ॥

और जो मनुष्यक्षेत्र (ढाई द्वीप) से वहिर्भागमे ज्योतिष्क्षिप्तिमान हैं उनका चलन (गमन) नहीं है; तथा वे मानुषोचर पर्वतके बाह्य भागमे पचास हजार योजन गमन कर, बल्याकार (गोलाकार) पंक्तिरूप क्रमसे पूर्व (पहले) क्षेत्रको वेद (धेर) कर, रहते हैं। उनमें

तिष्ठन्ति । तत्र प्रथमवलये चतुश्चत्वारिंशदधिकशतप्रभाणाश्चन्द्रास्तथादित्याश्रान्तरान्तरेण तिष्ठन्ति । ततः पर योजनलक्षे लक्षे गते तेनैव क्रमेण वलय भवति । अयन्तु विशेषः— वलये वलये चन्द्रचतुष्टयं सूर्यचतुष्टयं च वर्धते यावत्पुष्कराधवहिर्भागे वलयाष्टकमिति ततः पुष्करसमुद्रप्रवेशे वेदिकायाः सकाशात्पञ्चाशतसहस्रप्रमितयोजनानि जलमध्ये प्रविद्य यत्पूर्वं चत्वारिंशदधिकशतप्रभाणं प्रथमवलय व्याख्यात तस्माद् द्विगुणसख्यानं प्रथमवलय भवति । तदनन्तरं पूर्ववद्योजनलक्षे लक्षे गते वलय भवति चन्द्रचतुष्टयस्य सूर्यचतुष्टयस्य च बृद्धिरित्यनेनैव क्रमेण स्वयम्भूरमणसमुद्रवहिर्भागवेदिकापर्यन्तं यजो-तिष्ठकदेवानामवस्थान वोद्धव्यम् । एते च प्रतरासख्येयभागप्रमिता असख्येया यजोतिष्ठक-विमाना अकृत्रिमसुवर्णमयरक्षमयजिनचैत्यालयमण्डता ज्ञातव्याः । इति संक्षेपेण यजो-तिष्ठकलोकयाख्यानं समाप्तम् ॥

अथानन्तरमूर्ध्वलोकः कथ्यते । तथाहि—सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोन्तर-लान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारणाच्युतसंज्ञाः घोड़श स्वर्गस्ततोऽपि नवग्रैवेयकसंज्ञास्ततश्च नवानुदिशसज्जा नवविमानसंख्यमेकपटलं ततोऽपि पञ्चानुन्तरसज्जं पञ्चविमानसख्यमेकपटलं चेत्युक्तक्रमेणोपर्युपरि वैमानिकदेवास्तिष्ठन्तीति वार्त्तिकं संप्र-

जो प्रथम वलय है उसमें एकसौ चवालीस १४४ चन्द्रमा तथा सूर्य अन्तरान्तर (दूर दूर) से निवास करते हैं । उसके पश्चात् एक एक लाख योजन चले जानेपर इसी पूर्वोक्त क्रमानुसार वलय होता है । और विशेष यह है कि वलये वलय (हर एक वलय)में चार चन्द्रमा तथा चार सूर्य बढ़ते हैं सो ये पुष्करार्धके बाह्य भागमें जो आठ वलय हैं वहांतक बढ़ते हैं । उसके पश्चात् पुष्कर समुद्रके प्रवेशमें जो वेदिका है उससे पचास हजार योजन प्रमाण जलभागमें जाकर, जो पहले प्रथम वलयमें एकसौ चवालीस चन्द्र तथा सूर्योंका कथन किया है उससे द्विगुण अर्थात् दोसौ अड्हासी चद्रमा और सूर्योंका धारक प्रथम वलय है । उसके पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार एक एक लाख योजन चले जानेपर वलय है और प्रत्येक वलयमें चार चन्द्रमा और चार सूर्योंकी बृद्धि होती है । सो इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्रकी अतकी वेदिका पर्यन्त यजोतिष्ठकदेवोंका निवास जानना चाहिये । और ये सब प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात यजोतिष्ठकविमान अकृत्रिम सुवर्ण तथा रक्षमय जो जिनचैत्यालय हैं उनसे भूयित हैं ऐसा समझना चाहिये । इस प्रकार संक्षेपसे यजोतिष्ठक लोकका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब इसके अनंतर ऊर्ध्वलोकका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोन्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनन्द, प्राणत, आरण और अच्युत, इन नामोंके धारक सोलह स्वर्ग हैं । वहांसे आगे नवग्रैवेयक नामवाले विमान हैं, और इनके भी अनंतर नव ह विमानोंको संख्याका धारक नवानुदिश नामक एक पटल है, तथा इसके भी अनंतर पांच विमानोंकी संख्यावाला पञ्चा-

ह वाक्यं समुदायकथनमिति यावत् । आदिमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनवृत्तविष्कम्भा चत्वारिंशत्प्रमितयोजनोत्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्योपरि कुरुमूमिजमर्त्यवालाश्रा- भ्तरितं पुनर्ऋजुविमानमस्ति । तदादिं कृत्वा चूलिकासहितलक्षण्योजनप्रमाणं मेरुत्सेधमा- नमर्द्धाधिकैकरज्जुप्रमाणं यदाकाशक्षेत्रं तस्यर्थन्तं सौधर्मेणशानसज्जं स्वर्गयुगलं तिष्ठति । ततः परमर्द्धाधिकैकरज्जुपर्यन्तं सानत्कुमारमाहेन्द्रसंज्ञं स्वर्गयुगलं भवति, तस्माद्द्वरज्जुप्रमाणा- काशपर्यन्तं ब्रह्मत्रासोत्तरभिधानं स्वर्गयुगलमस्ति, ततोऽप्यद्वरज्जुपर्यन्तं लान्तवकापिष्ठना- मस्वर्गयुगलमस्ति. ततश्चाद्वरज्जुपर्यन्तं शुक्रमहाशुक्राभिधानं स्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम्. तदनन्त- रमर्द्धरज्जुपर्यन्तं शनारसहस्रारसज्जं स्वर्गयुगलं भवति, ततोऽप्यद्वरज्जुपर्यन्तमानन्प्राणत- नाम स्वर्गयुगलं, ततः परमर्द्धरज्जुपर्यन्तमाकाशं यावदारणाच्युताभिधानं स्वगद्वयं ज्ञात- व्यमिति । तत्र प्रथमयुगलद्वये स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा विज्ञेया, मध्ययुग- लचतुष्ये पुनः स्वकीयस्वकीयप्रथमस्वर्गाभिधानं एकेकं एवेन्द्रो भवति, उपरितनयुगल- द्वयेऽपि स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा भवन्तीति समुदायेन पोडशस्वर्गेषु द्वाद-

नुत्तर संज्ञक एक पटल है। इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मसे वैमानिक देव निवास करते हैं। यह वार्तिक अर्थात् सभ्रहवाक्य अथवा समुदायसे कथन है। आदिमें वारह, मध्यमे आठ और अन्तमें चार योजन प्रमाण गोल विष्कंभ ( व्यास ) की धारक, चालीस योजन प्रमाण ऊँची जो मेरुकी चूलिका है; उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगमूमिमें उत्पन्न जो मनुष्य हैं उनके बालके अग्रभाग जिनने अन्तर ( फासले ) पर ऋजु विमान हैं। उस ऋजुविमानको आदिमे करके चूलिका सहित एक लाख योजन प्रमाण मेरुकी ऊँचाईका प्रमाण है, और वहाँसे डेढ रज्जु प्रमाण जो आकाशक्षेत्र है वहा- तक सौधर्म तथा ईशान नामक दो स्वर्ग हैं। इनके अनंतर डेढ रज्जुपर्यन्त सनत्कुमार और माहेन्द्र नामक दो स्वर्ग हैं। वहाँसे अर्ध रज्जु प्रमाण आकाशतक ब्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर मंज्ञक स्वर्गोंका युगल है। वहा से भी आधे रज्जुतक लांतव और कापिष्ठ नामक दो स्वर्ग हैं। वहा से भी आधे रज्जु प्रमाण आकाशमे शुक्र तथा महाशुक्र नामक स्वर्गोंका युगल जानना चाहिये। उसके अनन्तर आधे रज्जुतक शतार और सहस्रार नामक स्वर्गोंका युगल है। तत्पञ्चात् आधे रज्जुपर्यन्त आकाशतक आरण और अन्युत नामक दो स्वर्ग जानने चा- हिये। उनमे पहलेके जो दो युगल हैं उनमे तो अपने अपने स्वर्गके नामके धारक चार इन्द्रं हैं अर्थात् पहले चार स्वर्गोंमें स्वर्गोंके नामवाले हो ( सौधर्म, ईशान आदि ) चार इन्द्रं हैं। और बीचके जो चार युगल हैं उनमे अपने अपने प्रथम स्वर्गके नामका धारक एक एक ही इद्र है अर्थात् ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गका एक इद्र है और ब्रह्म स्वर्गका इद्र कहलाता है। ऐसे बारहवें स्वर्गोंका आठ स्वर्गोंमें चार इद्र जानने। और इनके ऊपर जो दो युगल हैं उनमें भी अपने अपने स्वर्गके नामके धारक ( आनत, प्राणत आदि ) चार इन्द्र होते हैं।

शेन्द्रा ज्ञातव्यः । घोडशस्वर्गाद्युर्ध्वमेकरज्जुमध्ये नवग्रैवेशकनवानुदिशपञ्चानुत्तरविमान-वासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रैव द्वादशयोजनेषु गतेष्वष्टुयोजनवाहुल्या मनुष्यठोकवत्पञ्चाधिकचत्वारिंशष्टयोजनविस्तारा मोक्षशिला भवति । तस्योपरि घनोदधिधनवात्तनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिताः सिद्धास्तिष्ठन्ति ॥

इदानीं स्वर्गपटलसंख्या कथ्यते-सौधर्मैशानयोरेकत्रिगत्, सानकुमारमाहेन्द्रयोः सप्त, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोद्धत्वारि, लान्तवकापिष्ठयोर्द्वयम्, शुकमहाशुकयोः पटलमेकम्, शतारसह-स्तारयोरेकम्, आनतप्राणतयोद्धयम्, आरणाच्युतयोद्धयमिति । नवसु ग्रैवेयकेषु नवकं, नवानुदिशेषु पुनरेकं, पञ्चानुत्तरेषु चैकमिति समुदायेनोपर्युपरि त्रिषष्टिपटलानि ज्ञातव्यानि । तथा चोक्त “इगतोससत्तचत्तारिदोणिणएकेक्षकचतुकप्पे । तित्तियएकेकिदियणामा उहु आदि तेवही” ॥

अतः पर प्रथमपटलव्याख्यानं कियते । ऋजुविमानं यदुक्तं पूर्वं मेरुचूलिकाया उपरि तस्य मनुष्यक्षेत्रप्रमाणविस्तारस्येन्द्रकसज्जा । तस्य चतुर्दिंगमागेष्वसंख्येययोजनविस्तारा-

इस प्रकार समुदायसे सोलह स्वर्गोंमें वारह इन्द्र जानने चाहिये । सोलह स्वर्गोंसे ऊपर एक रज्जुमे नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंमें निवास करनेवाले देव हैं । उसके आगे इस एक रज्जुमें ही वारह योजन चलेजानेपर आठ योजन प्रमाण मोटाईकी धारक और मनुष्यलोक ( ढाईद्वीप )के समान पैंतालीस लाख ४५००००० योजन प्रमाण विस्तारकी धारक सोक्षशिला है । उस मोक्षशिलाके ऊपर घनोदधि, घनवात तथा तनुवात नामक तीन वात ( वायु ) हैं । इनमें जो तनुवात है, वहापर लोकके अंतभागमें केवल-ज्ञान आदि अनंत गुणोंसहित श्रीसिद्ध परमेष्ठी निवास करते हैं ॥

अब स्वर्गके पटलोंकी संख्याका वर्णन करते हैं । सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्गोंमें इकतीस ३१ पटल हैं, सानकुमार तथा माहेन्द्रमें सात ७ पटल हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तरमें चार पटल हैं, लान्तव तथा कापिष्ठमें दो पटल हैं, शुक और महाशुकमें एक पटल है, शतार और सहस्रारमें एक पटल है, आनत तथा प्राणतमें तीन पटल हैं और आरण तथा अच्युत इन दो स्वर्गोंमें भी तीन पटल हैं । नव ग्रैवेयकोंमें नी पटल हैं, नव अनुदिशोंमें एक पटल है, और पंचानुत्तरोंमें एक पटल है । ऐसे समुदायसे ऊपर ऊपर तिरेसठ ( ६३ ) पटल जानने चाहिये । सोही कहा है—“सौधर्म युगमें ३१, सानकुमार युगलमें ७, ब्रह्मयुगलमें ४, लान्तव युगमें २, शुक युगमें १, शतार युगमें १, आनत आदि चार स्वर्गोंमें ६, प्रत्येक तीनों ग्रैवेयकोंमें तीन तीन, नव अनुदिशोंमें एक, पंचानुत्तरोंमें एक, ऐसे समुदायसे ६३ इन्द्रक होते हैं ।

इसके आगे प्रथम पटलका व्याख्यान किया जाता है । जो पहले मेरुकी चूलिकाके ऊपर ऋजु विमान कहा गया है उस मनुष्यक्षेत्र ( ढाईद्वीप ) प्रमाण विस्तारके धारक ऋजु

राणि पंक्तिरूपेण सर्वद्वीपसमुद्रेपूपरि प्रतिदिशं यानि त्रिष्ठिविमानानि तिष्ठन्ति तेषां श्रेणीचद्रसंज्ञा । यानि च पंक्तिरहितपुष्पप्रकरचट्टिकचतुष्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासं-स्ख्येययोजनविस्ताराणां प्रकीर्णकसंज्ञेति समुदायेन प्रथमपटललक्षणं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वापरदक्षिणश्रेणिग्रन्थविमानानि । तन्मध्ये चिदिग्रन्थविमानानि च सौधर्मसंवंधीनि भवन्ति, शेषविदिग्रन्थविमानानि च पुनरीशानसवन्धीनि । अस्मात्पटलादुपरि चिनदृष्टमा नेन यत्त्वेयान्यसंख्येयानि योजनानि गत्वा तेनैव क्रमेण द्वितीयादिपटलानि भवन्ति । अथ च विशेषः—श्रेणीचतुष्टये पटले पटले प्रतिदिशमेकविमानं हीवते यावत्पञ्चानुन्नर-पटले चतुर्दिश्वेकैकविमानं तिष्ठति । एते सौधर्मादिविमानाश्चतुरशीतिलक्षसप्तनवतिमहस्त-चयोर्बिंशतिप्रभिता अकृत्रिमसुवर्णमयजिनश्रहमण्डिता ज्ञातव्या इति ।

अथ देवानामायुःप्रमाण कथयते । भवनवासिपु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण पुनरसुरकुमारेषु सागरोपमम्, नागकुमारेषु पल्यत्रय, सुपर्णे सार्धद्वयं, द्वीपकुमारे द्वय, शेषकुलपट्टके सार्धपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण पल्यमधिकमिति । व्योतिष्ठकदेवे जघन्येन पल्याग्रमविभागः, उत्कर्षेण चन्द्रे लक्षवर्षाधिकं पल्य,

विमानकी इन्द्रक यह सज्जा है । उसकी चारों दिशाओंके भागमें जो प्रत्येक दिशामें सब द्वीप समुद्रोंके ऊपर असंख्यात योजन विस्तारके धारक पंक्तिरूपसे तिरेसठ ६३ विमान हैं उनकी श्रेणीचद्र सज्जा है । और जो विमान पंक्तिसे विना पुष्पोंके प्रकरके समान चारों विदिशाओंमें हैं उन संख्यात, असंख्यात योजन प्रमाण विस्तारबाले विमानोंकी प्रकीर्णक संज्ञा है । ऐसे समुदायसे प्रथम पटलका लक्षण जानना चाहिये । उन विमानोंमें जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीन श्रेणियोंके विमान हैं वे, और इन तीनों दिशाओंके दीर्घमें जो दो विदिशाओंमें स्थित विमान हैं ये सब प्रथम सौधर्म स्वर्ग संबंधी हैं । तथा शेष दो विदिशाओंके विमान और उत्तर श्रेणीके विमान जो हैं वे ईशान स्वर्ग संबंधी हैं । इस पटलके ऊपर भगवान् के द्वारा देखे हुए प्रमाणके अनुसार संख्यात तथा असंख्यात योजन जाकर इसी पूर्वोक्त क्रमसे द्वितीय, तृतीय, आदि पटल होते हैं । और विशेष यह है कि पटल पटलमें प्रत्येक दिशाकी प्रत्येक श्रेणीमें एक एक विमान घटता है सो यहाँतक घटता है कि पंचानुत्तर पटलमें चारों दिशाओंमें एक एक ही विमान रह जाता है । और ये सब सौधर्म स्वर्ग आदि मवधी विमान चौरासी लाख सत्तानवे हजार तेर्हस ८४९७०२३ संख्या प्रमाण हैं । और अकृत्रिम सुवर्णमय जिनचैत्यालयोंसे महित हैं ऐसे जानने चाहिये ॥

अब देवोंके आयुका प्रमाण कहते हैं । भवनवासियोंमें न्यूनसे न्यून दश हजार वर्षका जघन्य आयु होता है और उत्कर्षसे असुरकुमारोंमें एक सागर, नागकुमारोंमें तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंमें ढाई पल्य, द्वीपकुमारोंमें दो पल्य और वाकी जो ६ प्रकारके भवनवासी हैं उनमें छेद पल्य प्रमाण आयु है । व्यन्तरोंमें दश हजार वर्षका जघन्य और कुछ अधिक एक पल्यका उत्कृष्ट आयु है । व्योतिष्ठक देवोंमें जघन्य आयु पल्यके आठवें भाग प्रमाण

सूर्ये सहस्राधिकं पल्यं शेषज्योतिष्ठकदेवानामागमानुसारेणेति । अथ सौधर्मैशानयोर्जघ-  
न्यैन साधिकपल्यं, उत्कर्षेण साधिकसागरोपमद्युयं, सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसाग-  
रोपमसप्तकं, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोः साधिकसागरोपमदशकं, लान्तवकापिष्ठयोः साधिकानि  
चतुर्दशसागरोपमानि, शुक्रमहाशुक्रयोः. षोडश साधिकानि, शतारसहस्रारयोरष्टादश  
साधिकानि, आनतप्राणतयोर्विंशतिरेव, आरणाच्युतयोद्वार्द्विंशतिरिति । अतः परमच्यु-  
तादूर्ध्वं कल्पातीतनवग्रैवेयकेषु द्वाविंशतिसागरोपमप्रमाणादूर्ध्वमेकैकसागरोपमे वधमाने  
सत्येकत्रिंशत्सागरोपमान्यवसाननवग्रैवेयके भवन्ति । नवानुदिशपटले द्वात्रिंशत्, पञ्चा-  
नुन्तरपटले त्रयखिंशत् उत्कृष्टायुप्रमाणं ज्ञातव्यम् । तदायुः सौधर्मादिषु स्वर्गेषु यदुकृष्टं  
तत्परस्मिन् परस्मिन् स्वर्गे सर्वार्थसिद्धिं विहाय जघन्यं चेति । शेषं विशेषव्याख्यानं  
त्रिलोकसारादौ वोद्घव्यम् ॥

किञ्च आदिमध्यान्तमुक्ते शुद्धबुद्धैकस्वभावे परमात्मनि सकलविमलकेवलज्ञानलोचने-  
नादर्शं विम्बानोव शुद्धात्मादिपदार्था लोक्यन्ते हृश्यते ज्ञायन्ते परिच्छिद्धन्ते यतस्तेन

है, उत्कृष्टतासे चन्द्रमामें एक पल्य एक लाख वर्षे और सूर्यमें एक पल्य एक हजार वर्षका  
आयु है । शेष ज्योतिष्ठक देवोंका उत्कृष्ट आयु आगमके अनुसार जानना चाहिये । अब  
कल्पवासियोंमें जो सौधर्म तथा ईशान स्वर्गोंके देव हैं उनके जघन्यतासे कुछ अधिक  
एक पल्य और उत्कृष्टतासे कुछ अधिक दो सागर प्रमाण आयु है । सानत्कुमार तथा  
माहेन्द्र देवोंमें कुछ अधिक सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । ब्रह्म और ब्रह्मोत्तरमें कुछ  
अधिक दश सागर, लांतव कापिष्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ  
अधिक सोलह सागर, शतार और सहस्रारमें किंचित् अधिक अठारह सागर, आनत तथा  
प्राणतमें पूरे बीस ही सागर, और आरण अच्युतमें वाईस २२ सागर प्रमाण आयु है ।  
अब इसके अन्तर अच्युत स्वर्गके ऊपर कल्पातीत जो नव ग्रैवेयक हैं उनमें प्रत्येक ग्रैवे-  
यकमें वाईस सागर प्रमाण आयुमें क्रमानुसार एक एक सागर बढाये जानेपर अतके  
नवें ग्रैवेयकमें इकतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु होता है । ९ अनुदिशोंके पटलमें  
वत्तीस सागर और पचानुत्तर पटलमें तेतीत सागर जितना उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जानना  
चाहिये । और जो आयु सौधर्म आदि स्वर्गोंमें उत्कृष्ट है वह सर्वार्थसिद्धिके विना अन्य  
सब स्वर्गोंमें आगे आगे जघन्य हैं अर्थात् जो सौधर्म ईशान स्वर्गमें उत्कृष्ट कुछ अधिक  
दो सागर प्रमाण आयु है वह सनत्कुमार माहेन्द्रमें जघन्य है । इस क्रमसे सर्वार्थसिद्धिके  
पहले पहले जघन्य आयु जानना । इसके अतिरिक्त जो अधिक व्याख्यान है सो त्रिलोकसार  
आदिमे से समझना चाहिये ॥

पा० ५ और आदि मध्य तथा अन्तसे रहित, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावका धारक जो परमात्मा है  
ऐसे समुदाय (पूर्ण) रूपसे विमल (स्वच्छ) जो केवलज्ञान नामक नेत्र है उसके द्वारा  
इसके अन्तिम्बोंका भान होता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ आळोंके  
ऊपर ऋजु विमान

कारणेन स एव निश्चयलोकस्तस्मिन्निश्चयलोकाख्ये स्वकीयशुद्धपरमात्मनि अवलोकन वा स निश्चयलोक । “सण्णाओ य तिलेस्सा इन्द्रियविसयाय अद्वृद्धाणि । णाणं च दुष्पत्तं मोहो पाव-  
ज्ञो होदि । १ ॥” इति गाथो दितिविभावपरिणाममादिं कृत्वा समस्तशुभागुभसंकल्पविकल्प-  
त्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पत्तपरमाह । दैक्षुद्वामृतरसास्वादात्मवनेन च या भावना मैव  
निश्चयलोकानुप्रेक्षा । शेषा पुनर्वैवहारेण्येवं संक्षेपेण लोकानुप्रेक्षाव्याख्यान समाप्तम् ॥

अथ वोधिद्वुर्लभानुप्रेक्षां कथयति । तथाहि एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसङ्गिपर्याम-  
भनुष्यदेशकुचन्तपेन्द्रियपदुत्त्वनिश्चयागुष्कवरद्विद्वर्द्धम् प्रवगश्चारणश्रद्धानसंयमविष-  
यसुखव्यावर्त्तनक्रोधादिकपायनिवर्त्तनेषु पर पर दुर्लभेषु कथचित्काकतालीयकन्यायेन लब्धे-  
ष्वपि तद्विधरूपत्रोवेः फलभूतत्वशुद्धात्ममविन्यासमकर्निर्मलघमेध्यानशुक्लध्यानरूपः परमस-  
माधिद्वुर्लभः । कम्मादिति चेत्तप्रतिवन्यकमिथ्यान्वविषयकपायनिदानवन्धादिविभावपरिणा-  
मानां प्रबलत्वादिति । तस्मात्स एव निरन्तर भावनोय । तद्वावनारहितानां पुनरपि संसारे  
पतनमिति । तथा चोक्तम्—“इत्यनिद्वुर्लभरूपा वोधिं लक्ष्या यदि प्रमादी स्यात् । संसृति-  
भीमारणे भ्रमति वराको नर सुचिरम् ॥” पुनर्थोक्तं मनुष्यभवद्वुर्लभत्वम्—“अशुभपरि-

जाते हैं अर्थात् देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं, इस कारण वह निज  
शुद्ध आत्मा ही निश्चयलोक है अथवा उस निश्चयलोक नामके धारक निज शुद्ध पर-  
मात्मामें जो अवलोकन ( देखना ) है वह निश्चयलोक है । “संज्ञा, तीन लेत्या, इद्रियोंके  
वशीभूतपना, आर्त, रोद ध्यान तथा दुष्प्रयुक्त ज्ञान और मोह ये सब पापको देनेवाले  
होते हैं ।” इस गाथामें कहे हुए विभाव परिणामको आदि लेकर, सपूर्ण जो शुभ तथा अशुभ  
रूप सकल्प विकल्प हैं उनके त्यागसे और निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो परम  
आहादरूप एक सुखरूपी अमृतके आस्वादका अनुभव है उससे जो भावना होती है वही  
निश्चयसे लोकानुप्रेक्षा है । और इसके अतिरिक्त शेष जो पूर्वोक्त भावना है वह व्यवहारसे  
है । इस प्रकार संक्षेपसे लोकानुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब वोधिद्वुर्लभ अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं, सो इस प्रकार है—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय,  
पञ्चेन्द्रिय, सज्जी पर्याप्ति, मनुष्य, देश, कुच, रूप, इद्रियोंमें पदुता, नीरोग, आयु, उत्तम  
बुद्धि, उत्तम धर्मका सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, श्रद्धान करना, सयम, विषयसु-  
खोंसे रहित होना, क्रोध आदि कपायोंका दूर होना ये जो पूर्वोक्त सब हैं, इनमें पूर्व पूर्व  
की अपेक्षा पर पर अर्थात् एकेन्द्रियताकी अपेक्षा विकलेन्द्रियता आदि दुर्लभ हैं । यदि  
कथंचित् काकतालीय न्यायसे इन सबकी प्राप्ति होजाय तो भी इन सबकी प्राप्तिरूप जो  
ज्ञान है उसमें फलभूत जो निजशुद्ध आत्माके ज्ञानस्वरूप निर्मल धर्मध्यान तथा शुक्ल  
ध्यानरूप परमसमाधि है वह दुर्लभ है । परमसमाधि दुर्लभ क्यों है ऐसी शका करो तो  
समाधान यह है कि—परम समाधिको रोकनेवाले मिथ्यात्व, विषय, कपाय, निदानवर्त्त आदि

णामवहुलता लोकस्य विपुलता महामहती । योनिविपुलता च कुरुते सुदुर्लभां मानुषीं योनिम् । १ ” वोधिसमाधिलक्षणं कथयते—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तप्रापण वोधि स्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एव संक्षेपेण दुर्लभानुप्रेक्षा समाप्ता ।

अथ धर्मानुप्रेक्षां कथयति । तद्यथा—संसारे पतनं जीवमुद्घृत्य नागेन्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रादि-चन्द्रे अव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणलक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य च भेदाः कथयते—अहिंसालक्षणः सागारानगारलक्षणो वा उत्तममादिलक्षणो वा निश्चयव्यव-काररत्नत्रयात्मको वा शुद्धात्मसंचित्यात्मकमोहक्षोभरहितात्मपरिणामो वा धर्मः । अस्य धर्मस्थालाभेऽतीतानन्तकाले “निर्विद्वधात्रसत्तय तरुदस वियर्लेदियोसु छञ्चेव । सुरणि-रथतिरियचउरो चउदस मणुयेसु सदसहस्रा । १ ।” इति गाथाकथितचतुरझीतियोनि-

---

जो विभाव परिणाम हैं उनकी जीवके प्रबलता है इसलिये परम समाधिका होना दुर्लभ है । इस कारण उस परम समाधिकी दुर्लभताकी ही निरंतर भावना करनी चाहिये । क्योंकि, जो जीव उसकी भावना नहीं करते उनका फिर भी संसारमें पतन होता है । सो ही कहा है—कि “जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लभरूप वोधिको प्राप्त होकर, प्रमादी होता है वह वराक ( दीन-जीव ) संसाररूपी भयंकर वनमें चिरकाल तक अमण करता है । १ ।” और पुनः मनुष्य-भवकी दुर्लभताके विषयमें कहा है—“अशुभ परिणामोंकी अधिकता, ससारकी विशालता, और बड़ी बड़ी योनियोंकी अधिकता ये सब मनुष्ययोनिको दुर्लभ करती हैं; अर्थात् जीवोंके अशुभ परिणाम बहुत हैं, तीनों लोकोंमें उनके लिये स्थान बहुत हैं और उत्पन्न होनेको योनियां भी अधिक हैं, अतः मनुष्यभवका प्राप्त होना दुर्लभ है । अब वोधि और समाधिका लक्षण कहते हैं । पहले नहीं मिले हुए जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं इनका जो मिलना है वह तो वोधि कहलाती है और उन्हीं सम्यग्दर्शनादिकोंको निर्विघ्नता पूर्वक जो अन्य भवमें साथ ले जाना सो समाधि है । ऐसे संक्षेपक्षे दुर्लभ अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त किया ॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—संसारमें गिरते हुए जीवको चठाकर जो धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र आदिकोंके पूज्य पदमें अथवा वाधारहित अनंत सुख आदि अनंत गुणोरूप लक्षणका धारक जो मोक्षपद है उसमें धरता है वह धर्म है । अब उस धर्मके भेद कहे जाते हैं—अहिंसारूप लक्षणका धारक धर्म है, गृहस्थ और मुनि इन दो भेदोंवाला धर्म है, अथवा उत्तम क्षमा आदि लक्षणवाला दश प्रकारका धर्म है अथवा निश्चय और व्यवहाररूप रत्नत्रयस्वरूप धर्म है, अथवा शुद्ध आत्माके आनन्दरूप जो मोह तथा क्षोभरहित आत्माका परिणाम है उसरूप धर्म है । इस धर्मकी प्राप्ति न होनेसे अतीत ( गये हुए ) अनंत कालमें “नित्यनिगोद चनस्पतिमें ७ लाख, इतर निगोद चनस्पतिमें ७ लाख, पृथ्वीकायमें ७ लाख, जलकायमें ७ लाख, तेजकायमें ७ लाख, वायुका-

लक्षेषु मध्ये परमस्वास्थ्यभावनोत्पन्ननिर्व्याकुलपारमार्थिकसुखविलक्षणानि पञ्चेन्द्रियसुखाभिलापजनितव्याकुलत्वोत्पादकानि दुःखानि सहमानः सन भ्रमितोऽयं जीवो यदा पुनरेवं गुणविशिष्टस्य धर्मस्य लाभो भवति तदा राजाधिराजार्द्धमाणडलिकमहामाणडलिकवलदेववासुदेवकामदेवसकलचक्रवर्तिंदेवेन्द्रगणधरदेवतीर्थकरपरमदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्यन्तं विविधाभ्युदयसुखं प्राप्य पञ्चादभेदरक्षव्यभावनावलेनाक्षयानन्तसुखादिगुणास्पदमहत्पदं सिद्धपदं च लभते तेन कारणेन धर्म एव परमरसरसायनं निधिनिधानं कल्पवृक्षः कामधेनुश्रिन्तामणिरिति । किं वहुना, ये जिनेश्वरप्रणीतं धर्मं प्राप्य दृढमतयो जातास्त एव धन्याः । तथा चोक्तम्—“धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मं खलु जिनवरैः समुपदिष्टे । ये प्रतिपत्रा धर्मं स्वभावनोपस्थितमनीयाः । १ ।” इति संक्षेपेण धर्मानुप्रेक्षा समाप्ता ॥

इत्युक्तलक्षणा अनित्याशरणमंसरेकत्वान्यत्वाशुचित्वास्त्वसंवरनिर्जरालोकवोधिदुर्लभधर्मतत्त्वानुचिन्तनसज्जा निरास्त्वशुद्धात्मतत्त्वपरिणतिस्तपस्य स्वरस्य कारणभूता द्वादशानुश्रेष्ठाः समाप्ताः ॥

वर्षे ७ लाख, प्रत्येक वनस्पतिमें १० लाख, वे इन्द्री, ते इन्द्री और चौ इन्द्री इनमें दो दो लाख देव, नारकी और तिर्यच इन तीनोंमें चार चार लाख तथा मनुष्योंमें चौदह लाख योनि हैं । १ । इस गाथामें कही हुई चौरामी लाख योनियोंमें परम स्वास्थ्यकी भावनासे उत्पन्न, व्याकुलतारहित ऐसे पारमार्थिक सुखसे विलक्षण ( भिन्न ) और पाँचों इन्द्रियोंके सुखोंकी अभिलापा ( वांछा )से उत्पन्न, व्याकुलताको पैदा करनेवाले ऐसे जो दुःख हैं उनको सहते हुए इस जीवने परिभ्रमण किया । जब इस जीवको पूर्वोक्त प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है तब राजाधिराज, महाराज, अर्धमंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वलदेव, नारायण, कामदेव, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र गणधर देव, तीर्थकर परम देवके पदों तथा तीर्थकरोंके गर्भ, जन्म तथा तप कल्याणकों पर्यन्तके जो अनेक प्रकारके अभ्युदय सुख हैं उन सुखोंको प्राप्त होकर, तदनन्तर अभेद रक्षव्यकी भावनाके बलसे अक्षय और अनंत गुणोंका स्थान जो अरहंत पद है उसको और सिद्ध पदको प्राप्त होता है । इस कारण धर्म ही परम रसका रसायन है, धर्म ही निधियोंका निधान ( भंडार ) है, धर्म ही कल्पवृक्ष है, धर्म ही कामधेनु गाय है और धर्म ही चिंतामणि रक्ष है । विशेष क्या कहें, जो जिनेश्वरके कहे हुए धर्मको प्राप्त होकर, दृढ बुद्धिके धारक ( सम्यग्दृष्टि ) हुए हैं वे ही धन्य हैं । सोही कहा है—“जिन्होंने जिनवरसे उपदिष्ट धर्मको जाना है और आत्मज्ञानमें तत्पर बुद्धिके धारक जिन्होंने उस धर्मको ग्रहण किया है वे सब धन्य हैं । १ ।” इस प्रकार संक्षेपसे धर्मानुप्रेक्षा समाप्त हुई ।

इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणकी धारक अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, लोक, वोधिदुर्लभ और धर्मतत्त्व, इनका अनुचित्तन

अथ परीषहजयः कथयते— क्षुत्पिणसाशीरोष्णदंडमङ्गकनाग्न्यारतिखीचर्चानिषद्याश-  
ग्न्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुररुक्ताप्रज्ञाज्ञानादर्शनानीति द्वार्चिंशति-  
परीषद्वा विज्ञेयाः । तेषां क्षुधादिवेदनाना तीव्रोदयेऽपि सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभ-  
निन्दाप्रशंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवतरशुभाशुभकर्मसवरणचिरन्तनशुभाशुभ-  
कर्मनिर्जरणसमर्थेनायं निजपरमात्मभावनासजातनिविकारनित्यानन्ददक्षणसुखामृतमर्वि-  
त्तेरचलन स परीषहजय इति ॥

अथ चारित्रं कथयति । शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरक्तव्यपरिणते स्वशुद्धात्मस्वरूपे चरण-  
मवस्थान चारित्रम् । तत्त्वं तारतम्यभेदेन पञ्चविधम् । तथाहि— सर्वे जीवाः केवलज्ञानमया  
इति भावनारूपेण समतालक्षणं समायिकम् । अथवा परमम्बास्थयवलेन युगपत्समस्त-  
शुभाशुभसङ्कल्पविकल्पत्यागरूपसमाधितक्षणं वा, निर्विकारस्वसविन्तिवलेन रागद्वेषपरिहा-  
ररूप वा, स्वशुद्धात्मानुभूतिवलेनार्त्तरीद्रपरित्यागरूप वा समस्तसुखदुखादिमध्यस्थरूपं  
चेति । अथ छेदोपस्थापन कथयति— यदा युगपत्समस्तविकल्पत्यागरूपे परमसामायिके  
स्थातुमग्रक्तोऽयं जीवस्तदा समस्तहिंसानृतस्तेयात्रहापरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतमित्यनेन पञ्चप्र-

( विचार )रूप है नाम जिनका ऐसी और आस्थावरहित-शुद्ध आत्मतत्त्वकी परिणतिरूप  
जो संबंध है उसकी कारणरूप ऐसी वारह अनुप्रेक्षा ( भावना ) समाप्त हुई ॥

अब परीषहोंका जय (जीतना) जो है उसका कथन करते हैं—क्षुधा १ प्यास २ शीत ३  
उष्ण ( गर्मि ) ४ दंडा मशक ५ नग्नता ६ अरति ७ खी ८ चर्चा ( गमन ) ९ निषद्या  
( वस्ती ) १० शश्या ११ आक्रोश ( कदु वचन ) १२ वध ( मारण ) १३ चाचना  
१४ अलाभ १५ रोग १६ तृष्णस्पर्श १७ मल १८ सत्कारपुरस्कार १९ प्रज्ञा २०  
अज्ञान २१ और अदर्शन २२ ये वाईस परीषह जानने चाहिये । इन क्षुधा उष्णा  
आदि वेदनाओंके तीव्र उदय होनेपर भी सुख दुःख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निन्दा  
प्रशंसा आदिमें समानतारूप जो नवीन शुभ तथा अशुभ कर्मोंको रोकनेमें और पुराने  
शुभ अशुभ कर्मोंके निर्जरण करनेमें समर्थ ऐसा परम सामायिक है उस करके निज  
परमात्माकी भावनासे उत्पन्न विकाररहित नित्यानन्दरूप लक्षणका धारक जो सुखामृत है  
उसके ज्ञानसे जो नहीं चलना सो परीषहजय है ॥

अब चारित्रका निरूपण करते हैं । शुद्ध उपयोग स्वरूप जो निश्चय रक्तव्य उसमें परि-  
णत जो आत्मरूप उसमें जो चरण कहिये स्थित होना सो चारित्र है । वह तारतम्य भेदसे  
पांच प्रकारका है । सोही दिखाते हैं—सब जीव केवलज्ञानमय हैं ऐसी भावनारूपसे जो  
समतालक्षण परिणामका करना सो सामायिक है । अथवा परम स्वास्थ्यके बलसे एक ही  
समयमें संपूर्ण शुभ और अशुभ संकल्प विकल्पोंका त्यागरूप जो समाधि ( ध्यान ) है वह  
है लक्षण जिसका सो सामायिक है । अथवा विकाररहित आत्मज्ञानके बलसे जो राग

कारबिकल्पभेदेन ब्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावद्येभ्यो निवर्त्य निजशुद्धात्मन्यात्मान-  
मुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदे ब्रतखण्डे सति निविकारसंवित्तरूपनिश्च-  
यप्रायश्चित्तेन तत्साधकवृहिरङ्गव्यवहारप्रायश्चित्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्थापन-  
मिति । अथ परिहारविशुद्धि कथयति—“तीमं वासा जस्मे वासपुरुत्तं च तिथ्य-  
रमूले । पञ्चक्खाणं पठिदो संज्ञूण दुगाउ अ विहारो । १ ।” इति गाथाकथित-  
क्रमेण मिश्रशात्वरागादिविकल्पमलाना प्रत्याख्यानेन परिहारेण विशेषेण स्वात्मन शट्टि-  
नैर्मल्य परिहारविशुद्धिश्चारित्रमिति । अथ सूक्ष्मसाम्परायचारित्र कथयति । सूक्ष्मातीन्द्रि-  
यनिजशुद्धात्मसवित्तिवलेन सूक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायस्य कपायस्य यत्र निरवशेषोपग-  
मन क्षपण वा तत्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति । अथ यथाख्यातचारित्रं कथयति—यथा  
सहजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कर्षपत्वेन निष्कपायमात्मन्वरूप तथैवाख्यात कथितं यथाख्या-  
तचारित्रमिति ॥

और द्वेषका परिहार ( त्याग ) है उसरूप सामायिक है । अथवा शुद्ध आत्माके अनुभवके  
बलसे आर्त्त तथा रोद्र ध्यानका त्याग करने स्वरूप सामायिक है । अथवा समस्त सुख  
तथा दुःखोंमें जो मध्यस्थ रहना तद्रूप सामायिक है । अब छेदोपस्थापन नामक चारित्रके  
द्वितीय भेदका वर्णन करते हैं—जब एकही समयमें संपूर्ण विकल्पोंके त्यागरूप परम सामा-  
यिकमें स्थित होनेको यह जीव असर्वथ होता है तब “समस्त हिंसा, अनृत ( असत्य ),  
स्त्रेय ( चोरी ), अब्रहा तथा परिग्रह इन पांचोंसे जो विरति ( रहितता ) सो ब्रत है ।” इस  
कथनके अनुसार विकल्पभेदसे पांच प्रकारके ब्रतोंका छेदन होनेपर जो राग आदि विक-  
ल्परूप सावद्योंसे जीवको छुड़ाकर निज शुद्ध आत्मामें उपस्थापन करै सो छेदोपस्थापन है ।  
अथवा छेद अर्थात् ब्रतका खंडन ( भंग वा नाश ) होनेपर निविकार निज आत्माके ज्ञानरूप  
निश्चय प्रायश्चित्तके बलसे अथवा व्यवहार प्रायश्चित्त जो निज आत्मामें स्थितिका होना  
सो छेदोपस्थापन है । अब परिहारविशुद्धिका कथन करते हैं “जो जन्मसे ३० वर्ष  
तककी अवस्थाको सुखमें व्यतीत करके वर्षपूर्यक्त्व ( ८ वर्ष ) पर्यन्त तीर्थकरके चरणोंमें  
प्रत्याख्यानको पढ़कर तीनों संध्याकालोंको छोड़कर प्रतिदिन दो कोश गमन करता है,  
उस मुनिके परिहारविशुद्धि मर्यम होता है ॥ १ ॥”

इस गाथामें कहे हुए क्रमानुसार मिथ्यात्व, राग इत्यादिक जो विकल्प-मल हैं उनका  
प्रत्याख्यान ( परिहार अथवा त्याग ) करके अधिकताके साथ जो आत्माकी शुद्धि अर्थात्  
निर्मलता है सो परिहारविशुद्धिनामक तृतीय चारित्र है । अब सूक्ष्म सांपराय चारित्रका  
कथन करते हैं—सूक्ष्म, इन्द्रियोंके अगोचर ऐसा जो निज शुद्ध आत्मा उसके बलसे  
सूक्ष्म लोभ नामक सांपरायक्रषायका जहाँपर पूर्णरूपसे उपशमन अथवा क्षपण ( नाश )  
होता है वह सूक्ष्मसांपराय चारित्र है । अब यथाख्यात चारित्रका वर्णन करते हैं—जैसा

इदानीं सामायिकाचारित्रपञ्चकस्य गुणस्थानस्वामित्वं कथयति । प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वानि-वृत्तिसंज्ञगुणस्थानचतुष्टये सामायिकचारित्रं भवति छेदोपस्थापनञ्च, परिहारविशुद्धिस्तु प्रमत्ताप्रमत्तागुणस्थानद्वये, सूक्ष्मसांपरायचारित्रं पुनरेकस्मिन्नेव सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने, यथाख्यातचारित्रमुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणस्थानचतुष्टये भवतीति । अथ संयमप्रतिपक्षं कथयति-संयमासंयमसज्जं दार्शनिकादैकादशभेदभिन्नं देशचारित्रभेदस्मिन्नेव पञ्चमगुणस्थाने ज्ञातव्यम् । असंयमस्तु मिथ्यादृष्टिसासादनमि-श्राविरतसम्यग्दृष्टिसज्जगुणस्थानचतुष्टये भवति, इति चारित्रव्याख्यानं समाप्तम् ॥

एव ब्रतसमितिगुप्तिर्मद्वादशानुप्रेक्षापरीष्ठहजयचारिणात्रा भावसंबरकारणभूतानां यद्-व्याख्यानं कृत, तत्र निश्चयरत्नत्रयसाधकत्रयवहाररत्नत्रयरूपस्य शुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानि पापास्त्रवसवरणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहाररत्नत्रयसा-ध्यम्य शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपद्वयसंबरकारणानि भवन्तीति ज्ञातव्यम् । अत्राह सोमनामराजश्रेष्ठो । भगवन्नेतेषु त्रतादिसंबरकारणेषु मध्ये

---

निष्क्रप सहजशुद्ध स्वभावसे कषायरहित आत्माका स्वरूप है वैसा ही आख्यात अर्थात् कहा गया हो सो यथाख्यात चारित्र है ॥

अब सामायिक आदि जो पांच चारित्र हैं उनके गुणस्थानोंके स्वामित्वका अर्थात् किस १ गुणस्थानमे कौन कौन सा चारित्र होता है इस विषयक कथन करते हैं । प्रमत्त ६ अप्र-मत्त ७ अपूर्वकरण ८ और अनिवृत्तिकरण ९ नामक जो चार गुणस्थान हैं इनमें सामायिक और छेदोपस्थापन ये दो चारित्र होते हैं । और परिहारविशुद्धि नामक चारित्र तो प्रमत्त तथा अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें ही होता है, और सूक्ष्मसांपराय चारित्र भी एक ही सूक्ष्मसापराय नामक दशम गुणस्थानमें होता है, तथा यथाख्यात चारित्र जो है वह उपर्यात कषाय ११, क्षीणकषाय १२, सयोगिजिन १३, और अयोजिन १४ नामोंके धारक जो चार गुणस्थान हैं उनमें होता है । अब सयमके प्रतिपक्षी जो संयमासंयम और असयम हैं वे किस किस गुणस्थानमें होते हैं यह वर्णन करते हैं । दार्शनिक आदि एकादश प्रतिमारूप एकादश भेदोंसे भेदोंप्राप्त हुआ जो सयमासंयम नामक देशचारित्र है वह एक पञ्चम गुणस्थानमें ही जानना चाहिये । और असयम जो है वह तो मिथ्यादृष्टि १, सासादन २, मिश्र ३ और अविरत सम्यग्दृष्टि ४ नामक चार गुणस्थानोंमें होता है । ऐसे चारित्रका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

इस पूर्वोक्त प्रकारसे भावसवरके कारणभूत ब्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, द्वादशानुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र इन सबका जो व्याख्यान किया, उस व्याख्यानमें निश्चयरत्न-त्रयको साधनेवाला जो व्यवहार रत्नत्रयरूप शुभोपयोग है उसका निरूपण करनेवाले जो वाक्य हैं वे तो पापास्त्रवके सवरमें कारण जानने चाहिये । और जो व्यवहार रत्नत्रयसे सिद्ध होने योग्य शुद्धोपयोग लक्षण निश्चयरत्नत्रयके प्रतिपादक वाक्य हैं वे पुण्य तथा

स वरानुप्रेक्षैव सारभूता, सा चैव सवरं करिष्यति किं विशेषपञ्चेनेति । भगवानाह—  
त्रिगुमिलक्षणनिर्विकल्पसमाधिस्थानां यतीनां तथैव पूर्यते तत्रासमर्थानां पुनर्बहुप्रकारेण  
सवरप्रतिपक्षभूतो मोहो विजूम्भते तेन कारणेन ब्रतादिविस्तरं कथयन्त्याचार्यः ॥३५॥  
“असिदिसदं किरियाणं अक्रियियाण तु होइ चुलसीदी । सत्तट्टी अण्णाणी वेणइया हुति  
बत्तीसं । १ । जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुति । अपरिणदुच्छिणेसु अ  
वंधो ठिदिकारण णतिथ । २ ।” एवं संचरतत्त्वव्याख्याने सूत्रद्रव्येन तृतीयं स्थलं गतम् ॥

अथ सम्यग्दृष्टिजीवस्य संवरपूर्वकं निर्जरातत्त्वं कथयति,—

जह कालेण तवेण य भुत्तरस कम्मपुरगलं जेण ।

भावेण मढिणेया तस्मद्वप्त चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ ३६ ॥

व्याख्या । ‘णेया’ इत्यादिव्याख्यानं क्रियते—“णेया” ज्ञातव्या । का ? “णिज्जरा” भाव-

पाप इन दोनों आस्त्रोंके सवरके कारण होते हैं यह समझना चाहिये । यहाँ सोम नामक  
राजसेठ कहता है कि हे भगवान् । ये जो पूर्वोक्त ब्रत, समिति आदिक सवरके कारण हैं  
इनमें सवरानुप्रेक्षा जो है सो ही सारभूत है और वही इस जीवके आस्त्रवका सवर कर  
देगी फिर आपने जो विशेष प्रपञ्च ( अधिक विस्तारसे कथन ) किया है, इससे क्या प्रयो-  
जन है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् नेमिचंद्र स्वामी देते हैं कि-मन वचन तथा काय इन  
तीनोंकी गुप्तिस्वरूप जो निर्विकल्प समाधि ( ध्यान ) है उसमें स्थित जो मुनि हैं उनके  
तो उस गुप्तिसे ही पूर्ति अर्थात् सवर हो जाता है और उसमें असमर्थ जो जीव हैं उनके  
नाना प्रकारसे संवरका प्रतिपक्षभूत मोह उत्पन्न होता है इस कारण आचार्य ब्रत  
आदिका कथन करते हैं ॥ ३५ ॥ क्रियावादियोंके एकसौ अस्ती १८०, अक्रियावादियोंके  
चौरासी ८४, अज्ञानियोंके सठसठ ६७ और वैनियिकोंके बत्तीस ३२, ऐसे कुल मिलाकर  
तीनसौ तिरेसठ भेद पाखदियोंके हैं । १ । योगसे प्रकृति और प्रदेश वध होते हैं, कषा-  
योंसे स्थिति तथा अनुभाग वंध होता है और जिसके कषायस्थान उदयरूप नहीं हैं तथा  
क्षीण होगये हैं ऐसे उपशातकषाय व क्षीणकषाय और सयोगकेवली हैं उनमें तत्काल वध  
स्थितिका कारण नहीं है । २ । इस प्रकार संवर तत्त्वके व्याख्यानमें दो सूत्रोद्घारा तृतीय  
स्थल समाप्त हुआ ।

अब सम्यग्दृष्टी जीव संवर पूर्वक निर्जरा होती है इस कारण निर्जरा तत्त्वका कथन  
करते हैं ।

**गाथाभावार्थः—**—जिस आत्माके परिणामरूप भावसे कर्मरूपी पुद्गल फल देकर नष्ट  
होते हैं वह तो भावनिर्जरा है और सविपाक निर्जराकी अपेक्षासे यथाकाल अर्थात् काल-  
उच्चिरूप कालसे तथा अविपाक निर्जराकी अपेक्षासे तपसे जो कर्मरूप पुद्गलोंका नष्ट  
होना है सो द्रव्यनिर्जरा है ॥ ३६ ॥

निर्जरा । सा का ? निर्विकारपरमचैतन्यचित्तमत्कारानुभूतिसञ्चातसहजानन्दस्वभावसुखा-  
मृतरसास्वादरूपो भाव इत्यध्याहारः । “जेण भावेण” येन भावेन जीवपरिणामेन । किं  
भवति “सङ्घटि” विशीर्यते पतति गलति विनश्यति । किं कर्तुं “कर्मपुण्डगल” कर्मारिविध-  
सकस्वकीयशुद्धात्मनो विलक्षणं कर्मपुद्गलद्रव्य । कथभूत “मुक्तरसं” स्वोदयकाल प्राप्य  
सासारिकसुखदुःखरूपेण मुक्तरस दत्तफल । केन कारणभूतेन गलति “जह कालेण” स्वका-  
लपच्यमानान्नाफलवत्सविपाकनिर्जरापेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिपरिणामस्य  
वहिरङ्गसहकारिकारणभूतेन काललविधसंब्लेन यथाकालेन, न केवलं यथाकालेन “तवेण”  
अकालपच्यमानानामाम्रादिफलवद्विपाकनिर्जरापेक्षया अभ्यन्तरेण समस्तपरद्रव्येच्छा-  
निरोधलक्षणेन वहिरङ्गेणान्तस्तत्त्वसविच्चिसाधकमंभूतेनानशनादिद्वादशविधेन तपसा चेति  
“तस्स” कर्मणो गलनं यच्च सा द्रव्यनिर्जरा । ननु पूर्वं यदुक्तं ‘सङ्घटि’ तेनैव द्रव्यनि-  
र्जरा उव्याप्ता पुनरपि सद्गति किमर्थं भणितम् ? तत्रोत्तर—तेन सङ्घटिशब्देन निर्मलात्मा-  
नुभूतिग्रहणभावनिर्जराभिधानपरिणामस्य सामर्थ्यमुक्त न च द्रव्यनिर्जरेति । “इदि”  
इति द्रव्यभावरूपेण निर्जरा द्विविधा भवति ॥

**व्याख्यार्थः**—“णेया” इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते हैं । “णेया” जानना चाहिये  
किसको “णिर्जरा” भावनिर्जराको । वह क्या है ? कि विकारोंसे रहितं और परम चैतन्य  
रूप जो चित् चमत्कार है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सहज आनन्द स्वभाव सुखामृतके  
आस्वादरूप भाव है उसरूप है । यहाँपर भाव शब्दका अध्याहार (विवक्षासे ग्रहण)  
किया गया है । “जेण भावेण” जिस लीबके परिणारूप भावसे क्या होता है कि  
“सङ्घटि” जीर्ण होता है, गिरता है, गलता है अथवा नाशको प्राप्त होता है । कौन कर्ता ?  
“कर्मपुण्डगल” कर्मरूपी शत्रुओंका नाश वरनेवाला जो निज शुद्ध आत्मा उससे विल-  
क्षण कर्मरूपी पुद्गल द्रव्य, कैमा होके “मुक्तरसं” अपने उद्यकालको प्राप्त होके संसार  
संवंधी सुख तथा दुःखरूपसे मुक्तरस अर्थान् दिया है रस जिसने ऐसा होकर, किस कार-  
णसे गलता है ? “जह कालेण” अपने समयमें पकते हुए आम्रके फलके समान तो सविपाक  
निर्जराकी अपेक्षासे, और अन्तररगभे निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप परिणाम वहिरंग सह-  
कारी कारणभूत जो काललविध है उस नामके धारक यथाकालसे, और केवल यथाकालसे  
ही नहीं किंतु “तवेण य” विना समय पकते हुये आम्र आदि फलोंके समान अविपाक  
निर्जराकी अपेक्षासे, तथा समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोकनेरूप अभ्यन्तर तपसे और अन्त-  
स्तत्व (आत्मरूपत्व)के ज्ञानको साधनेवाले अनशन (उपवास) आदि द्वादश प्रकारके  
वहिरंग तपसे “तस्मदण” उस कर्मका जो गलना सो द्रव्यनिर्जरा है । शंका—अपने जो  
पहले ‘सङ्घटि’ ऐसा कहा है उसीसे द्रव्यनिर्जरा प्राप्त हो गई फिर ‘सद्गत’ इस शब्दका  
कथन क्यों किया ? इसका समाधान यह है कि पहले जो ‘सङ्घटि’ शब्द कहा गया है  
उससे निर्मल आत्माके अनुभवको ग्रहण करनेरूप जो भावनिर्जरा नामक परिणाम है

अत्राह शिष्य—सविपाकनिर्जरा नरकादिगतिव्वज्ञानिनामपि हृत्यते संज्ञानिनामेवेति नियमो नास्ति । तत्रोत्तरं—अत्रैव मोक्षकारणं या संवरपूर्विका निर्जरा सैव प्राणा । या पुनरज्ञानिनां निर्जरा मा गजस्नानवन्निष्फला । यत स्तोकं कर्म निर्जरयति वहुतर वध्नाति तेन कारणेन सा न ग्राणा । या तु सरागसद्वृष्टीनां निर्जरा सा यद्यप्यशुभकर्मविनाशं करोति तथापि संसारस्थितिं स्तोका कुरुते । तद्वै तीर्थकरप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यवन्धकारणं भवति पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति । वीतरागसद्वृष्टीनां पुनः पुण्यपापद्वयविनाशे तद्वैऽपि मुक्तिकारणमिति । उक्तं च श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “ज अण्णाणी कर्म सम्म खवेदि भवसद्—सहस्रकोडीहि । त पाणी तिहिं गुन्तो खवेदि उस्सासमित्तेण । १ ।” कश्चिदाह—सद्वृष्टीना वीतरागविशेषणं किमर्थं रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञाने जाते सति रागानुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण मोक्षो भवतीति । तत्र परिहारः । अन्धकारे पुरुषद्वयम् एकः प्रदीपहस्तस्तिष्ठति, अन्यं पुनरेकः प्रदीपरहितस्तिष्ठति । स च कृपे पतनं सर्पादिकं वा न जानाति तस्य विनाशे दोषो नास्ति । यस्तु प्रदीपहस्तस्तस्य कूपपतनादिविनाशे प्रदीपफलं नास्ति । यस्तु कूपपतनादिकं त्यजति तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञान न जानाति स कर्मणा वध्यते तावत्, अन्यः कोऽपि रागादिभेदविज्ञाने जातेऽपि यावतांशेन रागादिकमनुभवति तावतांशेन सोऽपि वध्यत

उसका सामर्थ्य कहा गया और द्रव्यनिर्जरा का कथन नहीं किया गया। ‘इदि’ इस-प्रकार द्रव्य और भावरूपसे दो प्रकारको निर्जरा जाननी चाहिये ॥

यहाँ शिष्य कहता है कि जो सविपाक निर्जरा है वह तो नरक आदि गतियोंमें अज्ञानियोंके भी होती हुई देख पड़ती है। इसलिये सम्यग्ज्ञानियोंके सविपाक निर्जरा होती है यह नियम नहीं है । इस विषयमें उत्तर यह है कि यहांपर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसीको ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि, वही मोक्षका कारण है । और जो अज्ञानियोंके निर्जरा होती है वह तो गजस्नान ( हाथीके स्नान )के समान निष्फल है । क्योंकि, अज्ञानी जीव थोड़े कर्मोंकी तो निर्जरा करता है और बहुतसे कर्मोंको वांधता है । इस कारण अज्ञानियोंकी सविपाक निर्जरा का यहा ग्रहण नहीं करना चाहिये । तथा जो सराग सम्यग्घटियोंके निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मोंका नाश करती है और शुभ कर्मोंका नाश नहीं करती तथापि संसारकी स्थितिको अल्प करती है अर्थात् जीव के संसारपरिभ्रमणको घटाती है । उसी भवमे तीर्थेङ्कर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्यवन्धका कारण हो जाती है और परपरासे मोक्षकी कारणभूत होती है । और जो वीतराग सम्यग्घटिहैं उनके पुण्य तथा पाप दोनोंका नाश होनेपर उसी भवमे वह सविपाक निर्जरा मोक्षकी कारण हो जाती है । सोही श्री कुन्दकुन्द आचार्य देवने कथन किया है—“अज्ञानी जिन कर्मोंका एक लाख करोड़ वर्षोंमें नाश करता है उन्हीं कर्मोंको ज्ञानी जीव मनोवचनकायकी गुणिका धारक होकर एक उच्छ्वास मात्रमें नष्ट कर देता है । १ ।” यहाँ कोई शंकाका

एवं, तस्यापि रागादिभेदविज्ञानफलं नास्ति । यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिकं त्वजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्तीति ज्ञातव्यम् । तथा चोक्तं—“चक्रखुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहारो । चक्रखू होदि णिरत्थं तट्ठूण विले पड़तस्स” ॥ ३६ ॥ एवं निर्जराव्याख्याने सूत्रेणैकेन चतुर्थस्थलं गतम् ॥

अथ मोक्षतत्त्वमावेदयति,—

सञ्चरस्स कम्मणो जो खयहेद् अप्पणो हु परिणामो ।

ऐयो स भावमुक्तो दच्चविमुक्तो य वम्मपुहभावो ॥ ३७ ॥

व्याख्या । यद्यपि सामान्येन निरबशेषनिराकृतकर्ममलकलङ्कस्याशरीरस्यात्मन आत्म-

कथन करता है कि जो सम्यग्दृष्टि हैं उनके बीतराग चिशेषण किस लिये लगाया गया है ? क्योंकि राग आदिक हेय ( त्याज्य ) हैं ये मेरे नहीं हैं, ऐसा भेदविज्ञान उत्पन्न होनेपर वह रागका अनुभव करे तो भी उसके ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाता है । इस शंकाका खंडन यह है कि, अन्धकारमें दो पुरुष हैं एक हाथमें दीपक लिये हुए हैं और दूसरा विना दीपकके है । वह दीपकरहित पुरुष न तो कूपके पतनको जानता है और - न सर्प आदिको जानता है, इसलिये वह अन्धकारमें कुये आदिमें अज्ञानसे गिर जावे तो दोप नहीं है । तथा जिसके हाथमें दीपक है वह मनुष्य यदि कूपपतन आदिसे नष्ट हो जावे तो उसके हाथमें जो दीपक था उसका कोई फल नहीं हुआ । और जो उस अन्ध-कारमें दीपकके प्रकाशसे कूपपतन आदिको छोड़ता है उसके दीपकका फल है । इसी दृष्टान्तके अनुसार कोई मनुष्य तो “राग आदि हेय हैं, मेरे नहीं हैं” इस प्रकारके भेदविज्ञानको नहीं जानता है वह तो कर्मोंसे वैधता ही है । और दूसरा मनुष्य भेदवि-ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी जितने अंशोंसे रागादिकका अनुभव करता है उतने अंशोंसे वह भेदविज्ञानी पुरुष भी वैधता ही है । और उसके रागादि भेदविज्ञानका फल भी नहीं है । और जो जीव राग आदिकमें भेदविज्ञान होनेपर राग आदिका त्याग करता है उसके भेदविज्ञानका फल है यह जानना चाहिये । सोही कहा है—‘नेत्रोंसे देखनेका फल सर्प आदिके दोषोंसे मार्गमें बचना ही है । और जो नेत्रद्वारा सर्प आदिको देखकर भी सर्पके विटमें पैर धरता है उसके नेत्रोंका होना व्यर्थ ( निष्कळ ) है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार निर्जरा तत्त्व के व्याख्यानसे एक सूत्रमें चतुर्थ स्थल समाप्त हुआ ॥

अथ मोक्षतत्त्वका उपदेश करते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—सब कर्मोंके नाशका कारण जो आत्माका परिणाम है उसको भाव मोक्ष जानना चाहिये । और कर्मोंकी जो आत्मासे सर्वथा भिन्नता है वह द्रव्यमोक्ष है । ३७

**व्याख्यार्थः**—“यद्यपि सामान्यरूपसे संपूर्णतया कर्मरूप मल-कलंकसे रहित जो

नितकस्वाभाविकाचिन्त्या द्वृतानुपमसकलचिमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षो भण्यते तथापि विशेषेण भावद्रव्यरूपेण द्विवा भवतीति वार्त्तिकम् । तथाथा—“णेयो स भावमुक्खो” णेयो ज्ञातव्यः स भावमोक्षः । स कः “अप्पणो हु परिणामो” निश्चयर-न्नत्रयात्मककारणसमयसाररूपो “हु” स्फुटमात्मनः परिणामः । कथभूतः “सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू” सर्वस्य द्रव्यभावरूपमोहनीयादिधातिचतुष्टयकर्मणो यः क्षयहेतु-रिति । द्रव्यमोक्षं कथयति । “दव्वविमुक्खो” अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्षो भवति, कोऽसौ “कम्मपुहभावो” टङ्गोत्कीर्णशुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मन आयुरादिशेषाधातिकर्म-णामपि य आत्यन्तिकपृथग्भावो विश्लेषो विघटनमिति ॥

तस्य मुक्तात्मन सुखं कथयते । “आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतबाधां विशाल, वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निष्प्रतिद्वन्द्वभावम् । अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपममसितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसार परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् । १ ।” कश्चिदाह—इन्द्रियसुखमेव सुख मुक्तात्मनामिन्द्रियशरीराभावे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखं कथ घटत इति । तत्रोन्तरं दीयते—सांसारिकसुखं तावत् खीसेवादिपञ्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चे-

शरीररहित आत्मा है उसके आत्यतिक, स्वाभाविक, अचिन्त्य, अद्वृत तथा अनुपम ऐसे जो सकल चिमल केवलज्ञान आदि गुण हैं उन सबका स्थानभूत जो अवस्थान्तर है वही मोक्ष कहा जाता है, तथापि विशेषतासे भाव और द्रव्यरूपसे वह मोक्ष दो प्रकारका होता है” यह वार्त्तिक पाठ है । सो इस प्रकार है—“णेयो स भावमुक्खो” उसको भावमोक्ष जानना चाहिये । उसको किसको? “अप्पणो हु परिणामो” निश्चयसे निश्चयरन्नत्रय लक्षण जो कारणसमयसार है उसरूप आत्माके परिणामको । कैसे आत्माके परिणाम को? “सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू” जो कि सब अर्थात् द्रव्य तथा भावरूप मोहनीय आदि चार धातिया कर्म हैं उनके नाशका कारण है उसको । अब द्रव्यमोक्षके स्वरूपको कहते हैं—“दव्वविमुक्खो” अयोगी गुणस्थानवर्ती जीवके अन्त्य समयमे द्रव्यमोक्ष होता है । वह द्रव्यमोक्ष कैसा है? “कम्मपुहभावो” टकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध स्वरूप एक स्वभावका धारक जो परमात्मा है उसके आयुः आदि जो शेष ( बचे हुए ) चार अधातिया कर्म हैं उनका भी जो अतिशय करके भिन्न होना तथा नाश होना है उस स्वरूप है ॥

अब उस मुक्तात्माके सुखका वर्णन करते हैं । “निज आत्मारूप उपादान कारणसे सिद्ध, स्वयं अतिशययुक्त, बाधासे शून्य विशाल, वृद्धि तथा ह्वास ( न्यूनता )से रहित, विषयोंसे शून्य, प्रतिद्वन्द्व अर्थात् प्रतिपक्षतासे वर्जित, अन्य द्रव्योंकी अपेक्षासे मुक्त, उपमारहित, अप्रमाण ( अपार ), नित्य और सर्व कालमे उत्तम तथा अनन्तसारता-युक्त ऐसा जो परम सुख है वह इस मोक्षसे उन सिद्धोंके हुआ है । १ ।” यहांपर कोई शंका करता है कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ जो सुख है वही सुखहै, और सिद्ध जीवोंके इन्द्रियों तथा शरीरका अभाव है इसलिये पूर्वोक्त जो अतीन्द्रिय सुख है वह सिद्धोंके कैसे

निन्द्रयविषयव्यापाररहितानां निर्व्याकुच्चित्ताना पुरुषाणा सुख तदतीन्द्रियसुखमत्रैव हृश्यते । पञ्चेन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहिताना निर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादिरहितत्वेन स्वसंवेदयमात्मसुखं तद्विशेषेणातीन्द्रियम् । यच्च भावकर्मद्रव्यकर्मरहितानां सर्वप्रदेशाहारैकपागमार्थिकपरमानन्दपरिणामानां सुक्तान्मनामनीन्द्रियसुख तदत्यन्तविशेषेण ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—ससारिणां निरन्तरं कर्मवन्धोऽस्ति, तथैवोदयोऽस्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, कथ मोक्षो भवतीति ? तत्र प्रत्युत्तर । यथा शत्रोः श्रीणावस्था दृष्टा कोऽपि धीमान् पर्यालोचयत्यथ भवते इन्ने प्रस्तावमत्ततः पौरुषं कृत्वा शत्रुं हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपावस्था नास्ति हीयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा यदा लघुत्वं क्षीणत्वं भवति तदा धीमान् भव्य आगमभाषया “खयद्वसमित्र विसोही देसणपाउगकरणलङ्घी य । चत्तारिं विसामणा करणं सम्मत्तचारित्ते । १ ।” इति गाथाकथितलविधयपञ्चकसंज्ञेनाध्यात्मभाषया । निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसङ्गेन च निर्मलभावनाविशेषसङ्गेन पौरुषं कृत्वा कर्मशत्रुं हन्तीति । यत्पुनरन्त कोटाकोटीप्रमितकर्मस्थितिरूपेण तथैव लतादारस्थानीयानुभागरूपेण च कर्मलघुत्वे जातेऽपि सत्यर्थं जीव आगमभाषया अधःप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसज्जामध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कर्महननवुद्धिं क्वापि काले न करिष्यतीति तदभव्यत्वगुणस्यैव लक्षणं

हो सकता है ? इसपर उत्तर देते हैं कि सांसारिक जो सुख है वह तो खीसेवन आदि रूप जो पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उन्हींसे उत्पन्न होता है और जो पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके व्यापारसे रहित तथा व्याकुलताशून्य चित्तवाले पुरुष हैं उनका जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है । और इस लोक में ही देखा भी जाता है । और पांचों इन्द्रियों तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित और निर्विकल्प ध्यानमें स्थित ऐसे परमयोगियोंके राग आदिकी शून्यतापूर्वक जो स्वसंवेद ( निजके अनुभवसे जानने योग्य ) आत्माका सुख है वह विजेष करके अतीन्द्रिय है । और भावकर्म तथा द्रव्यकर्मोंसे रहित, तथा सपूर्ण आत्माके प्रदेशोंमें आहादका जनक ऐसा जो पारमार्थिक परम सुख है उसमें परिणत ऐसे मुक्त जीवोंके जो अतीन्द्रिय सुख है वह अत्यन्त विशेषतासे अतीन्द्रिय जानना चाहिये । अब यहापर शिष्य कहता है कि हे गुरो ! संसारी जीवोंके निरन्तर कर्मोंका बंध होता है और इसी प्रकार कर्मोंका उदय भी भदा होता रहना है इस कारण शुद्ध आत्माके ध्यानका प्रस्ताव ( प्रसंग ) ही नहीं है फिर उनका मोक्ष कैसे होता है ? अब इस शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हैं कि जैसे कोई वुद्धिमान् अपने शत्रुकी क्षीण अवस्थाको देखकर, अपने मनमें विचार करता है कि यह मेरे मारनेका प्रस्ताव है अर्थात् शत्रु दुर्बल है इसलिये यह अवसर शत्रुको मारनेका है, और इस विचारके पश्चात् उद्यम करके, वह वुद्धिमान् अपने शत्रुको मारता है, इसी प्रकार कर्मोंकी भी सदा एकरूप अवस्था नहीं रहती, इस कारण स्थितिर्वंध और अनुभागवंधकी न्यूनता होनेसे जब कर्म लघु अर्थात्

ज्ञातव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवकं मोक्षविषये ज्ञातव्यम्—“रथणदीक्षिणयरद्वित्तु, दुद्धउ धाडपहाणु । सुणुरुप्पफल्लिहत्तु अगणि, णव दिहत्ता जाणि । १ ।” नन्वनादिकाले मोक्ष गच्छतां जीवाना जगच्छून्यं भविष्यतीति ? तत्र परिहारः । यथा—भाविकालस-मयाना क्रमेण गच्छतां यद्यपि भाविकालसमयराशे स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । तथा मुक्ति गच्छतां जीवाना यद्यपि जीवराशे स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति, इति चेत्तर्हि पूर्वकाले वहवोऽपि जीवा मोक्षं गता, इदानीं जगतः शून्यत्वं किं न दृश्यते ? किञ्चाभव्यानामभव्यसमानभव्यानां च मोक्षो नास्ति, कर्थं शून्यत्वं भव-घ्यतीति ॥ ३७ ॥

एव संक्षेपेण मोक्षतत्त्वव्याख्यानेनैकसूत्रेण पञ्चम स्थल गतम् ।

झीण होते हैं तब बुद्धिमान भव्य जीव आगम भाषासे “क्षयोपशम लविधि, विशुद्धिलविधि, देशनालविधि, प्रायोर्यलविधि और करणलविधि ये पाँच लविधया हैं । इनमें चार तो सामान्य हैं और पाँचवीं सम्यकत्वचारित्रमें होती है । इस गाथासे कही हुई पाँच लविधयां नामक तथा अध्यात्म भाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम नामक जो निर्मल भावनाविशेषरूप खड़ है उससे पौरुष करके कर्मशत्रुको नष्ट करता है । और जो अन्तः कोटाकोटि प्रमाण कर्मस्थितिरूप तथा इसी प्रकार लताकाष्ठके स्थानापन्न अनुभाग रूपसे कर्मोंका लघुत्व ( क्षीणत्व ) होनेपर भी यह जीव आगमभाषासे अधःप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तथा अध्यात्मभाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणामरूप जो कर्मोंको नष्ट करनेकी बुद्धि है उसको किसी समयमें नहीं करेगा, यह जो कथन है सो अभव्यत्व गुणका ही लक्षण जानना चाहिये । और अन्य भी नौ दृष्टान्त मोक्षके विषयमें जानने योग्य हैं । रत्नदीपक इत्यादि ।

अब यहां कोई शका करता है कि अनादि कालसे मोक्षको जाते हुए जीवोंसे जगत्की शून्यता हो जायगी अर्थात् अनादिकालसे जो मोक्षको जीव जा रहे हैं तो न्यून होते होते कभी न कभी जगत्मे जीव सर्वथा न रहेंगे । इस शंकाका परिहार करते हैं कि जैसे कमसे जाते हुये जो भविष्यत् कालके समय हैं उनसे यद्यपि भविष्यत्कालके समयोंकी राशिमें न्यूनता होती है तथापि उस समयराशिका अन्त कदापि नहीं, इसी प्रकार मुक्तिमें जाते हुए जीवोंसे यद्यपि जगत्में जीवराशिकी न्यूनता होती है तथापि उस जीवराशिका अंत नहीं है । यदि ऐसा कहो तो यह शका भी होती है कि पूर्व कालमें बहुत जीव मोक्षको गये हैं तब इस समय जगत्की शून्यता क्यों नहीं देख पड़ती ? तो इसपर यह भी उत्तर है कि अभव्य जीव तथा अभव्यके समान भव्य जीवोंका मोक्ष नहीं है । फिर जगत्की शून्यता कैसे होगी ॥ ३७ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे मोक्षतत्त्वके व्याख्यानरूप एक सूत्रसे पञ्चम स्थल समाप्त हुआ ।

अत ऊर्ध्वं पष्टस्यले गाथापूर्वार्थेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्वरूपमुत्तरार्थेन च पुण्यपापप्रकृ-  
तिसंख्यां क्षयाभीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति;—

सुहअसुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा ।  
सादं सुहाडं णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥ ३८ ॥

व्याख्या । “पुण्णं पाव हवंति खलु जीवा” चिदानन्दैकसहजशुद्धस्वभावत्वेन पुण्य-  
पापवन्धमोक्षादिपर्यायस्वरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मवन्धपर्यायेण पुण्यं  
पापं च भवन्ति खलु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः “सुहअसुहभावजुत्ता” “उद्धम  
मिथ्यात्वविषय भावय दृष्टिं च कुरु परा भक्तिम् । भावनमस्काररतो ज्ञाने युक्तो भव  
सदापि । १ । पञ्चमहात्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निय्रहं परमम् । दुर्दान्तेन्द्रियविजयं तपः-  
सिद्धिविवौ हुरुद्योगम् । २ ।” इत्यार्याद्वयकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन  
तद्विलक्षणेनाशुभोपयोगपरिणामेन च युक्ताः परिणताः । इदानीं पुण्यपापभेदान् कथ-  
यति “सादं सुहाडं णामं गोदं पुण्णं” सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य भवति “पराणि

अब इसके आगे घष्ट ( छडे ) स्थलमें गाथाके पूर्वार्धसे पुण्य तथा पापरूप जो दो  
पदार्थ हैं उनके स्वरूपको और उच्चरार्थसे पुण्य प्रकृति तथा पाप प्रकृतियोंकी सख्याको  
कहता हूँ, इस अभिप्रायको मनमें धारण कर, भगवान् इस सूत्रका प्रतिपादन करते हैं,—

गाथाभावार्थः—शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे युक्त जीव पुण्य और पापरूप होते  
हैं । सावावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र नामक कर्मोंकी जो प्रकृतियें हैं वे  
तो पुण्य प्रकृतियें हैं और सब पापप्रकृतियें हैं ॥ ३८ ॥

व्याख्यार्थः—“पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा” चिदानन्दरूप सहज शुद्ध भावसे  
पुण्य पाप वन्ध तथा मोक्ष आदि पर्याय स्वरूप विकल्पोंसे रहित भी जीव हैं तथापि  
सत्तान् ( प्रवाह )से प्राप्त जो अनादि कर्मवन्ध पर्याय है उससे पुण्य तथा पाप भी होते हैं  
अर्थात् पुण्य पापको प्राप्त होते हैं । कैसे होते हुए जीव पुण्य पापको धारण करते हैं ?  
इसन्दिये यह विशेषण कहते हैं । सुहअसुहभावजुत्ता” । “मिथ्यात्वरूपीविषका वमन करदो,  
सम्यग्दर्जनको भावना करो, उठाए भक्तिको करो, और भाव नमस्कारमें तत्पर होकर  
मदा ज्ञानमें लगे रहो । १ । पाच महात्रतोंकी रक्षा करो, कोष आदि चार कषायोंका पूर्ण  
रूपसे निय्रह करो दुर्दान्त ( प्रवल ) इन्द्रियरूप शत्रुओंका विजय करो तथा वाहा और  
अध्यन्तर भेदसे दो प्रकारका जो तप है उसको सिद्ध करनेमें उद्योग करो ।” इस प्रकार  
दोनों आर्याद्वन्द्वोंसे कहे हुए लक्षणसहित शुभ उपयोगरूप भाव परिणामसे तथा उसके  
विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणामसे युक्त ( परिणत ) जो जीव हैं वे पुण्य पापको धारण  
करनान् अपने चय पुण्य पापरूप हो जाते हैं । अब पुण्य तथा पापके भेदोंको कहते हैं ।  
रहती, इस कारपं गोदं पुण्णं” सावा वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र

पाप च" तस्मादपराणि कर्माणि पाप चेति । तद्यथा—सद्वेद्यमेक, तिर्यग्मनुष्यदेवायु-  
खयं, सुभगयशःकीर्तिर्थकरत्वादिनामप्रकृतीनां सप्तत्रिगत्, तथोऽज्ञैर्गोच्रमिति समुदा-  
येन द्विचत्वारिशत्संख्याः पुण्यप्रकृतयो विज्ञेयाः शेषा द्वयशीतिपापमिति । तत्र "दर्शन-  
विशुद्धिविनयसंपन्नता शीलवतेष्वन्तिचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तिस्त्यागतपसी  
साधुसमाधिर्व्यावृत्त्यकरणमर्हदाचार्यवहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना  
प्रवचनवत्मलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य" इन्द्रुक्तलक्षणपोदशभावनोत्पन्नतीर्थकरनाभक्तेव  
विशिष्ट पुण्यम् । पोदशभावनासु मध्ये परमागमभाषया 'मूढव्रयं मदाश्चाष्टौ तथानाय-  
तनानि पट् । अष्टौ शङ्खादयश्चेति दृढोपा पञ्चविंशतिः ॥१॥' इति श्लोककथितपञ्च-  
विंशतिमलरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेयक्षिरूपा सम्यक्त्वभावनैव  
मुख्येति विज्ञेयम् । सम्यग्दृष्टेर्जीवस्य पुण्यपापद्वयमपि हेयम् । कथं पुण्यं करोतीति ? तत्र  
युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तरस्थमनोहरत्वोसमीपादागतपुरुषाणां तदर्थे दानसन्मा-

---

ये कर्म तो पुण्यरूप हैं और इनसे भिन्न जो शेष कर्म हैं वे पापकर्म हैं । सो इस प्रकार है—  
साता वेदनी एक प्रकृति, तिर्यच, मनुष्य और देव इन भेदोंसे शुभ आयुकी प्रकृतियें तीन  
३, शुभग, यशःकीर्ति तथा तीर्थकरपना आदि रूप नामकर्मकी प्रकृतिये सेतीस ३७ और  
उच्च गोत्र एक १, ऐसे सब मिलके समुदायसे वयालीस ४२ सख्याकी धारक पुण्य प्रकृ-  
तियें जाननी चाहिये । वाकीकी जो वयासी प्रकृतियाँ आठों कर्मोंकी हैं वे सब पाप-  
प्रकृतियाँ हैं ॥

उनमें "दर्शनविशुद्धि १ विनयसंपन्नता २ शील तथा ब्रतोंमें अतिचाररहितता ३ निर-  
न्तर ज्ञानमें उपयोग ४ सदेग ५ शक्तिपूर्वक त्याग ६ शक्तिपूर्वक तप ७ साधुसमाधि  
८ वैयावृत्त्यका करना ९ अर्हतमे भक्ति १० आचार्यभक्ति ११ वहुश्रुतभक्ति १२  
प्रवचनभक्ति १३ आवश्यकोंमे हानि न करना अर्थात् पट् आवश्यकोंको निरन्तर धारण  
करना १४ मार्गप्रभावना १५ और प्रवचनवात्सल्य १६ ये तीर्थङ्कर प्रकृतिके वयके  
कारण हैं ।" इस कहे हुए लक्षणकी धारक जो सोलह भावना हैं उनसे उत्पन्न जो तीर्थकर  
नामकर्म है सो विशिष्ट पुण्य है । उक्त सोलह भावनाओंमे परमागम भाषासे "तीन मूढता,  
आठ मद, छ. (६) अनायतन और आठ शंका आदि दोष ऐसे पञ्चीस २५ सम्यग्द-  
र्शनके दोष हैं । १।" इस प्रकार श्लोकमे कहे हुए पञ्चीस सम्यग्दर्शनके मद (दोष तथा  
अतिचारों)से रहित ऐसी तथा अध्यात्मभाषासे निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय (ग्रहण  
करने योग्य) है, इस प्रकारकी जो रुचि (प्रीति) है उसरूप जो सम्यक्त्वकी भावना है  
सोही मुख्य है यह जानना चाहिये । शंका—सम्यग्दृष्टी जीवके तो पुण्य तथा पाप ये दोनों  
ही हेय (त्याज्य) हैं फिर वह पुण्य कैसे करता है ? इस शंकाके समाधानमें युक्तिशा-  
क्तन करते हैं । जैसे कोई मनुष्य अन्य देशमें विद्यमान ऐसी मनोहर (रूप लावण्या-

नादिक करोति तथा सम्यग्गृष्टिरप्युपादेयरूपेण स्वशुद्धात्मानमेव भावयति चारित्रमोहो-  
ध्यात्त्रासमर्थः सन् निर्देवपरमात्मस्वरूपाणामर्हसिद्धानां तदारावकाचार्योपाध्यायसा-  
धूना च परमात्मपदग्राप्त्यं विषयकषायवस्त्रनार्थं च दानपूजादिना गुणस्तवनादिना वा  
परमभक्तिं करोति तेन भोगकाङ्क्षादिनिदानरहितपरिणामेन कुटुम्बिनां पलालमिव अनी-  
हितवृत्त्या विशिष्टपुण्यमास्त्रवति तेन च स्वर्गे देवेन्द्रलोकान्तिकादिविभूतिं प्राप्य विमान-  
परीक्षारादिसपदं जीर्णतृणमिव गणयन् पञ्चमहाविदेहेषु गत्वा पश्यति । किं पठयतीति  
चेत्—तदिदं समवसरण, त एते वीतरागसर्वज्ञाः त एते भेदाभेदरक्षत्रयाराधका गण-  
धरदेवादयो ये पूर्वं श्रूयन्ते त इदानीं प्रत्यक्षेण दृष्टा इति मत्वा विशेषेण दृढधर्ममति-  
भूत्वा चतुर्थगुणस्थानयोग्यामात्मनोऽविरताचस्थामपरित्यजन् भोगानुभवेऽपि सति धर्म-  
ध्यानेन कालं नीत्वा स्वर्गादागत्य तीर्थंकरादिपदे प्राप्तेऽपि पूर्वभवभावितविशिष्टभेदज्ञान-  
वासनावलेन मोह न करोति ततो जिनदीक्षां गुहीत्वा पुण्यपरहितनिजपरमात्मध्यानेन

दिकी धारक ) खीके पाससे आये हुए मनुष्योंका उस खीकी प्राप्तिके अर्थ दान, सम्मान  
आदि करता है, ऐसे ही सम्यग्गृष्टी जीव भी निज शुद्ध आत्माको ही भावता है । परन्तु जब  
चारित्रमोहके उदयसे उस निज शुद्ध आत्माकी भावनामें असमर्थ होता है, तब दोषरहित  
परमात्मा स्वरूप जो अहंत् सिद्ध हैं तथा उनके आराधक जो आचार्य, उपाध्याय और  
साधु हैं उनकी परमात्मारूपपदकी प्राप्तिके निमित्त और विषय तथा कषायोंको दूर कर-  
नेके लिये दान पूजा आदिसे अथवा गुणोंकी स्तुति आदिसे परम भक्तिको करता है ।  
और भोगोंकी वाढ़ा आदि निदानोंसे रहित जो परिणाम है उससे कुटुम्बियोंके पलालके  
समान निरिच्छकपनेसे विशिष्ट पुण्यका आस्त्रव करता है । अर्थात् जैसे किसान जब चाव-  
लोंकी खेती करता है, तब उसका मुख्य उद्देश्य चावल उत्पन्न करनेका रहता है और चाव-  
लोंका जो पलाल (धास) है उसमें उसकी वांछा नहीं रहती है, तथापि उसको बहुतसा पलाल  
मिल ही जाता है । इसी प्रकार मोक्षको चाहनेवाले जीवोंके वांछा विना भी भक्ति करनेसे  
पुण्यका आस्त्रव होता है । और उस पुण्यसे स्वर्गमें इन्द्र लौकान्तिक देव आदिकी विभू-  
तिको प्राप्त होकर स्वर्गसवधी जो विमान तथा देव देवियोंका परिवार है उसको जीर्ण  
तृणके समान गिनता हुआ पञ्चमहाविदेहोंमें जाकर देखता है । क्या देखता है ? ऐसा प्रश्न  
करो तो उत्तर यह है कि, वह यह समवसरण है, वे ये श्रीवीतराग सर्वज्ञ भगवान् हैं, वे  
ये भेद तथा अभेदरूप रक्षत्रयकी आराधना करनेवाले गणधर देव आदि हैं, जो कि पहले  
सुने जाते थे, वे आज प्रत्यक्षमें देखे, ऐसा मानकर अधिकतासे धर्ममें दृढ़ वृद्धिको करके  
चतुर्थ गुणस्थानके योग्य जो अपनी अविरत अवस्था है उसको नहीं छोड़ता हुआ भोगोंका  
सेवन होनेपर भी धर्मध्यानसे देव आयुके कालको पूर्ण कर स्वर्गसे आकर तीर्थकर आदि  
पदको प्राप्त होता है और तीर्थकर आदि पदको प्राप्त होनेपर भी पूर्वजन्ममें भावित की  
हुई जो विशिष्ट-भेदज्ञानकी वासना है उसके बलसे मोहको नहीं करता है और मोह-

मोक्षं गच्छतीति । मिथ्यादृष्टिस्तु तीव्रनिदाबन्धपुण्येन भोगं प्राप्य पश्चाद्द्वचकवर्त्ति-  
रावणादिवश्रुकं गच्छतीति । एवमुक्तलक्षणपुण्यपापपदार्थद्वयेन सह पूर्वोक्तानि सप्त-  
स्थान्येव नव पदार्था भवन्तीति ज्ञातव्यम् ।

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकदेवविरचिते द्रव्यसंग्रहप्रन्थे “आसववंधण”  
इत्याद्येका सूत्रगायथा तदनन्तरं गाथादशकेन स्थलषट्कं चेति समु-  
दायेनैकादशसूत्रैः सप्तस्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा  
द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

### तृतीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥

अत ऊर्ध्वं विशतिगाथापर्यन्तं मोक्षमार्गं कथयति । तत्रादौ “सम्मदंसण” इत्याद्यष्ट-  
गाथाभिर्निश्चयमोक्षमार्गव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादकमुख्यत्वेन प्रथमोऽन्तराधिकारस्ततः  
परम् “दुविहं पि मुक्त्वहेउ” इति प्रभृतिद्वादशसूत्रैर्ध्यानध्यात्रध्यानफलकथनमुख्य-  
त्वेन द्वितीयोऽन्तराधिकार । इति तृतीयाधिकारे समुदायेन पातनिका ।

रहित होनेसे श्रीजिनेन्द्रकी दीक्षाको धारण कर पुण्य तथा पापसे रहित जो निजपरमात्माका  
ध्यान है उसके द्वारा मोक्षको जाता है । और जो मिथ्यादृष्टि है वह तो तीव्र निदाबन्धके  
पुण्यसे चक्रवर्ती, नारायण तथा रावण आदि प्रतिनारायणोंके समान भोगोंको प्राप्त होकर  
नरकको जाता है । इस प्रकार पूर्वोक्तलक्षणके धारक जो पुण्य और पापरूप दो पदार्थ हैं  
उन सहित पूर्वोक्त जो सात तत्त्व हैं वेही नव ९ पदार्थ होजाते हैं । अर्थात् जीव, अजी-  
वादि सात तत्त्वों में पुण्य और पापके मिलनेसे नौ पदार्थ होजाते हैं । ऐसा समझना  
चाहिये ॥ ३८ ॥

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचितद्रव्यसंग्रहस्य श्रीब्रह्मदेवनिर्मितसस्तुतटीकायाः  
शास्त्रीत्युपाधिधारक-श्रीजवाहरलालदि० जैनप्रणीतभाषानुवादे “आसववं-  
धण” इत्याद्येकादशसूत्रैः सप्तस्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा  
द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ ३ ॥

\*\*\*\*\*

अब इसके पश्चात् वीस २० गाथा पर्यन्त मोक्षमार्गका कथन करते हैं । उसकी  
आदिमें “सम्मदंसणणाणं” इत्यादि आठ गाथाओंके द्वारा प्रधानतासे निश्चय मोक्षमार्ग  
और व्यवहार मोक्षमार्गका प्रतिपादक प्रथम अन्तराधिकार है । उसके अनंतर “दुविहं पि  
मुक्त्वहेउ” इत्यादि वारह गाथाओंसे ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यानके फलको कहना है  
मुख्य प्रयोजन जिसका ऐसा द्वितीय अन्तराधिकार है । इस प्रकार तृतीय अधिकारमें  
समुदायसे पातनिका है ।

अथ प्रथमतः सूत्रपूर्वार्थेन व्यवहारमोक्षमार्गमुक्तरार्थेन च निश्चयमोक्षमार्गं निरूपयति,-  
मम्मदंसणणाणं चरण मुक्खस्म कारणं जाणे ।  
ववहारा णिच्छयदो तत्त्वयमइओ णिओ अप्पा ॥ ३५ ॥

व्याख्या । “सम्महसणणाण चरण मुक्खस्स कारण जाणे ववहारा” सम्यगदर्शन-ज्ञानचारित्रत्रयं मोक्षस्य कारण हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात । “णिच्छयदो तत्त्वयमइओ णिओ अप्पा” निश्चयतस्तत्रित्वयमयो निजात्मेति । तथाहि- वीतरागमर्वज्ञप्रणीतषड्द्रव्यपञ्चास्तिकायमप्ततत्त्वनवपदार्थसम्यक्श्रद्धानज्ञानब्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्यवहारमोक्षमार्गः । निजनिरक्षनशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणैकाश्रयपरिणतिरूपो निश्चयमोक्षमार्गः । अथवा धातुपाषाणेऽनिवत्साधको व्यवहारमोक्षमार्गः, सुवर्णस्थानीयनिर्विकारस्वोपलघिसाध्यरूपो निश्चयमोक्षमार्ग । एव संक्षेपेण व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गलक्षणं ज्ञातव्यमिति ॥ ३६ ॥

अथाभेदेन सम्यगदर्शनज्ञानचारित्राणि स्वशुद्धात्मैव तेन कारणेन निश्चयेनात्मैव निश्चयमोक्षमार्गं इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमार्गं प्रकारान्तरेण दृढयति,—

— अब प्रथमही सूत्रके पूर्वार्थसे व्यवहार मोक्षमार्गको और उत्तरार्थसे निश्चय मोक्षमार्गको कहते हैं;—

**गाथामार्वार्थः**— सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके समुदायको व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो । तथा निश्चयसे सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और चारित्र स्वरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३७ ॥

**व्याख्यार्थः**— “सम्मदंसणणाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” हे शिष्य ! व्यवहारनयसे सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान, और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके समुदायको मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदो तत्त्वयमइओ णिओ अप्पा” और निश्चयसे सम्यदर्शन, सम्यगज्ञान तथा चारित्र इन तीनों स्वरूप जो निज आत्मा है वहीं मोक्षका कारण है । **मार्वार्थ-**श्रीवीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए जो छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थ हैं इनका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना, और ब्रत आदिका आचरण करना इत्यादि विकल्परूप जो है सो तो व्यवहार मोक्षमार्ग है । और जो अपने निरंजन शुद्ध आत्मतत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणमे एकाग्रपरिणति रूप है वह निश्चय माक्षमार्ग है । अथवा धातु पाषाणके विषयमें अग्निके सदृश जो साधक है वह तो व्यवहार मोक्षमार्ग है तथा सुवर्णके स्थानापन्न निर्विकार जो निजआत्मा है उसके स्वरूपकी प्राप्तिरूप जो साध्य है उस स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग है । इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा निश्चय मोक्षमार्गके लक्षणको जानना चाहिये ॥ ३८ ॥

अब अभेदसे सम्यगदर्शन, ज्ञान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा ही है इस कारण निश्चयनयसे

रथणत्यं ण वद्वृड् अप्पाण मुइत्तु अण्णदवियहि ।  
तद्वा तत्त्वियमइउ होदि हु मुक्खस्म कारण आदा ॥ ४० ॥

**व्याख्या** । “रथणत्यं ण वद्वृड् अप्पाण मुइत्तु अण्णदवियहि” रत्नत्रयं न वर्त्तते स्वकी-यशुद्धात्मानं मुक्त्वा अन्याचेतने द्रव्ये । “तद्वा तत्त्वियमइउ होदि हु मुक्खस्म कारणं आदा” तस्मात्तत्त्वियमय आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीति जानीहि । अथ विस्तारः—- रागादिविकल्पोपाधिरहितचिच्छमत्कारभावनोत्पन्नमधुररसास्वादसुखोऽहमिति निश्चयरूपं सम्यगदर्शनं, तस्यैव सुखस्य समस्तविभावेभ्य स्वसंवेदनज्ञानेन पृथक् परिच्छे-दन सम्यगज्ञानं, तथैव हृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षप्रभृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथजनितसकल्पविकल्पजालत्यागेन तत्रैव सुखे रत्स्य सन्तुष्टस्य उपस्थैकाकारपरमसमरसीभावेन द्रवीभूतचित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चारित्रम् । इत्युक्तलक्षणं निश्चयरत्नत्रयं शुद्धात्मानं विहायान्यत्र घटपटादिवहिद्रव्ये न वर्त्तते यतस्ततः कारणादभेदनयेनानेकद्रव्यात्मकैकप्रपानकवत्तदेव सम्यगदर्शनं, तदेव सम्यगज्ञानं, तदेव चारित्र, तदेव स्वात्म-तत्त्वमित्युक्तलक्षणं निजशुद्धात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥

आत्मा ही निश्चय मोक्षमार्ग है, इस प्रकार कथन करते हैं । अथवा पहले कहे हुए निश्चय मोक्षमार्ग को ही अन्य प्रकारसे दृढ़ करते हैं ।

**गाथाभावार्थः**— आत्माको छोड़कर अन्य द्रव्यमे रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण उस रत्नत्रयमयी जो आत्मा है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है ॥ ४० ॥

**व्याख्यार्थः**—“रथणत्यं ण वद्वृड् अप्पाण मुइत्तु अण्णदवियहि” निज शुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यमे रत्नत्रय नहीं रहता है । “तद्वा तत्त्वियमइउ होदि हु मुक्खस्म कारणं आदा” इस कारण रत्नत्रयमय आत्माको ही निश्चयसे मोक्षका कारण जानो । अब विस्तारसे वर्णन करते हैं-राग आदि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित जो चित् चमत्कारकी भावनासे उत्पन्न मधुर रस ( अमृत ) है उसके आस्वाद रूप सुखका धारक मैं हू, इस प्रकार निश्चयरूप सम्यगदर्शन है । और इस पूर्वोक्त सुखके जो राग आदि समस्त विभाव हैं उनसे स्वसंवेदन ज्ञानद्वारा भिन्न करना अथवा जानना है सो सम्यगज्ञान है । और इसी प्रकार देखे, सुने तथा अनुभव किये हुए जो भोग उनमे वाढा करना आदि जो समस्त दुर्ध्यानरूप मनोरथ हैं उनसे उत्पन्न हुए सकल्प विकल्पोंके त्यागसे उसी सुखमें सतुष्ट तथा एक आकारका धारक जो परम समता भाव उससे चलायमान चित्तका वारंवार स्थिर करना सम्यक् चारित्र है । इस प्रकार कहे हुए लक्षणका धारक जो रत्नत्रय है वह शुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य जो घट, पट आदि बाह्य द्रव्य हैं उनमें नहीं रहता है, इस कारण अभेदसे अनेक द्रव्योंमय एक प्रपानक अर्थात् वदाम, सौफ, मिश्री, मिरच आदि द्रव्योंरूप ठंडाईके समान वह आत्मा ही सम्यगदर्शन है, वह

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्वयेन निश्चयव्यवहारभोक्षमार्गस्वरूपं संक्षेपेण व्याख्याय तदनन्तरं द्वितीयस्थले गाथाघटकपर्यन्तं सम्यक्त्वादित्रयं क्रमेण विवृणोति । तत्रादौ सम्यक्त्वमाह—

जीवादीसद्द्वयं सम्मतं रूबमप्पणो तं तु ।

दुरभिणिवेशविमुक्तं णाणं सम्मं खु होदि सदि जह्नि ॥ ४१ ॥

व्याख्या । “जीवादीसद्द्वयं सम्मतं” बीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्वविषये चलमलिनावगाढरहितत्वेन श्रद्धानं रुचिर्निश्चय इदमेवेत्थमेवेति निश्चयबुद्धिः सम्यगदर्शनम् । “रूबमप्पणो तं तु” तच्चाभेदनयेन रूपं स्वरूपं तु पुनः, कस्यात्मन आत्मपरिणाम इत्यर्थः । तस्य सामर्थ्यमाहात्म्यं दर्शयति । “दुरभिणिवेसचिमुक्तं णाणं सम्मं खु होदि सदि जह्नि” यस्मिन् सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग् भवति स्फुट । कथम्भूत सम्यग्भवति “दुरभिणिवेसविमुक्तं” चलितप्रतिपत्तिगच्छत्तृणस्पर्शशुक्तिकाशकलरजतविज्ञानसदृशैः सशयविभ्रमविमोहैर्मुक्तं रहितमित्यर्थः ।

आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है, वह आत्मा ही चारित्र है तथा वही निज आत्मतत्त्व है । इस प्रकार कहे हुए लक्षणवाले निज शुद्ध आत्माको ही मुक्तिका कारण जानो ॥ ४० ॥

इस प्रकार प्रथम स्थलमें दो सूत्रोद्धारा संक्षेपसे निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गके स्वरूपका व्याख्यान करके अब आचार्य छः गाथाओंतक क्रमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्त्वादित्रय इन तीनोंका विस्तारसे वर्णन करते हैं । उनमें प्रथम ही सम्यक्त्व ( सम्यग्दर्शन )को कहते हैं—

गाथाभावार्थः—जीव आदि पदार्थोंका जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्माका स्वरूप है । और इस सम्यक्त्वके होनेपर संशय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय इन तीनों दुरभिणिवेशोंसे रहित होकर सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ ४१ ॥

व्याख्यार्थः—“जीवादीसद्द्वयं ममतं” बीतराग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्रसे कहे हुए जो शुद्ध जीव आदि तत्त्व हैं उनके विषें चल मलिन तथा अवगाढकी रहितता पूर्वक जो श्रद्धान अर्थात् रुचि अथवा “जो जिनेन्द्रने कहा वही यह है, जिस प्रकारसे जिनेन्द्रने कहा है उस प्रकारसे यह है” इस प्रकार जो निश्चयरूप बुद्धि है वह सम्यग्दर्शन है । “रूबमप्पणो तं तु” और वह सम्यग्दर्शन अभेद नयसे आत्माका स्वरूप है अर्थात् आत्माका परिणाम है । अब सम्यग्दर्शनके सामर्थ्य अथवा माहात्म्यको दिखाते हैं । “दुरभिणिवेसविमुक्तं णाणं सम्मं खु होदि सदि जह्नि” जिस सम्यक्त्वके होनेपर चलायमान ज्ञान अर्थात् यह पुरुष है अथवा स्थाणु ( काष्ठका दूँठ ) है इस रूप संशय, नग्न करके हुए जैसा तृणके स्पर्श आदिका ज्ञान होता है उस ज्ञानके समान विमोह अथवा अनध्यवसाय तथा सीपके दुकड़ेमें चादीके विज्ञानके समान जो विभ्रम अर्थात्

इतो विस्तरः—सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्भवतीति यदुक्तं तस्य विवरणं कियते तथाहि—गौतमाग्निभूतिवायुभूतिनामानो विप्रा. पञ्चपञ्चशत्राहणोपाध्याया वेदच-  
तुष्टयं, उत्तोतिष्ठक्या करणादिषड्जानि, मनुस्मृत्याद्यष्टादशस्मृतिशास्त्राणि तथा भारताद्य-  
ष्टादशपुराणानि मीमांसा न्यायविस्तर इत्यादिलौकिकसर्वशास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि  
तेषा हि ज्ञानं सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन श्रीबीरव-  
द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेवसमवसरणे मानस्तम्भावलोकनमात्रादेवागमभाषया दर्शन-  
चारित्रमोहनीयोपशमक्षयसंज्ञेनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च काला-  
दिलविधिविशेषेण मिथ्यात्वं विलय गतं तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम् ।  
ततश्च “जयति भगवान् हेमाभोजप्रचारविजूर्भितावमरमुकुटीच्छायोद्दीर्णप्रभापरि-  
चुम्बितौ । कल्युपहृदया मानोद्भातः । परस्परवैरिणो विगतकलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य  
विशिश्वसुः ।” इति नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोचानन्तरमेव चतुर्ज्ञानसम्पद्धि-  
सम्प्रनाश्योऽपि गणधरदेवाः भंजाता । गौतमस्वामी भव्योपकारार्थं द्वादशाङ्गश्रुतरचनां  
कृतवान् । पश्चान्निश्चयरत्नत्रयभावनावलेन त्रयोऽपि मोक्ष गताः । शेषा पञ्चदशशतप्रमिन-  
त्राहणा जिनदीक्षां गृहीत्वा यथासम्भवं स्वर्गं मोक्षं च गता । अभव्यसेनः

विपर्यय है तीनोंसे रहित हुआ जो ज्ञान है वह सम्यग् ( समीचीन ) ज्ञान होता है । भावार्थ—सम्यक्त्वके पहले संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप दोषोंसे दूषित होनेके कारण ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता है और सम्यक्त्वके होते ही उक्त दोष ज्ञानमेंसे चले जाते हैं इस कारण वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । सो यह सम्यक्त्व ( सम्य-  
दर्शन ) का ही माहात्म्य है ।

अब विस्तारसे वर्णन करते हैं । उसमें प्रथम ही सम्यदर्शन होनेपर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है यह जो कहा गया है उसका विवरण करते हैं । तथाहि-पांच पांचसौ त्राहण-  
णोंके अध्यापक ( पढानेवाले ) गौतम, अग्निभूति और वायुभूति नामक तीन त्राहण  
चारों वेद, उत्तोतिष्ठक, व्याकरण आदि छहों अङ्ग, मनुस्मृति आदि अठारह स्मृतिशास्त्र,  
महाभारत आदि अठारह पुराण, तथा मीमांसा, न्यायविस्तर इत्यादि समस्त लौकिक  
शास्त्रोंको जानते थे तो भी उनका ज्ञान, सम्यदर्शनके विना मिथ्याज्ञान ही था ।  
परन्तु जब वे प्रसिद्ध कथाके अनुसार श्रीबीर वर्यमान ( महाबीर ) स्वामी तीर्थकुर  
परम देवके समवसरणमें गये तब मानस्तमके देखनेमात्रसे ही आगम भाषासे  
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीयके क्षयोपशमसे और अध्यात्म भाषासे निज शुद्ध  
आत्माके सन्मुख परिणाम तथा काल आदि लिंगोंके विशेषसे उनका मिथ्यात्व  
नाशको प्राप्त होगया और उसी समय उनका जो मिथ्याज्ञान था वही सम्यग्ज्ञान  
होगया । और सम्यग्ज्ञान होते ही “जयति भगवान्” इत्यादि रूप जो प्रसिद्ध  
श्लोक है उससे भगवान्को नमस्कार करके श्रीजिनेन्द्रको दीक्षाको धारण कर केशोंका  
जो लोच किया, उसके पीछे ही मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय नामक चार ज्ञान

पुनरेकादशाङ्गधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानी सञ्चात इति । एवं सम्यक्त्व-माहात्म्येन ज्ञानतपश्चरणतोपगमध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । तद्भावे विषययुक्तदुर्घमिव सर्वं वृथेति ज्ञातव्यम् ।

तच्च सम्यक्त्वं पञ्चविंशतिमल्लरहितं भवति । तद्यथा—देवतामूढलोकमूढसमयमूढ-भेदेन मूढत्रयं भवति । तत्र क्षुधाश्यादशदोषरहितमनन्तज्ञानाद्यनन्तगुणसहितं वीत-रागसर्वज्ञदेवतास्वरूपमजानन् ख्यातिपूजालाभरूपलावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रराज्यादिविभू-तिनिमित्तं रागद्वेषोपहतार्त्तरौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवाना यदाराधनं करोति जीवस्तदेवतामूढत्वं भण्यते । न च ते देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथमिति चेत् ? रावणेन रामस्वामिलक्ष्मीधरविनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डवनि-मूर्त्तनार्थं कात्यायनी विद्या साधिता, कंसेन च नारायणविनाशार्थं बह्योऽपि विद्याः समाराधितास्ताभिः वृत्तं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम् । तैस्तु यद्यपि मिथ्यादेवता नानुकूलितास्तथापि निर्मलसम्यक्त्वोपार्जितेन पूर्वकृतपुण्येन सर्वं निर्विघ्नं

तथा सात ऋद्धियोंके धारक होकर तीनों ही श्रीमहावीर स्वभीके समवशरणमें गणधर देव होगये । उनमेंसे गौतमस्वामीने भव्यजीवोंके उपकारके अर्थं द्वादशाङ्गरूप श्रुतकी रचना की । फिर वे तीनों ही निश्चयरक्तव्रयकी भावनाके बलसे मोक्षको प्राप्त हुए । और एकादश ( ग्यारह ) अगोंका पाठी भी जो एक अभव्यसेन नामक मुनि था वह सम्यक्त्वके विना मिथ्याज्ञानी ही रहा । इन उक्त दोनों कथाओंसे निश्चित हुआ कि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मिथ्यारूप भी जो ज्ञान, तपश्चरण, त्रत, उपशम तथा ध्यान आदि हैं वे सम्यग् हो जाते हैं । और सम्यक्त्वके विना विष ( जहर ) से मिले दुर्घटके समान ज्ञान-तपश्चरणादि सब वृथा हैं, यह जानना चाहिये ।

और वह सम्यक्त्व पञ्चीस २५ मलोंसे अर्थात् दोषोंसे रहित होता है । वह इस प्रकार है—उन पञ्चीस दोषोंमें देवतामूढ, लोकमूढ तथा समयमूढके भेदोंसे तीन मूढता हैं । उनमें क्षुधा, कृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित, अनन्त ज्ञान आदि अनंत गुणोंसहित जो श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनके स्वरूपको नहीं जानता हुआ जीव ख्याति ( लोकमें प्रसिद्धता ), पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, खी और राज्य आदिकी सपदाको प्राप्त होनेके लिये जो राग तथा द्वेषसे युक्त और आर्त्त तथा रोद्र ध्यानरूप परिणामोंके धारक क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्याहृष्टी देवोंका आराधन करता है उसको देवतामूढ कहते हैं । और ये क्षेत्रपाल, चंडिका आदि देव कुछ भी फल नहीं देते हैं । फल कैसे नहीं देते हैं ? यदि ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि—रावणने श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके विनाशके लिये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, और कीरवोंने पांडवोंका मूलसे नाश करनेके अर्थं कात्यायनी विद्या सिद्ध

जातमिति । अथ लोकमूढत्वं कथयति । गङ्गादिनदीर्थस्नानसुद्रस्नानप्रातःस्नानजलप्र-  
वेशमरणाग्निप्रवेशमरणगोप्रहणादिमरणभूम्यग्निवटवृक्षपूजादोनि पुण्यकारणानि भवन्तीति  
यद्वदन्ति तल्लोकमूढत्वं विज्ञेयम् । अथ समयमूढत्वमाह । अज्ञानिजनचिच्चमत्कारो-  
त्पादकं ज्योतिष्ठकमन्त्रवादादिकं हृष्टा वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसमयं विहाय कुदेवागमलिङ्गिना  
भयागास्तेहलोभैर्धर्मार्थं प्रणामविनयपूजापुरस्कारादिकरणं समयमूढत्वमिति । एवमुक्तल-  
क्षणं मूढत्रयं सरागसम्यन्दृष्ट्यवस्थायाचां परिहरणीयमिति । त्रिगुप्तावस्थालक्षणवीतरागस-  
म्यक्त्वप्रस्तावे पुनर्निजनिरञ्जनिनिर्दोषपरमात्मैव देव इति निश्चयवुद्धिर्वतामूढरहितत्वं  
विज्ञेयम् । तर्थैव मिश्यात्वरागादिरूपमूढभावत्यागेन स्वशुद्धात्मन्येवावस्थान लोकमूढर-  
हितत्वं विज्ञेयम् । तर्थैव च समस्तगुभागुभसङ्कल्पविकल्परूपपरभावत्यागेन निर्विकार-  
तात्त्वकपरमानन्दैकलक्षणपरमसमरसीभावेन तस्मिन्नेव सम्यग्रूपेणायन गमनं परिणमनं  
समयमूढरहितत्वं वोद्धव्यम् । इति मूढत्रयं व्याख्यातम् ।

की थी, तथा कंसने श्रीष्ण नारायणके नाशके लिये बहुतसी विद्याओंकी आराधना  
की थी । परन्तु उन विद्याओंने श्रीरामचन्द्रजी, पांडव और श्रीकृष्णनारायणका कुछ भी  
अनिष्ट नहीं किया । और श्रीरामचन्द्रजी आदिने इन मिश्याद्वयी देवोंको अनुकूल  
नहीं किया अर्थात् नहीं आराधे तो भी निर्मलसम्यगदर्शनसे उपार्जित जो पूर्वभवका पुण्य है  
उससे उनके सब विज्ञ दूर होगये । अब लोकमूढताका कथन करते हैं । “गंगा आदि  
जो नदीरूप तीर्थ हैं उनमें स्नान करना, समुद्रमें स्नान करना, प्रात् ( प्रभात )  
कालमें स्नान करना, जलमें प्रवेश करके मर जाना, मृतक ( मुर्हे ) की अग्नि ( चिता )  
में प्रवेश करके मरना, गो ( गाय ) के पुच्छ आदिको ग्रहण करके मरण करना,  
पृथिवी-अग्नि और वट ( वड ) वृक्ष आदिकी पूजा करना” ये सब पुण्यके कारण हैं  
इस प्रकार जो लोग कहते हैं उसको लोकमूढता जानना चाहिये । अब समयमूढ  
अर्थात् शाख अथवा धर्म-मूढताको कहते हैं । अज्ञानी लोगोंके चित्तमें चमत्कार  
( आश्र्वय ) उत्पन्न करनेवाले ज्योतिष्ठक अथवा मन्त्रवाद आदिको देखकर, श्रीवीत  
राग सर्वज्ञारा कहा हुआ जो समय ( धर्म ) है उसको छोड़कर मिश्याद्वयी देव,  
मिश्या आगम और सोटा तप करनेवाले कुलिङ्गी, इन सबका भयसे, वाल्लासे, स्नेहसे  
और लोभवश जो धर्मके लिये प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदिका करना है  
उस सबको समयमूढता जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणकी धारक जो तीन  
मूढता हैं इनको सरागसम्यग्दृष्टीकी अवस्था ( दशा ) में त्यागना चाहिये । और मन,  
वचन तथा कायकी गुप्तिरूप अवस्था है लक्षण जिसका ऐप्रा जो वीतरागसम्यक्त्व  
है उसके प्रस्ताव ( निरूपण ) में अपना निरंजन तथा निर्दोष जो परमात्मा है वही  
देव है ऐसी जो निश्चय बुद्धि है यही देवमूढतासे रहितता जाननी चाहिये ।

अथ मदाष्टस्वरूपं कथयते । विज्ञानैश्वर्यव्वानतपःकुलजातिरूपसंज्ञं मदाष्टकं सरागस-  
न्यगृहष्टिभिस्याक्षमिति । बीतरागसन्यगृहष्टीना पुनर्मानकषायादुत्पन्नमदमात्सर्यादिसम-  
स्तविकल्पजालपरिहारेण ममकाराहङ्काररहिते शुद्धात्मनि भावनैव मदाष्टकत्याग इति ।  
ममकाराहङ्कारलक्षणं कथयति । कर्मजनितदेहपुत्रकलत्रादौ ममेदमिति ममकारस्तत्रैवा-  
भेदेन गौरस्थूलादिदेहोऽहं, राजाहमित्यहङ्कारलक्षणमिति ।

अथानायतनषट्कं कथयति । मिथ्यादेवो, मिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, मिथ्यात-  
पस्वी, मिथ्यागमो, मिथ्यागमधरा पुरुषाश्वेत्युक्तलक्षणमनायतनषट्कं सरागसन्यगृहष्टीना-  
त्याच भवतीति । बीतरागसन्यगृहष्टीना पुनः समस्तदोपायायतनभूतानां मिथ्यात्वविषयक-  
पायरूपायतनानां परिहारेण केवलज्ञानाद्यनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवास एवा-

तथा मिथ्यात्व-राग आदिरूप जो मूढभाव हैं इनका त्याग करनेसे जो निज शुद्ध  
आत्मामे स्थितिका करना है वही लोकमूढतासे रहितता है, यह जानने योग्य है । इसी  
प्रकार सपूर्ण शुभ तथा अशुभरूप जो संकल्पस्वरूप परभाव हैं उनके त्यागरूप  
जो विकाररहित-वास्तविक-परमानन्दमय लक्षणका धारक परम समताभाव है उससे  
उस निज शुद्ध आत्मामे हो जो सम्यक्प्रकारसे अथन अर्थात् गमन अथवा परिणमन  
करना है उसको समयमूढतासे रहितता समझना चाहिये । इस प्रकार तीन मूढ-  
ताका व्याख्यान किया ।

अब आठ मदोंके स्वरूपको कहते हैं । विज्ञान ( कला अथवा हुनर ) का मद १,  
ऐश्वर्य ( हुक्मत ) का मद २, ज्ञानका मद ३, तपका मद ४, कुलका मद ५, वलका  
मद ६, जातिका मद ७ और रूपका मद ८, इस प्रकार नामोंके धारक जो आठ मद हैं  
इनका सरागसन्यगृहष्टियोंको त्याग करना चाहिये । और मान कषायसे उत्पन्न जो मद  
मात्सर्य ( ईर्षा ) आदि समस्त विकल्पोंका समूह है उसके त्यागपूर्वक जो ममकार  
और अहंकारसे रहित शुद्ध आत्मामें भावना है वही बीतरागसन्यगृहष्टियोंके आठ मदोंका  
त्याग है । ममकार तथा अहंकारके लक्षणको कहते हैं । कर्मोंसे उत्पन्न जो देह,  
पुत्र, खी आदि हैं इनमें यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्र है, इस प्रकारकी जो बुद्धि है  
वह ममकार है, और उन शरीर आदिमें अपनी आत्मासे भेद न मानकर जो मैं  
गोरे वर्णका हू, मोटे शरीरका धारक हूं, राजा हू, इस प्रकार मानना सो अहंका-  
रका लक्षण है ।

अब छ. अनायतनोंका कथन करते हैं । मिथ्यादेव १, मिथ्यादेवोंके सेवक २, मिथ्या-  
तप ३, मिथ्यातपस्वी ४, मिथ्याशाश्व ५ और मिथ्याशाश्वोंके धारक पुरुष ६, इव प्रकार  
पूर्वोक्त लक्षणके धारक जो छः अनायतन हैं ये सरागसन्यगृहष्टियोंको त्याग करने  
योग्य होते हैं । और जो बीतरागसन्यगृहष्टी जीव हैं उनके संपूर्ण दोषोंके स्थानभूत मिथ्यात्व,

नायतनसेवापरिहार इति । अनायतनशब्दस्यार्थः कथ्यते । सम्यक्त्वादिगुणानामायतनं गृहमावास आश्रय आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्विपक्षभूतमनायतनमिति ।

अतः परं शङ्काद्यष्टमलत्यागं कथयति । निःशङ्काद्यष्टगुणप्रतिपालनमेव शङ्काद्यष्टमलत्यागो भण्यते । तद्यथा—रागादिदोषा अज्ञानं बाऽसत्यवचनकारण तदुभयमपि वीतरागसर्वज्ञानां नास्ति तत् कारणात्तप्रणोते हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्यैः सशयः सन्देहो न कर्त्तव्यः । तत्र शङ्कादिदोषपरिहारविषये पुनरखनचौरकथा प्रसिद्धा । तत्रैव विभीषणकथा । तथाहि—सीताहरणप्रवृद्धके रावणस्य रामलक्ष्मणाभ्यां सह संग्रामप्रस्तावे विभीषणेन विचारितं रामस्तावदष्टमवलदेवो लक्ष्मणश्चाष्टमो वासुदेवो रावणश्चाष्टमः प्रतिवासुदेव इति । तस्य च प्रतिवासुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति जैनागमे पठितमास्ते तन्मिथ्या न भवतीति निःशङ्को भूत्वा त्रैलोक्यकण्टकं रावणं स्वकीयज्येष्ठ-भ्रातरं त्यक्त्वा त्रिशदक्षीहिणीप्रगितचतुरङ्गवलेन सह स रामस्वामिपार्थे गत इति । तथैव देवकीवसुदेवद्वयं निःशङ्क ज्ञातव्यम् । तथाहि—यदा देवकीवालकस्य मारणनिमित्तं

विषय तथा कषायरूप आयतनोंके त्यागपूर्वक केवलज्ञान आदि अनन्तगुणोंके स्थानभूत निज शुद्ध आत्मामे जो निवासका करना है वही अनायतनोंकी सेवाका त्याग है । अनायतन शब्दके अर्थको कहते हैं । सम्यक्त्व आदि गुणोंका आयतन अर्थात् घर, आवास, आश्रय अथवा आधार करनेका जो निमित्त है उसको आयतन कहते हैं और जो सम्यक्त्व आदि गुणोंसे विपरीत मिथ्यात्व आदि दोषोंके धारण करनेका निमित्त है वह अनायतन है ।

अब इसके अनंतर शङ्का आदि आठ दोषोंके त्यागका कथन करते हैं । निःशंक आदि आठ गुणोंका जो पालन करना है वही शंकादि आठ मलों ( दोषों ) का त्याग कहलाता है । वह इस प्रकार है—राग आदि दोष तथा अज्ञान ये दोनों असत्य ( शूद्र ) वचन वोलनेमें कारण हैं और रागादि दोष तथा अज्ञान ये दोनों ही वीतराग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्र देवोंके नहीं हैं, इस कारण श्रीजिनेन्द्रदेवोंसे निरूपित किये हुए हेयोपादेयतत्त्वमें अर्थात् यह त्यज्य है, यह प्राप्य है, इस प्रकारके तत्त्वमें, मोक्षमें और मोक्षमार्गमें भव्यजीवोंको सन्देह नहीं करना चाहिये । इस स्थलमें प्रथम जो शकादोष है इसके त्यागके विषयमें अख्लन चोरकी कथा शाखोंमें प्रसिद्ध ही है और विभीषणकी भी कथा इस प्रकरणमें जाननी चाहिये । उसीका कथन करते हैं कि, सीताजीके हरणके प्रसागमें जब रावणका श्रीरामलक्ष्मणके साथ युद्ध करनेका अवसर आया तब विभीषणने विचार किया कि श्रीरामचन्द्रजी तो अष्टम ( द वें ) वलदेव हैं और लक्ष्मणजी अष्टम नारायण है तथा रावण अष्टम प्रतिनारायण है । और जो प्रतिनारायण होता है उसका नारायणके हाथसे मरण होता है, ऐसा जैनशाखोंमें

कंसेन प्रार्थना कृता तदा ताभ्यां पार्योलोचित्तं मदीयः पुत्रो नवमो वासुदेवो भविष्यति तस्य हस्तेन जरासिंधुनाश्रो नवमप्रतिवासुदेवस्य कसस्यापि मरणं भविष्यतीति जैनागमे भणितं तिष्ठतीति, तथैवातिमुक्तभट्टारकैरपि कथितमिति निश्चित्य कंसाय स्वकीय बालकं दत्तम् । तथा श्रेष्ठमव्यैरपि जिनागमे शङ्का न कर्तव्येति । इदं व्यवहारेण सम्यक्त्वस्य व्याख्यानम् । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिःशङ्कागुणस्य सठकारित्वेनेहलोकात्राणागु-स्मिरणव्याधिवेदनाकस्मिकाभिधानभयसप्तकं मुक्त्वा घोरोपसर्गपरीषहप्रस्तावेऽपि शुद्धो-पयोगलक्षणनिश्चयरक्त्रयभावेनैव निःशङ्कगुणो ज्ञातव्य इति ।

अथ निष्काडक्षितागुणं कथयति । हहलोकपरलोकाशास्त्रभोगाकांक्षानिदानतथागेन देवलक्ष्मानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थं ज्ञानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठानकरण निष्कांक्षागुणो भण्यते । तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा कथयते । सीता यदा लोकापवादपरिहारार्थं दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्त-

पढा गया है, वह मिथ्या नहीं हो सकता, इस प्रकार शकारहित होकर अपना बड़ा भाई जो तीन लोकका कंटक रावण था उसको छोड़कर तीस अक्षीहिणी सेना प्रमाण जो अपना चतुरंग ( हाथी, घोड़ा, रथ, पथारेष्वर ) बढ़ था उस सहित श्रीरामचन्द्रजीके सभीप चला गया । इसी प्रकार देवको तथा वसुदेवको भी शकारहित जानना चाहिये । सोही दिखाते हैं कि, जैसे जब कंसने देवकीके बालको मारनेके लिये प्रार्थना की तब देवकी और वसुदेवने विचार किया कि मेरा पुत्र नवम ( ९ वां ) नारायण होगा और उसके हाथसे जरासिंधुनामक नवम प्रतिनारायणका और कंसका मरण होगा यह जैनागममें कहा हुआ है, और श्री भट्टारक अतिमुक्त स्वामीने भी ऐसा ही कहा है, इस प्रकार निश्चय करके कंसको अपना बालक देना स्वीकार किया । जैसे इन उक्त पुरुषों ने अपनी शंकारहित प्रवृत्ति की, इसी प्रकार अन्य भव्यजीवोंको भी जैनशास्त्रोंमें शंका नहीं करनी चाहिये । यह व्यवहारनयसे सम्यक्त्वका व्याख्यान किया । और निश्चयसे उस व्यवहार निःशकागुणकी सहायतासे इस लोकका भय १, परलोकका भय २, रक्षाके स्थानके अभावसे उत्पन्न भय ३, मरणभय ४, व्याधिभय ५, वेदनाभय ६ और आकस्मिक भय ७, इन नामोंके धारक जो सात भय हैं उनको छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परीषहोंके आनेपर भी शुद्ध उपयोगरूप जो निश्चय रक्त्रय है उसकी भावनाको ही निःशंका गुण जानना चाहिये ।

अब निष्कांक्षित गुणको कहते हैं । इस लोक तथा परलोकसंबंधी आशास्त्र जो भोगाकांक्षानिदान है इसका त्याग करके जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी अकट्टारूप मोक्ष है उसके अर्थ ज्ञान, पूजा, तपश्चरण आदि अनुष्ठानोंका जो करना है वही निष्कांक्षिता गुण कहलाता है । इस गुणमें अनतमतीकी कथा प्रसिद्ध है । दूसरी सीता महारानीकी कथा है, उसको कहते हैं । जब लोकके अपवाद ( निदा )को दूर

पट्टमहादेवीभूतिपदं त्यक्त्वा सकलभूषणानगारकेवल्लिपादमूले कृतान्तवक्तादिराजभि-  
स्तथा बहुराजीभिश्च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा शशिप्रभाधार्मिकासमुदायेन सह ग्रामपुरखे-  
टकादिविहारेण भेदाभेदरत्नत्रयभावनया द्विषष्ठिवर्षाणि जिनसमयप्रभावनां कृत्वा पश्चा-  
दवसाने व्रयचिंशहिवसपयेन्त निर्विकारपरमात्मभावनासहित संन्यासं कृत्वा अच्युताभि-  
धानघोडशस्वर्गे प्रतीन्द्रतां याता । ततश्च निर्मलसम्यक्त्वफल दृष्ट्वा धर्मानुरागेण नरके राव-  
णलक्ष्मणयोः संबोधनं कृत्वेदानीं स्वर्गे तिष्ठति । अग्रे स्वर्गादागत्य सकलचक्रवर्तीं भवि-  
ज्यति । तौ च रावणलक्ष्मीधरौ तस्य पुत्रौ भविज्यत । ततश्च तोर्थङ्करपादमूले पूर्वभवा-  
न्तरं दृष्ट्वा पुत्रद्वयेन सह परिवारेण च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा भेदाभेदरत्नत्रयभावनया  
पश्चानुत्तरविमाने त्रयोऽप्यहमिन्द्रा भविज्यति । तस्मादागत्य रावणस्तीर्थकरो भवि-  
ज्यति, सीता च गणधर इति, लक्ष्मीधरो धातकीखण्डद्वीपे तीर्थकरो भविज्यति । इति  
व्यवहारनिष्काशितागुणो विज्ञातव्य । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिष्काशागुणस्य  
सहकारित्वेन दृष्ट्व्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रिभोगत्यागेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पत्तपारमार्थिकस्वा-  
त्मोत्थमुखामृतरसे चित्तसन्तोषः स एव निष्कांक्षा गुण इति ।

---

करनेके लिये सीताजी अग्निकुण्डमें दिव्य ( धीज ) लेकर निर्दोष सिद्ध हुई तब श्रीराम-  
चद्रजीने उनको पट्टमहारानीका पद दिया, परन्तु सीताजीने पट्टमहादेवीकी सम्पदाको  
छोड़कर वेवलज्ञानी श्रीमकलभूषण मुनिके चरणमूलमें कृतान्तवक्त आदि राजा तथा  
बहुतसी राजियोंसहित श्रीजिनदीक्षाको ग्रहण करके शशिप्रभा आदि आर्थिकाओंके समूह  
सहित ग्राम, पुर, खेटक आदिमें विहारद्वारा भेदाभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे  
बासठवर्ष पर्यन्त जिनमतकी प्रभावना की । फिर अन्त्य समयमें तेंतीस दिन पर्यन्त निर्विकार  
परमात्माके ध्यानपूर्वक संन्यास ( समाधि मरण ) करके अच्युत नामक सोलहवें स्वर्गमें  
प्रतीन्द्र हुई । और वहांपर उन्होंने ( सीताजीके जीव प्रतीन्द्रने ) अवधिज्ञानसे निर्मल  
सम्यगदर्शनके फलको देखकर धर्मके अनुरागसे नरकमें जाकर रावण और लक्ष्मणके जीवों-  
को संबोधा और वे ( प्रतीन्द्र ) अब स्वर्गमें विराज रहे हैं । आगे सीताजीका जीव स्वर्गसे  
आकर सकल चक्रवर्ती होगा और वे दोनों रावण तथा लक्ष्मणके जीव इस चक्रवर्तीके पुत्र  
होंगे । पश्चात् श्रीतीर्थङ्करके चरणमूलमें अपने पूर्वभवोंको देखकर दोनों पुत्र तथा परिवार-  
सहित सीताजीका जीव सकल चक्रवर्ती दीक्षाको ग्रहण कर भेदाभेदरत्नत्रयकी भाव-  
नासे, सीता, रावण तथा लक्ष्मण ये तीनों ही पाँच अनुत्तर विमानोंमें अहमिन्द्र होंगे ।  
वहांसे आकर रावण तो तीर्थङ्कर होगा और सीताजीका जीव गणधर होगा । तथा  
लक्ष्मणजी धातकीखंड द्वीपमें तीर्थङ्कर होंगे । इस प्रकार व्यवहार निष्काशितागुणका  
स्वरूप जानना चाहिये । और निश्चयसे उसी व्यवहार निष्काशागुणकी सहायतासे देखे,  
सुने तथा अनुभव किये हुए जो पांचों इद्रियोंसंबन्धी भोग हैं इनके त्यागसे निश्चय-

अथ निर्विचिकित्सागुणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकभव्यजीवानां दुर्गन्धवीभ-  
त्सादिक दृष्टा धर्मबुद्धया कारण्यभावेन वा यथायोग्य विचिकित्सापरिहरणं द्रव्यनिर्विचि-  
कित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जैनसमये सर्वं समीचीनं परं किन्तु वस्त्रप्रावरण जलस्ना-  
नादिकं च न कुर्वन्ति तदेव दूषणमित्यादिकुत्सितभावस्य विशिष्टविवेकवलेन परिहरणं  
सा निर्विचिकित्सा भण्यते । अस्य व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य विषय उद्दायनमहारा-  
जकथा रुक्मणीमहादेवीकथा चागमप्रमिद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहार-  
निर्विचिकित्सागुणस्य वलेन समस्तद्वेषादिविकल्परूपकल्पोलमालात्मागेन निर्मलात्मानुभूति-  
लक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्विचिकित्सागुण इति ।

इतः परममूढदृष्टिगुणकथां कथयति । वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमार्थाद्विभूतैः कुट्ठि-  
भिर्यत्प्रणीत धातुवादखन्यवादहरमेखलक्षुद्रविद्याव्यन्तरविकुर्वणादिकमज्ञानिजनिर्वित्तचम-  
त्कारोत्पादक दृष्टा श्रुत्वा च योऽसौ मूढभावेन धर्मबुद्धया तत्र रुचि भक्ति न कुरुते स  
एव व्यवहारोऽमूढदृष्टिरुच्यते । तत्र चोत्तरमथुराया उदुरुलिभद्रारकरेवतीश्राविकाचन्द्र-

रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक निज आत्मासे उत्पन्न सुखरूपी असृत रस  
है उसमें जो चित्तका संतोष होना है वही निष्कांक्षागुण है ।

अब निर्विचिकित्सा नामक गुणको कहते हैं । भेद-अभेदरूप रत्नत्रयको आराधने  
वाले जो भव्यजीव हैं उनकी दुर्गन्धि तथा भयंकर आकृति आदिको देखकर धर्मबुद्धिसे  
अथवा करुणाभावसे यथायोग्य विचिकित्सा ( गठानि ) को जो दूर करना है उसको  
द्रव्यनिर्विचिकित्सा गुण कहते हैं । और “जैनमतमें सब अच्छी अच्छी वातें हैं परन्तु  
वस्त्रके आवरणसे रहितता अर्थात् नग्नपना और जलस्नान आदिका न करना यही  
दूषण है” इसको आदि ले जो कुत्सित ( वुरे ) भाव हैं इनको विशेषज्ञानके बलसे  
जो दूर करना सो निर्विचिकित्सा कहलाती है । यह जो व्यवहार निर्विचिकित्सागुण है इसके  
पालनेके विषमे उद्दायन नामक महाराजा तथा रुक्मणी नामक श्रीकृष्णकी पट्टरानीकी  
कथा शास्त्रमें प्रसिद्ध जाननी चाहिये । और निश्चयसे तो इसी व्यवहारनिर्विचि-  
कित्सा गुणके बलसे जो समस्त रागद्वेष आदि विकल्परूप तरणोंके समूहका त्याग  
करके निर्मल आत्मानुभव लक्षण निज शुद्ध आत्मामें स्थिति करना है सो वही निर्विचि-  
कित्सा गुण है ॥ ३ ॥

अब इसके आगे अमूढदृष्टि गुणका कथन करते हैं । श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव  
कथित जो शास्त्रका आशय है उससे वहिभूत जो कुट्ठियोंके बनाये हुए अज्ञानी  
जनोंके चित्तमें विस्मय उत्पन्न करनेवाले धातुवाद ( रसायनशास्त्र ), खन्यवाद, हरमे-  
खल, क्षुद्रविद्या, व्यन्तर विकुर्वणादिक शास्त्र हैं उनको देखकर तथा सुनकर जो कोई  
मूढभावसे धर्मकी बुद्धि करके उनमें प्रीति तथा भक्ति नहीं करता है उसीको व्यव-

प्रभनामविद्याधरब्रह्मचारिसम्बन्धिनी कथा प्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारमू-  
ढद्विष्णुणस्य प्रसादेनान्तरतत्त्ववहिस्तत्त्वनिश्चये ज्ञये जाते सति समस्तमिथ्यात्वरागादिशुभा-  
शुभसङ्कल्पविकल्पेष्टात्मवुद्धिमुषादेयवुद्धि हितवुद्धि ममत्वभाव त्यक्त्वा त्रिगुप्तिरूपेण  
विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावे निजात्मनि यन्त्रिश्चलावस्थान तदेवामूढद्विष्टमिति । सङ्कल्पवि-  
कल्पलक्षणं कथयते । पुत्रकल्पादौ विहिर्व्यये ममेदमिति कल्पना सङ्कल्प, अभ्यन्तरे  
सुख्यह दुख्यहमिति हर्षविषादकारण विकल्प इति । अथवा वस्तुवृत्त्या सङ्कल्प इति  
कोऽर्थां विकल्प इति तस्यैव पर्यायः ॥ ४ ॥

अथोपगृहनगुणं कथयति । भेदाभेदरक्तव्रयभावनारूपो मोक्षमार्गं स्वभावेन शुद्ध एव  
त्वावन्, तत्राहानिजननिमित्तेन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य पैशुन्यं दूषणमपवादो  
दुष्प्रभावना यदा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यार्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्वर्मार्थं  
दोषस्य झन्पनं निवारणं कियते तद्व्यवहारनयेनोपगृहनं भण्यते । तत्र मायान्रह्मचारिणा  
पार्श्वभट्टारकप्रतिमारन्नरक्तहरणे कृते सत्युपगृहनविषये जिनदत्तश्रेष्ठिकथा प्रसिद्धेति ।  
अथवा रुद्रजनन्या ज्येष्ठासज्ञाया लोकापवादे जाते सति यदोषश्नन्पन कृतं तत्र चेलि-

हारसे अमूढद्विष्टगुण कहते हैं । और इस गुणके पालनके विषयमें उत्तर मथुरामें  
चदुरुलि भट्टारक, रेवती श्राविका और चद्रप्रभनामक विद्याधर ब्रह्मचारीसवंधी कथा  
शाखोंमें प्रसिद्ध है । और निश्चयमें इसी व्यवहार अमूढद्विष्टगुणके प्रसादसे जब अन्तर-  
रगके तत्त्व (आत्मा) और वाह्य तत्त्व (शरीरादि) का निश्चय हो जाता है तब  
संपूर्ण मिथ्यात्व, राग आदि तथा शुभ-अशुभ-संकल्पविकल्पोंके इष्ट जो इनमें आत्मवुद्धि,  
उपादेय (ग्राह) वुद्धि हितवुद्धि और ममत्वभाव हैं उनको छोड़कर मन, वचन,  
काय इन तीनोंकी गुप्तिरूपसे विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शन स्वभावका धारक निज आत्मा है  
उसमें जो निवास करना (ठहरना) है वही अमूढद्विष्ट नामा गुण है । संकल्प और  
विकल्पके लक्षणको कहते हैं । पुत्र तथा घोड़ी आदि जो वाह्य पदार्थ हैं, उनमें ये मेरे  
हैं ऐसी जो कल्पना है वह तो संकल्प है, और अन्तरगमें मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इस  
प्रकार जो हर्ष तथा खेड़का करना है सो विकल्प है । अथवा यथार्थरूपसे जो सकल्प है  
चही विकल्प है अर्थात् सकल्पके विवरणरूपसे विकल्प सकल्पका पर्याय हो है ।

अब उपगृहन गुणका कथन करते हैं । यद्यपि भेद अभेद रक्तव्रय की भावनारूप जो  
मोक्षमार्ग है वह स्वभावसे ही शुद्ध है तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्यके निमित्तसे  
अथवा धर्मपालनमें असमर्थ जो पुरुष हैं उनके निमित्तसे जो धर्मकी चुगली, निन्दा,  
दूषण तथा अप्रभावना हो तब शाखके अनुकूल शक्तिके अनुसार घनसे अथवा धर्मके उपदे-  
शसे जो धर्मके लिये उसके दोषोंका ढकना है तथा दूर करना है उसको व्यवहार उप-  
गृहन गुण कहते हैं । इस व्यवहार उपगृहन गुणके पालनके विषयमें जब एक कपटो ब्रह्म-

नीभूदेवीकथेति । तथैव निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारोपगृहनगुणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमा-त्मनि सम्यक् श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपं यद्ध्यानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं क्षम्पन तदेवोपगृहनमिति ॥

अथ स्थितीकरणं कथयति । भेदभेदरत्नत्रयधारकस्य चातुर्वर्णसहस्रस्य भव्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्रमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्र वा परित्यक्तं वाबछति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्या धर्मश्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्भूमे स्थिरत्वं कियते तदव्यवहारेण स्थितीकरणमिति । तत्र च पुष्पडालतपोधनस्य स्थिरीकरणप्रस्तावे वारिषेणकुमारकथागमप्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारेण स्थितीकरणगुणेन धर्मदृढत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्तमिथ्यात्वरागादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमात्मस्वभावभावनोत्पन्नपरमानन्दकलक्षणसुखाभृतरसास्वादेन तत्त्वयतन्मयपरमस्मरसीभावेन चित्तस्थितीकरणमेव स्थितीकरणमिति ।

अथ वात्सल्याभिधानं सम्भाङ्गं प्रतिपादयति । बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे चतुर्विध-

चारीने श्रीपार्श्वनाथस्वामी की प्रतिमामें लगे हुए रत्नको चुराया उस समय जिनदक्ष सेठने जो उपगृहन किया था वह कथा शाखोंमें प्रसिद्ध है । अथवा रुद्र ( महादेव ) की जो ज्येष्ठा नामक माता थी उसका जब लोकापवाद ( लोकनिन्दा ) हुआ तब उसके दोषके ढकनेमें चेलिनी महाराणी की कथा शाखप्रसिद्ध है । इसी प्रकार निश्चयसे व्यवहार उपगृहन गुणकी सहायतासे अपने निरञ्जन निर्दोष परमात्माको ढकनेवाले जो राग आदि दोष हैं उन दोषोंका उसी परमात्मामें सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो ध्यान है उसके द्वारा जो ढकना, नाश करना, छिपाना तथा ज्ञापन है वही उपगृहन है ।

अब स्थितीकरणगुणका कथन करते हैं । भेद तथा अभेद रूप रत्नत्रयको धारण करनेवाला जो मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका रूप चार प्रकारका संघ है उसमेंसे जो कोई दर्शनमोहनीके उदयसे दर्शनको अथवा चारित्रमोहनीके उदयसे चारित्रको छोड़नेकी इच्छा करै उसको शाखकी आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश श्रवण करानेसे, धनसे वा सामर्थ्यसे अथवा किसी उपायसे जो धर्ममें स्थिर करदेना है वह व्यवहारसे स्थितीकरण गुण है । और इस गुणमें पुष्पडालमुनिको धर्ममें स्थिर करनेके प्रसरणमें वारिषेण कुमारकी कथा शाखप्रसिद्ध है । और निश्चयसे उसी व्यवहारस्थितीकरणगुणसे जब धर्ममें दृढता होजावे तब दर्शनमोहनी तथा चारित्रमोहनीके उदयसे उत्पन्न जो समस्त मिथ्यात्व राग आदि विकल्पोंका समूह है उसके त्यागद्वारा निज परमात्माकी भावनासे उत्पन्न परम आनन्दरूप सुखामृत रसके आत्मादरूप जो परमात्मामें लीन अथवा परमात्मस्वरूप समरसी ( समता ) भाव है उससे जो चित्तका स्थिर करना है वही स्थितीकरण है ।

अब वात्सल्य नामक सम्भ अगका निरूपण करते हैं । बाह्य और अभ्यन्तर इन दोनों

सह्वे वत्से वेनुवत्पञ्चेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकलन्नसुवर्णादिस्नेहवद्वा यदकृत्रिमस्नेहकरणं तद्वययहारेण वात्सल्यं भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपद्मराजसंबन्धिना बलिनाम-दुष्टमन्त्रिणा निश्चयव्यवहाररत्नयाराधकाकम्पनाचार्यप्रभृतिसमशतयतीनामुपसर्गे क्रिय-माणे सति विष्णुकुमारनामा निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गाराधकपरमयतिना विकुर्वणद्विप्रभा-वेण वामनरूपं कृत्वा बलिमन्त्रिपार्थे पादत्रयप्रमाणभूमिप्रार्थनं कृत्वा पश्चादेकः पादो मेरुमस्तके दत्तो द्वितीयो मानुषोत्तरपर्वते तृतीयपादस्थावकाशो नास्तीति वचनच्छलेन मुनिवात्मस्त्यनिमित्तं बलिमन्त्रीवद्व इत्येका तावदागमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया च दशपु-रनगराधिपतेर्वज्रकर्णनामः । उज्जियनीनगराधिपतिना सिंहोदरमहाराजेन जैनोऽय मम नमस्कारं न करोतीति मत्त्वा दशपुरनगरं परिवेष्टय घोरोपसर्गे क्रियमाणे भेदाभेदरत्न-व्यभावनाप्रियेण रामस्वामिना वज्रकर्णवात्मस्त्यनिमित्तं सिंहोदरो वद्व इति रामायणमध्ये प्रसिद्धेयं वात्सल्यकथेति । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्मस्त्यगुणस्य सहकारि-त्वेन धर्मे दृढत्वे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्तशुभ्राह्मीवेषु प्रीतिं त्यक्त्वा

प्रकारके रत्नत्रयको धारण करनेवाले मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका रूप चारों प्रका-रके संघमें जैसे गो (गाय) की वत्समें प्रीति रहती है उसके समान, अथवा पांचों इद्रियोंके विषयोंके निमित्त पुत्र, छी, सुवर्ण आदिमें जो स्नेह रहता है उसके समान, अतुल्य स्नेह ( प्रीति ) का जो करना है वह व्यवहारनयकी अपेक्षा से वात्सल्य कहा जाता है । और इस विषयमें हस्तिनागपुर ( हथनापुर ) के राजा पद्मराजके बलिनामक दुष्ट मन्त्रीने जब निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके आराधक अकंपनाचार्य आदि सातसौ मुनियोंको उपसर्ग किया तब निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्ग ( रत्नत्रय ) के आराधनेवाले विष्णुकुमार नामक महामुनीश्वरने विक्रियात्रूद्धिके प्रभावसे वामन रूपको धारण करके बलिनामक दुष्ट मन्त्रीके पाससे तीन पग प्रमाण पृथक्कीया चना की और जब बलिने देना स्वीकार किया तब एक पग तो मेरुके शिखरपर दिया, दूसरा मानुषोत्तर पर्वतपर दिया और तीसरे पादको रखनेके लिये अवकाश ( स्थान ) नहीं रहा तब वचनछलसे प्रतिक्षाभगका दोष लगाकर मुनियोंके वात्सल्य निमित्त बलिमन्त्रीको वांध लिया । यह तो आगमप्र-सिद्ध कथा है ही और दूसरी ‘वज्रकर्ण नामक दशपुर नगरके राजा की प्रसिद्ध कथा है । वह यह है कि उज्जियनीके राजा सिंहोदरने वज्रकर्ण जैनी है और मुक्षका नमस्कार नहीं करता है’ ऐसा विचार करके जब वज्रकर्णसे नमस्कार करनेके लिये दशपुर नग-रको धेर कर घोर उपसर्ग किया तब भेदाभेद रत्नत्रयकी भावना है प्यारी जिनको ऐसे श्रीरामचन्द्रजीने वज्रकर्णके वात्सल्यके अर्थ सिंहोदरको बाध लिया । इस प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) में प्रसिद्ध है । और इसी व्यवहारवात्मस्त्यगुणके सहकारीप-नेसे जब धर्ममें दृढ़ता हो जाती है तब मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्णे वाह पदार्थोंमें

रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमस्वास्थ्यसंवित्तिसञ्चात् सदानन्दै कलक्षणसुखामृतरसास्वादं  
प्रति प्रीतिकरणमेवेति सप्तमाङ्गं व्याख्यातम् ॥

अथाष्टमाङ्गं नाम प्रभावनागुणं कथयति । शावकेन दानपूजादिना तपोधनेन च तपः-  
श्रुतादिना जैनशास्त्रनप्रभावना कर्त्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणे ज्ञातव्यः । तत्रः पुन-  
रुत्तरमशुरायां जिनसमयप्रभावनशीलाया उर्विज्ञामहादेव्याः प्रभावननिमित्तमुपसर्गे  
जाते सति वज्रकुमारनाम्ना विद्याधरश्रमणेनाकाशे जैनरथश्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका  
आगमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया तु जिनसमयप्रभावनाशीलव्रामहादेवीनामस्वकीयजनन्या  
निमित्तं स्वस्य धर्मानुरागेण च हरिषेणनामदशमचक्रवर्तिना तद्वावमोक्षगामिना जिनसम-  
यप्रभावनार्थमुत्तुङ्गतोरणजिनचैत्यालयमण्डितं सर्वभूमितल कृतमिति रामायणे प्रसिद्धेयं  
कथा । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य वलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभृति-  
समस्तविभावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हस्ता शुद्धोपयोगलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन  
विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव प्रभावनेति ॥ ८ ॥

एवमुक्तप्रकारेण मूढत्रयमदाष्टकपडनायतनशङ्काद्यष्टमलरहितं शुद्धजीवादितत्वार्थश्र-

प्रीतिको छोड़कर राग आदि विकल्पोंकी उपाधिरहित परमस्वास्थ्यके ज्ञानसे उत्पन्न सदा  
आनन्द रूप जो सुखमय असृतका आस्वाद है उसके प्रति प्रीतिका करना ही निश्चय  
वात्सल्य है । इस प्रकार सप्तम वात्सल्यअङ्गका व्याख्यान पूर्ण किया ।

अब अष्टम अङ्ग अर्थात् प्रभावनागुणका कथन करते हैं । आश्रव तो दान, पूजा  
आदिसे जो जैन मतकी प्रभावना करै और मुनि तप, श्रुत आदिसे जैनधर्मकी जो प्रभा-  
वना करै वही व्यवहारसे प्रभावना गुण है ऐसा जानना चाहिये । और इस गुणके पाल-  
नेमें उत्तरमशुरामें ( मशुरामें ) जिनमतकी प्रभावना करनेका है स्वभाव जिसका ऐसी उर-  
विला महादेवीको प्रभावनाके निमित्त जब उपसर्ग हुआ तब वज्रकुमार नामक  
विद्याधर श्रमणे आकाशमें जैनरथको फिराकर प्रभावना की, यह तो एक शाक्षमें  
प्रसिद्ध कथा है । और दूसरी कथा यह है कि उसी भवमें मोक्ष जानेवाले हरिषेण  
नामक दशवं चक्रवर्तीने जिनमतकी प्रभावना करनेका है स्वभाव जिसका ऐसी अपनी  
माता वप्रा महादेवीके निमित्त और अपने धर्मानुरागसे जिनमतकी प्रभावनाके लिये  
ऊचे तोरणोंके धारक जिनमंदिर आदिसे समस्त पृथ्वीतलको भूषित करदिया । इस  
प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) से प्रसिद्ध है । और निश्चयसे इसी व्यवहारप्रभा-  
वनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि जो सम्पूर्ण विभाव परिणाम हैं उन  
रूप जो परमतोंका प्रभाव है उसको नष्ट करके शुद्धोपयोग लक्षण स्वसंवेदन ज्ञानसे निर्मल  
ज्ञान, दर्शन रूप स्वभावके धारक निज शुद्ध आत्माका जो प्रकाशन अर्थात् अनुभवन  
करना है सो प्रभावना है ॥ ८ ॥

ऐसे इस पूर्वोक्त प्रकारसे तीन मूढ़ता, आठ मद, छः अनायतन और शंका आदि आठ

द्वानलश्चणं सरागसम्यक्त्वाभिधानं व्यवहारसम्यक्त्वं चिज्ञेयम् । तथैव तेनैव व्यवहारसम्यक्त्वेन पारम्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयमावनोत्पन्नपरमाहादैकरूपसुखामृतरसास्वादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिकं च हेयमिति रुचिरूपं वीतरागचारित्राचिनामूतं वीतरागसम्यक्त्वाभिधानं निश्चयसम्यक्त्वं च ज्ञातव्यमिति । अत्र व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये निश्चयसम्यक्त्वं किमर्थं व्याख्यातमिति चेद्व व्यवहारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्वं साध्यत इति साध्यसाधकभावज्ञापनार्थमिति ॥

इदानीं येषा जीवाना सम्यगदर्शनग्रहणात्पूर्वमायुर्वन्धो नास्ति तेषां ब्रताभावेऽपि नरनारकादिकुत्सितस्थानेषु जन्म न भवतीति कथयति । “सम्यगदर्शनशुद्धा नारकतिर्यग्पुंसकम्भीत्वानि । दुष्कुलविकृताल्पायुर्दिर्द्रिता च ब्रजन्ति नाब्रतिकाः । १ ॥” इतः परं मनुष्यगतिसमुत्पन्नसम्यग्हष्टेः प्रभावं कथयति । “ओजस्तेजोविद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । उत्तमकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः । १ ॥” अथ

दोप रूप जो पच्चीस मल हैं उनसे रहित तथा शुद्ध जीव आदि तत्त्वार्थोंके अद्वानरूप लक्षणका धारक, सरागसम्यक्त्वं है दूसरा नाम जिसका ऐसा व्यवहार सम्यक्त्वं जानना चाहिये । और इसी प्रकार उसी व्यवहार सम्यक्त्वद्वारा परंपरासे साधने योग्य, शुद्ध उपयोगरूप निश्चय रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न जो परम आहादरूप सुखामृतरसका आस्वादन है वही उपादेय है और इन्द्रियजन्य मुख आदिक हेय है ऐसी रुचिरूप तथा वीतरागचारित्रके विना नहीं उत्पन्न होनेवाला ऐसा वीतरागसम्यक्त्वं नामका धारक निश्चयसम्यक्त्वं जानना चाहिये । यहाँ इस व्यवहार सम्यक्त्वके व्याख्यानमें निश्चय सम्यक्त्वका वर्णन क्यों किया ? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि व्यवहारसम्यक्त्वसे निश्चयसम्यक्त्वं साधा ( सिद्ध किया ) जाता है, इस साध्यसाधकमावको अर्थात् व्यवहारसम्यक्त्वं साधक और निश्चयसम्यक्त्वं साध्य है इस वार्ताको विदित करनेके लिये किया गया है ।

अब जिन जीवोंके सम्यगदर्शनका ग्रहण होनेके पहले आयुका वन्ध नहीं हुआ है वे ब्रतका अभाव होनेपर भी अर्थात् ब्रत न करनेपर भी नर नारक आदि निंदनीय स्थानोंमें जन्म नहीं लेते ऐमा कथन करते हैं । “जिनके शुद्ध सम्यगदर्शन होगया हैं ऐसे जीव नरक गति और तिर्यच गतिमें नहीं उपजते हैं और नपूंसक, खी, नीचकुल, अङ्गहीन शरीर, अल्प आयु और दृरिद्रीपनको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ १ ॥” अब इसके आगे मनुष्य गतिमें जो सम्यग्हष्टि उत्पन्न होता है उसके प्रभावका वर्णन करते हैं । “जो दर्शनसे शुद्ध हैं ऐसे जीव दीप्ति, प्रताप, विद्या, वीर्य, यशवृद्धि, विजय और विभवसे सहित होते हैं और उत्तम कुलवाले, तथा विपुल ( बहुत ) धनके स्वामी होते हैं तथा इन पूर्वोंके गुणोंसे वे सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ होते हैं ॥ १ ॥” अब जो

देवगती पुनः प्रकीर्णकदेववाहनदेवकिल्विषदेवनीचदेवत्रयं विहायान्येषु महर्द्धिकदेवेषु-  
त्पद्धते सम्यग्गृह्णिः । इदानीं सम्यक्त्वग्रहणात्पूर्वं देवायुष्कं विहाय ये बद्धायुष्कास्तान्  
प्रति सम्यक्त्वमाहात्म्य कथयति । “हेद्विमछप्पुढवीण जोइसवणभवणसब्बइच्छीणं ।  
पुणिणदरे ण हि सम्भो ण सासणो णारयापुणे । १ ।” तमेवार्थं प्रकारान्तरेण कथयति  
“ज्योतिर्भावनभौमेषु षट्स्वधः श्वभूमिषु । तिर्यक्षु नृसुरखीषु सद्वृष्टिनैव जायते । १ ।”  
अथौपशमिकवेदकक्षायिकाभिधानसम्यक्त्वत्रयमध्ये कला गतौ कल्य सम्यक्त्वस्य सम्भ-  
वोऽस्तीति कथयति-“सौधर्मादिष्वसख्याच्चायुष्कतिर्यक्षु नृष्वपि । रत्नप्रभावनौ च स्यात्स-  
म्यक्त्वत्रयमङ्गिनाम् । १ ।” कर्मभूमिजपुरुपे च त्रयं सम्भवति बद्धायुष्के लब्धायुष्केऽपि ।  
किन्त्वौपशमिकमपर्याप्तावस्थायां महर्द्धिकदेवेष्वेव । “शेषेषु देवतिर्यक्षु षट्स्वधः श्वभू-  
मिषु । द्वौ वेदकोपशमकौ स्याता पर्याप्तदेहिनाम् । १ ।” इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्म-  
कमोक्षमार्गावयविनः प्रथमावयवभूतस्य व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ४१ ॥

सम्यग्गृह्णि देवगतिमें उत्पन्न होवे तो प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किल्विष देव, व्यन्तर देव, भवनवासी देव और ज्योतिषी देवोंके पर्यायको छोड़कर अन्य जो महाऋद्धिके धारक देव हैं उनमें उत्पन्न होते हैं । अब जिन्होंने सम्यक्त्वका ग्रहण करनेके पहले ही देव आयुको छोड़कर अन्य किसी आयुका बन्ध कर लिया है उनके प्रति सम्यक्त्वका माहात्म्य कहते हैं । “प्रथम नरकको छोड़कर अन्य ६ नरकोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, सब खोलिङ्गोंमें, और तिर्यचोंमें, सम्यग्गृह्णि उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥” अब इसी आशयको अन्य प्रकारसे कहते हैं कि “ज्योतिषी, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें, नीचेके ६ नरकोंकी पृथिवियोंमें, तिर्योंमें और मनुष्यखियोंके तथा देवखियोंके विषे सम्यग्गृह्णि उत्पन्न नहीं होता है । अब औपशमिक, वेदक और क्षायिक नामा जो तीन सम्यक्त्व हैं इनमेंसे किस गतिमें कौनसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है ? सो कहते हैं । “सौधर्म आदि स्वर्गोंमें असख्यात वर्षकी आयुके धारक तिर्यच और मनुष्योंमें अर्थात् भोगभूमिके मनुष्य और तिर्यचोंमें तथा रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वीमें जीवोंके उपशम, वेदक और क्षायिक ये तीनों सम्यक्त्व होते हैं ॥ १ ॥” और जिसने आयुको वांधलिया है अथवा प्राप्त करलिया है ऐसे कर्मभूमिके मनुष्यमें तीनोंही सम्यक्त्व होते हैं । परन्तु विशेष यह है कि अपर्याप्त अवस्थामें औपशमिक सम्यक्त्व महर्द्धिक देवोंमें ही होता है और “जो शेष ( वचे हुए ) देव तिर्यच हैं उनमें ६ नीचेकी नरकभूमियोंमें पर्याप्तजीवोंके वेदक और उपशम ये दो सम्यक्त्व होते हैं ॥ १ ॥” इस प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप जो रत्नत्रय स्वरूप अवयवी है उसका प्रथम अवयवभूत जो सम्यग्दर्शन है उसके व्याख्यानसे गाथा समाप्त हुई ॥ ४१ ॥

अथ रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गद्वितीयवर्णवरूपस्य सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूप प्रतिपादयति;—

संसयविमोहविभमविवज्जियं अप्परसरूपस्स ।

गहणं ममणाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२ ॥

व्याख्या । संसयविमोहविभमविवज्जियं” संशयः शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादकमागमज्ञानं किं वीतरागसर्वज्ञप्रणीत भविष्यति परस्परप्रणीत वेति ? संशय । तत्र दृष्टान्तः—स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । विमोहः परस्परसापेक्षनयद्वयेन द्रव्यगुणपर्यायादिपरिज्ञानाभावो विमोहः । तत्र दृष्टान्तः—गच्छत्तृप्त्यर्शवद्विमोहवद्वा । विभ्रमोऽनेकान्तात्मकवस्तुनो नित्यक्षणिकैकान्तादिरूपेण ग्रहण विभ्रम । तत्र दृष्टान्तः—शुक्तिकायां रजतविज्ञानवत् । इत्युक्तलक्षणसंशयविमोहविभ्रमैर्वर्जित “अप्परसरूपस्स गहणं” सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनस्वभावस्वात्मरूपस्य ग्रहण परिच्छेदनं परिच्छित्तस्तथा परद्रव्यस्य च भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरूपस्य जीवसम्बन्धनस्तथैव पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपस्य परकीयजीवरूपस्य च परिच्छेदनं यत्तत् “सम्मणाण” सम्यग्ज्ञानं भवति । तत्र कथंभूतं, “सायार” घटोऽयं

अब रत्नत्रयरूप जो मोक्षमार्ग है उसके द्वितीय अवयवरूप सम्यग्ज्ञानके स्वरूपका कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—आत्मस्वरूप और परपदार्थके स्वरूपका जो संशय, विमोह (अनध्यवसाय) और विभ्रम (विपर्यय) रूप कुज्ञानसे रहित जानना है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । यह आकार (विकल्प) सहित है और अनेक भेदोंका धारक है ।

व्याख्यार्थः—“संसयविमोहविभमविवज्जियं” शुद्ध आत्मतत्त्व आदिका प्रतिपादन करनेवाला जो शाब्दका ज्ञान है वह क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य है ? अथवा अन्यमतियों द्वारा निरूपण किया हुआ सत्य है ? इस प्रकार जो विचार करना है वह संशय है । इसमें दृष्टान्त ऐसा कि ‘क्या यह अंघकारमें स्थित पदार्थ स्थाणु (वृक्षका दूँठ) है अथवा कोई मनुष्यखड़ा हुआ है ?’ इस प्रकार विचारना संशय है । गमन करते हुए पुरुषके जैसे चरणोंमें लृण (घास) आदिका स्पर्श होता है और उसको मालूम नहीं होता कि क्या लगा, वा जैसे दिशाका भूल जाना होता है उसी प्रकार एक दूसरेकी आपसमें अपेक्षाके धारक जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप दो नय हैं उनके अनुसार जो द्रव्य, गुण तथा पर्याय आदिका नहीं जानना है उसको विमोह कहते हैं । जैसे किसीको सीपमें चांदीका और चांदीमें सीपका ज्ञान होजाय । इसी प्रकार जो अनेकान्तरूप वस्तु है उसको यह नित्य ही है, यह अनित्य ही है ऐसे जो एकान्तरूप जानना है वह विभ्रम है । इन पूर्वोक्त लक्षणोंके धारक संशय, विमोह और विभ्रमसे रहित जो “अप्परसरूपस्स गहणं” सहजशुद्ध केवलज्ञान तथा केवल दर्शन स्वभावके धारक निज आत्माके स्वरूपका जो जानना और जीवके संबंधी ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, व जो कर्मस्वरूप पर

पटोऽयमित्यादिग्रहणव्यापाररूपेण साकारं सविकल्पं व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमित्यर्थः । पुनश्च किञ्चित्प्रश्नः ? “अणेयमेयं तु” अनेकभेदं तु पुनरिति ॥

तस्य भेदाः कथ्यन्ते । मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानभेदेन पञ्चधा । अथवा श्रुत-ज्ञानाऽपेक्षया द्वादशाङ्गमङ्गमङ्गवाह्यं चेति द्विभेदम् । द्वादशाङ्गानां नामानि कथ्यन्ते । आचारं, सूत्रकृतं, स्थानं, समवायनामधेय, व्याख्याप्रज्ञसि, ज्ञात्कथा, उपासकाध्ययनं, अन्तर्वृतदर्शं, अनुत्तरोपपादिकदशं, प्रश्नव्याकरणं, विपाकसूत्रं, दृष्टिवादश्चेति । दृष्टिवादस्य च परिकर्मसूत्रप्रथमानुयोगपूर्वगतचूलिकाभेदेन पञ्च भेदाः कथ्यन्ते । तत्र चन्द्र-सूर्यजस्त्रद्वीपसागरव्याख्याप्रज्ञसि भेदेन परिकर्म पञ्चविध भवति । सूत्रभेदेनमेव । प्रथमानुयोगोऽप्येकभेद । पूर्वगत पुनरुत्पादपूर्वं, अग्रायणीयं, वीर्यानुप्रवाद, अस्तिनास्ति-प्रवाद, ज्ञानप्रवादं, सत्यप्रवादं, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानं, विद्यानुवादं, कल्याणनामधेय, प्राणानुवादं, क्रियाविशाल, लोकसंज्ञं, पूर्वं चेति चतुर्दशभेदम् । जलगत-स्थलगताकाशगतहरमेखलादिमायास्वरूपशक्तिन्यादिरूपपरावर्तनभेदेन चूलिका पञ्चविधा चेति संक्षेपेण द्वादशाङ्गव्याख्यानम् । अङ्गवाह्यं पुनः सामायिकं, चतुर्विंशतिस्तवं, बन्दना, - प्रतिक्रमणं, वैनायिक, कृतिकर्म, दशवैकालिकम्, उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहारः, कल्पाकल्पं, महाकल्पं, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकं, अशीतिकं चेति चतुर्दशप्रकीर्णकसज्जं बोद्धव्यसिति ।

द्रव्यका तथा पुद्गल आदि पांच द्रव्योंके स्वरूप और परजीवके स्वरूपका जो जानना है सा “सम्मण्णाणं” सम्यक् ज्ञान है । वह कैसा है कि “सायारं” साकार ( विकल्पसहित ) अर्थात् निश्चयरूप है । और फिर कैसा है कि “अणेयमेयं तु” अनेक भेदोंका धारक है ।

अब उस सम्यक् ज्ञानके भेद कहे जाते हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन भेदोंसे वह सम्यग्ज्ञान पांच प्रकारका है । अथवा श्रुतज्ञानकी अपेक्षाको लेकर ज्ञानके भेद करते हैं तो द्वादशाङ्गरूप अंग और अगवाह्य इन भेदोंसे दो प्रकारका है । उनमें द्वादश अंगोंके नाम कहते हैं । आचाराङ्ग १, सूत्रकृताङ्ग २, स्थानाङ्ग ३, समवायांग ४, व्याख्याप्रज्ञपत्यग ५, ज्ञात्कथांग ६, उपासकाध्ययनांग ७, अन्तर्कृत्तशाग ८, अनुत्तरोपपादिकदशाग ९, प्रश्नव्याकरणांग १०, विपाकसूत्राग ११, और दृष्टिवाद १२ ये द्वादश अंगोंके नाम हैं । अब दृष्टिवादनामक वारहवै अगके परिकर्म १, सूत्र २, प्रथमानुयोग ३, पूर्वगत ४, तथा चूलिका ५ इन भेदोंसे जो पाच भेद हैं उनका वर्णन करते हैं । उनमें चन्द्रप्रज्ञसि, सूर्यप्रज्ञसि, जंवद्वीपप्रज्ञसि, सागरप्रज्ञसि और व्याख्याप्रज्ञसि इन भेदोंसे प्रथम भेद जो परिकर्म है वह पांच प्रकारका है । सूत्र एक ही प्रकारका है । प्रथमानुयोग भी एक ही प्रकारका है । और जो चौथा पूर्वगत है वह उत्पादपूर्व १, अग्रायणीयपूर्व २, वीर्यानुप्रवादपूर्व ३, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व ४, ज्ञानप्रवादपूर्व ५, सत्यप्रवादपूर्व ६, आत्मप्रवादपूर्व ७, कर्मप्रवादपूर्व ८, प्रत्याख्यानपूर्व ९, विद्यानुवादपूर्व १०, कल्याणपूर्व ११, प्राणानुवादपूर्व १२, क्रियाविशालपूर्व १३ और लोकसारपूर्व १४, इन भेदोंसे चौदह प्रकारका है । जलगत-

अथवा वृषभादिचतुर्विंशतितीर्थक्षरभरतादिद्वादशचक्रवर्त्तिविजयादिनववलदेवत्रिपिटा-  
दिनववासुदेवसुग्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्धित्रिपिटपुरुषपुराणभेदभिन्नः प्रथमानुयोगो  
भण्यते । उपासकाध्ययनादौ श्रावकधर्मम्, आचारागधनादौ यतिधर्मं च यत्र मुख्यत्वेन  
कथयति स चरणानुयोगो भण्यते । त्रिलोकसारे जिनान्तरलोकविभागादिग्रन्थव्याख्यानं  
करणानुयोगो विज्ञेयः । प्राभृततत्त्वार्थसिद्धान्तादौ यत्र शुद्धाशुद्धजीवादिषड्द्रव्यादीना  
मुख्यवृत्त्या व्याख्यानं क्रियते स द्रव्यानुयोगो भण्यते । इत्युक्तलक्षणानुयोगचतुष्टय-  
रूपेण चतुर्विध श्रुतज्ञानं ज्ञातव्यम् । अनुयोगोऽधिकार, परिच्छेदः प्रकरणमित्याद्येकोऽर्थः ।  
अथवा षट्द्रव्यपञ्चान्तिकायसप्ततत्त्ववपदार्थपु 'मध्ये' निश्चयनयेन स्वकीयशुद्धात्मद्रव्यं,  
स्वशुद्धजीवास्तिकायो, निजशुद्धात्मतत्त्वं, निजशुद्धात्मपदार्थ उपादेयः । शेष च हेयमिति  
संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञानमिति ॥

चूलिका १, स्थलगत चूलिका २, आकाशगत चूलिका ३, हरमेखला आदि मायास्वरूप चूलिका  
४ और शाकिन्यादिरूप परावर्त्तन चूलिका ५ इन भेदोंसे चूलिका पांच प्रकारकी है । इस ---  
प्रकार संक्षेपसे द्वादशांगका व्याख्यान है । और जो अङ्गवाह्य श्रुतज्ञान है वह सामायिक  
१, चतुर्विशतिस्त्व २, वदना ३, प्रतिक्रमण ४, वैनयिक ५, कृतिकर्म ६, दशवैकालिक ७,  
अनुत्तराध्ययन ८, कल्पव्यवहार ९, कल्पाकल्प १०, महाकल्प ११, पुण्डरीक १२, महापुण्ड-  
रीक १३ और अशीतिक १४, इन प्रकीर्णकरूप भेदोंसे चौदह प्रकारका जानना चाहिये ॥

अथवा वृषभ आदि चौबीस तीर्थक्षरोंका, भरत आदि वारह चक्रवर्तियोंका, विजय  
आदि नी वलदेवोंका, त्रिपिट आदि नी नारयणोंका, और सुग्रीव आदि नी प्रतिनारायणोंका  
संबंध रखनेवाले जो तिरेस्थ द३ शलाकापुरुषोंके पुराण हैं उनरूप भेदोंका धारक जो है वह  
प्रथमानुयोग कहलाता है । उपासकाध्ययन आदिमें श्रावकका धर्म, और मूलाचार भगवती-  
आराधना आदि ग्रंथोंमें सुनिका धर्म जहा मुख्यतासे कहागया है वह दूसरा चरणानुयोग कहा  
जाता है । त्रिलोकसार, जिनान्तर और लोकविभाग आदि ग्रंथोंका व्याख्यान जिसमें हो  
उसको करणानुयोग जानना चाहिये । समयसार आदि प्राभृत ( पाहुड ) और तत्त्वार्थसूत्र,  
तथा सिद्धान्तआदि शास्त्रोंमें मुख्यतासे शुद्ध-अशुद्ध जीव आदि छः द्रव्य आदिका जो वर्णन  
किया गया है वह द्रव्यानुयोग कहलाता है । इस प्रकार उक्त लक्षणके धारक जो चार  
अनुयोग हैं उनरूप चार प्रकारका श्रुतज्ञान जानने योग्य है । अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद  
और प्रकरण इत्यादि शब्दोंका अथ एक ही है । अथवा षट् द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात  
तत्त्व और नी पदार्थ जो हैं उनमें निश्चयनयसे अपना शुद्ध आत्मद्रव्य, अपना शुद्ध जीव  
अस्तिकाय, निज शुद्ध आत्मतत्त्व तथा निज शुद्ध जो आत्मपदार्थ है वह तो केवल  
उपादेय है । और इसके सिवाय परके शुद्ध अशुद्ध जीवादि सभी हेय हैं । इस प्रकार  
संक्षेपसे हेय तथा उपादेय के भेदोंसे व्यवहारज्ञान दो प्रकार का है ॥

इदानी तेनैव विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्यं निश्चयज्ञानं कथ्यते । तथा हि—रागात् परकल्पादिवाङ्गारूपं, द्वेषात् परवधवन्वच्छेदादिवाङ्गारूपं च मदीयापृथ्यानं कोडपि न जानातीति मत्वा स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसनिर्मलजलेन चित्तशुद्धिमकुर्वाणः सन्नय जीवो वहिरङ्गवक्त्रेषेण यज्ञोकरज्ञानां करोति तन्मायाशल्यं भण्यते । निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मैवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विलक्षण मिथ्या-शल्यं भण्यते । निर्विकारपरमचैतन्यभावनोत्पन्नपरमाहादैकरूपसुखामृतरसास्वादमलभ-मानोऽयं जीवो दृष्टश्रुतानुभूतभोगेषु यन्नियत निरन्तरं चित्तं ददाति तन्निदानशल्यमभि-धीयते । इत्युक्तलक्षणशल्यत्रयविभावपरिणामप्रभृतिसमस्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्परहितेन परमस्वस्थ्यसंविचित्तिसमुत्पन्नतात्त्विकपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरूपेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्यग्निर्विकल्परूपेण वेदनं परिज्ञानमनुभवनमिति निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव निश्चय-ज्ञानं भण्यते ॥

अत्राह शिष्यः । इत्युक्तप्रकारेण प्राभृतग्रन्थे यन्निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानं भण्यते, तत्र

अब जो विकल्परूप व्यवहारज्ञान है उसीसे साध्य ( सिद्ध होने योग्य ) जो निश्चयज्ञान है उसका कथन करते हैं । जैसे—रागके उद्यसे परखो आदिमें वाञ्छारूप, और द्वेषसे अन्य जीवोंके मारने, वांधने अथवा छेदने रूप जो मेरा दुर्ध्यान ( बुरा परिणाम ) है उसको कोई भी नहीं जानता है ऐसा मानकर निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निरन्तर आनंद-रूप एक लक्षणका धारक जो सुखरूपी अमृतरस वही हुआ जो निर्मल जल उस निर्मल जलसे अपने चित्तकी शुद्धिको नहीं करता हुआ यह जीव बाहरमें बगुले जैसे वेषको धारणकर जो लोकोंको प्रसन्न करता है वह मायाशल्य कहलाता है । और अपना निरञ्जन दोषरहित जो परमात्मा है वही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप जो सम्यक्त्व है उससे विपरीत लक्षणका धारक जो है उसको मिथ्याशल्य कहते हैं । और विकाररहित-परम चैतन्यकी भावनासे उत्पन्न-परम आनंदस्वरूप-सुखामृतके रसके स्वादको नहीं प्राप्त हुआ यह जीव जो देखे हुए, सुने हुये तथा अनुभवमें लाये हुए भोगोंमें निरन्तर चित्तको देता है वह निदान शल्य कहलाता है । इस प्रकार उक्त लक्षणके धारक जो माया, मिथ्या और निदानरूप तीन शल्यस्वरूप चिभाव परिणाम हैं इनको आदि लेकर जो संपूर्णे शुभ तथा अशुभरूप संकल्प विकल्प हैं उनसे रहित और परम निजस्वभावके जाननेसे उत्पन्न जो यथार्थ परमानन्दरूप एक लक्षणस्वरूप सुखामृत उसके रसके आस्वादनसे दृग्म हुआ ऐसा जो अपना आत्मा है उसके द्वारा जो ( स्व ) निजस्वरूपका ( सं ) भलेप्रकार अर्थात् निर्विकल्परूपसे 'वेदन' जानना अर्थात् अनुभवमें करना है वही निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञान-निश्चयज्ञान कहा जाता है ॥

यहापर शिष्य कहता है कि इस कहे हुए प्रकारसे प्राभृत ( पाहुड़ ) शास्त्रमें जो विक

घटते । कस्मादिति चेत् तदुच्यते । सत्त्वावलोकरूप चक्षुरादिदर्शनं यथा जैनमते निर्विकल्पं कथ्यते, तथा वौद्धमते ज्ञान निर्विकल्पकं भण्यते । पर किन्तु तत्रिविकल्पमपि विकल्पजनक भवति । जैनमते तु विकल्पस्योत्पादकं भवत्येव न । किन्तु स्वरूपेणैव सविकल्पमिति । तथैव स्वपरप्रकाशक चेति । तत्र परिहारः । कथचित् सविकल्पकं निर्विकल्पकं च । तथाहि—यथा विषयानन्दरूपं स्वसम्बेदनं रागसम्बन्धित्विकल्परूपेण सविकल्पमपि जंघानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्गावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणं न निर्विकल्पमपि भण्यते । तथा स्वगुद्धात्मसम्बन्धित्विकल्परूपं वीतरागस्वसम्बेदनज्ञानमपि स्वसंवित्त्याकारैकविकल्पेन सविकल्पमपि वहिविषयानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्गावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । यत एवेहापूर्वम्बसंवित्त्याकारान्तर्मुखप्रतिभासेऽपि वहिविषयानीहितसूक्ष्माविकल्पा अपि सन्ति तत्र एव कारणात् स्वपरप्रकाशकं च सिद्धम् । इदं तु सविकल्पकनिर्विकल्पकस्य तथैव स्वपरप्रकाशकस्य ज्ञानस्य च व्याख्यानं यथागमाध्यात्मतर्कशास्त्रानुसारेण विजेषेण व्याख्यायते तदा महान् विस्तारे भवति । स चाध्यात्मग्राह्यत्वान्न फृत इति ।

---

ल्परहित स्वसवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता । क्यों नहीं घटित होता ऐसा पूछो तो इसका उच्चर कहते हैं—जैनमतमें जैसे सत्त्वावलोकरूप अर्थात् सत्त्वामात्रको देखनेरूप जो चक्षुदर्शन आदि है उसको निर्विकल्प कहते हैं, उसी प्रकार वौद्धमतमें ज्ञानको निर्विकल्पक कहते हैं । परन्तु विशेष यह है कि—यद्यपि वौद्धमतमें ज्ञान निर्विकल्प है, तथापि विकल्पको उपन्न करनेवाला होता है । और जैनमतमें तो ज्ञान विकल्पको उत्पन्न करनेवाला है ही नहीं, किन्तु स्वरूप (स्वभाव) से ही विकल्पसहित है । और इसी प्रकार निजका तथा परका प्रकाश करनेवाला है । अब इस शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं कि—जैनमतमें ज्ञानको कथचित् सविकल्प और कथचित् निर्विकल्प माना गया है, सो ही ढिखाते हैं कि—जैसे विषयोंमें आनन्दरूप जो स्वसवेदन है वह तृरागके जाननेरूप विकल्परूप होनेसे सविकल्प है, तो भी वाकीके नहीं चाहे हुए जो जो सूक्ष्म विकल्प हैं उनका सद्गाव होनेपर भी उन विकल्पोंकी मुख्यता नहीं है, इस कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भी कहते हैं । इसी प्रकार निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप जो वीतराग स्वसवेदन ज्ञान है वह निजर्मांवित्तिके आकाररूप एक विकल्पके होनेसे यद्यपि सविकल्प है, तथापि वाह्य विषयोंके नहीं चाहे हुए विकल्पोंका उस ज्ञानमें सद्गाव होनेपर भी उनकी उस ज्ञानमें मुख्यता नहीं है । इस कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भी कहते हैं । और जिस ही कारणसे यहा अपूर्व स्वर्संवित्तिके आकाररूप अन्तरग सुख्य प्रतिमासके होनेपरभी वाह्य विषयवाले नहीं चाहे हुए सूक्ष्म विकल्प भी हैं, उसही कारण से ज्ञान निज तथा परको प्रकाश करनेवाला भी सिद्ध हुआ । यदि इस सविकल्प निर्विकल्प तथा स्वपरप्रकाशक ज्ञानका व्याख्यान आगमशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र और तर्कशास्त्रके अनुसार विशेषरूपसे

एवं रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गवयविनो द्वितीयावयवभूतस्य ज्ञानस्य व्याख्यानेन गाथा  
गता ॥ ४२ ॥

अथ निर्विकल्पसत्त्वाग्राहकं दर्शनं कथयति;—

जं सामण्णं गहणं भावाणं ऐव कट्टुमायारं ।

अविसेसिदूण अहु दंसणमिदि भण्णए समए ॥४३॥

व्याख्या । “जं सामण्णं गहणं भावाणं” यत् सामान्येन सत्त्वावलोकनेन ग्रहण परि-  
च्छेदन भावाना पदार्थानां, किं कृत्वा “ऐव कट्टुमायारं” नैव कृत्वा । क ? आकारं विकल्पं;  
तदपि किं कृत्वा ? “अविसेसिदूण अहु” अविशेष्याविभेदार्थान् । केन रूपेण ? शुक्लोऽयं,  
कृष्णोऽयं, दीर्घोऽयं, हस्त्वोऽयं, घटोऽयं, पटोऽयमित्यादि “दसणमिदि भण्णए समए”  
तत्सत्त्वावलोक दर्शनमिति भण्णते समये परमागमे । नेदमेव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्य-  
गदर्शनं वक्तव्यम् । कस्मादितिचेत्-तत्र श्रद्धान विकल्परूपमिदं तु निर्विकल्पं यतः । अय-  
मत्र भाव-यदा कोऽपि किमप्यवलोकयति पश्यति, तदा यावत् विकल्प न करोति तावत्  
सत्त्वामात्रग्रहण दर्शन भण्णते । पञ्चाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥ ४३ ॥

किया जावे तो वडा विस्तार होता है, और यह द्रव्यसग्रह अध्यात्मशास्त्र है, इस कारण  
उस ज्ञानका विषेष वर्णन यहां नहीं किया गया है ।

इस प्रकार रत्नत्रयस्वरूप जो मोक्षमार्गरूप अवयवी है उसके दूसरे अवयवरूप ज्ञानके  
व्याख्यानद्वारा गाथा समाप्त हुई ॥ ४२ ॥

अब विकल्परहित होकर सत्त्वाको ग्रहण करनेवाला जो दर्शन उसका कथन  
करते हैं—

गाथाभावार्थः—यह शुक्ल है, यह कृष्ण है इत्यादि रूपसे पदार्थोंको भिन्न भिन्न न  
करके और विकल्पको न करके जो पदार्थोंका सामान्यसे अर्थात् सत्त्वावलोकनरूपसे ग्रहण  
करना है उसको परमागममें दर्शन कहा गया है ॥ ४३ ॥

व्याख्यार्थ—“जं सामण्णं गहणं भावाणं” जो सामान्यसे अर्थात् सत्त्वावलोकन  
( यह है, इस प्रकार पदार्थकी विद्यमानता देखनेरूप ) से पदार्थोंका जानना है । क्या  
करके ? “ऐव कट्टुमायारं” विकल्पको न करके । वह भी क्या करके ? अविसेसिदूण-  
अहु “अर्थोंको विशेषित अर्थात् यह शुक्ल है, यह कृष्ण है, यह दीर्घ ( वडा ) है, यह  
छोटा है, यह घट है और यह पट है, इत्यादि रूपसे भिन्न भिन्न न करके “दसणमिदि  
भण्णए समए” वह परमागमसे सत्त्वावलोकनरूप दर्शन कहा जाता है । इसी दर्शनको  
'तत्त्वार्थका जो श्रद्धान है वह सम्यगदर्शन है' इस सूत्रमें जो तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यगद-  
र्शन कहा गया है सो न कहना चाहिये । क्यों नहीं कहना चाहिये ? यह प्रश्न करो तो  
उत्तर यह है कि, श्रद्धान जो है वह तो विकल्परूप है और यह विकल्परहित है ।  
भावार्थ-यहांपर यह है कि, जब कोई भी किसी पदार्थको देखता है तब जबतक वह देख-

अथ छद्मस्थानां ज्ञानं सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं भवति, मुक्तात्मना युगपदिति प्रतिपादयति,—

दंसणपुञ्च णाण छद्मत्थाण ण दोणिण उवउगगा ।

जुगवं जह्ना केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥

व्याख्या । “दंसणपुञ्च णाण छद्मत्थाण” सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति छद्मस्थानां संसारिणा । कस्मात् । “ण दोणिण उवउगगा जुगवं जह्ना” ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं युगपन्न भवति यस्मात्, “केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवि” केवलिनाथे तु युगपत्तौ ज्ञानदर्शनोपयोगौ ह्यौ भवत इति ।

अथ विस्तरः । चक्षुरादीन्द्रियाणा स्वकीयस्वकीयक्षयोपशमानुसारेण तद्योग्यदेशस्थितस्वरूपादिविषयाणां ग्रहणमेव सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकमतवच्छक्षुरादीन्द्रियाणां स्वरूपादिस्वकीयस्वकीयविषयपार्थं गमन इति सन्निकर्षो वक्तव्यः । स एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तल्लक्षणं यन्निर्विकल्पं सत्तावलोकनदर्शनं तत्पूर्वं शुक्लमिदमि-

नेवाला विकल्प न करै तबतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण है उसको दर्शन कहते हैं । और फिर जब यह शुक्ल है, यह कृष्ण है इत्यादि रूपसे विकल्प उत्पन्न होते हैं तब उसको ज्ञान कहते हैं ॥ ४२ ॥

अब जो छद्मस्थ हैं उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावलोकनरूप दर्शन पहले हो लेता है तब होता है, और जो मुक्तजीव अर्थात् केवलज्ञानी हैं उनके दर्शन और ज्ञान एक ही समयमें होते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं,—

**गाथार्थः**—छद्मस्थ जीवोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है । क्योंकि, छद्मस्थोंके ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक समयमें नहीं होते । तथा जो केवली भगवान् हैं उनके ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों ही उपयोग एक समयमें होते हैं ॥ ४४ ॥

**व्याख्यार्थः**—“दंसणपुञ्च णाणं छद्मत्थाणं” छद्मस्थ अर्थात् संसारी जीवोंके सत्तावलोकन-दर्शन पहले हो लेता है तब ज्ञान होता है । क्योंकि, “ण दोणिण उवउगगा जुगवं जह्ना” छद्मस्थोंके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक समयमें नहीं होते इसलिये । “केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवि” और केवली भगवानमें वे दोनों ज्ञान, दर्शन उपयोग एकही समयमें होते हैं ।

अब विस्तारसे वर्णन करते हैं—चक्षु आदि इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार अपने योग्य देशमें विद्यमान जो निजरूप आदि विषय हैं उनका ग्रहण करना है उसीको सन्निपात, संबन्ध अथवा सन्निकर्ष कहते हैं । और नैयायिक भतके समान चक्षु आदि इन्द्रियोंका जो अपने अपने स्वरूप आदि विषयोंके पास जाना है, उसको सन्निकर्ष नहीं कहना चाहिये । भावाथे—नेत्र आदि इन्द्रियोंद्वारा जो रूप आदिका ग्रहण किया

त्याच्यवग्रहादिविकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तलक्षणमतिज्ञान-पूर्वकं तु धूमादग्निविज्ञानवदर्थादर्थान्तरग्रहणरूपं लिङ्गजं तथैव घटादिशब्दश्रवणरूपं शब्दजं चेति द्विविधं श्रुतज्ञानं भवति । अथावधिज्ञानं पुनरवधिदर्शनपूर्वकमिति । ईहा-मतिज्ञानपूर्वकं तु मनःपर्ययज्ञानं भवति ।

अत्र श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानजनक यदवग्रहेहादिरूप मतिज्ञानं भणितम्, तदपि दर्शन-पूर्वकत्वादुपचारेण दर्शनं भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानद्रयमपि दर्शन-पूर्वकं ज्ञातव्यमिति । एवं छद्मस्थानां सावरणक्षयोपशमिकज्ञानसहितत्वात् दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति । वेवलिनां तु भगवता निर्विकारस्वसम्बेदनसमुत्पन्ननिरावरणक्षायिकज्ञान-सहितत्वात्रिमेंघादित्ये युगपदातप्रकाशवदर्शनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ञेयम् । छद्मस्था-

जाता है वही सन्निकर्ष है, और नैयायिकमतमें जो नेत्र आदि इन्द्रियोंका अपने रूप आदि विषयोंके पास गमन करने रूप सन्निकर्ष माना है वह नहीं । वह सम्बन्ध अथवा — सन्निकर्ष ही है लक्षण जिसका, ऐसा जो निर्विकल्पक-सत्तावलोकन-दर्शन उसके होनेके पीछे “यह शुक्ल ( सफेद ) है”, इत्यादि अवग्रह आदि विकल्पोरूप-पांचों इन्द्रियों तथा अनिन्द्रिय-मनसे उत्पन्न मतिज्ञान होता है । और इस पूर्वोक्त लक्षणका धारक मतिज्ञान पहले हो लेता है तब धूम ( धुआं ) से जैसे अग्निका ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक पदार्थसे दूसरे पदार्थको ग्रहण करनेरूप लिंगज ( चिन्हसे उत्पन्न हुआ ) तथा इसी प्रकार घट आदि शब्दोंके सुननेरूप शब्दज ( शब्दसे उत्पन्न हुआ ), ऐसे दो प्रकारका श्रुतज्ञान होता है । भावार्थ-श्रुतज्ञान दो प्रकारका है एक तो लिंगज और दूसरा शब्दज, उनमें एक पदार्थको जानकर उसके जरियेसे जो दूसरे पदार्थका जान लेना है वह तो लिंगज श्रुतज्ञान है और शब्दोंके सुननेसे जो ज्ञान होता है वह शब्दज श्रुतज्ञान है । और अवधिदर्शन पहले हो लेता है तब अवधिज्ञान होता है । और जो मनःपर्ययज्ञान है वह ईहानामक मतिज्ञानपूर्वक होता है ।

यहांपर श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रह, और मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करने-वाला ईहा, आदिरूप जो मतिज्ञान कहा है अर्थात् श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रहरूप मतिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करनेवाला ईहारूप मतिज्ञान कहा गया है, वह मतिज्ञान भी दर्शन पहले हो लेता है तभी होता है । इस लिये मतिज्ञान भी उपचारसे दर्शन कहलाता है । इस कारण श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंको भी दर्शनपूर्वक जानना चाहिये । इस पूर्वोक्त प्रकारसे छद्मस्थ जीव आवरणसहित क्षयोपशमिक ज्ञानसहित हैं, इस कारण छद्मस्थोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है । और केवली भगवान् विकाररहित और अपने सवेदन ( जानने )से उत्पन्न ऐसा जो क्षायिक ज्ञान है उससे सहित हैं, इसलिये केवली भगवानोंके जैसे वहलके आवरणरहित सूर्यके एक ही

इति कोऽर्थः ? छद्मशब्देन ज्ञानदर्शनावरणद्वय भण्यते, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्थाः । एवं तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकनदर्शनं व्याख्यातम् ।

अत ऊर्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । यथा हि-उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत् प्रयत्नं तद्रूपं यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्वर्णनं भण्यते । तदनन्तरं यद्विर्विषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तद्ज्ञानमिति वार्तिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुर्वन्नास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति घटविकल्पाद्व्यावर्त्य यत् स्वरूपे प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्वर्णनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्विर्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तद् ज्ञानं भण्यते ।

अत्राह शिष्य-यद्यात्मप्राहक दर्शनं, परग्राहकं ज्ञानं भण्यते, तद्विर्विषये नैयायिकमते ज्ञानमात्मान न जानाति. तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमात्मान न जानातीति दूषणं प्राप्नोति । अत्र परिहार । नैयायिकमते ज्ञानं पृथगदर्शनं पृथगिति गुणद्वयं -

---

ममयमें आतप और प्रकाश होते हैं, उसी प्रकार दर्शन और ज्ञान ये दोनों एकही समयमें होते हैं ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न- जो गाथामें 'छद्मस्थ' कहा गया है इसका क्या अर्थ है ? उत्तर-छद्म अबडसे ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण ये दोनों कहे जाते हैं, उस छद्ममें जो रहें वे छद्मस्थ हैं । इस प्रकार तर्क ( न्याय )के अभिप्रायसे सत्तावलोकन दर्शनका व्याख्यान किया गया ।

अब इसके आगे सिद्धान्तके अभिप्रायसे कहते हैं । सो ही दिखाते हैं । आगे के कालमें होनेवाला जो ज्ञान है उसकी उत्पत्तिका निमित्त जो प्रयत्न उस स्वरूप जो निज आत्माका परिच्छेदन अर्थात् अवलोकन ( देखना ) वह दर्शन कहलाता है, और उसके पीछे जो बाह्य विषयमें विकल्परूपसे पदार्थका ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है । जैसे कोई पुरुष पहले घटके विषयका विकल्प करता हुआ बैठा है, फिर उसी पुरुषका चित्त जब पटके जाननेके लिये होता है, तब वह पुरुष घटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपमें प्रयत्न अर्थात् अवलोकन ( परिच्छेदन ) करता है, उसको दर्शन कहते हैं । उसके अनन्तर यह पट है, इस प्रकारसे निश्चयरूप जो बाह्य विषयरूपसे पदार्थके ग्रहणस्वरूप विकल्पको करता है वह विकल्प, ज्ञान कहलाता है ।

यहांपर शिष्य कहता है कि हे गुरो ! यदि आप आत्मा ( अपने )को ग्रहण करनेवाला जो है उसको दर्शन और जो पर पदार्थको ग्रहण करनेवाला है उसको ज्ञान कहते हैं तो नैयायिकोंके मतमें जैसे ज्ञान आत्माको नहीं जानता है, वैसेही जैनमतमें भी ज्ञान आत्माको नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है । अब इस शिष्यकी शकाको आचार्य दूर करते हैं कि नैयायिकमतमें ज्ञान जुदा और दर्शन जुदा इस प्रकारसे दो गुण नहीं हैं अर्थात् ज्ञान और दर्शन ये दो जुदे जुदे गुण नहीं हैं । इस कारण उन नैयायिकोंके

नास्ति, तेन कारणेन तेषामात्मपरिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनर्ज्ञानगुणेन परद्रव्यं जानाति, दर्शनगुणेनात्मान च जानातीत्यात्मपरिज्ञानाभावदूषणं न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत्-यथैकोऽत्यरिक्तद्वृत्तीति दाहकः, पचतीति पाचको, विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । तथैवाभेदनयेनैकमपि चैतन्य भेदनयविवक्षायां यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्तं तदा तस्य दर्शनमिति संज्ञा, पश्चात् यज्ञ परद्रव्यग्राहकत्वेन प्रवृत्तं तस्य ज्ञानसंज्ञेति विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । किं च यदि सामान्यग्राहक दर्शनं विशेषग्राहकं ज्ञानं भण्यते, तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं न प्राप्नोति । वस्मादिति चेत्, वस्तुग्राहकं प्रमाणं । वस्तु च सामान्यविशेषात्मकं । ज्ञानेन पुनर्वस्तवेकदेशो विशेष एव गृहीतो, न च वस्तु । सिद्धान्तेन पुनर्निष्ठयेन गुणगुणिनोरभिन्नत्वात् संशयविमोहविभ्रमरहितवस्तुज्ञानस्वरूपात्मैव प्रमाणम् । स च प्रदीपवत् स्वपरगतं सामान्य विशेष च जानाति । तेन कारणेनाभेदेन तत्त्वैव प्रमाणत्वमिति ।

---

आत्माको ज्ञानेके अभावरूप दूषण प्राप्त होता है अर्थात् आत्माका ज्ञान न होनेरूप दोष होता है, और जैनमतमें आत्मा ज्ञान गुणसे तो पर पदार्थको जानता है तथा दर्शन गुणसे आत्माको जानता है, इस कारण जैनमतमें आत्माके ज्ञानेका अभावरूप जो दूषण है वह प्राप्त नहीं होता अर्थात् जैनमतमें आत्माका ज्ञानना सिद्ध ही है । यह दूषण क्यों नहीं होता है यह पूछो तो उत्तर यह है कि, जैसे एक भी अग्नि दहन गुणसे जलाता है इस हेतुसे दाहक कहलाता है, और पाचनरूप गुणसे पकाता है इस कारण पाचक कहलाता है । इसी प्रकार विषयके भेदसे दाहक पाचक रूप दो प्रकार भेदको प्राप्त होता है अर्थात् एक ही अग्नि दाहक और पाचकभेदसे दो प्रकारका है । उसी प्रकार अभेदनयसे एक भी चैतन्य भेदनयकी विवक्षामें जब आत्माको ग्रहण करनेवाले रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका 'दर्शन' यह नाम हुआ, और फिर जब पर पदार्थको ग्रहण करनेरूप प्रवृत्त हुआ तब उस चैतन्यका 'ज्ञान' यह नाम हुआ । इस प्रकार विषयके भेदसे चैतन्य दो प्रकारसे भेदको प्राप्त होता है अर्थात् एक ही चैतन्य दर्शन और ज्ञानरूप भेदसे दो प्रकारका होता है । और विशेष चार्ता यह है कि, यदि सामान्यके ग्रहण करनेवालेको दर्शन और विशेषके ग्रहण करनेवाले को ज्ञान कहा जावे तो ज्ञानके प्रमाणताकी प्राप्ति नहीं होती है । ज्ञानके प्रमाणत्व क्यों नहीं होता यह शंका करो तो समाधान यह है कि, जो वस्तुको ग्रहण करनेवाला है उसको प्रमाण कहते हैं । और वस्तु सामान्य तथा विशेष इन दोनों स्वरूप है, और ज्ञानने वस्तुका एकदेश जो विशेष है वह ही ग्रहण किया न कि संपूर्ण वस्तु, और सिद्धान्तसे निश्चयनयकी विवक्षामें गुण और गुणीके भेद नहीं है, इस कारण संशय, विमोह (अनध्यवसाय) और विभ्रम (विपर्यय) इन तीनोंसे रहित जो वस्तुका ज्ञान है उस ज्ञान-स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है । क्योंकि, ज्ञान आत्माका गुण है और आत्मा ज्ञानगुणको बारण करता है इसलिये गुणी है । गुण और गुणीके निश्चयसे अभेद है । और वह

अथ मत—यदि दर्शनं विहितिपये न प्रवर्त्तते तदान्धवत् सर्वजनानामन्धत्वं प्राप्नो-  
तीति नैवं वक्तव्यम् । विहितिपये दर्शनाभावेऽपि ज्ञानेन विशेषण सर्वं परिच्छिन्नत्तीति ।  
अय तु विशेषः—दर्शनेनात्मनि गृहीते सत्यात्माविनाभूतं ज्ञानमपि गृहीतं भवति, ज्ञाने च  
गृहीते सति ज्ञानविषयभूतं विहितस्त्वपि गृहीत भवतीति । अथोक्तं भवता यद्यात्मग्राहकं  
दर्शनं भण्यते, तर्हि 'जं सामाण्णं ग्रहण भावाणं तद्दर्शनमिति' गाथार्थः कथं घटते ? तत्रो-  
चर, सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं तद्दर्शनं । कस्मादिति चेत्—आत्मा वस्तुपरिच्छित्तिं कुर्व-  
न्निद जानामीदं न जानामीति विशेषपञ्चपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परि-  
च्छिन्नत्ति । तेन कारणेन सामान्यशब्देनात्मा भण्यत इति गाथार्थः ।

किंवहुना, यदि कोऽपि तर्कार्थं सिद्धान्तार्थं च ज्ञानैकान्तदुराग्रहत्यागेन नयविभागेन  
मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति, तदा द्रव्यमपि घटत इति । कथमिति चेत्—तर्के मुख्य-  
वृत्त्या परसमयव्याख्यानं । तत्र यदा कोऽपि परसमयी प्रुच्छति—जैनागमे दर्शनं ज्ञान-

प्रमाणं जैसे प्रदीप अपने और परका प्रकाशक है, उसी प्रकार अपनेमें प्राप्त सामान्यको  
और पर पदार्थमें प्राप्त विशेषको जानता है । इस कारण अभेदसे आत्माके ही  
प्रमाणत्व है ।

अब ऐसा कहो कि, यदि दर्शन वाह्य विषयमें नहीं प्रवर्त्तता है तो अंधेकी तरह सब  
मनुष्योंके अंधेपनेकी प्राप्ति होती है । तो समाधान यह है कि, ऐसा न कहना चाहिये ।  
क्योंकि, यद्यपि वाह्य विषयमें दर्शनका अभाव है, तथापि आत्मा ज्ञानद्वारा विशेष रूपसे  
सब पदार्थोंको जानता है । और अधिक वार्ता यह है कि जब दर्शनसे आत्माका ग्रहण  
होता है तब आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दर्शन करके ग्रहण किया जाता है, और  
जब दर्शनने ज्ञानको ग्रहण किया तो ज्ञानकी विषयभूत जो वाह्य वस्तु है उसका भी ग्रहण  
किया । अब कदाचित् यह कहो कि, जो आप आत्माको ग्रहण करनेवालेको दर्शन कहते हो  
तो "जो पदार्थोंका सामान्य ग्रहण है वह दर्शन कहलाता है" यह जो गाथाका अर्थ है  
वह आपके कथनमें कैसे घटता है ? तो इसका यह उत्तर है कि, वहांपर सामान्य ग्रहण  
इस शब्दका आत्माका ग्रहण करनेरूप अर्थ है और वह आत्मग्रहण ही दर्शन है । ऐसा  
अर्थ क्यों है ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, वस्तुका ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह  
'मैं इसको जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ', इस प्रकारसे जो विशेष पक्षपात है उसको  
नहीं करता है, किंतु सामान्यरूपसे वस्तु (पदार्थ)को जानता है, इस कारण सामान्य  
इस शब्दसे आत्मा कहा जाता है । यह गाथाका अर्थ है ।

वहुत कहनेसे क्या ? यदि कोई भी तर्क (न्याय) के और सिद्धान्तके अर्थको जान-  
कर एकान्तरूप जो दुराग्रह (दुरा हठ) है उसका त्याग करके, नयोंके विभागसे मध्य-  
स्थिता धारण करके व्याख्यान करता है तब तो सामान्य और विशेष ये दोनों ही सिद्ध

वेति गुणदृश्यं जीवस्य कथयते, तत्कथं घटत इति । तदा तेषामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पञ्चादाचार्यस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्थूलव्याख्यानेन बहिर्विषये यत् सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्तावलोकनदर्शनसङ्गा स्थापिता । यत्थ शुक्लभिदभित्यादिवि-  
शेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्या-  
व्याज्ञं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने कियमाणे सत्याचार्यरात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्या-  
तमित्यत्रापि दोषो नास्ति ।

अत्राह शिष्यः—सत्तावलोकनदर्शनस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्तावदिदानीं यत्तत्वा-  
थेश्रद्धानरूप सम्यगदर्शनं वस्तुविचाररूप सम्यग्ज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते । कस्मादिति-  
चेन्—सम्यगदर्शने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्यग्ज्ञाने च को विशेष इति । अत्र परि-

होते हैं । कैसे सिद्ध होते हैं ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, तर्क ( न्याय ) में मुख्य-  
तासे परसमय अर्थात् अन्यमतका व्याख्यान है । इसलिये उसमें यदि कोई अन्यमता-  
बलम्बी पूछे कि, जैनमतमें जीवके दर्शन और ज्ञान ये जो दो गुण कहे जाते हैं वे कैसे  
सिद्ध होते हैं ? तब इसके उत्तरमें यदि उन अन्यमतियोंको यह कहें कि, जो आत्माको  
ग्रहण करनेवाला है उसको दर्शन कहते हैं, तो ऐसा कहनेपर वे अन्यमतों नहीं समझते  
हैं । तब आचार्योंने उनके प्रतीति होनेके लिये विस्ताररूप व्याख्यानसे जो बाह्यविषयमें  
सामान्य जानना है उसको तो 'दर्शन' ऐसी संज्ञा ( नाम ) स्थापित की, और जो 'यह  
शुक्ल ( सफेद ) है' इत्यादि रूपसे बाह्यमें विशेषका जानना है, उसकी 'ज्ञान' यह संज्ञा  
ठहराई, इसलिये दोष नहीं है । और सिद्धान्तमें मुख्यतासे निजसमय ( जैनमत )का  
व्याख्यान है, इसलिये सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तब आचार्योंने जो  
आत्माका ग्राहक है उसको दर्शन कहा । इस कारण इस कथनमें भी दोष नहीं है ।

अब यहां शिष्य कहता है कि हे गुरो ! सत्ताका अवलोकन करनेवाला जो  
दर्शन है उसका तो ज्ञानके साथ भेद जाना । अब "जो तत्त्वार्थका श्रद्धान करनेरूप  
सम्यगदर्शन और पदार्थका विचार करने स्वरूप सम्यग्ज्ञान है" इन दोनोंमें भेद नहीं  
जाना जाता । क्यों नहीं जाना जाता ? यह पूछै तो उत्तर यह है कि, पदार्थका  
निश्चय सम्यगदर्शनमें है, वही सम्यग्ज्ञानमें है । इसलिये सम्यगदर्शन और सम्यग्ज्ञानमें  
क्या भेद है अर्थात् कुछ भी नहीं । अब इस शिष्यकी झंकाका आचार्य समाधान करते  
हैं कि, पदार्थके ग्रहण करनेमें जाननेरूप जो क्षयोपशम विशेष है, वह ज्ञान कहलाता है ।  
और उस ज्ञानमें ही भेदनयसे जो बोतराग सवेज्ञ श्रीजिनेन्द्रद्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा  
आदि तत्त्व हैं उनमें यह ही तत्त्व है, ऐसा ही तत्त्व है, इस प्रकारका जो निश्चय है वह  
सम्यक्त्व है । और अभेदनयसे अर्थात् अभेदरूपसे तो जो ही सम्यग्ज्ञान है वही सम्यगदर्शन  
है । ऐसा किस कारणसे है ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, तत्त्व नहीं है उसमें तत्त्वकी

हारः । अर्थग्रहणपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमविशेषो ज्ञानं भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीत-रागसंबंजप्रणीतशुद्धात्मादितत्त्वेष्विद्वैवेत्थमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अविकल्परूपेणा-भेदनयेन पुनर्येदेव सम्यग्ज्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति । कस्मादिति चेत्—अतत्त्वे तत्त्व-बुद्धिरदेवे देवबुद्धिरधर्ममें धर्मबुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विशेषणवाच्योऽवस्थाविशेषः सम्यक्त्वं भण्यते यतः कारणात् ।

यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत्—तत्रोत्तरम् । येन कर्मणार्थपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमः प्रच्छायते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविशेषस्य यत् कर्म पूर्वोक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशमुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वसंज्ञेति भेदनयेनावरण-भेदः । निश्चयनयेन पुनरभेदविवक्षाया कर्मत्वं प्रत्यावरणद्वयमध्येकमेव विज्ञातव्यम् । एव दशेनपूर्वेकं ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गतृतीयावयवभूत स्वशुद्धात्मानुभूतिरूपशुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साधकं सरागचारित्रं प्रतिपादयति,—

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्री य जाण चारित्तं ।

वदसमिदिगुच्छिरूपं ववहारणयादु जिणभणियम् ॥ ४५ ॥

बुद्धि करना, देव नहीं है उसमें देवकी बुद्धि करना और अधर्ममें धर्मकी बुद्धि करना इत्यादि रूपसे जो विपरीत अभिनिवेश ( उलटा आग्रह ) है, उस विपरीताभिनिवेशसे रहित जो ज्ञान है, उसीका जो सम्यग् इस विशेषणसे कहे जानेवाला अवस्थाविशेष है वह सम्यक्त्वं कहलाता है । यही इस अर्थके करनेमें हेतु है ।

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें भेद नहीं है तो आठ कर्मोंमें दर्शनावरण और ज्ञानावरण ये दो आवरण कैसे कहे गये हैं ? यह शंका करो तो, यहां समाधानरूप उत्तर यह है कि, जिस कर्मसे पदार्थके जाननेरूप क्षयोपशम ढका जाता है, उसकी तो 'ज्ञानावरण' यह सज्ञा है । और उस ज्ञानावरणके क्षयोपशमविशेषके जो कर्म पहले कहे हुये लक्षणवाले विपरीत अभिनिवेशको उत्पन्न करता है, उसकी मिथ्यात्वं यह संज्ञा है । इस कारण भेदनयसे आवरणका भेद है । और अभेदकी विवक्षामें कर्मत्वके प्रति जो दो आवरण हैं उन दोनोंको एक ही जानना चाहिये । इस प्रकार दर्शन पहले हो लेता है तब ज्ञान होता है, ऐसे व्याख्यान करनेवाली जो गाथा है वह समाप्त हुई ॥ ४४ ॥

अब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके पीछे होनेवाला रत्नत्रयस्वरूप जो मोक्षमार्ग है, उसका तीसरा अवयवरूप और निज शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरूप जो शुद्धोपयोगरूप लक्षणका धारक-वीतरागचारित्र है, उसको परंपरासे साधनेवाला जो सरागचारित्र है, उसका प्रतिपादन करते हैं,—

गाथाभावार्थः—जो अशुभ ( बुरे ) कायसे दूर होना और शुभ कार्यमें प्रवृत्त होना अर्थात् लगना है उसको चारित्र जानना चाहिये । श्रीजिनेन्द्रदेवने व्यवहारनयसे उस चारित्रको ५ त्रत, ५ समिति और ३ गुप्तिस्वरूप कहा है ॥ ४६ ॥

व्याख्या । अस्यैव सरागचारित्रस्यैकदेशावयवं भूतं देशचारित्रं तावत्कथयते । तथा— मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामे वा सति शुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवसुखामृतमुपादेयं कृत्वा संसारशरीरभोगेषु योऽसौ हेयबुद्धिः सम्यग्दर्शनशुद्ध स चतुर्थगुणस्थानवर्तीं ब्रतरहितो दर्शनिकोभण्यते । यश्च प्रत्याख्यानावरणसंक्षिद्वितीयकपायक्षयोपशमे जाते सति पृथिव्यादिपञ्चस्थावरवचे प्रवृत्तोऽपि यथाशक्त्या त्रसवचे निवृत्तः स पञ्चमगुणस्थानवर्तीं श्रावकोभण्यते ।

तस्यैकादशभेदाः कथयन्ते । तथाहि—सम्यक्त्वपूर्वकत्वेन मध्यमांसमधुत्यागोदुम्बरपञ्चकपरिहाररूपाष्टमूलगुणसहितः सन् सप्रामादिप्रवृत्तोऽपि पापद्वयादिभिर्निष्प्रयोजनजीववातादौ निवृत्तः प्रथमो दर्शनिकश्रावकोभण्यते । स एव सर्वथा त्रसवचे निवृत्तः सन् पञ्चाणुब्रतत्रयगुणब्रतशिक्षाब्रतचतुष्टयसहितो द्वितीयब्रतिकसज्जो भवति । स एव त्रिकालसामायिके प्रवृत्तः तृतीयः, प्रोषधोपचासे प्रवृत्तश्वतुर्थः, सचित्तपरिहारेण पञ्चमः, दिवा ब्रह्मचर्येण पष्ठः, सर्वथा ब्रह्मचर्येण सप्तमः, आरम्भादिसप्तश्यापारनिवृत्तोऽष्टमः, वस्त्र-

**व्याख्यार्थः—**—अब प्रथम ही इसी सरागचारित्रका अवयवरूप जो देशचारित्र है उसका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—मिथ्यात्व आदि सात उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होनेपर अथवा अध्यात्मभाषके अनुसार निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम होनेपर जो जीव शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न-विकाररहित-यथार्थं सुखरूपी अमृतको ग्रहण करने योग्य करके, सप्तम, शरीर और भोगोंमें हेयबुद्धि है अर्थात् संसार, शरीर और भोग ये सब त्यागने योग्य हैं ऐसा समझता है, और सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, उसको चतुर्थ गुणस्थानमे रहनेवाला त्रतरहित दर्शनिक कहते हैं । और जो प्रत्याख्यानावरण नामक दूसरे क्रोधादिकपायोंका क्षयोपशम होनेपर पृथिवी, जल, अरिन वायु और वनस्पति इन पाच स्थावरोंके वधमें प्रवृत्त हो तो भी अपनी शक्तिके अनुसार त्रसजीवोंके वधसे रहित होता है अर्थात् यथाशक्ति दोइन्द्रिय आदि त्रसजीवोंकी हिंसा नहीं करता है उसको पंचम गुणस्थानवर्तीं श्रावक कहते हैं ।

अब उस पचम गुणस्थानवर्तीं श्रावकके ग्यारह ११ भेदोंको कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—पहले सम्यग्दर्शनको धारण करके मध्य ( मदिरा ), मांस और शहद इन तीनोंके और उद्दुम्बर आदि पांच फलोंके त्यागरूप जो आठ मूलगुण हैं उनसहित हुआ जो जीव शुद्ध आदिमें प्रवृत्त होनेपर भी शिकार आदिसे प्रयोजनके विना जीवधात नहीं करता है उसको पहला दर्शनिक श्रावक कहते हैं और वही प्रथम दर्शनिक श्रावक जब त्रसजीवकी हिंसामे सर्वथा रहित होकर पाच अनुत्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रतोंसे सहित होता है तब दूसरा ब्रतिक ( ब्रती ) इस नामका धारक होता है । वही-जब त्रिकाल सामायिकमें प्रवृत्त होता है तब तीसरी प्रतिमाका धारी होता है । प्रोषध उपवासमे प्रवृत्त होता है तब चाँथी प्रतिमाका धारी होता है । सचित्तके त्यागसे पांचवीं प्रतिमाका धारक

प्रावरणं विहायान्यसर्वपरिग्रहनिवृत्तो नवमः, गृहव्यापारादिसर्वसावद्यानुमतनिवृत्तो दशमः, उद्दिष्टाहारनिवृत्त एकादशम इति । एतेष्वेकादशश्रावकेषु मध्ये प्रथमषट्कं तार-तस्येन जघन्यम्, ततश्च त्रय मध्यमम्, ततो द्वयमुक्तमग्निं संक्षेपेण दर्शनिकश्रावकाद्ये-कादशभेदाः ज्ञातव्याः ॥

अथैकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तर सकलचारित्रमुपदिशति । “असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्री य जाण चारित्तं” अशुभानिवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिश्चापि जानीहि चारित्रम् । तत्र कथम्भूतं—“वदसमिदिगुच्छिरुच ववहारणयादु जिणभणियं” ब्रतसमितिगुमिलुपं व्यवहारनयाज्जिनैरुक्तमिति । तथाहि—प्रत्याख्यानावरणसंज्ञरुतीयकषायक्षयोपशमे सति “विसयकसाओगाढो दुस्तुदिदुच्छित्तदुद्घगोद्धिजुदो । उगो उम्मगपरो उवओगो जस्स सो असुहो । ५ ।” इति गाथाकथितलक्षणादशुभोपयोगानिवृत्तिस्तद्विलक्षणे शुभोपयोगे प्रवृ-त्तिश्च हे शिष्य चारित्र जानीहि । तज्जाचाराराधनादिचरणशास्त्राक्तप्रकारेण पञ्चमहा-

होता है । दिनमे ब्रह्मचर्य धारण करनेसे छढ़ी प्रतिमावाला कहलाता है । सर्वथा ब्रह्मच-र्यकों धारण करनेसे सप्तम प्रतिमाका धारी होता है । आरभ आदि सपूर्ण व्यापारोंसे रहित होता है तब अष्टम प्रतिमाका धारी कहा जाता है । वस्त्रके आच्छादनको छोड़-कर अन्य सब परिग्रहोंसे रहित होता है तब नवमी प्रतिमाका धारक होता है । गृहसंबंधी व्यापार आदि संपूर्ण सावद्य ( हिंसामहित ) कार्योंमे जब समति ( सलाह ) देनेसे रहित होता है तब दशमी प्रतिमाका धारी कहलाता है । अपने निमित्त किये हुये आहारका त्याग करनेवाला ग्यारहवीं प्रतिमाका धारी श्रावक कहा जाता है । इन प्रतिमाभेदसे ग्यारह प्रकारके श्रावकोंके बीचमे जो पहली छः प्रतिमायें हैं उनमें रहनेवाले तारतम्य ( हीनाधिकता ) से जघन्य श्रावक हैं । उनके आगे सातवीं, आठवीं और नववीं प्रतिमाके धारक मध्यम श्रावक हैं । इनके पश्चात् दसवीं और ग्यारहवीं इन दो प्रतिमाओंके धारक उत्तम श्रावक हैं । इस प्रकार सक्षेपसे देशचारित्रके दर्शनिक आदि ग्यारह भेद जानने चाहिये ।

अब इस एकदेशचारित्रके व्याख्यानके पश्चात् सकलचारित्रका उपदेश करते हैं । “असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्री य जाण चारित्तं” हे शिष्य ! अशुभसे निवृत्ति ( रहितता ) और शुभमे जो प्रवृत्ति है उसको चारित्र जानो । वह कैसा है ? “वदसमिदि-गुच्छिरुच ववहारणयादु जिणभणियं” ब्रत, समिति और गुमिस्त्ररूप है, ऐसा व्यवहा-रनयसे श्रीजिनेन्द्रने कहा है । सो ही दिखाते हैं—प्रत्याख्यानावरण नामक तोसरे कषा-यका क्षयोपशम होनेपर “जिसका विषयों ओर कषायोंमें गाढ़ा, दुःश्रुति ( बुरा शब्द-श्रवण ) दुष्टचित्त और दुष्टगोष्ठी ( बुरी संगति ) इनसे सहित, उप तथा उन्मार्ग ( बुरे मार्ग ) में तत्पर ऐसा उपयोग है वह जीव अशुभमें स्थित है । १ ।” इस गाथामें कहे-

ब्रतपञ्चसमितित्रिगुप्तिरूपमव्यपहृतसंयमाल्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं  
भवति । तत्र योऽसौ वहिर्विषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासद्भूतव्यव-  
हारेण, यश्चाभ्यन्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एवं  
निश्चयचारित्रसाधक व्यवहारचारित्रं व्याख्यातमिति ॥ ४५ ॥

अथ तेनैव व्यवहारचारित्रेण साध्यं निश्चयचारित्रं निरूपयति,—

वहिरव्यभंतरकिरियारोहो भवकारणपणासद्वुं ।

णाणस्स जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं ॥ ४६ ॥

व्याख्या । “त” तत् “परम” परमोपेक्षालक्षणं निविकारस्वसंवित्यात्मकशुद्धोपयो-  
गाविनाभूत परमं “सम्मचारित्त” सम्यक्चारित्रं ज्ञातव्यम् । तत्कि ? “वहिरव्यभंतर-  
किरियारोहो” निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजात्मन. प्रतिपक्षभूतस्य  
वहिर्विषये शुभाशुभव्यवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च

हुए लक्षणके धारक अशुभोपयोगसे रहितपना और उक्त अशुभोपयोगसे विलक्षण  
( उलटा ) जो शुभोपयोग है उसमें प्रवृत्त होना जो है उसको हे शिष्य । तुम चारित्र  
जानो और वह चारित्र मूलाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके शाखोंमें  
कहे हुए प्रकारसे पाच महाब्रत, पांच समिति और तीन शुभरूप हैं, तो भी अपहृतसंयम  
नामक शुभोपयोगलक्षणका धारक, सरागचारित्र नामक चारित्र होता है । उसमे जो वाह्य-  
विषयोंमें पांचों इन्द्रियोंके विषय वर्गैरहका त्याग है वह तो उपचरित-असद्भूत-व्यवहार-  
नयसे चारित्र है, और जो अन्तरगमे राग आदिका त्याग है वह अशुद्ध निश्चयनयसे  
चारित्र है । इस प्रकार नयोंका विभाग जानना चाहिये । ऐसे निश्चयचारित्रको साधनेवाला  
जो व्यवहारचारित्र है उसका व्याख्यान किया गया ॥ ४५ ॥

अब इसी पूर्वोक्त व्यवहारचारित्रसे सिद्ध होने योग्य जो निश्चयचारित्र है उसका  
निरूपण करते हैं—

**गाथाभावार्थः—**ज्ञानी जीवके जो संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये वाह्य और  
अंतरग कियाओंका निरोध है, वह श्रीजिनेन्द्रसे कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥

**व्याख्यार्थः—**“तं” वह “परम” परम उपेक्षा ( अनादर ) स्वरूप लक्षणका  
धारक, और विकाररहित निजसंवेदनरूप जो शुद्धोपयोग है उससे व्याप्त होनेसे उत्कृष्ट  
“सम्मचारित्तं” सम्यक्चारित्र जानना चाहिये । वह क्या ? “वहिरव्यभंतरकिरियारोहो”  
क्रियारहित-नित्य-निरंजन और निर्मल ज्ञान तथा दर्शनरूप स्वभावका धारक जो  
अपना आत्मा है उससे प्रतिपक्षभूत ( प्रतिकूल ) -वाह्य विषयमें शुभ-अशुभ-वचन  
कायके व्यापाररूप, और इसी प्रकार अन्तरगमे शुभ-अशुभ-मनके विकल्परूप जो  
क्रियाका व्यापार है उसका जो निरोध अर्थात् त्याग है वह । वह त्याग किस लिये है ?

क्रियाव्यापारस्य योऽसौ निरोधस्त्यागः स च किमर्य “भवकारणपणासदुः” पञ्चप्रकारभवातीतनिर्दोषपरमात्मनो विलक्षणस्य भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शुभा-शुभकर्मास्त्वस्तस्य प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोघलक्षणचारित्रं कस्य भवति ? “णाणिस्त” निश्चयरत्नत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः । पुनरपि किं विशिष्टं ? “लं जिणुत्तं” यज्ञिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तमिति ॥ ४६ ॥

एव वीतरागसम्यक्त्वज्ञानाविनाभूत निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गदृतीयावयवरूपं वीतरागचारित्रं व्याख्यातम् ॥ इति द्वितीयस्थले गाथापटकं गतम् ॥

एवं मोक्षमार्गप्रतिपादकदृतीयाविकारमध्ये निश्चयद्वयवहारमोक्षमार्गसंक्षेपकथनेन सूत्र-द्वयम्, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमार्गम्यावयवभूतानां सम्यगदर्शनज्ञानचारित्राणां विशेषविचरणरूपेण सूत्रपटकं चेति स्थलद्वयसमुदायेनाष्टगाथाभिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

अतः परं ध्यानध्यातुद्येयध्यानफलकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयम्, ततः परं पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण द्वितीयम्यले गाथापञ्चकम्, ततश्च तस्यैव ध्यानस्थोपसहार-

“भवकारणपणामदु” पांच प्रकारकं ससारसे रहित जो निर्दोष परमात्मा है उससे भिन्न लक्षणका धारक जो संसार उसके व्यापारका कारणभूत जो शुभ-अशुभ-कर्मोंका आस्त्रव उसके विनाशके लिये है । पूर्वोक्त प्रकारसे वाहा और अंतरग भेदसे जो दो प्रकारकी क्रियायें हैं उनका त्यागरूप चारित्र किसके होता है ? “णाणिस्त” निश्चय रत्नत्रयस्वरूप अभेदज्ञानके धारक जीवके । फिर कैसा है वह चारित्र ? “लं जिणुत्तं” जो जिन अर्थात् श्रीवीतरागसर्वज्ञदेवसे कहा हुआ है । मावार्थ-ज्ञानी जीवके संसारके कारणोंको दूर करनेके लिये जो वाहा और अनरंगकी शुभ-अशुभ क्रियाओंका त्याग होता है वह श्रीजिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ परम सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥

इस प्रकार वीतरागसम्यक्त्व और ज्ञानके विनानहींहोनेवाला और निश्चयरत्नत्रयस्वरूप जो निश्चयमोक्षमार्ग है उसका तीसरा अवयवरूप जो वीतरागचारित्र है उसका व्याख्यान किया । ऐसे दूसरे स्थलमे ६ गाथाये समाप्त हुईं ।

इस प्रकार मोक्षमार्गेको प्रतिपादन करनेवाला जो तीसरा अधिकार है उसमें निश्चय और व्यवहाररूप मोक्षमार्गके कथनसे दो सूत्र और उसके पञ्चात् उसी मोक्षमार्गके अवयवरूप जो सम्यगदर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं उनके विशेष व्याख्यानरूपसे छः सूत्र, इस रीतिसे दो स्थलोंके समुदाय (जोड़ने) से जो आठ गाथायें हैं उनसे प्रथम अन्तराधिकार समाप्त हुआ ॥

अब इसके आगे ध्यान, ध्याता (ध्यान करनेवाला), ध्येय (ध्यान करने योग्य पदार्थ) और ध्यानका फल, इनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम स्थलमे तीन गाथाये, इसके पञ्चात् पंच परमेष्ठियोंके व्याख्यानरूपसे दूसरे स्थलमे पांच गाथायें, और इसके अनन्तर उसी ध्यानके

रूपविशेषव्याख्यानेन तृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयमिति स्थलत्रयसमुदायेन द्वादशसूत्रेषु द्विती-  
यान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

तथाहि । निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसाधकध्यानाभ्यासं कुरुत यूयमित्युपदिशति;—

दुविहं पि मुक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा ।

तद्वा पयत्तचित्ता जूय ज्ञाणं समव्यसह ॥ ४७ ॥

व्याख्या । “दुविहं पि मुक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा” द्विविधमपि मोक्ष-  
हेतुं ध्यानेन प्राप्नोति यस्मात् मुनिर्नियमात् । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रयात्मकं निश्चयमोक्षहेतुं  
निश्चयमोक्षमार्गं तथेव व्यवहाररत्नत्रयात्मकं व्यवहारमोक्षहेतु व्यवहारमोक्षमार्गं च यं  
साध्यसाधकभावेन कथितवाऽन् पूर्वं तद्विविधमपि निर्विकारस्वसवित्यात्मकपरमध्यानेन  
मुनिः प्राप्नोति यस्मात्कारणात् “तद्वा पयत्तचित्ता जूय ज्ञाणं समव्यसह” तस्मात् प्रय-  
न्नचित्ताः सन्तो हे भव्या यूयं ध्यानं सम्यगभ्यसत् । तथा हि-तस्मात्कारणाद् द्वष्टश्रुता-  
नुभूतनानामनोरथरूपसमस्तशुभाशुभरागादिविकल्पजालं त्यक्त्वा परमस्वास्थ्यसमुत्पन्न-  
सहजानन्दैकलक्षणसुखाभृतरसास्वादानुभवे स्थित्वा च ध्यानाभ्यासं कुरुत यूयमिति ॥ ४४ ॥

उपसंहाररूप विशेष व्याख्यानद्वारा तीवरे स्थलमे चार गाथायें, इस प्रकार तीन स्थलोंके  
समुदायसे वारह गाथासूत्रोंका धारक जो तृतीय अधिकारमें दूसरा अन्तराधिकार है उसकी  
समुदायरूप भूमिका है ।

उसमें प्रथम ही तुम निश्चय और व्यवहारमोक्षमार्गको साधनेवाला जो ध्यान है उसका  
अभ्यास करो, ऐसा उपदेश देते हैं,—

गाथाभावार्थः—मुनि ध्यानके करनेसे जो नियमसे निश्चय और व्यवहार इन दोनों  
स्वरूप मोक्षमार्गको पाता है । इस कारणसे हे भव्यो । तुम चित्तको एकाग्र करके ध्यानका  
अभ्यास करो ॥ ४७ ॥

व्याख्यार्थः—“दुविहं पि मुक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा” जिससे  
कि मुनि नियमसे ध्यान करके दोनों प्रकारसे मोक्षकारणोंको प्राप्त होता है । वे दोनों  
मोक्षके कारण इस प्रकार हैं—निश्चयरत्नत्रयस्वरूप निश्चयमोक्षकारण अर्थात् निश्चयमोक्षमार्ग  
और इसी प्रकार व्यवहाररत्नत्रयरूप व्यवहारमोक्षहेतु अर्थात् व्यवहारमोक्षमार्ग, इन  
दोनोंको पहले साध्यसाधकभावसे अर्थात् निश्चयमोक्षमार्ग साध्य ( साधनेयोग्य ) है और  
व्यवहारमोक्षमार्ग साधक (निश्चयमोक्षमार्गका साधनेवाला) है इस रूपसे जो पहले कहा  
है उस दोनों प्रकारके मोक्षमार्गको मुनि जिस कारणसे विकाररहित-निःसंवेदनस्वरूप  
परमव्यान करके प्राप्त होता है “तद्वा पयत्तचित्ता जूयं ज्ञाणं समव्यसह” इसी  
कारणसे एकाग्रचित्त होकर हे भव्यजनो । तुम भले प्रकारसे ध्यानका अभ्यास करो-अर्थात्  
मुनि ध्यानसे दोनों मोक्षमार्गोंको प्राप्त होते हैं इस कारणसे तुम देखा हुआ, सुना हुआ,  
और अनुभव किया हुआ जो अनेक प्रकारके मनोरथरूप संपूर्ण शुभ-अशुभ राग आदि

अथ ध्यातुपुरुषलक्षण कथयति,—

मा मुज्ज्वह मा रजह मा दूमह इट्टणिट्टुअट्टेसु ।

थिरमिच्छहि जह चित्त विचित्तज्ञाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥

**व्याख्या** । “मा मुज्ज्वह मा रजह मा दूसह” समस्तमोहरागद्वेषजनितविकल्पजालरहितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमुत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसात्सकाशादुद्भत्ता संजाता तत्रैव परमात्मसुखास्वादे लीना तन्मया या तु परमकला परमर्मविनिःस्तत्र स्थित्वा है भव्या मोहरागद्वेषान्मा कुरुत । केषु विषयेषु ? “इट्टणिट्टुअट्टेसु” स्वरवनिताचन्दनताम्बूलादय इष्टेन्द्रियार्थी, अहिविष्यकण्टकशब्दन्याधिप्रभृतयः पुनरनिष्टेन्द्रियार्थास्तेषु । यदि किं “थिरमिच्छहि जह चित्तं” तत्रैव परमात्मानुभवे स्थिरं निश्चलं चित्तं यदीच्छत यूय । किमर्थं “विचित्तज्ञाणप्पसिद्धीए” विचित्रं नानाप्रकारं यद्वयानं तत्प्रसिद्धये निमित्तं, अथवा विगतं चित्तं चित्तोऽद्वयशुभाशुभविकल्पजाल यत्र तद्विचित्रं ध्यानं तदर्थमिति ॥

विकल्पोंका समूह है उसका त्याग करके और परम निज स्वरूपमें स्थित होनेसे उत्पन्न हुआ जो सहज आनन्दरूप एक लक्षणका धारक सुखरूपी अमृतरसके आस्वादका अनुभव है उसमें स्थित होकर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ४७ ॥

अब ध्यान करनेवाले पुरुषका लक्षण कहते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—हे भव्यजनो ! यदि तुम नाना प्रकारके ध्यान अथवा विकल्प रहित ध्यानकी सिद्धिके लिये चित्तको स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्टरूप जो इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें राग, द्वेष और मोह मत करो ॥ ४८ ॥

**व्याख्यार्थः**—“मा मुज्ज्वह मा रजह मा दूमह” समस्त-मोह, राग और द्वेषोंसे उत्पन्न हुए विकल्पोंके समूहोंसे रहित जो निज परमात्माके स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न हुआ परमानन्दरूप एक लक्षणका धारक सुखामृतरस, उससे उत्पन्न हुई और उसी परमात्माके सुखके आस्वादमें तत्पर अर्थात् मम हुई जो परम कला अर्थात् परमसवित्ति (आत्माके स्वरूपका साक्षात्काररूप अनुभव) है, उसमें स्थित होकर है भव्य जीवो । मोह, राग और द्वेष मत करो । किनमें मोह राग द्वेष मत करो ? “इट्टणिट्टुअट्टेसु” माला, स्त्री, चन्दन और ताम्बूल आदिरूप इष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें और सर्प, जहर, काटा, शत्रु और रोग आदि अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें, जो क्या ? “थिरमिच्छहि जह चित्तं” यदि उसी परमात्माके अनुभवमें निश्चल चित्तको चाहते हो तो । किसलिये स्थिर चित्तको चाहते हो ? “विचित्तज्ञाणप्पसिद्धीए” विचित्र अर्थात् नानाप्रकारका जो ध्यान है उसकी सिद्धिके लिये, अथवा दूर होगया है चित्त अर्थात् चित्तसे उत्पन्न होनेवाला शुभ और अशुभ विकल्पोंका समूह जिसमें वह विचित्र ध्यान है, उस विचित्र ध्यान अर्थात् निर्विकल्पक ध्यानके लिये ॥

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि—इष्टवियोगानिष्टसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाङ्छाख्यं चतुर्विधमार्त्तध्यानम् । तच्च तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिष्टगुणस्थानवर्तिं जीवसम्भवम् । यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तिर्यगतिकारणं भवति तथापि वद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्—स्वशुद्धात्मेवोपादेय इति विशिष्टभावनावलेन तत्कारणभूतसंक्लेशाभाव दिति ।

अथ रौद्रध्यानं कथ्यते—हिंसानन्दमृषानन्दस्तेयानन्दविषयसरक्षणानन्दप्रभवं रौद्रं चतुर्विधम् । तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिष्टगुणस्थानवर्तिं जीवसम्भवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीना नरकगतिकारणमपि वद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारण न भवति । तदपि कस्मादिति चेत्-निज शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेय विशिष्टभेदज्ञानवलेन तत्कारणभूत तीव्रसंक्लेशाभावादिति ॥

अब प्रथमही आगमभाषाके अनुसार उसी ध्यानके नानाप्रकारके भेदोंका कथन करते हैं । सोही दिखारे हैं—इष्टका वियोग, अनिष्टका सयोग और रोगको दूर करने तथा भोगों और भोगोंके कारणोंमें इच्छा रहनेरूप भेदोंसे चार प्रकारका आर्त्तध्यान है अर्थात् इष्टका वियोग चाहना १, अनिष्टका सयोग न चाहना २, रोग न चाहना ३ और भोगनिदानोंकी बाढ़ा करना ४, इन ४ प्रकारोंका धारक आर्त्तध्यान है । और वह आर्त्तध्यान न्यूनाधिकभावसे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानको आदि ले प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त जो ६ गुणस्थान हैं उनमें रहनेवाले जीवोंके होता है । और वह आर्त्तव्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टी जीवोंके तिर्यच गतिके वंधका कारण होता है तथापि जिस सम्यग्दृष्टीने पहले तिर्यचगतिके आयुको बांध लिया है उस सम्यग्दृष्टी जीवको छोड़कर अन्य जो सम्यग्दृष्टी जीव हैं उनके तिर्यचगतिके वंधका कारण नहीं है । क्यों नहीं है ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि सम्यग्दृष्टी जीवोंके “निज शुद्ध आत्माही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी जो भावना रहती है उसके बलसे तिर्यचगतिका कारणरूप जो संक्लेश है उसका अभाव है ।

अब रौद्रध्यानका कथन करते हैं । हिंसानन्द ( हिंसामें आनन्द मानना ) १, मृषानन्द ( क्षट्ठमें आनन्द मानना ) २, स्तेयानन्द ( चोरी करने करानेमें खुश होना ) ३ और विषयसंरक्षणानन्द ( विषयोंकी रक्षामें आनन्द मानना ) ४, इन चारोंसे उत्पन्न हुआ रौद्रध्यान ४ प्रकारका है । यह न्यूनाधिकरूपसे मिथ्यादृष्टी गुणस्थानको आदि ले पचम गुणस्थानपर्यन्त रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होता है । और वह रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टी जीवोंके नरकगतिका कारण है वो भी जिस सम्यग्दृष्टीने नरकायु बांधली है उसको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोंके नरकगतिका कारण नहीं होता है । ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि सम्यग्दृष्टियोंके जो “निज शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही उपादेय है” इस प्रकारका विशिष्ट भेदज्ञानका बल है, उससे नरकगतिका कारणभूत जो तीव्र संक्लेश है वह नहीं होता ।

अतः परमार्त्तरौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचतुर्भेदभिन्नं, तार-  
तस्यबृद्धिकमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानन्वतुर्गुणस्थानवर्त्तिजीवस-  
भव, सुख्यवृत्त्या पुण्यवन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारणं चेति धर्मध्यानं कथ्यते ।  
तथाहि- स्वयं भन्दवृद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेऽपि शुद्धजीवादिपदार्थीनां सूक्ष्मत्वेऽपि  
सति "सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्यज्ञं हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्याहां नान्यथावादिनो  
जिनाः ॥ १ ॥" इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञाविचयध्यानं भण्यते ।  
तथैव भेदाभेदरत्नत्रयभावनावलेनास्माकं परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्य-  
तीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्मविपाकरहितोऽप्यर्यं  
जीवः पश्चादनादिकर्मवन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति, पुण्यो-  
दयेन देवादिसुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् । पूर्वोक्तोकानुप्रे-  
क्षाचिन्तनं सस्थानविचयम् । इति चतुर्विध धर्मध्यान भवति ॥

---

अब इसके आगे आर्तध्यान तथा रौद्रध्यानके त्यागरूप लक्षणका धारक, आज्ञाविचय  
अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय नामक चार भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ,  
न्यूनाधिकवृद्धिके क्रमसे अस्यतसम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त इन  
नामोंके धारक जो चार गुणस्थान हैं इनमे रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होनेवाला और  
प्रधानतासे पुण्यवन्धका कारण है तो भी परंपरासे मोक्षका कारणभूत ऐसा जो धर्मध्यान  
है उसका कथन करते हैं । सोही कहते हैं-आप अल्पबृद्धिका धारक हो तो भी, विशेष  
ज्ञानके धारक गुरुकी प्राप्ति न हो तो भी, शुद्ध जीव आदि पदार्थोंकी सूक्ष्मता होने पर भी  
"श्री जिनेन्द्रका कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है वह हेतुओंसे खडित नहीं हो सकता है  
इसलिये जो सूक्ष्मतत्त्व है उसको आज्ञाके अनुसार ग्रहण करना चाहिये क्योंकि श्रीजि-  
नेन्द्र अन्यथावादी अर्थात् ज्ञाठा उपदेश देनेवाले नहीं हैं ॥ १ ॥" इस श्लोकमें कहे  
हुए क्रमके अनुसार जो पदार्थका निश्चय करना है वह आज्ञाविचय नामक प्रथम धर्मध्यान  
कहलाता है । और इसीप्रकार भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनाके बलसे हमारे  
अथवा अन्यजीवोंके क्रमोंका नाश कर होगा इस प्रकार जो विचारना है उसको अपाय-  
विचय नामक दूसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव शुभ अशुभ  
क्रमोंके उदयसे रहित है तो भी अनादिक्रमोंके वधके वशसे पापके उदयसे नारक आदि  
दुःखरूप विपाकरूप फलका अनुभवन करता है । और पुण्यके उदयसे देव आदिके सुखरूप  
विपाकको भोगता है । इस प्रकार विचार करना है उसको विपाकविचय नामक  
तीसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । और पहले कही हुई जो लोकानुप्रेक्षाका चितवन करना  
है वह संस्थानविचय नामक चौथा धर्मध्यान है । इस प्रकार चार प्रकारका धर्मध्यान  
होता है ॥

अथ पृथक्त्ववितर्कवीचारं एकत्ववितर्कवीचारं सूक्ष्मकियाप्रतिपाति संज्ञं व्युपरतकिया निवृत्तिमहां चेति भेदेन चतुर्विंशं शुक्लध्यान कथयति । तद्यथा-पृथक्त्ववितर्कवीचारं तावल्कथ्यते । द्रव्यगुणपर्यायाणा मिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षण भाव-श्रुतं तद्वाचकमन्तर्बल्पवचन वा वितर्को भण्यते, अनीहितवृत्त्याथोन्तरपरिणमन वचना-द्वृचनान्तरपरिणमनं मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणमन वीचारो भण्यते । अयमत्राथः—यद्यपि ध्याता पुरुषः त्वशुद्धात्मसंवेदन विहाय वहिष्ठिन्तां न करोति तथापि यावताशेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावतांशेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्कवीचारं ध्यान भण्यते । तजोपशमत्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशम-कानिवृत्त्युपशमकसूक्ष्मसाम्परायकोपशमकोपशमान्तरक्षणायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति । क्षपकश्रेण्या पुनरपूर्वकरणक्षणपकानिवृत्तिकरणक्षणपकमूर्द्धमसाम्परायक्षणपकाभिधानगुणस्थान-त्रये चेति प्रथम शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ।

**निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखर्मवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसवेदनगुणे वा**

अब पृथक्त्ववितर्कवीचार १, एकत्ववितर्कवीचार २, सूक्ष्मकियाप्रतिपाति इस नामका धारक ३, और व्युपरतकियानिवृत्ति इस नामका धारक ४ ऐसे इन भेदोंसे चार प्रकारकाजो शुक्लध्यान हैं उसको कहते हैं । वह इस प्रकार है—प्रथम ही पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक जो प्रथम शुक्लध्यान हैं उसका कथन करते हैं । द्रव्य, गुण और पर्याय इनका जो जुड़ा-पना है उसको पृथक्त्व कहते हैं । निज शुद्ध आत्माका अनुभवनरूप भावश्रुत, अथवा निज शुद्ध आत्माको कहनेवाला जो अन्तरंग वचन (सूक्ष्मशब्दकल्पन) है वह वितर्क कहलाता । अनीहितवृत्तिसे अर्थात् विना इच्छा किये अपने आप ही जो एक अर्थसे दूसरे अर्थमें, एक वचनसे दूसरे वचनमें और मन वचन काय इन तीनों योगोंमेंसे एक योगसे दूसरे योगमें जो परिणमन (लगाना) है उसको वीचार कहते हैं । भावार्थ यहांपर यह है कि, यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्ध आत्माके ज्ञानको छोड़कर वाह्यपदार्थोंकी चिन्ता नहीं करता अर्थात् निज आत्माका ही ध्यान करता है । तथापि जितने अशोंसे उस पुरुषके अपने आत्मामे स्थिरता नहों है उतने अशोंसे अनीहितवृत्तिसे विकल्प उत्पन्न होते हैं इस कारणसे इस ध्यानको ‘पृथक्त्ववितर्कवीचार’ ध्यान कहते हैं । यह प्रथम शुक्लध्यान उपशमत्रेणीकी विवक्षामें तो अपूर्वकरण उपशमक, अनिवृत्तिकरण उपशमक, सूक्ष्मसांपराय उपशमक और उपशान्तक्षणाय, इन ८ वें ९ वें १० वें और ११ वें गुणस्थानपर्यन्त जो चार गुणस्थान हैं उनमें होता है । और क्षपकश्रेणीकी विवक्षामें अपूर्वकरणक्षणपक, अनिवृत्तिकरणक्षणपक और सूक्ष्मसापरायक्षणपक नामके धारक जो ८ से १० तक तीन गुणस्थान हैं उनमें होता है । इस प्रकार प्रथम शुक्लध्यानका व्याख्यान किया गया ।

**निज शुद्ध-आत्मद्रव्यमे अथवा विकाररहित जो आत्माका सुख है उससे अनुभवरूप**

यत्रकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसवित्तिलक्षणभावश्रुतवलेन स्थिरीभूय वीचारं गुणद्रव्यपर्यायपरावर्तनं करोति यत्तदेकत्ववितर्कवीचारसंज्ञं क्षीणकषायगुणस्थानसम्भवं द्वितीय शुक्लध्यान भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाद्यापाररूप च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं तृतीयं शुक्लध्यानम् । तच्चोपचारेण सयोगिकेवलिजिने भवतीति । विशेषणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्वयुपरतक्रियं च तदनिवृत्तिं चानिवर्तकं च तद्वयुपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चतुर्थं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् । अध्यात्मभाषया पुनः सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धिं कृच्छा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमित्यादिभावनारूपमध्यन्तरधर्मध्यानमुच्यते । पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादितद्वुकूलशुभानुष्ठान पुनर्वैहिरङ्गवर्मध्यान भवति । तथैव स्वशुद्धात्मनि निर्बिंकल्पसमाधिलक्षणं शुक्लध्यानमिति । अथवा “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥ १ ॥” इति श्लोककथितक्रमेण विचित्रध्यानं ज्ञातन्यमिति ॥

पर्यायमें अथवा उपाधिरहित निज आत्माका जो ज्ञानरूप गुण है उसमें इन तीनोंमेंसे जिस एक द्रव्य, गुण वा पर्यायमें ध्यानी प्रवृत्त होगया उसीमें वितर्क नामक जो निजात्मानुभवरूप भावश्रुतका बल है उससे स्थिर होकर जो वीचार अर्थात् द्रव्य, गुण तथा पर्यायमें परावर्तन करता है वह एकत्ववितर्कवीचार नामा क्षीणकपाय नामक १२ वे गुणस्थानमें होनेवाला दूसरा शुक्लध्यान कहलाता है । और इस दूसरे शुक्लध्यानसे ही केवलज्ञान उत्पन्न होता है । अब सूक्ष्म जो कायकी क्रिया है उसका व्यापाररूप और अप्रतिपाति ( जिसका कभी पतन न हो ) ऐसा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्लध्यान है । वह उपचारसे सयोगिकेवलिजिन नामक १३ वें गुणस्थानमें होता है । विशेषता करके उपरत अर्थात् दूर हुई हैं क्रिया जिसमें वह व्युपरतक्रिय है । व्युपरतक्रिय हो और अनिवृत्ति अर्थात् निर्वर्तक न हो वह व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामा चतुर्थं शुक्लध्यान कहा गया है । और अध्यात्मभाषासे सहज-शुद्ध-परम-चैतन्यसे शोभायमान तथा निर्भर ( परिपूर्ण ) आनन्दके समूहको धारण करनेवाला जो भगवान् निज आत्मा है उसमें उपादेयबुद्धि करके अर्थात् निज शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी बुद्धि करके फिर जो “मैं अनन्त ज्ञानका धारक हूँ, मैं अनन्त सुखका धारक हूँ” इत्यादि भावनाका करना है उस रूप अतरंग धर्मध्यान कहा जाता है । और पचपरमेष्ठियोंकी भक्तिको आदि ले उसके अनुकूल जो शुभ अनुष्ठानका करना है वह वहिरंग धर्मध्यान है । उसी प्रकार निज शुद्ध आत्मामें विकल्परहित ध्यानरूप लक्षणका धारक शुक्लध्यान है । अथवा “मन्त्रवाक्योंमें जो स्थित है वह पदस्थध्यान है । निज आत्माका जो चिन्तवन है वह पिण्डस्थध्यान है । सर्वचिद्रूपका चिन्तवन जिसमें है वह रूपस्थध्यान है और निरंजनका जो ध्यान है वह रूपातीत ध्यान है ॥ १ ॥” इस श्लोकमें कहे हुए क्रमके अनुसार विचित्र अर्थात् नाना प्रकारका ध्यान जानना चाहिये ॥

अथ ध्यानप्रतिवन्धकानां मोहरागद्वेषाणां स्वरूप कथ्यते । शुद्धात्मादितत्त्वेषु विपरी-  
ताभिनिवेशजनको मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत् । निर्विकारस्वसविच्छिन्नण-  
वीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्वेषी भण्येते । चारित्रमोहो रागद्वेषी कथं  
भण्येते ? इति चेत्-कपायमव्ये क्रोधमानद्वयं द्वेषाङ्ग , मायालोभद्रयं रागाङ्ग , नोकपाय-  
मव्ये तु खीपुंपुंसकवेदत्रयं हास्यरतिद्वयं च रागाङ्ग , अरतिशोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च  
द्वेषाङ्गमिति ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—रागद्वेषादयः किं कर्मजनिता : किं जीवजनिता  
इति । तत्रोत्तरं-खीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव, सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसं-  
योगजनिता इति । पञ्चान्नयविवक्षावयेन विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते ।  
तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार  
एव । अथ मत-साक्षोच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्यैत इति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरं-साक्षा-  
च्छुद्धनिश्चयेन खीपुरुषसयोगोरहितपुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासंयोगोरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामु-

जब ध्यानके प्रतिवन्धक अर्थात् रोकनेवाले जो मोह, राग तथा द्वेष हैं उनके स्वरू-  
पका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मा आदि तत्वोंमें विपरीत आग्रहको उत्पन्न करनेवाला  
जो मोह है वह दर्शनमोह अर्थात् मिथ्यात्व है । विकाररहित-निज आत्माके अनुभवरूप  
जो वीतराग चारित्र है उसको ढकनेवाला जो चारित्रमोह है वह राग और द्वेष कहलाता  
है । चारित्रमोह-राग द्वेषरूप कैसे कहलाता है ? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि  
कपायोंके बीचमें क्रोध और मान ये जो दो कपाय हैं सो तो द्वेषके अंग हैं और माया तथा  
लोभ ये दोनों कपाय रागके अग हैं । और नोकपायोंमें खीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद  
ऐसे तीनों वेद तथा हास्य और रति ये दोनों, ऐसे पाच नोकपाय तो रागके अंग हैं, और  
अरति तथा शोक ये दोनों और भय तथा जुगुप्सा ( ग्लानि ) ये दोनों, ऐसे चार नोकपाय  
द्वेषके अंग जानने योग्य हैं । यहां पर शिष्य प्रश्न करता है कि-राग, द्वेष आदि क्या  
कर्मोंसे उत्पन्न हुये हैं अथवा क्या जीवसे उत्पन्न हुए हैं ? इसका उत्तर यह है कि, खी  
और पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुये पुत्रके समान और कलह तथा हल्दी इन  
दोनोंके मेलसे उत्पन्न हुए एक प्रकारके रंगको तरह ये राग-द्वेष आदि कपाय जीव और  
कर्म इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं । और जब नगकी विवशाके वश इनका कथन  
किया जाता है तब विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे तो ये कपाय कर्मसे उत्पन्न हुये  
कहलाते हैं । और इसी प्रकार अशुद्धनिश्चयनयसे जीवजनित कहलाते हैं । और यह  
अशुद्धनिश्चयनय, शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनय हो है । शका-साक्षात् शुद्ध  
निश्चयनयसे ये राग द्वेष किसके हैं ? यह हम पूछते हैं । समाधान-तुम्हारे प्रश्नका उत्तर  
यह है कि साक्षात् शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे जैसे, खी और पुरुषके संयोग विना पुत्रको  
उत्पत्ति नहीं होती और चूना व हल्दीके संयोग विना एक प्रकारका रंग उत्पन्न नहीं होता  
इसी प्रकार जीव-तथा कर्म इन दोनोंके संयोगके विना इन राग द्वेषादिको उत्पत्ति ही नहीं

तत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रयच्छाम इति ॥ ४८ ॥ एवं ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्धथा-  
नेन विचित्रध्यानकथनेन च सूत्रं गतम् ॥

अत ऊर्ध्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्तं तस्य विवरणं कथयति:—

पणतीससोलछप्ण चउदुगमेगं च जवह ज्ञाएह ।

परमेष्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥ ४९ ॥

व्याख्या—“पणतीस”—‘णमो अरिहताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं’ एतानि पञ्चत्रिशक्षराणि सर्वपदानि भण्यते । “सोल”—‘अरिहत सिद्ध आचार्य उवज्ञाय साहू’ एतानि पोडशक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ”—‘अरिहंतसिद्ध’ एतानि पदक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्यते । “पण”—‘अ सि आ उ सा’ एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चदु”,—‘अरि-  
हत’ इदमक्षरचतुष्प्रयमहृतो नामपदम् । “दुग”—‘सिद्ध’ इत्यक्षरद्वयं सिद्धस्य नामपदम् । —“एग च”—‘अ’ इत्येकाक्षरमहृत आदिपदम् । अथवा ‘ओं’ एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामा-

होती हैं । इसलिये हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर ही कैसे देवें? अर्थात् जैसे पुत्र न खोसे ही होता है और न पुनरप्से ही होता है किंतु खो तथा पुरुप इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है, इसी प्रकार राग द्वेष आदि न कर्मजनित ही हैं और न जीवजनित ही हैं किंतु जीव और कर्म इन दोनोंके संयोगजनित हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) के व्याख्यानकी प्रधानतासे इस ध्याताके ध्यान तथा विचित्र ध्यानके कथनसे यह गाथासूत्र समाप्त हुआ ।

अब पहले जो कह आये हैं कि “मन्त्रवाक्योंमे स्थित है वह पदस्थ ध्यान है”, उसी कथनका विस्तारसे वर्णन करते हैं:—

गाथाभावार्थः—पच परमेष्ठियोंको कहनेवाले जो पैतीस, सोलह, छः, पांच, चार, दो और एक अमूररूप मन्त्रपद हैं उनका जाप्य करो और ध्यान करो । इनके सिवाय अन्य जो मन्त्रपद हैं उनको भी गुरुके उपदेशानुसार जपो और ध्यावो ॥ ४९ ॥

व्याख्यार्थः—“पणतीस” ‘णमो अरिहताण १, णमो सिद्धाण २, णमो आयरियाण ३, णमो उवज्ञायाण ४, णमो लोए सब्बसाहूणं’ ५, ये पैतीस अक्षर ‘सर्वपद’ कहलाते हैं । “सोल” ‘अरिहंत सिद्ध आचार्य उवज्ञाय साहू’ ये सोलह अक्षर पचपरमेष्ठियोंके नाम-पद कहलाते हैं । “छ” ‘अरिहंतसिद्ध’ ये छः अक्षर अर्हत् तथा सिद्ध इन दो परमेष्ठियोंके दो नाम-पद कहे जाते हैं । “पण” ‘असिआउसा’ ये पांच अक्षर पंच परमेष्ठियोंके आदि-पद कहलाते हैं । “चदु” ‘अरिहंत’ ये चार अक्षर अर्हत् परमेष्ठीके नामपद रूप हैं । “दुग” ‘सिद्ध’ ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्ठीके नामपद रूप हैं । “एग च” ‘अ’ यह एक अक्षर अर्हत्परमेष्ठीका आदिपद है, अथवा ‘ओं’ यह एक अक्षर पांचों परमेष्ठियोंके आदि-

दिपदम् । तत्कथमिति चेत् “अरिहता असरीरा , आयरिया तह उवज्ञाया मुणिणो । पठमक्षरणिप्पणो उंकारो पञ्च परमेष्ठो ॥ १ । इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणां ‘समानः सबर्णे दीर्घीभवति’ ‘परश्च लोपम्’ ‘उबर्णे ऊ’ इति स्वरसन्धिविधानेन औं शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति-“जवह ज्ञाएह” एतेषा पदाना सर्वमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानां इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानामर्थं ज्ञात्वा पश्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण वचनोज्ञारणेन च जाप कुरुत । तर्थैव शुभोपयोगरूपत्रिगुप्तावस्थाया मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथम्भूताना “परमेष्ठिवाचयाणं” ‘अरिहंत’ इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽहेद्वाच्योऽभिव्येय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकाना । “अणं च गुरुवैष्णेण” अन्यदपि द्वादश-सहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्र, वृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चन-विधानं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् । इति पदस्थध्यानस्वरूपं व्याख्यातम् ॥ ४९ ॥

एवमनेन प्रकारेण “गुमेन्द्रियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम् । एकाग्रचिन्तनं

पदस्वरूप है । ‘ओं’ यह परमेष्ठियोंके आदिपद रूप कैसे है ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि अरिहंतका प्रथम अक्षर ‘अ’, असरीर ( सिद्ध ) का प्रथम अक्षर ‘अ’, आचार्यका प्रथम अक्षर ‘आ’, उपाध्यायका प्रथम अक्षर ‘उ’, मुनिका प्रथम अक्षर ‘म्’ इस प्रकार इन पाँचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंसे सिद्ध जो ओंकार है वही पंचपरमेष्ठियोंके समान है । इस प्रकार गाथामें कहे हुए जो प्रथम ( अ अ आ उ म् ) हैं, इनमें पहले ‘समानः सबर्णे दीर्घी भवति’ इस सूत्रसे दीर्घ आ बनाकर ‘परश्च लोपम्’ इससे पर अक्षरका लोप करके अ अ आ इन तीनोंके स्थानमें एक ‘आ’ सिद्ध किया, फिर “उबर्णे ऊ” इस सूत्रसे आठके स्थानमें ‘ओ’ बनाया । ऐसे स्वरसधि करनेसे ‘ओम्’ शब्द सिद्ध होता है । इस कारण “‘जवह ज्ञाएह’” सब मन्त्रशास्त्रके पदोंमें सारभूत और इस लोक तथा परलोकमें इष्टफलको देनेवाले इन पूर्वोक्त पदोंका अर्थ जान कर फिर अनन्तज्ञान आदि गुणोंके स्मरण-रूप वचनका उच्चारण करके जाप करो और इसी प्रकार शुभोपयोगरूप जो मन, वचन, काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वरूप अवस्था है उसमें मौन द्वारा इन पूर्वोक्त पदोंका ध्यान करो । फिर कैसे इन पदोंको जपो-ध्वानो ? “परमेष्ठिवाचयाणं” अरिहंत इस पदरूप वाचक है और अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे युक्त जो श्रीजिनेन्द्र हैं वह इस पदका वाच्य (कहे जाने योग्य) है, इत्यादि प्रकारसे पंचपरमेष्ठियोंके वाचकोंको, “अणं च गुरुवैष्णेण” और इन पूर्वोक्त पदोंसे अन्यका भी जो कि वारह हजार श्लोकसंख्या प्रमाण पचनमस्कार-माहात्म्य नामक ग्रंथमें कहे हुये प्रकारसे लघुसिद्धचक्र, वृहत्सिद्धचक्र इत्यादि देवोंके पूजनके विधानको भेदाभेदरूप रत्नत्रयके आराधक गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार पदस्थ ध्यानके स्वरूपका कथन किया ॥ ४९ ॥

इस प्रकार “पाँचों इन्द्रियों और मनको रोकनेवाला ध्याता ( ध्यानी ) है, यथास्थित

ध्यानं फलं संवरनिर्जरौ ॥ १ ॥” इति श्लोककथितलक्षणानां ध्यातुध्येयध्यानफलानां संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथमं स्थलं गतम् ।

अतः परं रागाद्विकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नसदानन्दैकलक्षणसु-स्वामृतरसास्वादचूर्णिरूपस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूत यच्छुभोपयोगलक्षणं व्यवहारध्यानं तद्धयेयभूताना पचपरमेष्ठीना मध्ये तावदहंत्सवरूपं कथयामीत्येका पात-निका । द्वितीया तु पूर्वसूत्रोदितसर्वपदनामपदादिपदानां वाचकभूताना वाच्या ये पञ्च-परमेष्ठिनन्तद्व्याख्याने कियमाणे प्रथमतस्तावज्ञिनस्वरूप निरूपयाभि । अथवा तृतीया पातनिका पदम्यपिण्डस्थरूपम्यध्यानत्रयम्य ध्येयभूतमहंत्सववरूप दर्शयामीति पात-निकात्रयं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयितः—

णदुचदुधाइकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमईओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अग्निहो विचिंतिज्ञो ॥ ५० ॥

व्याख्या । “णदुचदुधाइकम्मो” निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगध्यानेन पूर्व घातिकर्म-

लो पदार्थ है वह ध्येय है, एकाग्र होकर जो विचारका करना है वह ध्यान है और संवर तथा निर्जरा ये दोनों ध्यानके फल हैं ॥ १ ॥” इस श्लोकमें कहे हुए लक्षणके धारक जो व्याता, ध्येय, ध्यान और फल हैं उनका संक्षेपसे कथन करनेरूप तीन गाथाओंसे द्वितीय जो अंतराधिकार है उसमें प्रथम स्थल समाप्त हुआ ॥

अब इसके आगे राग आदि विकल्परूप उपाधिसे रहित जो निज परमात्मरूप पदार्थ है उसकी भावना से उत्पन्न और सदानन्दस्वरूप एक लक्षणके धारक सुखामृतके रसके आस्थादसे उपस्थिररूप ऐसा जो निश्चयध्यान है उसका परपरासे कारणभूत जो शुभो-पयोगलक्षण व्यवहार ध्यान है उसके द्वारा ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) भूत जो पच परमेष्ठी हैं उनके मध्यमेंसे प्रथम ही जो अर्हत् परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपको कहता हूँ, यह पहली पातनिका है । पूर्णगाथामें कहे हुये जो सर्वपद, नामपद आदि वाचकभूत पद हैं उनके वाच्य जो पचपरमेष्ठी हैं उनका व्याख्यान करनेपर प्रथम ही श्रीजिनेन्द्रके स्वरूप-को निरूपण करता हूँ, यह दूसरी पातनिका है । अथवा पदस्थ, पिंडस्थ तथा रूपस्थ इन तीन ध्यानोंके ध्येयभूत जो श्री अर्हत् सर्वज्ञ हैं उनके स्वरूपको दिखलाता हूँ, यह तीसरी पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों पातनिकाओंको मनमें धारण करके सिद्धान्तिचक्रवर्ती भगवान् श्रीनेमिचन्द्रस्वामी इस अग्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन करते हैं,—

गाथाभावार्थः—चार घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाला, अनन्त दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्यका धारक, उत्तम देहमें विराजमान और शुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अरिहंत है, उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ५० ॥

व्याख्यार्थः—“णदुचदुधाइकम्मो” निश्चयरत्नत्रयस्वरूप जो शुद्धोपयोगरूप

मुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदर्शनावरणान्तरायसंज्ञयुगपद्धातित्रयवि-  
नाशकत्वाच्च प्रणष्ठचतुर्थातिकर्मा । “दंसणसुहणाणवीरियमईओ”, तेनैव धातिकर्माभावेन  
लब्धानन्तरचतुष्टयस्वात् सहजशुद्धाविनश्वरदर्शनज्ञानसुखवीर्यमयः । “सुहदेहत्थो” निश्चये-  
नाशरीरोऽपि व्यवहारेण समधातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपरमौदारिकशरीरत्वात् शुभदे-  
हस्थः । “सुद्धो”-“क्षुधा कृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च  
मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदोऽरतिः । १ । विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश सृताः ।  
एतैदेवैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमासो निरञ्जन ॥ २ ॥” इति श्लोकद्वयकथिताष्टादशदोषरहि-  
तत्वात् शुद्धः । “अप्पा” एवंगुणविशिष्ट आत्मा । “अरिहो” अरिज्ञवाच्यमोहनी-  
यस्य, रजःशब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरणद्वयस्य, रहस्यशब्दवाच्यान्तरायस्य च हननाद्वि-  
नाशात्सकाशात् इन्द्रादिविनिर्मितां गर्भावतरणजन्माभिषेकनिःक्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिनि-  
र्वाणाभिधानपञ्चमहाकल्याणरूपां पूजामहेति योग्यो भवति तेन कारणेन अहं भण्यते ।  
“विचिन्तिजो” इत्युक्तविशेषणैर्विशिष्टमासागमप्रसृतिग्रन्थकथितवीतरागसर्वज्ञाद्यग्रोत्तरसह-

ध्यान है उसके द्वारा पहले धातियाकर्मोंमें प्रधान जो मोहनीयकर्म है उसका नाश करने से और पीछे ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय इन नामोंके धारक जो तीन धातिया कर्म हैं उनका एक ही समयमें नाश करनेसे नष्ट होगये हैं चार धातिया कर्म जिसके ऐसा “दंसणसुहणाणवीरियमईओ” वह जो धातिया कर्मोंका नाश हुआ है उसीसे प्राप्त हुआ जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यरूप अनंत चतुष्टय है उसका धारक होनेसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध और विनाशरहित ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यरूप ऐसा ‘सुहदेहत्थो’ निश्चयनयसे शरीररहित है तो भी व्यवहारनयकी अपेक्षासे सात धातुओंसे रहित-हजारों सूर्योंके समान देवीप्यमान-परम औदारिक ज्ञारीको धारण करता है इस कारण शुभ देहमें विराजमान है । “सुद्धो” “क्षुधा १ कृषा २ भय ३ द्वेष ४ राग ५ मोह ६ चिंता ७ जरा ८ रुजा ( रोग ) ९ मरण १० स्वेद ११ खेद १२ मद १३ रति १४ विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ और विषाद १८, ऐसे ये अठारह दोप हैं, इन दोषोंकरके रहित ऐसा वह निरजन आस श्री जिनेन्द्र है । २ ।” इस प्रकार दो श्लोकोंमें कहे हुए अठारह दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध है । “अप्पा” इन पूर्वोक्त गुणोंका धारक जो आत्मा है वह “अरिहो” ‘अरि’ इस शब्दसे कहे जानेवाले मोहनीयकर्मका, ‘रज’ इस शब्दसे कहनेयोग्य ज्ञानवरणीय और दर्शनावरणीय इन दोनों कर्मों का तथा ‘रहस्य’ इसका वाच्य जो अतरायकर्म है उसका नाश करनेसे इन्द्र आदि देवोंद्वारा रची हुई गर्भावतार-जन्माभिषेक-तपकल्याण-केवलज्ञानोत्पत्ति और निर्वाणसमयमें होनेवाली जो पांच महाकल्याणरूप पूजा है, उसके योग्य होता है इस कारण अहं रहता है । “विचिन्तिजो” इन उक्त विशेषणोंके धारक और आपागममें कहे हुए वीतराग सर्वज्ञ आदि एक हजार आठ नामोंको धारण करनेवाले श्री अहंत जिनभ-

स्तनामा न महैतं जिनभट्टारकं पदस्थपिंडस्थरूपस्थध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत है भव्या । यूयमिति ।

अत्रावसरे भट्टचार्वाकमतं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपक्ष करोति । नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलघ्नेः, खरविषाणवत् । तत्र प्रत्युत्तरं-किमत्र देशेऽत्र काले अनुपलघ्निः, सर्वदेशो काले वा ? यद्यत्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सर्वदैशकाले नास्तीति भण्यते तज्जगत्त्रय कालत्रयं सर्वज्ञरहितं कथं ज्ञात भवता ? ज्ञातं चेत्तर्हि भवानेव सर्वज्ञः । अथ न ज्ञात तर्हि निषेधः कथं क्रियते ? तत्र दृष्टान्तः—यथा कोऽपि निषेधको घटस्याधारभूत घटरहितं भूतलं चक्षुषा दृष्ट्वा पश्चाद्वद्यत्र भूतले घटो नास्तीति युक्तम् । यस्तु चक्षुरहितस्तस्य पुनरिदं वचनमयुक्तम् । तथैव यस्तु जगत्त्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहित जानाति

टारकको पदस्थ-पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यानमें स्थित होकर है भव्यजनो ! तुम अधिकतासे चित्तवन करो ॥

अब इस अवसरमें भट्ट और चार्वाक ( नास्तिक ) का मत ग्रहण करके शिष्य पूर्वपक्षको करता है कि, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अथवा प्राप्ति नहीं होती, गवेषके सींगके समान । इस शंकाका उत्तर यह है—तुम जो सर्वज्ञकी अप्राप्ति मानते हो इसमें हम पूछते हैं कि, सर्वज्ञकी प्राप्ति इस देश और इस कालमें नहीं है या सब देशों और सब कालोंमें सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है ? यदि कहो कि, इस देश और इस कालमें सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है तब तो तुम्हारा कहना ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं । यदि तुम कहो कि, सब देशों और सब कालोंमें सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है, तो हम पूछते हैं कि, तुमने यह कैसे जाना कि-अथो, ऊर्ध्वं और मध्य भेदसे तीनों लोक तथा भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान ये तीनों काल सर्वज्ञ करके रहित हैं ? यदि तुम यह कहो कि, हमने जान लिया कि तीनों लोक और तीनों काल सर्वज्ञ रहित हैं तब तो तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हो चुके ॥ भावार्थ—जो तीन लोक तथा तीन कालके पदार्थोंको जानता है वही सर्वज्ञ है । और तुमने यह जान ही लिया कि तीनों लोक और तीनों कालोंमें सर्वज्ञ नहीं है, इस लिये तुम ही सर्वज्ञ ठहरे । और यदि तुमने ‘तीन लोक व कालमें सर्वज्ञ नहीं’ इसको नहीं जाना है, तो फिर ‘सर्वज्ञ नहीं है’ ऐसा निषेध कैसे करते हो ? यहांपर दृष्टान्त यह है कि—जैसे कोई निषेध करनेवाला पुरुष घटका आधारभूत जो भूतल ( जमीन ) है उसको नेत्रोंसे घटरहित जान लेता है तब कहता है कि ‘इस भूतलमें घट नहीं है’ सो यह कहना तो उसका ठीक है । परन्तु जो नेत्रोंसे रहित है, वह यदि ‘इस भूतलमें घट नहीं है’ ऐसा वचन कहे तो ठोक नहीं । इसी प्रकार जो तीन जगत् और तीन कालको सर्वज्ञरहित जानता है वह यदि ‘तीन जगत् तथा तीन कालमें सर्वज्ञ नहीं है’ यह कहे तो उसका कहना ठीक है । परन्तु जो ‘तीन लोक व तीन कालको सर्वज्ञ-

तस्य जगत्‌त्रये कालत्रयेऽपि सर्वज्ञो नास्तीति वक्तुं युक्तं भवति । यस्तु जगत्‌त्रय कालत्रयं न जानाति स सर्वज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्—जगत्‌त्रयकालत्रयपरिज्ञानेन स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिति ।

अथोक्तमनुपलब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम् । कस्मादिति चेत्—किं भवतामनुपलब्धिः, किं जगत्‌त्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणां चा ? यदि भवतामनुपलब्धिस्तावता सर्वज्ञा भावो न सिद्धयति, भवद्विरुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्ष्मपदार्थानामिव । अथवा जगत्‌त्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणामनुपलब्धिस्तत्कथं ज्ञातं भवद्विः ? ज्ञातं चेत्तर्हि भवन्त एव सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । इत्यादिहेतुदूषणं ज्ञातवयम् । यथोक्त खरविपाणवदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यतुचितम् । खरे विषाण नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सर्वज्ञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भवति, इति दृष्टान्तदूषणं गतम् ।

रहित नहीं जानता है, वह सर्वज्ञका निषेध किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता है । क्यों नहीं कर सकता ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, तीन जगत् और तीन कालको जाननेसे वह आप ही सर्वज्ञ है, अर्थात् जब वह आप ही सर्वज्ञ है तब सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कैसे कह सकता है ?

अब जो 'सर्वज्ञ नहीं है' इस वार्ताको सिद्ध करने के लिये 'सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है' यह हेतुवचन कहा है वह भी अयुक्त ( ठीक नहीं ) है । क्यों अयुक्त है ? ऐसा प्रश्न करो तो हम पूछते हैं कि-क्या सर्वज्ञकी प्राप्ति तुम्हारे नहीं है या तीन लोक व तीन कालमें रहनेवाले जीवोंके सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है ? यदि तुम लोगोंको सर्वज्ञ प्राप्त नहीं होता है तो इससे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जैसे अन्य पुरुषोंके मनके विचार और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ तुम्हारे जाननेमें नहीं आते हैं, तो भी वे हैं अर्थात् उनका अभाव नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे जाननेमें नहीं आया हुआ सर्वज्ञ भी है, उसका सर्वथा अभाव नहीं । अब कदाचित् यह कहो कि, तीन जगत् और तीन कालके पुरुषोंके ही सर्वज्ञकी अप्राप्ति है, तो हम पूछते हैं कि, क्या तुमने यह जान लिया ? यदि जान लिया है तब नो 'तुमही सर्वज्ञ हो' यह जो हमने पहले ही कहा है, वही यहां आ ठहरा । इत्यादि अनेक दूषण इस 'अप्राप्ति' रूप हेतुमें जानने चाहिये । और जो तुमने 'सर्वज्ञ नहीं है' क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती' इसको सिद्ध करनेके लिये गर्भभके सींगके समान यह दृष्टान्तवचन कहा, वह भी उचित नहीं है । क्योंकि, जैसे गर्भभ ( गधे ) के सींग नहीं हैं परन्तु वैल आदिके सींग हैं, इस लिये सींगका अत्यन्त ( सर्वथा ) अभाव नहीं है । इसी प्रकार यद्यपि सर्वज्ञका किसी नियत ( कायम किये हुए ) देश तथा काल आदिमें अभाव है तो भी उस सर्वज्ञका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है । इस प्रकार दृष्टान्तमें दूषण दिखाया गया ॥

अथ भर्तम्-सर्वज्ञविषये वाधकप्रमाणं निराकृतं भवद्विस्तरहिं सर्वज्ञसद्ग्रावसाधकं प्रमाणं किम् ? इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह—कश्चित् पुरुषो धर्मी, सर्वज्ञो भवतीति साध्यते धर्मः, एवं धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत् पूर्वोक्तप्रकारेण वाधकप्रमाणा-भावादिति हेतुवचनम् । किंवत् स्वयमनुभूयमानसुखदुःखादिवदिति दृष्टान्तवचनम् । एवं सर्वज्ञसद्ग्रावे पक्षहेतुदृष्टान्तरूपेण त्र्यज्ञमनुमानं विज्ञेयम् । अथवा द्वितीयमनुमानं कथ्यते—रामरावणादयः कालान्तरिता, मेर्वादयो देशान्तरिता, भूतादयः स्वभावान्तरिताः, परचेतोवृत्तयः परमाणवादयश्च सूक्ष्मपदार्था, धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्षा भवन्तीति साध्यो धर्मे इति धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत्—अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम् । किंवत् ? यद्यदनुमानविषयं तत्त्वं कस्यापि प्रत्यक्षं भवति, यथागन्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्तवचनम् । अनुमानेन विषयाश्र्वेति, इत्युपनयवचनम् । तस्मात् कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमनवचनम् ।

अब कदाचित् वादी यह पूछे कि आपने सर्वज्ञके विषयमें जो वाधकप्रमाण था उसका तो संहन कर दिया परन्तु सर्वज्ञके सद्ग्रावको अर्थात् सर्वज्ञ है इस कथनको सिद्ध करने-वाला प्रमाण क्या है—सो कहो । इस पर उत्तर देते हैं कि, कोई पुरुषविशेष धर्मी सर्वज्ञ है, इस रीतिसे किसी पुरुषविशेषको पक्ष करके उसमें सर्वज्ञत्व धर्म सिद्ध करते हैं । ‘कश्चित् पुरुषो धर्मी सर्वज्ञो भवति’ इस प्रकारके हमारे वाक्यमें धर्मी और धर्मके समुदायरूपसे जो पक्षवचन अर्थात् पक्षमें साध्यका निर्देश है, वह प्रतिज्ञा है । क्योंकि—सर्वज्ञके होनेमें पूर्वक्यित रीतिसे कोई वाधक प्रमाण नहीं है । ‘तदस्तित्वे वाधकप्रमाणाभावात्’ यह हमारा हेतुका कथन है । किसके समान ? अपने अनुभवमें आते हुए सुख दुःख आदिके समान (स्वयमनुभूयमानसुखदुःखादिवत्) यह दृष्टान्तका कथन है । इस प्रकार सर्वज्ञके सद्ग्राव (होने) में पक्ष, हेतु तथा दृष्टान्तरूपसे तीन अगका धारक अनुमान जानना चाहिये । अथवा सर्वज्ञके सद्ग्रावका साधक दूसरा अनुमान कहते हैं । राम और रावण आदि कालसे, दूर बा ढके हुए पदार्थ, मेरु आदि देशसे अन्तरित पदार्थ, भूत आदि अपने स्वभावसे ही ढके हुए पदार्थ तथा पर पुरुषोंके विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थरूप धर्मी हैं । ‘किसी भी पुरुषविशेषके प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं’ यह उन राम रावणादि धर्मियोंमें सिद्ध करनेयोग्य धर्म हैं । इस प्रकार धर्मी और धर्मके समुदायसे पक्षवचन अथवा प्रतिज्ञा है । राम रावणादि किसीके प्रत्यक्ष क्यों हैं ? ऐसी शंकाको दूर करनेके लिये ‘अनुमानके विषय होनेसे’ यह हेतुवचन है । किसके समान ? ‘जो जो अनुमानका विषय है वह वह किसीके प्रत्यक्ष होता है, जैसे—अग्नि आदि’ यह अन्वय दृष्टान्तका वचन है । और ‘देश काल आदिसे अंतरित पदार्थ भी अनुमानके विषय हैं’ यह उपनयका वचन है । इस लिये “राम रावण आदि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं” यह निगमन वाक्य है ।

इदानीं व्यतिरेकदृष्टान्तः कथ्यते—यत्र कस्यापि प्रत्यक्षं तदनुमानविषयमपि न भवति यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् । अनुमानविषयाश्चेति पुनरप्युपनयवच्च—नम् । तस्मात् प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादित्यय हेतुः सर्वज्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण सम्भवति यतस्ततः कारणात्वरूपासिद्धभावासिद्धविशेषणाद्यसिद्धो न भवति । तथैव सर्वज्ञस्वरूपं स्वपक्ष विहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्षं न साधयति तेन कारणेन विरुद्धो न भवति । तथैव च यथा सर्वज्ञसञ्चावे स्वपक्षे वर्तते तथा सर्वज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्तते तेन कारणेनाऽनैकान्तिको न भवति । अनैकान्तिकः कोऽर्थो व्यभिचारीति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितो न भवति । तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सर्वज्ञसद्वावं साधयति तेन कारणेनाकिञ्चित्करहेतुदोषरहितत्वात्सर्वज्ञसद्वावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसद्वभावे पक्षहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानं ज्ञातव्यमिति ।

किं च यथा दोचनहीनपुरुषस्यादर्शे विद्यमानेऽपि प्रतिविम्बाना परिहानं न भवति,

अब व्यतिरेक दृष्टान्तको कहते हैं—‘जो किसीके भी प्रत्यक्ष नहीं होते वे अनुमानके विषय भी नहीं होते,’ जैसे कि, ‘आकाशके पुष्प’ आदि । यह व्यतिरेक दृष्टान्तका वचन है । और ‘राम रावण आदि अनुमानके विषय हैं’, यह फिर उपनयका वचन है । इसलिये ‘राम रावणादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं’, यह फिर निगमन वाक्य है । और ‘रामरावणादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं, अनुमानके विषय होनेसे’, यहांपर ‘अनुमानके विषय होनेसे’ यह जो हेतु है वह सर्वज्ञरूप जो साध्य धर्म है उसमें सर्व प्रकारसे रहता है इस कारण यह उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध भावासिद्ध तथा विशेषण आदिसे असिद्ध नहीं है । तथा उक्त हेतु-सर्वज्ञरूप जो अपना पक्ष है उसको छोड़कर सर्वज्ञका अभावस्वरूप जो विपक्ष है उसको सिद्ध नहीं करता है, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है । और जैसे ‘सर्वज्ञके सद्वावरूप अपने पक्षमें रहता है वैसे सर्वज्ञके अभावरूप विपक्षमें नहीं रहता है, इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी भी नहीं है । और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे वाधित नहीं है; इस लिये कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है । तथा सर्वज्ञको न माननेवाले जो भट्ट और चार्वाक हैं, उनके सर्वज्ञके सद्वावको सिद्ध करता है इस कारण अकिञ्चित्कर भी नहीं है । इस प्रकारसे ‘अनुमानका विषय होनेसे’ यह हेतु वचन है सो, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कररूप जो हेतुके दूषण हैं उनसे रहित है, इस कारण सर्वज्ञके सद्वावको सिद्ध करता ही है । इस उक्त प्रकारसे सर्वज्ञके सद्वावमें पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन रूपसे पांच अङ्गोंका धारक, अनुमान जानना चाहिये ।

और जैसे नेत्रहीन पुरुषको दर्पण (शीशे) के विद्यमान होनेपर भी प्रतिबिंबोंका

तथा लोचनस्थानीयसर्वज्ञतागुणरहितपुरुपस्थानस्थानीयवेदशाखे कथितानां प्रतिविम्ब-स्थानीयपरमाणवाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां कापि काले परिज्ञान न भवति । तथाचोक्त “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करि-ध्यति ॥ १ ॥” इति संक्षेपेण सर्वज्ञसिद्धिरत्र वोद्घव्या । एव पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिनभट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ।

अथ मिद्द्वासद्वशनिजपरमात्मतत्त्वपरमसमरसोभावलक्षणस्य रूपातीतनिश्चयध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूत मुक्तिगतमिद्वभक्तिरूपं ‘णमो सिद्धाण’ इति पदोच्चारणलक्षण यत्पदस्य ध्यान तस्य ध्येयभूत सिद्धपरमेतिष्ठरूपं कथयति —

णट्टुकम्मदेहो लोयालोपस्म जाणओ दडा ।

पुग्मायारो अप्पा मिद्दो झाएह लोयसिहरत्थो ॥ ५१ ॥

व्याख्या । ‘णट्टुकम्मदेहो’ शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य द्वैतशब्दाभिव्यक्तम्-

ज्ञान नहीं होता है, इसीप्रकार नेत्रोंके स्थानभूत जो सर्वज्ञतारूप गुण है उससे रहित पुरुपको दर्पणके स्थानभूत जो वेदशाखा है उसमें कहेहुए जो प्रतिविवेदोंके स्थानभूत परमाणु आदि अनन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका किसी भी कालमें ज्ञान नहीं होता है । सो ही कहा है कि—“जिम पुरुपके स्वयंवुद्धि नहीं है उसका शाखा क्या उपकार कर सकता है ? क्योंकि नेत्रोंसे रहित पुरुपके दर्पण क्या उपकार करेगा ? भावार्थ—जैसे नेत्रहीन पुरुपको दर्पणसे कुछ लाभ नहीं इसीप्रकार द्विद्विहोन पुरुपको शाखासे कोई लाभ नहीं है । १ । इस प्रकार यहां मक्षेपसे सर्वज्ञकी सिद्धि जानना चाहिये । ऐसे पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन तीनों ध्यानोंमें ध्येयभूत (ध्यान करने योग्य) जो सकल आत्माके धारक श्री जिनेन्द्र भट्टारक हैं, उनके व्याख्यानरूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५० ॥

अब सिद्धोंके समान जो परमात्मस्वरूप है, उसमें परमसमरसोभावको धारण करनेरूप जो रूपातीत नामक निश्चय ध्यान है, उस रूपातीत ध्यानके परपरासे कारणभूत-मुक्तिमें प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनकी भक्तिरूप—“णमो सिद्धाण” इस पदके वोलनेरूप लक्षणका धारक जो पदस्थध्यान है, उस पदस्थध्यानके ध्येयभूत जो सिद्धपरमेष्ठी हैं; उनके स्वरूपका कथन करते हैं—

**गाथाभावार्थः—**—नष्ट होगया है अष्टकर्मरूप देह जिसके, लोकाकाश तथा अलोकाकाशका जानने देसनेवाला, पुरुपके आकारका धारक—और लोकके शिखरपर विराजमान ऐसा जो आत्मा है वह सिद्ध परमेष्ठी है, इसकारण तुम उसका ध्यान करो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार निष्कल (शरीररहित) सिद्ध परमेष्ठीके व्याख्यान द्वारा यह गाथा समाप्त हुई ।

**व्याख्यार्थः—**‘णट्टुकम्मदेहो’ शुभ-अशुभ मन वचन और कायकी क्रियारूप, द्वैत इस शब्दसे कहे जाने योग्य जो कर्मोंका कांड (समूह) है उसका नाश करनेमें

काण्डस्य निर्मूलनसमर्थेन स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमालहा-  
दैकलक्षणसुन्दरमनोहरनन्दस्यंदिनिःक्रियाद्वैतशब्दवाच्येन परमज्ञानकाण्डेन विनाशित-  
ज्ञानावरणाद्यष्टकमौदारिकादिपञ्चदेहत्वात् नष्टाष्टकमंदेहः । ‘लोयालोयस्स जाणओ दहा’  
पूर्वोक्तज्ञानकाण्डभावनाफलभूतेन सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयेन लोकालोकगतत्रिका-  
लवर्त्तिसमस्तवस्तुसम्बन्धिविशेषसामान्यस्वभावानामेकसमयज्ञायकदर्शकत्वात् लोकालो-  
कस्य ज्ञाता दृष्टा भवति । ‘पुरिसायारो’ निश्चयनयेनातीनिद्रयामूर्त्तिपरमचिदुच्छलनिर्मर  
शुद्धस्वसावेन निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिद्दूनचरमशरीराकारेण गतसि-  
क्थमूर्पागभर्कारवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः । ‘अप्पा’ इत्युक्तलक्षण आत्मा किं  
भण्यते ‘सिद्धो’ अज्ञनसिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धखङ्गसिद्धमायासिद्धादिलौकिकसिद्धवि-  
लक्षणः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिलक्षणः सिद्धो भण्यते । ‘ज्ञाएह लोयसिहरत्यो’  
तमित्यंभूत सिद्धपरमेष्ठिनं लोकशिखरस्थं दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रियभोगप्रभृतिसमस्तमनो-

समर्थ, निज शुद्ध-आत्मस्वरूपकी भावनासे उत्पन्न रागादिविकल्परूप उपाधिसे रहित, परम आनन्दमय एक लक्षणका धारक,-सुन्दर और मनको हरण करनेवाला ऐसा जो आनन्द उसको बहानेवाला, क्रियारहित और अद्वैत इस शब्दसे कहा जानेवाला ऐसा जो परमज्ञान-काण्ड, उसके द्वारा नाशको प्राप्त किये हैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप औदारिक आदि पांच देह ( शरीर ) जिसने ऐसा होनेसे नष्ट किया है अष्टकर्मरूप देह जिसने ऐसा । ‘लोया-लोयस्स जाणओ दहो’ पहले कहेहुए ज्ञानकाण्डकी भावनाका फलरूप जो सर्व अंजामें निर्मल ज्ञान और दशोनका युगल है उसके द्वारा लोक तथा अलोकमें प्राप्त जो भूत, भवि-  
ज्यत् और वर्त्तमानकालमें रहनेवाले समस्त पदार्थ हैं, उन पदार्थोंसे संवंध रखनेवाले जो विशेष तथा सामान्य भाव हैं उनका एक ही समयमें ज्ञानने और देखनेवाला होनेसे लोक तथा अलोकका ज्ञानने देखनेवाला होता है । ‘पुरिसायारो’ निश्चयनयको अपेक्षासे इन्द्रियोंके अगोचर-मूर्त्तिरहित-परमज्ञानके उच्छलनेसे भरा हुआ ऐप्रा जो शुद्ध स्वभाव है उसका धारक होनेसे आकाररहित है, तो भी व्यवहारसे भूतपूर्वनयकी अपेक्षासे अतिम शरीरसे कुछ न्यून ( कम ) आकारको धारण करता है इस कारण भोगप्रभृत मूसके चीचके आकारकी तरह अयवा छायाके प्रतिरिवके समान पुरुषके आकारको धारण करने वाला है । “अप्पा” इन पहले कहे हुये लक्षणोंका धारक जो आत्मा है वह क्या कह-  
लाता है ? ‘सिद्धो’ अंजनसिद्ध, पादुकासिद्ध, गुटिकासिद्ध खङ्गसिद्ध और मायासिद्ध आदि जो लौकिक ( लोकमें कहे जानेवाले ) सिद्ध हैं उन सिद्धोंसे भिन्न लक्षणका धारक, केवल ज्ञान आदि अनंतगुणोंकी प्रकटतारूप लक्षणका धारक सिद्ध कहलाता है । ‘ज्ञाएह लो-यसिहरत्यो’ लोकके शिखरपर विराजमान उस इस पूर्वोक्त लक्षणके धारक सिद्धपरमेष्ठोको है भव्यजनो ! तुम देखे-सुने-अनुभव किये हुए जो पांचों इन्द्रियोंके भोगोंको आदि ले

रथरूपनानाविकल्पजालत्यागेन विगुप्तिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूयमिति ॥ ५१ ॥ एवं निष्कल्पसिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानेन गाथा गता ॥

अथ निरूपाधिशुद्धात्मभावनानुभूत्यविनाभूतनिश्चयपञ्चाचारलक्षणस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं निश्चयव्यवहारपञ्चाचारपरिणताचार्यभक्तिरूपं 'णमो आयरियाणं' इति पदोषाचारणलक्षणं यत्पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूतमाचार्यपरमेष्ठिनं कथयतिः—

दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ।

अप्पं परं च जुजइ सो आयरिओ मुणी झेओ ॥ ५२ ॥

'दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे' सम्बन्धर्दशनकानश्रधाने वीर्यचारित्रवरत-पञ्चरणाचारेऽधिकरणभूते 'अप्पं परं च जुंजइ' आत्मानं परं शिष्यजनं च योऽसौ—योजयति सम्बन्धं करोति 'सो आयरियो मुणी झेओ', स उक्तलक्षण आचार्यो मुनिस्त-पोधनो ध्येयो भवति । तथा हि—भूतार्थनयविषयभूतः शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भाव-कर्मद्रव्यकर्मनोकर्मादिसमस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः स्वशुद्धात्मैवो-पादेय इति रुचिरूपसम्बन्धर्दशनं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदर्शनाचारः । तस्यैव शुद्धा-

संपूर्ण भनोरयोरूप अनेक विकल्पोंका समूह उक्तका त्याग करके और भन, बचन तथा काय इन तीनोंकी गुप्तिस्वरूप जो रूपातीत ध्यान है उसमें स्थित होकर ध्यावो ॥ ५१ ॥

अब उपाधिरहित जो शुद्ध आत्माकी भावना तथा अनुभूति ( अनुभव ) का साक्षात्कार है उसमें व्याप्तिको धारण करनेवाला जो निश्चय नयानुसार पांच प्रकारका आचार वही है लक्षण जिसका ऐसा जो निश्चयध्यान उस निश्चयध्यानका परंपरासे कारणभूत, निश्चय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकारके पांच आचारोंमें परिणत ( तत्पर वा तत्त्वीन ) ऐसे जो आचार्य परमेष्ठो उनकी भक्तिरूप और "णमो आयरियाणं" इस पदके उच्चारण करने ( बोलने ) रूप लक्षणका धारक ऐसा जो पदस्थध्यान है उस पदस्थध्यानके ध्येयभूत जो आचार्य परमेष्ठो हैं उनके स्वरूपका निरूपण करते हैं—

गाथाभावार्थः—दर्शनाचार १, ज्ञानाचार २, वीर्याचार ३, चारित्राचार ४ और तप-श्रणाचार ५ इन पाचों आचारोंमें जो आप भी तत्पर होते हैं और अन्य शिष्योंको भी लगाते हैं ऐसे आचार्य-मुनि ध्यान करने योग्य हैं ॥ ५२ ॥

व्याख्यार्थः—“दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे” आधारभूत सम्बन्ध-दर्शनाचार और सम्बन्धज्ञानाचार है प्रधान जिसमें ऐसे वीर्याचार चारित्राचार और तपश्रणाचारमें “अप्पं परं च जुंजइ” अपनी आत्माको और अन्य शिष्यजनोंको जो लगाते हैं “सो आयरिओ मुणी झेओ” वे पूर्वोक्त लक्षणवाले आचार्य तपोधन ध्यान करने योग्य होते हैं । उसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं कि, भूतार्थ ( निश्चय ) नयका विषयभूत,

तमनो निरुपाधिस्वसभ्वेदनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिपरभावेभ्य पुथक्परिच्छेदनं सम्यक्ज्ञान, तत्राचरण परिणमनं निश्चयज्ञानाचारं । तत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहित-स्वाभाविकसुखाभ्यादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयचारि-त्राचारं । समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन तथैवानज्ञानादिद्वादशतपश्चरणव्यहिरङ्गसहकारिका-रणेन च स्वस्वरूपे प्रतपन विजयन निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरण परिणमन निश्चयतपश्चर-णाचारः । तस्यैव निःचयचतुर्विधाचारस्य रक्षगार्थं स्वजक्ष्यतव्यगृहनं निःचयबोर्णीचारः । इत्युक्तलक्षणनिःचयपञ्चाचारे तथैव “छत्तीसगुणसमर्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे । सिसाणुग्रहकुसले धर्मायरिए सदा वंदे । १ ।” इति गाथाकथितकमेणाचाराराधना-दिचरणशास्त्रविस्तीर्णव्यहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चाचारे च स्व परं च योजय-

‘शुद्धसमयसार’ इस शब्दसे कहने योग्य, भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म आदि जो समस्त पर पदार्थ हैं उनसे भिन्न, और परमचैतन्यको विलासरूप लक्षणका धारक ऐसा। जो निज शुद्ध आत्मा है वही उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) है, इस प्रकारको रूचि होनेरूप सम्यगदर्शन है, उस सम्यगदर्शनमें जो आचरण अर्थात् परिणमन करना है उसको निश्चयदर्शनाचार कहते हैं । १ । उसी शुद्ध आत्माका जो उपाधि रहित स्वसंवेदन ( अपने जानने ) रूप, भेदज्ञानद्वारा मिथ्यात्व राग आदि परभावोंसे भिन्न जानना है वह सम्यगज्ञान है, उसमें जो आचरण ( परिणमन ) करना अर्थात् लगना है वह निःचयज्ञानाचार है । २ । उसी शुद्ध आत्मामें राग आदि विकल्पोरूप उपाधिसे रहित जो स्वभावसे उत्पन्न हुआ सुख है उसके आस्वादसे निःचल चित्तका करना है उसको वीतरागचारित्र कहते हैं, उसमें जो आचरण करना है वह निःचयचारित्राचार कहलाता है । ३ । समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोकनेसे, इसीप्रकार अनज्ञन, अवमीदर्य आदि धारह प्रकारके तपको करनेरूप बहिरङ्ग-सहकारीकारणसे जो निज स्वरूपमें प्रतपन अर्थात् विजयन है वह निःचयतपश्चरणाचार कहलाता है । ४ । इन पूर्वोक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणरूप भेदोंसे चार प्रकारका जो निःचय आचार है, उसकी रक्षाके लिये जो अपनी शक्ति ( ताकत ) का नहीं छिपाना है वह निःचयबोर्णीचार है । ५ । ऐसे कहे हुए लक्षणोंका धारक जो निःचयनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें, और इसीप्रकारसे “छत्तीस गुणोंसे सहित, पांच प्रकारके आचारको करनेका उपदेश देनेवाले, तथा शिष्योंपर अनुग्रह ( कृपा ) रखनेमें चतुर ऐसे जो धर्माचार्य हैं उनको मैं सदा वदता हू । १ ।” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके शास्त्रोंमें विस्तारसे कहे हुए बहिरङ्ग-सहकारीकारणों रूप जो व्यवहारनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें जो अपनेको तथा परको लगाते हैं अर्थात् आप उस पचाचारको साधते हैं और दूसरोंको सधाते हैं वे

त्यनुष्ठाने सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्य । इत्याचा-  
र्यपरमेष्ठिव्यास्त्वानेन सूत्रं गतम् ॥ ५२ ॥

अथ न्वशुद्धात्मनि ओभनमध्यायोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायस्तत्प्रक्षणनिश्चयध्यानस्य  
पारम्पर्येण कारणभूत भेदाभेदरक्तव्यादितत्त्वोपदेशक परमोपाध्यायभक्तिरूपं ‘णमो उव-  
वज्ञायाण’ इति पदोज्ञारणलक्षणं यत् पदध्यान, तस्य ध्येयभूतमुपाध्यायमुनीश्वरं कथयति—

जो रयणत्यजुत्तो णिङ्वं धर्मोवदेसणे णिरदो ।

मो उवज्ञायो अप्पा जदिवरवमहो णमो तस्म ॥ ५३ ॥

व्याख्या—‘जो रयणत्यजुत्तो’ योऽसौ वाह्याभ्यन्तररक्तव्यानुष्ठानेन युक्तं परिणतः ।  
‘णिङ्वं धर्मोवदेसणे णिरदो’ पट्टद्वयपञ्चास्तिकाय सप्ततत्त्ववपदार्थेषु मध्ये स्वशुद्धात्म-  
द्रव्यं न्वशुद्धजीवास्तिकाय स्वशुद्धात्मनत्त्वं स्वशुद्धात्मपदार्थमेवोपादेयं जेप च हेयं, तथैवो-  
त्तमक्षमादिर्घर्मं च नित्यमुपदिशति योऽसौ च नित्यं धर्मोपदेशने निरतो भण्यते । ‘सो  
उवज्ञायो अप्पा’ स चेत्यभूत आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किंविशिष्ट—‘जदिवर-

आचार्य कहलाते हैं । और वे आचार्य परमेष्ठी पदस्थध्यानमें ध्यान करने योग्य हैं ॥  
इसप्रकार आचार्यपरमेष्ठीके व्याख्यानसे १ गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥

अब निज शुद्ध आत्मामें जो उत्तम ( वारचार ) अभ्यास करना है उसको निश्चय  
स्वाध्याय कहते हैं । उस निश्चयस्वाध्यायरूप स्वरूपका धारक जो निश्चयध्यान है उसके  
परंपरासे कारणभूत, भेद अभेदरूप रक्तव्य आदि तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले और परम-  
उपाध्यायभक्तिरूप “णमो उवज्ञायाणं” इस पटके उच्चारणरूप पदस्थध्यानके ध्येयभूत  
( ध्यान करने योग्य ) ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपका कथन करते हैं—

गाथाभावार्थः—जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप रक्तव्यसे सहित है, निरन्तर  
र्घर्मका उपदेश देनेमें तत्पर है, वह आत्मा मुनीश्वरोंमें प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता  
है । इसलिये उसके अर्थ में नमस्कार करता हूँ ॥ ५३ ॥

व्याख्यार्थ—‘जो रयणत्यजुत्तो’ जो वाह्य तथा आभ्यन्तररूप रक्तव्यके  
अनुष्ठान ( साधने ) से युक्त हैं अर्थात् निश्चय-उवहारस्वरूप रक्तव्यके साधनेमें लगे  
हुये हैं, “णिङ्वं धर्मोवदेसणे णिरदो” जीव, अजीवादि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय,  
सात तत्त्व और नी पदार्थोंमें निज-शुद्ध आत्मद्रव्य, निज-शुद्ध जीवास्तिकाय, निज-शुद्ध  
आत्मतत्त्व और निज-शुद्ध आत्मपदार्थ ही उपादेय हैं, अन्य सब त्यागने योग्य हैं, इस  
विषयका तथा इसीप्रकार उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंका जो निरन्तर उपदेश देते हैं । वे  
नित्यं धर्मोपदेश देनेमें तत्पर कहलाते हैं, इस कारण नित्यं धर्मोपदेशनमें तत्पर ऐसे  
“अप्पा” आत्मा हैं, वे “जदिवरवसहो”, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंको जीतनेसे निज-  
शुद्ध आत्मामें प्रबन्ध करनेमें तत्पर ऐसे यतिवरों ( मुनीश्वरों ) के मध्यमें वृषभ अर्थात्

वसहो' पञ्चेन्द्रियविषयजयेन निजशुद्धात्मनि यन्नपरराणां यतिवराणां मध्ये वृषभः प्रधानो यतिवरवृषभः । 'णमो तस्स' ब्रह्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाध्यायपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्गसाधकं परमसाधुभक्तिरूपं 'णमो लोए सब्बसाहूण' इति पादोचारणजपध्यानलक्षणं यत् पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूत साधुपरमेष्ठिव्यरूपं कथयतिः—

दंसणणाणसमग्ं मग्ं मोक्षस्स जो हु चारित्तं ।

साधयदि 'णिच्चसुद्ध साहू स मुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥

व्याख्या—'साहू स मुणी' स मुनिः साधुर्भवति । यः किं करोति—'जो हु साधयदि' यः कर्ता हु स्फुटं साधयति । किं 'चारित्तं' चारित्रं । कथम्भूतं 'दंसणणाणसमग्ं' वीतरागसम्यगदर्शनज्ञानाभ्यां समग्रं परिपूर्णम् । पुनरपि कथम्भूतं 'मग्ं मोक्षस्स' मार्गम्भूतं । कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं रूपं 'णिच्चसुद्धं' नित्यं सर्वकालं शुद्धं रागादिरहितम् । 'णमो तस्स' एवंगुणविशिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्वति । तथाहि—“दद्योतनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणम् । द्वगवगमचरणतपसामाख्याताराघना सङ्घिः ।

प्रधान ऐसे “उवज्ञाओ” उपाध्याय परमेष्ठी हैं । “णमो तस्स” उन उपाध्याय परमेष्ठीयोंके अर्थ मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके व्याख्यानसे एक गाथासूत्र पूर्ण हुआ ॥ ५३ ॥

अब निश्चयरत्नत्रयस्वरूप जो निश्चयध्यान है उसके परम्परासे कारणभूत, बाह्य तथा अभ्यन्तररूप मोक्षमार्गके साधनेवाले और परमसाधुभक्तिस्वरूप जो “णमो लोए सब्बसाहूण” यह पद है, इसके बोलने-जाप करने और ध्यान करनेरूप लक्षणका धारक जो पदस्थ ध्यान है उसके ध्येयभूत ऐसे जो साधु परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपका निरूपण करते हैं—

**गाथाभावार्थः—**जो दर्शन और ज्ञानसे पूर्ण, मोक्षका मार्गभूत, सदा शुद्ध ऐसे चारित्रको प्रकटरूपसे साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठी हैं, उनके अर्थ मेरा नमस्कार हो ॥ ५४ ॥

**व्याख्यार्थः—**“जो” जो ‘हु’ भले प्रकारसे “दंसणणाणसमग्ं” वीतराग सम्यगदर्शन और ज्ञानसे परिपूर्ण “मग्ं मोक्षस्स” मोक्षका मार्ग ( कारण ) भूत, “णिच्चसुद्धं” सदा शुद्ध अर्थात् राग द्वेषादि रहित ऐसे “चारित्तं” चारित्रको “माध्यदि” साधते हैं “साहू स मुणी” वे मुनि साधु हैं । “णमो तस्स” इन पूर्वोक्त गुणोंसे सहित जो हैं उन साधु परमेष्ठीयोंके अर्थ नमस्कार हो । सो ही शष्ठरूप से दिखाते हैं कि—“दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहण, साधन और निस्तरण है उसको सत् पुरुषोंने आराधना कहा है । १ ।” इस आर्यछन्दसे कही हुई जो बहिरंग-

१ ।” इत्थार्याकथितवहिरङ्गचतुर्विधाराधारावचेन, तथैव “समन्तं स्त्रणाणं सञ्चारितं हि सत्त्वो चेव । चर्दो चिष्ठाहि आदे तद्वा आदा हु मे सरणं । १ ।” इति गाथाकथिता-भ्यन्तरनिश्चयचतुर्विधाराधनावलेन च वाह्यान्तरमोक्षमार्गद्वितीयनामाभिवेयेन कृत्वा य. कर्त्ता वीतरागचारित्राविनाभूतं स्वशुद्धात्मान साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्यैव सहजशुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो भावनमस्कारस्तथा ‘णमो लोए सव्वसाहूणं’ द्रव्यनमस्कारश्च भवत्विति ॥ ५४ ॥

एवमुक्तप्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्टिस्वरूपं ज्ञातव्यम् । अथवा निश्चयेन “अरिहासिद्वायरियाडवज्ञायासाधु पचरमेष्टी । ते वि हु चिष्ठाहि आदे तद्वा आदा हु मे सरणं । १ ।” इति गाथाकथितकमेण संक्षेपेण, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्टिग्रन्थकथितकमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवाचर्चनाविषिरूपमन्त्रवादसंबन्धिपञ्चनमस्कारग्रन्थे चेति । एवं गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

अथ तदेव ध्यान विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोपसंहाररूपेण

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपमेंद्रोंसे चार प्रकारकी आराधना है उस आराधनाके बलसे तथा इसीप्रकार “मम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान. सम्यक्चारित्र और सत्त्व ये चारों आत्मामें निवास करते हैं उस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।” इस गाथामें कही हुई जो निश्चयनयसे अभ्यन्तरकी चार आराधना हैं उनके बलसे अर्थात् वाह्य मोक्षमार्ग और अभ्यन्तर मोक्षमार्ग करके जो वीतरागचारित्रका अविनाभूत निज शुद्ध आत्माको साधते हैं अर्थात् भावते हैं, वे साधु परमेष्टी कहलाते हैं । उन्होंके लिये मेरा स्वभावसे उत्पन्न-शुद्ध-ऐसे सदानन्दकी अनुभूतिलक्षण भावनमस्कार तथा “णमो लोय सव्वसाहूणं” इस पदके उच्चारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४ ॥

इस कहे हुए प्रकारसे पांच गाथाओं द्वारा मध्यम रुचिके धारक शिष्योंको ज्ञान होनेके लिये पंच परमेष्टीके स्वरूपका कथन किया गया है, यह जानना चाहिये । अथवा निश्चयनयसे “अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्टी जो हैं वे भी आत्मामें हो तिष्ठते हैं; इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।” इस गाथामें कहे हुए क्रमानुसार संक्षेपसे पंच परमेष्टियोंका स्वरूप जानना चाहिये । और विस्तारसे पच परमेष्टियोंका स्वरूप पञ्चपरमेष्टी नामक ग्रन्थमें कहे हुये क्रमसे जानना चाहिये । तथा अत्यन्तविस्तारसे सिद्धचक्र आदि देवोंके पूजनविधिरूप जो मन्त्रवादसंबन्धी पंचनमस्कार माहात्म्यनामक ग्रन्थ है उसमें पच परमेष्टियोंका स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पांच गाथाओंसे दूसरा स्थल समाप्त हुआ ॥

अब फिर भी उसी ध्यानको विकल्पितनिश्चय और अविकल्पितनिश्चयरूप जो अन्य प्रकार हैं उनसे संक्षेप करके कहते हैं । उसमें गाथाके प्रथम पादमें ध्येयका लक्षण कहता है,

मुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातुलक्षणं, सुतीयपादे ध्यानलक्षणं, चतुर्थपादेन नयविभावं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि वृत्था भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादमति;—

जं किञ्चिचिं चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू ।

लदूधूणय एयत्तं तद्वाहु तं तस्सणिच्छयं ज्ञाणं ॥ ५५ ॥

व्याख्या—‘तदा’ तस्मिन् काले आहुर्वृत्तिनिति ‘तं तस्सणिच्छयं ज्ञाणं’ तत्त्वस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किं ‘णिरीहवित्ती हवे जदा साहू’ निरीहवृत्तिर्निस्पृहवृत्तिर्यदा साधुर्भवति । किं कुर्वन् ‘जं किञ्चिचिं चिंतंतो’ यत् किमपि ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूर्वं ‘लदूधूणय एयत्तं’ तस्मिन् ध्येये लब्ध्वा । किं ? एकत्वं एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तारः—यत् किञ्चिद् ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ? प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकपायवक्षनार्थं चिन्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमेष्ठादिपरद्रव्यमपि ध्येयं भवति । पञ्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धयुद्धैकस्वभावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति । निस्पृहवृत्तनेन पुर्वमित्यात्वं वेदत्रयं हास्यादिष्टकोषादिचतुष्टयरूपचतुर्बाऽभ्यन्तरपरिमहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णवनधान्यदासीदास-

द्वितीय पादमें ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) का लक्षण कहता हू, तीसरे पादमें ध्यानका लक्षण कहता हूँ और चौथे पाद ( चरण ) से नयोंके विभागको कहता हू। इस अभिप्रायको मनमें धारण करके भगवान् श्री नेमिचन्द्रस्वामी इस अभिम सूत्रका प्रतिपादन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः**—“ध्येय पदार्थमें एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदार्थको ध्यावता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्तिं ( सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित ) होता है उस समय वह उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ५५ ॥

**व्याख्यार्थः**—“लदूधूणय एयत्तं” उस ध्येय पदार्थमें एकाग्रचिन्ताके निरोधको प्राप्त होकर अर्थात् एकचित्त होकर :‘जं किञ्चिचिं चिंतंतो’ जिस किसी पदार्थका ध्येयवस्तुके रूपसे चिंतवन करता हुआ “णिरीहवित्ती हवे जदा साहू” साधु जब निस्पृह वृत्तिको धारण करनेवाला होता है “तद्वाहु तं तस्सणिच्छयं ज्ञाणं” उस समय आचार्य महाराज साधुके उस ध्यानको निश्चय ध्यान कहते हैं । अब विस्तारसे वर्णन करते हैं—गाथामें जो ‘यत् किञ्चित् ध्येयम्’ अर्थात् ‘जिस किसी भी ध्येय पदार्थको’ ऐसा पद है उससे क्या कहा गया है कि ? ध्यानकी प्रथम ही आरभ करनेकी अपेक्षासे जो सविकल्प अवस्था है उसमें विषय और कपायोंको दूर करनेके लिये तथा चित्तको स्थिर करनेके लिये पच परमेष्ठी आदि जो परद्रव्य हैं वे भी ध्येय होते हैं, फिर जब अभ्यासके बशसे चित्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध-युद्ध एकस्वभावका धारक जो निज-शुद्ध आत्मा है उसका स्वरूप ही ध्येय होता है, यह कहा गया है । ‘और निस्पृहवृत्ति होकर’

कुप्यभाण्डाऽभिधानदशविधवहिरङ्गपरिग्रहेण च रहितं ध्यात्स्वरूपमुक्त भवति । एकाग्र-  
चिन्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविधिव्यवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यानलक्षणं भणितमिति ।  
निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्यः । निष्पत्रयोगनि-  
श्चलपुरुषापेक्षया व्यवहाररत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्यः ॥ निष्पत्रयोगपुरुषापेक्षया तु  
शुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राह्यः । विशेषनिश्चयः पुनरगे वक्ष्यमाणस्ति-  
सूत्रीति सूत्रार्थः ॥ ५५ ॥

अथ शुभाशुभमनोबचनकायनिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदेव परमध्यानमि-  
त्युपदिशति,—

मा चिद्गह मा जंपह मा चिन्तह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं हवे ज्ञाणं ॥ ५६ ॥

व्याख्या—‘मा चिद्गह मा जंपह मा चिन्तह किंवि’ नित्यनिरञ्जननिष्क्रियनिजशुद्धा-

यह जो वचन है इससे मिथ्यात्व १, पुर्वेद २, स्त्रीवेद ३, नपुंसकवेद ४, हास्य ५, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ९, जुगुप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३ और  
लोभ १४, इन रूप चौदह प्रकारके अन्तरङ्ग परिग्रहसे रहित तथा इसीप्रकार क्षेत्र  
१, वास्तु २, हिरण्य ३, सुवर्ण ४, धन ५, धान्य ६, दासी ७, दास ८, कुप्य ९ और भांड  
१०, नाम दशप्रकारके वहिरंग परिग्रहसे रहित ध्यान करनेवालेका स्वरूप कहा गया है ।  
और ‘एकाग्रचिन्तानिरोधको प्राप्त होकर’ इस कथनसे पूर्वोक्त नामा प्रकारके ध्यान  
करनेयेग्य पदार्थोंमें जो निश्चलपना है उसको ध्यानका लक्षण कहा है । और “निश्चय ध्यान  
कहते हैं” यहांपर जो निश्चय शब्द हैं उससे अभ्यास करनेवाले पुरुषकी अपेक्षासे तो  
व्यवहाररत्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिये और जिसके ध्यान सिद्ध हो गया  
है ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे शुद्धोपयोगरूप लक्षणका धारक विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय  
ग्रहण करना चाहिये । इससे विशेष ( ऊंचेदर्जेका ) जो निश्चय है वह आगे के सूत्रमें  
कहा है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ है ॥ ५५ ॥

अब ध्यान करनेवाला पुरुष शुभ अशुभरूप मन, वचन और कायका निरोध कर  
चुकने पर जो आत्मामें स्थिर होता है वह आत्मामें स्थिर होना ही परम ध्यान है ऐसा  
उपदेश देते हैं,—

गाथामावार्थः—हे ज्ञानी जनो ! तुम कुछ भी चेष्टा मत करो अर्थात् कायके व्यापा-  
रको मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत विचारो । जिससे कि तुम्हारा  
आत्मा अपने आत्मामें तज्जीन स्थिर होवै, क्योंकि जो आत्मामें तज्जीन होना है वही पर-  
मध्यान है ॥ ५६ ॥

व्याख्यार्थः—हे ज्ञानी जनो ! “मा चिद्गह मा जंपह मा चिन्तह किंवि” नित्य  
निरञ्जन और क्रियारहित ऐसा जो निजशुद्ध आत्मा का अनुभव है उसको रोकनेवाला जो

त्मानुभूतिप्रतिवन्धकं शुभाशुभचेष्टारूपं कायव्यापारं, तथैव शुभाशुभान्तर्वहिर्जलपरूपं वचनव्यापारं, तथैव शुभाशुभविकल्पजागरूपं चित्तव्यापारव्य किमपि माकुरुत हे विवेकिजनाः । ‘जेण होइ थिरो’ येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति । स कः ‘अप्या’ आत्मा । कथम्भूतः स्थिरो भवति ‘अप्यमि रओ’ सहजशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक् अद्वानज्ञानानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुद्भूतसर्वप्रदेशाल्हादजनकसुखास्वादपरिणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लीयमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । ‘इणमेव परं हवे ज्ञाणं’ इदमेवात्मसुखरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति ।

तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुख प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम् । तज्ज पर्यायनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवैकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसम्बिन्नित्तसमुत्पन्नसुखाभृतजलसरोवरे रागादिमठरहितत्वेन परमहस्यरूपम् । इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाम् मालायां यथासम्भवं सर्वत्र योजनायमिति ।

शुभ अशुभ चेष्टारूप कायका व्यापार है उसको, इसी प्रकार शुभ अशुभ अन्तरंग तथा वहिरंगरूप वचनके व्यापारको और इसी प्रकार शुभ-अशुभ विकल्पोंके समूहरूप मनके व्यापारको कुछ भी मत करो “जेण होइ थिरो” जिन मन, वचन और कायस्वरूप तीनों योगोंके रोकनेसे स्थिर होता है; वह कौन? “अप्या” आत्मा । कैसा स्थिर होता है । “अप्यमि रओ” सहज शुद्ध ज्ञान और दर्शन स्वभावको धारण करनेवाला जो परमात्मतत्त्व है उसके सम्यक् अद्वान-ज्ञान तथा आचरण करनेरूप जो अभेदरत्नत्रय है उस स्वरूप जो परम ध्यान है उससे उत्पन्न और सब प्रदेशोंको आनंद पैदा करनेवाला ऐसा जो सुख उसके आस्वादरूप परिणति सहित निज आत्मामें परिणत, तल्लीन, तन्मय तथा तच्चित होकर स्थिर होता है । “इणमेव परं हवे ज्ञाणं” यही जो आत्माके सुखरूप में परिणमन होना है वह निश्चयसे परम अर्थात् उत्कृष्ट ध्यान होता है ॥

उस परमध्यानमें स्थित हुए जीवोंको वीतरागपरमानन्द सुख प्रतिभासता है वही निश्चयमोक्षमार्गस्वरूप है । वह दूसरे पर्यायनामोंसे क्या क्या कहलाता है अर्थात् उसको किन किन नामोंसे लोग कहते हैं सो कथन किया जाता है । वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है, वही परमात्माका स्वरूप है, वही एक देशमें प्रकटतारूप ऐसे विवक्षित एक देश-शुद्धनिश्चयनयसे निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो सुख वही हुआ जो अमृतजलका सरोवर उसमें राग आदि भलोंसे रहित होनेके कारण परमहस्यरूप है “इस परमात्मध्यानके भावनाके नामोंकी मालामें इस एकदेशव्यक्तिरूप शुद्धनयके व्याख्यानको यथासंभव सब जगह लगा लेना चाहिये अर्थात् यथासंभव ये सब नाम एकदेशशुद्ध निश्चयकी अपेक्षासे हैं ऐसा समझना चाहिये ।

तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमनिजस्वरूपं, तदेव परमस्वात्मोपलभिलक्षणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरखनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव न्यसन्वेदनज्ञानं तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मनः दर्शनं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, ज्ञानं तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्रं तदेवान्तन्त्रं, तदेव परमतत्त्वं, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमव्योत्तिः, सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसम्बितिः सैव स्वरूपोपलभिः, स एव नित्योपलभिः, स एव परमसमाधिः, म एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सहजानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रचिन्तानिरोधः, स एव परमव्रोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चययडावत्यकस्वरूपं, तदेवाभेदरक्तव्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामायिकं, तदेव परमशरणोत्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना,

वही परब्रह्मस्वरूप है, वही परमविष्णुस्वरूप है, वही परमशिवस्वरूप है वही परमशुद्धस्वरूप है, वही परमनिजस्वरूप है, वही परम निज आत्माकी प्राप्तिरूप लक्षणका धारक जो सिद्ध है उसरूप है, वही निरखनरूप है, वही निर्मल (कर्मलरहित) स्वरूपका धारक है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है वही परमतत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्माका दर्शन है, वही परम (उत्कृष्ट) अवस्थास्वरूप है वही परमात्माका दर्शन है, वही परम तत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्मज्ञान है, वही ध्यान करनेयोग्य जो शुद्ध पारिणामिकभाव है उस रूप है, वही ध्यानभावस्वरूप है वही शुद्ध चारित्र है, वही अन्तरंगका तत्त्व है, वही परम (उत्कृष्ट) तत्त्व है, वही शुद्ध आत्मा द्रव्य है, वही परम व्योत्तिः (ज्ञान) है वही शुद्ध आत्माकी अनुभूति है, वही आत्मा द्रव्य है, वही आत्माकी प्रतीति है, वही आत्माकी संवित्ति अर्थात् साक्षात्कार है, वही निजआत्मस्वरूपकी प्राप्ति है, वही नित्य पदार्थकी प्राप्ति है, वहो परम समाधिः है, वही परम आनन्द है, वही नित्य आनन्द है, वही स्वभावसे उत्तर हुआ आनन्द है, वहो सदानन्द है, वही शुद्ध आत्मपदार्थके पठनरूप स्वरूपका धारक है वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्षका उपाय है, वहो एकाग्रचिंताओंका निरोध है, वही परमज्ञान है, वही शुद्ध उपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चयनयके अनुसार जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्यरूप पाच प्रकारका आचार है उस स्वरूप है, वही समयसार है, वही अध्यात्मसार है, वहो समता आदिरूप जो निश्चयनयसे द्वारा आवश्यक है उन स्वरूप है, वही अभेद रक्तव्रयरूप है, वही वीतराग सामायिक है, वही परमशरणोत्तम मगल है, वहो केवल ज्ञानोत्पत्तिका

सैव परमात्मभावना, सैव शुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखानुभूतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमामृतपरमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रागादिविकल्प-शून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमबोतरागत्वं, तदेव परम-साम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानं, स पव परमसमरसीभावः, इत्यादिसम-स्तरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हादैकसुखलक्षणध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमार्गस्य वाच-कान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्विरिति ॥ ५६ ॥

अतः परं यद्यपि पूर्वं बहुधा भणितं ध्यातुपुरुषप्रलक्षणं ध्यानसामग्रीं च तथापि चूलि-कोपसंहाररूपेण पुनरप्याख्याति,—

तवसुदवदवं चेदा ज्ञाणरहघुरंधरो हवे जम्हा ।

तम्हा तत्त्विणिरदा तज्जद्धीए सदा होह ॥ ५७ ॥

व्याख्या । ‘तवसुदवदवं चेदा ज्ञाणरहघुरंधरो हवे जम्हा’ तपश्रुतब्रतवानात्मा चेत-यिता ध्यानरथस्य धुरन्धरो समर्थो भवति ‘जम्हा’ यस्मात् ‘तम्हा तत्त्विणिरदा तज्जद्धीए

कारण है, वही समस्त कर्मोंके नाशका कारण है, वही निश्चयनयकी अपेक्षासे जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपभेदोंसे चार प्रकारकी आरावना है उस स्वरूप है, वही परमात्माकी भावनारूप है, वही शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुख उसकी अनुभूति-रूप परमकला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही अमृतस्वरूप परम धर्मध्यान है, वही शुक्लध्यान है, वही राग आदि विकल्पोंरहित ध्यान है, वही निष्कलध्यान है वही परम स्वास्थ्य है, वही परम बोतरागतरूप है, वही परम समतास्वरूप है, वही परम एकत्व है, वही परम भेदज्ञान है, वही परम समरसीभाव है। इनको आदि ले, संपूर्ण राग आदि विकल्पोंको उपाधिसे रहित और परम आल्हादकसुखरूप लक्षणका धारक जो ध्यान है उस स्वरूप जो निश्चय मोक्षमार्ग है उसको कहनेवाले अन्य भी बहुतसे जीवपर्यायी नाम परमात्मतत्त्वको अर्थात् परमात्माके स्वरूपको जाननेवाले जो भव्य जीव हैं उनको जान लेने चाहिये ॥ ५६ ॥

अब इसके आगे यद्यपि पहले ध्यान करनेवाले पुरुषका लक्षण और ध्यानकी सामग्रीका कई प्रकारसे वर्णन कर चुके हैं, तोभी चूलिका और उपसंहाररूपसे फिर भी ध्यान पुरुष और ध्यानसामग्रीका कथन करते हैं,—

**गाथाभावार्थः—**क्योंकि, तप, श्रुत और ब्रतका धारक जो आत्मा है वही ध्यान-रूपी रथकी धुराको धारण करनेवाला होता है। इस कारण हे भव्यजनो ! तुम उस ध्यानकी प्राप्तिके अर्थ निरन्तर तप, श्रुत और ब्रत इन तीनोंमें तत्पर होवो ॥ ५७ ॥

**व्याख्यार्थः—**“तवसुदवदवं चेदा ज्ञाणरयधुरंधरो हवे जम्हा” जिस कारणसे कि तप, श्रुत और ब्रतका धारक आत्मा ध्यानरूपी रथकी धुराको धारण करनेसे लिये समर्थ होता है। “तम्हा तत्त्विणिरदा तज्जद्धीए सदा होह” इस कारणसे हे भव्यो !

सदा होइ' तस्मात् कारणात् तपश्रुतब्रतानां संबन्धेन यत्त्रितव्यं तत् त्रितये रता सर्वकाले  
भवत है भव्याः किमर्थं १ तस्य ध्यानस्य लज्जिस्तम्भजिष्ठस्तदर्थमिति । तथाहि-अनशनाव-  
मौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविचिक्षायासनकायकलेशभेदेम बाह्यं षड्विदं, तथैव  
प्रायश्चित्तविनयवैध्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानभेदेनाऽभ्यन्तरमपि षड्विदं चेति द्वादशविदं  
तपः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथैव च हिंसानृत-  
द्रव्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्न विविकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रुतं च । तथैव च हिंसानृत-  
स्तेयाद्वापरिग्रहाणां द्रव्यभावरूपाणां परिहरण ब्रतपञ्चकं चेति । एवमुक्तलक्षणतपश्च्रुत-  
ब्रतस्वहितो ध्याता पुरुषो भवति । एयमेव ध्यानसामग्री चेति । तथाचोक्तं—“वैराग्यं  
तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थ्यं २समचित्तता । परीषहजयश्चेति पञ्चैते ध्यानहेतवः । १ ।

उस ध्यानकी प्राप्तिके अर्थं तप श्रुत और वृतोंके संबंधसे जो त्रितय है उस त्रितयमें  
अर्थात् तपः श्रुत तथा ब्रत इन तीनोंके समुदायमें सर्वकाल ( निरन्तर ) तपर होतो । अब  
इसीका विशेष वर्णन करते हैं कि-अनशन ( उपवासका करना ) १, अवमौदर्य ( कम  
भोजन करना ) २, वृत्तिपरिसंख्यान ( अटपटी वृत्तिको ग्रहण करके भोजन करने जाना )  
३, रसपरित्याग ( छः रसोंमेंसे एक दो आदि रसोंका त्याग करना ) ४, विवक्षण्यासन  
( निर्जन और शुद्ध स्थलमें शयन करना वा बैठना ) ५, कायकलेश ( शक्तिके अनुसार शरीरसे  
परिग्रह लेना ) ६, इन भेदोंसे छ प्रकारका बाह्य तप और इसी प्रकार प्रायश्चित्त १, विनय  
२, वैद्यावृत्य ३, स्वाध्याय ४, कायोत्सर्ग ५ और ध्यान ६, इन भेदोंसे छः प्रकारका अन्त-  
रंग तप ऐसे बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों तर्पोंके भेदोंको मिलानेसे बारह प्रकारका  
व्यवहारतप है । और उसी व्यवहारतपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध आत्माके स्वरूपमें  
प्रतपन अर्थात् विजय करने का निश्चयतप है । इसी प्रकार मूलाचार भगवतो आराधना  
आदि द्रव्यश्रुत, तथा उन शाखोंके आधारसे अर्थात् पठन पाठनसे उत्पन्न हुआ और  
विकाररहित निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप ज्ञानका धारक भावश्रुत है । तथा इसी-  
प्रकार द्रव्य और भावरूप जो हिंसा, अनृत ( झूठ ), स्तेय ( चोरी ), अब्रह्म ( कुशील )  
और परिग्रह है, इनके त्यागरूप पाचब्रत है । ऐसे कहे हुए लक्षणके धारक जो तप,  
श्रुत और ब्रत हैं इनसे सहित हुआ पुरुष ध्याता ( ध्यानकरनेवाला ) होता है ।  
और इन तप, श्रुत तथा ब्रतरूप ही ध्यानकी सामग्री है । सो हो कहा कि “वैराग्य  
१, तत्त्वों का ज्ञान २, बाह्य अभ्यन्तर रूप दोनों परिग्रहोंसे रहितपना ३, राग और  
द्वेषकी रहिततारूप साम्यभावका होना ४, और बाईस परिग्रहोंका जीवना ५, ये पाँचों  
ध्यानके कारण हैं । १ ।”

१—‘वैराग्यचित्तता इत्यपि पाठ ।

भगवन् ध्यानं तावन्मोक्षमागेभूतम् । मोक्षार्थिना पुरुषेण पुण्यवन्वकारणत्वावद्रतानि त्याज्यानि भवन्ति, भवद्विः पुनर्धर्यानसामग्रीकारणानि तपःश्रुतब्रतानि व्याख्यातानि, तत् कथं घटत इति । तत्राच्चर दीयते-त्रतान्येव केवलानि त्याज्वान्येवं न किन्तु पापवन्वकारणानि हिंसादिविकल्परूपाणि यान्यत्रतानि तान्यपि त्याज्यानि । तथाचोक्तं पूज्यपादस्वामिभिः—“अपुण्यमन्त्रतैः पुण्यं ब्रतेभोक्षमत्योर्वर्यः । अब्रतानीव मोक्षार्थी ब्रतान्यपि ततस्त्वजेत् ॥ १ ॥ किंत्वब्रतानि पूर्वं परित्यज्य ततश्च ब्रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निर्विकल्पसमाधित्वं परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशब्रतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तं हंरेव—‘अब्रतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत्तान्यपि सप्राप्य परमं पदमात्मनः । १ ।’”

अब तु विशेषः—न्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेशब्रतानि तानि त्यक्तानि । यानि पुनः सर्वं गुमागुमिवृत्तिरूपाणि निश्चयब्रतानि तानि त्रिगुमिलक्षणस्वशुद्धात्मसमन्वितरूप-निर्विकल्पव्याने स्वीकृतान्येव न च त्यक्तानि । प्रसिद्धमहाब्रतानि कथमेकदेशरूपाणि जातानि । इति चेचदुच्यते—जीववातनिवृत्ती सत्यामपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । तथै-

यहा शिष्य शंका करता है कि, आचार्यभगवान् ! ध्यान तो मोक्षका मार्गभूत है अर्थात् मोक्षका कारण है और जो मोक्षको चाहनेवाला पुरुष है उसको पुण्यवधके कारण होनेसे ब्रत त्यागने योग्य हैं अर्थात् ब्रतोंसे पुण्यका वन्ध होता है; और पुण्यवन्ध संमारका कारण है, इसलिये मोक्षार्थी ब्रतोंका त्याग करता है और आपने तप, श्रुत और ब्रतोंको ध्यानकी पूर्णताके कारण कहे सो यह आपका कथन कैसे घटता (सिद्ध होता) है ? अब इस शंकाका उत्तर दिया जाता है कि, केवल ब्रत ही त्यागने योग्य हैं ऐसा नहीं किंतु पापवन्धके कारण जो हिंसा आदि भेदोंके धारक अब्रत हैं वे भी त्यागने योग्य हैं। सां ही श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा है कि, “हिंसा आदि अब्रतोंसे पापका वन्ध होता है; और अहिंसादि ब्रतोंसे पुण्यका वन्ध होता है, तथा मोक्ष जो है वह पाप व पुण्य इन दोनोंके नाशसे होता है, इस कारण मोक्षको चाहनेवाला पुरुष जैसे अब्रतोंका त्याग करता है, वैसे ही अहिंसादिब्रतोंका भी त्याग करें । १ ।” विशेष यह है कि मोक्षार्थी पुरुष पहले अब्रतोंका त्याग करके पश्चात् ब्रतोंका धारक होकर निर्विकल्प—समाधि (ध्यान) रूप आत्माके परम पदको प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेशब्रतोंका भी त्याग कर देता है। यह भी उन्हीं श्रीपूज्यपादस्वामीने समाधिअतकमें कहा है कि “मोक्षको चाहनेवाला पुरुष अब्रतोंका त्याग करके ब्रतोंमें स्थित होकर आत्माके परम पदको पावे और उस आत्माके परम पदको प्राप्त होकर उन ब्रतोंका भी त्याग करें । १ ।”

इस पूवकथनमें विशेष यह है कि, मन बचन और कायकी गुमिरूप और निज शुद्ध आत्माके द्वानन्वरूप जो निर्विकल्पध्यान है उसमें व्यवहाररूप जो प्रसिद्ध एकदेशब्रत हैं उनका त्याग किया है। और जो संपूर्ण शुभ तथा अशुभ की निवृत्तिरूप निश्चयब्रत

वास्त्यवचनपरिहारेऽपि सत्यवचनप्रवृत्तिरस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीत्याद्येकदेशप्रवृत्त्यपेक्षया देशब्रतानि तेषामेकदेशब्रतानां त्रिगुप्तिलक्षणपनिविं-कल्पसमाधिकाले त्यागः । न च समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयब्रतस्येति । त्याग कोऽर्थः । यथैव हिंसादिरूपब्रतेषु निवृत्तिरस्तथैकदेशब्रतेष्वपि । कस्मादिति चेत—त्रिगुप्ता-वस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति । अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयब्रतम् । कस्मात्—सर्वनिवृत्तित्वादिति । योऽपि घटिकाद्वयेन मोक्षं गतो भरतश्चकी सोऽपि जिनदीक्षा गृहीत्वा विषयकपायनिवृत्तिरूपं क्षणमात्रं ब्रतपरिणामं कृत्वा पश्चाच्छुद्धोपयोगत्वरूपरत्नयात्मके निश्चयब्रताभिधाने वीतरागसामायिकसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा केवलज्ञान लब्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वाल्लोका ब्रतपरिणामं न जानन्तीति । तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन् जिनदीक्षादानानन्तरं

हैं उनका स्वीकार ही किया गया है और त्याग नहीं किया गया है । प्रसिद्ध जो अहिसादि महाब्रत हैं वे एकदेशरूप कैसे हो गये ? ऐसी शंका करो तो समाधानरूप उत्तर यह है कि, अहिंसा महाब्रतमें यद्यपि जीवोंके घात ( मारने ) से निवृत्ति ( रहितता ) है; तथापि जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रवृत्ति है । इसी प्रकार सत्य महाब्रतमें यद्यपि असत्य वचनका त्याग है, तो भी सत्यवचनमें प्रवृत्ति है । और अचौर्यमहाब्रतमें यद्यपि नहीं दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेका त्याग है, तो भी दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति है । इत्यादि एकदेशप्रवृत्तिकी अपेक्षासे ये पांचों महाब्रत देशब्रत हैं । इन एक-देशरूप ब्रतोंका मन, वचन और कायकी गुप्ति स्वरूप जो विकल्परहित ध्यान है उसके समयमें त्याग है । और समस्त शुभ तथा अशुभको निवृत्तिरूप जो निश्चयब्रत है उसका त्याग नहीं है । प्रश्न—त्याग इस शब्दका क्या अर्थ है ? उत्तर—जैसे हिंसा आदि रूप पांच अब्रतोंमें रहितपना है उसी प्रकार जो अहिंसा आदि पचमहाब्रतरूप एकदेश ब्रत हैं उनमें रहितपना है यही यहां त्याग शब्दका अर्थ है । इन एकदेशब्रतोंका त्याग किस कारणसे होता है ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, मन, वचन और काय इन तीनोंकी गुप्तिरूप जो अवस्था है, उसमें प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप जो विकल्प है; उसका स्वयं ही अवकाश नहीं है, अर्थात् मन, वचन और कायकी गुप्तिरूप ध्यानमें कोई प्रकारका भी विकल्प नहीं होता और अहिंसादि महाब्रत विकल्परूप हैं इसलिये वे त्रिगुप्तिमें ध्यानरूप नहीं रह सकते हैं । और जो दीक्षाके पश्चात् दो घटिका ( घडी ) प्रमाणकालमें ही श्रीभरतचक्रवर्ती मोक्ष पधारे हैं उन्होंने भी जिनदीक्षाको ग्रहण करके, क्षणमात्र ( थोड़े समयतक ) विषय और कथायोंकी रहिततारूप जो ब्रतका परिणाम है उसको करके तत्पश्चात् शुद्धोपयोगरूप जो रत्नत्रय उस स्वरूप जो निश्चयब्रत नामका धारक और वीतरागसामायिक नामका धारक निर्विकल्प ध्यान है उसमें स्थित होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं । परन्तु श्रीभरतजीके जो थोड़े समय ब्रतपरिणाम रहा इस

भरतचक्रिणः कियति काले केवलज्ञानं जातमिति श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेव-  
समवसरणमध्ये श्रेणिकमहाराजेन पृष्ठे सति गौतमस्वामी आह—“पञ्चमुष्टिभिरुत्पाद्य  
त्रोङ्ग्यन् वन्धस्थितीन् कचान् । लोचानन्तरमेवापद्राजन् श्रेणिक केवलम् । १ ।”

अत्राह शिष्यः । अद्य काले ध्यान नास्ति । कस्मादिति चेत्—उत्तमसंहननाभावाह-  
शचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहार । शुक्लध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तीति ।  
तथा चोक्तं मोक्षप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “भरहे दुस्समकाले धर्मज्ञानां हवेइ  
णाणिस्स । तं अप्सहावठिए ण हु मण्णइ सो दु अण्णाणी । १ । अज्जवि तियरणसुद्धा  
अप्पा ज्ञाऊण लहह इदत्त । लोयंतियदेवत्त तथ्यचुदा णिब्बुदिं जति । २ ।” तथैव  
तत्त्वानुशासनग्रन्थे चोक्तं “अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा । धर्मध्यानं पुनः  
प्राहुः श्रेणीभ्यां प्रागिववर्त्तिनाम् । १ ।” यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् ।

कारण लोग श्रीभरतजीके ब्रतपरिणामको नहीं जानते हैं । अब उसी श्रीभरतजीकी दीक्षाके  
विधानका कथन करते हैं । श्री वीर वर्द्धमानस्वामी तीर्थकर परमदेवके समवसरणमें  
श्रेणिक महाराजने प्रश्न किया कि ‘हे भगवन् ! श्रीभरतचक्रवर्तीके जिनदीक्षाको ग्रहण  
करनेके पीछे कितने कालमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ’ इस पर श्रीगौतमस्वामी गणधरदेवने  
उत्तर दिया कि “हे श्रेणिक राजन् ! वन्धके कारणभूत जो केश ( बाल ) हैं उनको  
पांच मुष्टियोंसे उखाड़कर तोड़ते हुए ही अर्थात् पचमुष्टी लोच करनेके अनन्तर ही श्री  
भरतचक्रवर्ती केवलज्ञानको प्राप्त हुए । १ ।”

अब यहांपर शिष्य कहता है कि, भो गुरो ! इस पंचम कालमें ध्यान नहीं है । क्यों  
नहीं है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि इस कालमें उत्तमसंहननका अर्थात् वज्र, वृषभ  
और नाराच संहननोंका अभाव है और दश तथा चौदहपूर्व पर्यन्त श्रुतज्ञानका अभाव है ।  
अब आचार्य महाराज इस शिष्यकी शंकाको दूर करते हैं कि, हे शिष्य ! इस समयमें  
शुक्लध्यान नहीं है परंतु धर्मध्यान तो है ही है । सो ही श्रीकुन्दकुन्द आचार्यस्वामी मोक्ष-  
प्राभृत ( मोक्षप्राहुड )में कहते हैं कि, “भरतक्षेत्रमें जो दुःखमा अर्थात् पंचमकाल है  
उसमें ज्ञानी जीवके धर्मध्यान होता है । उसको जो कोई आत्माके स्वभावमें स्थित नहीं  
मानता है वह अज्ञानी है । १ । क्योंकि इस समय भी जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान  
और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय है उससे शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यान करके इन्द्रप-  
नेको अथवा लौकान्तिकदेवपनेको प्राप्त होते हैं । और वहांसे चयकर नरपर्यायको ग्रहण  
करके उसी भवमें मोक्षको जाते हैं । २ ।” और इसीप्रकार तत्त्वानुशासन नामक  
ग्रन्थमें भी कहा है कि, “इस समय ( पंचमकाल )में श्रीजिनेन्द्रदेव शुक्लध्यानका निषेध  
करते हैं; अर्थात् इस समयमें शुक्लध्यान नहीं होता ऐसा उपदेश देते हैं, और उपशम-  
श्रेणी तथा क्षपकश्रेणी इन दोनों श्रेणियोंसे पहले रहनेवाले जीवोंके धर्मध्यान होता है  
ऐसा कथन करते हैं । १ ।” और हे शिष्य ! तुमने जो यह कहा कि ‘इस कालमें उत्तम

अपवादव्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकश्रेण्योः शुक्लध्यानं भवति, तत्त्वोत्तमसंहननेनैव । अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं, तत्त्वादिमत्रिकोत्तमसंहननामावेऽप्यन्ति-मत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तत्त्वानुशासने “यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानं-मित्यागमे चच्चः । श्रेण्योर्धर्यानं प्रतीत्योक्तं तत्रोऽधस्तानिषेधकम् । १ । यथोक्तं दशचतुर्दश-पूर्वं गतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गवचनम् । अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चस-मितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानज्ञ । यदेव मपवाद-व्याख्यानं नास्ति तर्हि “तुसमास धोसन्तो सिवभूदी केवलो जादो” इत्यादिगन्धर्वाद-राधनादिभणित व्याख्यान कथं घटते ?

अथ मत-पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतमिति जानाति । इदं भावश्रुतं पुनः सर्वमस्ति । नैव वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादक द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि ‘मा रूसह मा तूमह’ इत्येकं पदं किं न जानाति ? तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमातृप्रमाणं-मेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिने कल्पितमेव ।

संहननका अभाव है इस कारण ध्यान नहीं होता’ सो यह उत्सर्गवचन है । अपवादरूप व्याख्यानसे तो उपशमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणीमें शुक्लध्यान होता है और वह उत्तमसंहनन से ही होता है । और अपूर्वकरण नामक ८ वें गुणस्थानसे नीचेके जो गुणस्थान हैं उनमें धर्मध्यान होता है । और वह धर्मध्यान वर्ष १, बृषभ २, नाराच ३, इन आदिके नीन उत्तम संहननोंका अभाव होनेपर अन्तके जो अर्द्धनाराच १, कीलक २ और स्फाटिक ३ नामक तीन संहनन हैं उनसे भी होता है । यह विषय भी उसी तत्त्वानुशासन नामक ग्रन्थमें कहा है कि, “और जो वज्र काय ( संहनन ) के धारकके ध्यान होता है” ऐसा आगममें वचन है वह उपशम तथा क्षपक श्रेणीके ध्यानको प्रतीतिगोचर करके कहा है, इस कारण यह वचन नीचेके गुणस्थानोंमें धर्मध्यानका निषेध करनेवाला नहीं है । तथा जो ऐसा कहा है कि ‘दश तथा चौदहपूर्वं गत श्रुतज्ञानसे ध्यान होता है’ वह भी उत्सर्गका वचन है । और अपवादके व्याख्यानसे तो पांच समिति और तीन गुप्तिको प्रतिपादन करनेवाला सारभूत श्रुतज्ञान है उससे भी ध्यान और केवलज्ञान होता है । जो ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो “तुष माषका उच्चारण ( अभ्यास ) करते हुए श्रीशिवभूति मुनि केवलज्ञानी होगये” इत्यादि गंधर्वाराधनादि ग्रन्थोंमें कहा हुआ कथन कैसे सिद्ध होवे ?

अब कदाचित् ऐसा मत हो कि, शिवभूति मुनि पांच समिति और तीन गुप्तियोंको प्रतिपादन करनेवाले द्रव्यश्रुत ( शास्त्र ) को जानते थे और यह भावश्रुतं उनके संपूर्ण रूपसे था, सो ठीक नहीं । क्योंकि, यदि शिवभूतिमुनि पांच समिति और तीन गुप्तियोंका कथन करनेवाले द्रव्यश्रुत ( शास्त्र ) को जानते थे तो उन्होंने “मा तूसह मा रूसह” अर्थात् किसीमें राग और द्वेष मत कर इस एक पदको क्यों नहीं जाना ? इसी कारणसे

तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्तर्मुहूर्ताद्वृक्षे ये केवलज्ञानमुत्पाद-  
यन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्त्तिनो निर्ग्रन्थसंज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण  
चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मतं-मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाय काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् ?  
नैव-अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत्, स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसार-  
स्थितिं स्तोका कृत्वा दैवलोक गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा  
शीत्र मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्ष गतास्तेपि पूर्वभवेऽभे-  
दरत्रत्रयभावनया ससारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्ष गता । तद्द्वे सर्वेषां मोक्षो भव-  
तीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्त्त-  
व्यम्—“वधवन्धच्छेदादेष्टपाद्रागाच्च परकलन्नादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशा-  
सने विशदाः । १ । संकल्पकल्पतरुस्त्रयणात्तदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् ।

जाना जाता है कि पांच समिति और तीन गुप्तियों रूप जो आठ प्रबचन मातायें हैं उन प्रमाण ही उनके भावश्रुत था और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था । और यह व्याख्यान हमने ही नहीं कल्पित किया है; किंतु ‘चारित्रसार’ आदि शास्त्रोंमें भी यह वर्णन किया हुआ है । सो ही दिखलाते हैं-अन्तर्मुहूर्तके पीछे जो केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं वे क्षीणकषाय नामक १२ वें गुणस्थानमें रहने वाले निर्ग्रन्थ संज्ञाके धारक ऋषी कहलाते हैं, और उनके उक्तष्टातासे ग्यारह अग चौदह पूर्वपर्यन्त श्रुतज्ञान होता है, और जघन्यरोतिसे पांच समिति तथा तीन गुप्तियों मात्र ही श्रुतज्ञान होता है ।

अब कदाचित् तुम्हारा यह मत हो कि,—मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है और मोक्ष इस पंचम कालमें होता नहीं है इस कारण ध्यानके करनेसे क्या प्रयोजन है । सो यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं । क्योंकि, इस पंचमकालमें भी परंपरासे मोक्ष है । परंपरासे मोक्ष कैसे है ? ऐसा पूछा तो उत्तर यह है कि, ज्ञानी पुरुष निजशुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे ससारकी स्थितिको अल्प करके अर्थात् बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करके स्वर्गमें जाता है । और वहासे मनुष्यभवमें आकर रत्नत्रयकी भावनाको प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्षको चला जाता है और जो भरतचक्रवर्तीं, सगरचक्रवर्तीं, रामचद्रजी तथा पांडव अर्थात् युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम आदि मोक्षको गये हैं, उन्होंने भी पूर्वभवमें अभेदरत्नत्रयकी भावनासे अपने संसारकी स्थितिको छटाली थी; इस कारण इस भवमें मोक्ष गये । उसी भवमें सबके मोक्ष हो जाता है ऐसा नियम नहीं है । ऐसे कहे हुये प्रकारसे अल्पश्रुत-ज्ञानसे भी ध्यान होता है । यह जानकर क्या करना चाहिये ? “द्वेषसे वध ( मारना ) वन्ध ( वांधना ) छेद ( किसी अंगको काटना ) आदिका और रागसे परखो आदिका जो चित्तबन करना है; उसको जिनमतमें निर्मल बुद्धिके धारक आचार्य अपध्यान ( बुरा ध्यान ) कहते हैं । १ । हे जीव संकल्परूपी कल्पवृक्षका आप्रव करनेसे तेरा चित्त इस

तत्रात्तस्तव चकास्ति न किं च नापि पक्षे परं भवति कल्मषसंशयस्य । २ । दौर्विष्वद्वर्ग-  
मनसोऽन्तरुपात्तमुक्तेश्चित्तं यथोङ्गसति ते स्फुरितोऽपरङ्गम् । धार्मि स्फुरेद्यदि तथा परमा-  
त्मसंज्ञे कौतस्कुतो तव भवेद्विफला प्रसूतिः । ३ । कंखिद कलुसिदभूतो कामभोगेहि  
मुच्छिदो जीवो । य य मुञ्जांतो भोगे वन्धदि भावेण कम्माणि । ४ ।” इत्याद्यपध्यानं  
त्यक्त्वा—ममन्त्रि परिवज्जामि णिममन्तिमुवडिदो । आलंबणं च मे आदा अवसेसाइं  
वोसरे । १ । आदा क्खु मञ्जा णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते थ । आदा पञ्चक्खणे आदा  
मे संवरे जोगे । २ । एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदं सणलक्खणो । सेसा मे वाहिरा  
भावा सञ्चे संजोयलक्खणा । ३ । इत्यादिसारपदानि गृहीत्वा च ध्यान कर्त्तव्यमिति ।

अथ मोक्षविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्त्वावत् वन्धपूर्वकः ॥  
तथाचोक्त—“मुक्त्वेत् प्राक्भवेद्वन्धो नो वन्धो मोचन कथम् । अवन्धे मोचन नैव मुञ्जेत्यो

मनोरथ सागरमे द्वूब जाता है, और उस सकल्परूपो कल्पवृक्षका आश्रय करनेमें यद्यपि  
इष्टपदार्थका अनुभव होता है परन्तु परमार्थसे तुङ्गको कुछ भी नहीं भासता है, केवल  
निश्चयसे तू पापका भागी होता है । २ । निर्धनतासे दग्ध है मन जिसका ऐसा और  
संकल्पसे ग्रहण किया है भोजन जिसने ऐसा तेरा उत्कट मनोरथोंका धारक चित्त जैसे  
भोजनको लेनेके लिये प्रवृत्त होता है, वैसे ही यदि तू परमात्मा नामके धारक तेजमें  
वा स्थानमें चित्तको करै तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो अर्थात् तेरा जन्म लेना सफल हो  
जावै । ३ । कषायोंसे मलीन हुआ और कामभोगोंमें मूर्च्छित हुआ यह जीव कामभोगों  
की इच्छा करता है । और भोगोंको भोगता नहीं है तो भी भावोंसे कमोंको बांधता है  
। ४ ।” इत्यादि रूप जो दुर्ध्यान है उसको छोड़कर और “निर्ममत्वमें स्थित होकर  
पर पदार्थोंमें जो ममकार ( मेरी ) दुद्धि है उसका मैं त्याग करता हू, और मेरे आत्मा  
ही आलंबन ( ध्यानका आधार ) है; अन्य सबको मैं त्यागता हू किंवा भूलता हू । १ ।  
मेरे आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्या-  
ख्यान है, आत्मा ही सबरका कारण है और आत्मा ही योग है । २ । मेरा ज्ञान-दर्श-  
नरूप लक्षणका धारक एक आत्मा ही अविनाशी है, और बाकीके सब संयोगरूप लक्ष-  
णके धारक बाह्यभाव हैं उनका वियोग अवश्य होगा । ३ ।” इत्यादि सारभूत २ पदोंको  
ग्रहण करके ध्यान करना चाहिये ।

अब मोक्षके विषयमें फिर भी नयोंके विचारका कथन करते हैं । सो ही दिल्लाते हैं  
कि, मोक्ष जो है वह वन्धपूर्वक है अर्थात् जिसके पहले वध होता है उसके मोक्ष होता  
है । सो ही कहा है कि, ‘जो यदि यह जीव मुक्त है तो पहले इस जीवके वंध अवश्य  
होना चाहिये । यदि कहो कि जीवके पहले वन्ध नहीं था तो जीवके मोचन ( छूटना )  
कैसे हुआ ? क्योंकि यिना वंधे हुए जीवके मोचन नहीं हो सकता । इस लिये वन्धको

निरर्थकः । १ ।” वन्धुश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति । तथा वन्धपूर्वको मोक्षोऽपि । यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन वन्धो भवति तदा सर्वदैव वन्ध एव मोक्षो नास्ति । किंच—यथा शृङ्खला-वद्धपुरुषस्य वन्धच्छेदकारणभूतभावमोक्षस्थानीयं वन्धच्छेदकारणभूतं पौरुषं पुरुषस्वरूपं न भवति, तथैव शृङ्खलापुरुषयोर्यद्व्यमोक्षस्थानीयं पृथक्करणं तदपि पुरुषस्वरूपं न भवति । किन्तु ताभ्या भिन्नं यद्वद्वृष्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पुरुषस्वरूपम् । तथैव शुद्धोपयोगलक्षणं भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्ञी-वकर्मप्रदेशयोः पृथक्करणं द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यद्वन्नतज्ञानादिगुणस्वभावं फलभूतं तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमार्थः—यथा विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन पूर्वं मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पर्यायमोक्षरूपो मोक्षोऽपि । न च शुद्धनिश्चयनयेनेति । यस्तु शुद्धद्रव्यशक्तिरूपः शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानीं भविष्यतीत्येवं न । स एव रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यानभावनापर्याये ध्येयो भवति । न च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्यार्थिकनयेनापि स एव मोक्षकारणभूतो ध्यान-

नहीं प्राप्त हुए जीवके माननेमें मुच्च धातुका जो छूटनेसे रूप अर्थ है वह व्यर्थ होता है ॥  
 भावार्थः—जैसे कोई पुरुष पहले वधा हुआ हो और फिर छूटै तब वह मुक्त कहलाता है । इसी प्रकार जो जीव पहले कर्मोंसे वंधा हुआ होता है उसीका मोक्ष होता है । और यह वन्ध शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं है । तथा वंधपूर्वक मोक्ष भी शुद्धनिश्चयनयसे नहीं है । और यदि शुद्धनिश्चयनयसे वंध होवे तो सदा ही इस आत्माके वन्ध रहे मोक्ष होवे ही नहीं । जैसे शृङ्खला ( सांकल व जंजीर ) से बधे हुए पुरुषके, वन्धके नाशका कारणभूत जो भावमोक्ष है उसके स्थानबाला जो शृङ्खलाके वन्धको छेदनेका कारणभूत पौरुष ( चद्यम ) है वह पुरुषका स्वरूप नहीं है । और इसी प्रकार द्रव्यमोक्षके स्थानमें प्राप्त ( एवजमें जाया हुआ ) जो शृङ्खला और पुरुष इन दोनोंका जुदा करना है वह भी पुरुषका स्वरूप नहीं है, किंतु उन पौरुष और पृथक्करणसे जुदा जो देखा हुआ हस्त पाद आदि रूप आकार है, वही पुरुषका स्वरूप है । उसी प्रकार शुद्धोपयोगलक्षण जो भावमोक्षका स्वरूप है, वह शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षा जीवका स्वरूप नहीं है । और उसी प्रकार उस भावमोक्षसे साध्य जो जीव और कर्मके प्रदेशोंको जुदा करने रूप द्रव्यमोक्षका स्वरूप है, वह भी जीवका स्वभाव नहीं है । किन्तु उन भावमोक्ष और द्रव्यमोक्षसे भिन्न जो फलभूत ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है वही, शुद्ध जीवका स्वरूप है । यहां पर भावार्थ यह है कि, जैसे विवक्षित-एकदेशं शुद्धनिश्चयनयसे पहले मोक्षमार्गका व्याख्यान किया है, उसीप्रकार पर्यायमोक्षरूप जो मोक्ष है उसका कथन भी विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे ही जानना चाहिये । और शुद्धनिश्चयनयसे नहीं । और जो शुद्ध द्रव्यकी शक्तिरूप शुद्धपारिणामिक परमभावरूप लक्षणका धारक परमनि-

भावना पर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपर्यामद्वयाधारभूतस्य जीवधर्मिणो मोक्षपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन वन्धमोक्षी न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थः कथ्यते । अतधातुः सातत्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं भण्यते 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति वचनात्' । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिगुणेषु आसमन्तात् अतति वर्तते यः स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकायद्व्यापरैर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आसमन्तादतति वर्तते यः स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययात्रौव्यैरासमन्तादतति वर्तते य । स आत्मा । किञ्च—यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलघटेषु हृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तनु न घटते । कस्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटस्यजलपुद्गला एव नानाचन्द्राकारेण परि-

श्रयमोक्ष है वह तो जीवमें पहले ही विद्यमान है । वह परमनिश्चयमोक्ष जीवमें अब होगा ऐसा नहीं है । तथा राग आदि विकल्पोंसे रहित मोक्षका कारणभूत जो ध्यानभावनापर्याय है उसमें वही मोक्ष ध्येय होता है । और ध्यान भावनापर्यायरूप ध्येय नहीं है । और यदि एकान्त करके द्रव्यार्थिकनयसे भी वही मोक्षकारणभूत ध्यानभावना पर्याय कहा जावे तो, द्रव्य और पर्यायरूप दो दो धर्मोंका आधार जो जीवधर्मी है, उसके मोक्षपर्याय प्रकट होने पर जैसे ध्यानभावनापर्यायरूपसे विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जो जीव है उसका शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपसे भी विनाश प्राप्त होता है । और द्रव्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणामिकभावसे जीवके बन्ध और मोक्ष नहीं होता है, यह कथन सिद्ध होगया ।

अब आत्मा शब्दका अर्थ कहते हैं । अत धातु निरन्तर गमन करने रूप अर्थमें वर्तता है और 'सब गमनरूप अर्थके धारक धातु ज्ञान अर्थके धारक हैं' इस वचनसे यहीं पर गमन शब्द करके ज्ञान कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख आदि गुणोंमें पूर्णरूपसे वर्तता है वह आत्मा है । अथवा शुभ-अशुभ रूप जो मन वचन कायके व्यापार हैं उनकरके यथासंभव तीव्र मन्द आदि रूपसे जो पूर्ण रूपसे वर्तता है वह आत्मा कहलाता है । अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनोंकरके जो पूर्णरूपसे वर्तता है उसको आत्मा कहते हैं । और कितने ही ऐसा कहते हैं कि, जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलके भरे घटोंमें देखा जाता है इसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरोंमें रहता है सो यह उनका कथन घटता नहीं । क्यों नहीं घटता ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि जलके घटों में चन्द्रमाको किरणरूप उपाधिके वशसे घटमें विद्यमान जो जलके पुद्गल हैं वे ही अनेक प्रकारके चन्द्रमारूप आकारोंमें परिणत हुए हैं

णता, नचैकश्चन्द्रः । तत्र हृष्टान्तमाह—यथा देवदत्तमुखोपाधिक्षेण नानादर्पणस्थपुद्गला एव नानामुखाकारेण परिणता, न चैकं देवदत्तमुख नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति चेत्—तर्हि दर्पणस्थप्रतिविम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्नोति न च तथा हृश्यते ।

अथवा ये वदन्ति यथैऽकोपि समुद्रः क्वापि क्षारजलः क्वापि मिष्टजलमत्थैकोऽपि जीवः सर्वदैहेषु तिष्ठतीति । तदपि न घटते । कथमिति चेत्—जलराश्यपेक्षया तत्रैकत्वं, न च जलपुद्गलपेक्षया तत्रैकत्वम् । यदि जलपुद्गलपेक्षया भवत्येकत्वं तर्हि स्तोकजले गृहीते शेषजलं सर्वैव किञ्चायाति । ततः स्थितं षोडशवर्णिकासुवर्णराशिवदनन्तज्ञानादिलक्षणं प्रत्येकं जीवराशिं प्रति न चैकजीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथयते । मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजालरूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्मभिति । एवं ध्यानसामग्रीव्याख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥

और एक चन्द्रमा जो है वह अनेकरूप नहीं परिणमा है । इस विषयमें हृष्टान्त कहते हैं कि जैसे—देवदत्तके मुखरूप उपाधिके वशसे अनेक दपेणोंमें स्थित जो पुद्गल हैं वे ही अनेकमुखरूप परिणमते हैं और एक देवदत्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणमता है । यदि कहो कि, देवदत्तका मुख ही अनेक मुखरूप परिणमता है तो दर्पणस्थित जो देवदत्तके मुखका प्रतिविम्ब है वह चेतनताको प्राप्त होवै, परंतु ऐसा नहीं अर्थात् दर्पणमें जो मुखका प्रतिविम्ब है वह चेतन नहीं है । और भी विशेष यह है कि यदि अनेक शरीरोंमें एक ही जीव हो तो जब एक जीवको सुख, दुःख जीवित और मरण आदि प्राप्त होवें तब उसी क्षणमें सब जीवोंको सुख, दुःख, जीवित और मरण आदि प्राप्त होवें और ऐसा देखनेमें नहीं आता है ।

अथवा जो ऐसा कहते हैं कि, 'जैसे एक ही समुद्र कहीं तो खारे जलबाला है, कहीं मीठे जलका धारक है, उसी प्रकार एक ही जीव सब देहोंमें विद्यमान है' सो यह कहना भी घटित नहीं होता । क्यों नहीं घटता यह पूछो तो उत्तर यह है कि, समुद्रमें जलराशिकी अपेक्षासे एकता है और जलके पुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता नहीं है । यदि जलपुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता होती है तो समुद्रमेंसे अल्प (थोड़ा, ) जल प्रहण करनेपर शेष (वचा हुआ), जो जल है वह भी साथ ही क्यों नहीं आ जाता है । इसकारण सोलह बानीके सुवर्णको राशिके समान अनन्तज्ञान आदि लक्षणोंके प्रति जीवराशिमें एकता है और एक जीवनी अपेक्षासे जीवराशिमें एकता नहीं है । अब अध्यात्म शब्दका अर्थ कहते हैं । मिथ्या राग आदि जो समस्त विकल्पोंके समूह हैं उनका त्याग करके जो निज शुद्ध आत्मामें अनुष्ठान (प्रवृत्तिका करना) है उसको अध्यात्म कहते हैं । इसप्रकार ध्यानकी सामग्रीके व्याख्यानके उपसंहाररूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५७ ॥

अशौद्धत्यपरिहारं कथयति:—

द्व्यवसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुणा ।

सोधयंतु तप्तुसुत्तधरेण षेमिचन्द्रमुणिणा भणियं जं ॥ ५८ ॥

व्याख्या । “सोधयंतु” शुद्धं कुर्वन्तु । के कर्त्तारः ? “मुणिणाहा” मुनिनाथा मुनिप्रधानाः । किंविशिष्टाः ? “दोससंचयचुदा” निर्दोषपरमात्मनो विलक्षणा ये रागादिदोषस्तथैव च निर्दोषपरमात्मादित्त्वपरिज्ञानविषये सशयविमोहविभ्रमास्तैश्चयुता रहिता दोषसंचयच्युता । पुनरपि कथम्भूता । ? “सुदपुणा” वर्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन तथैव तदाधारोत्पत्तनिर्विकारस्वसम्बेदनज्ञानरूपभावश्रुतेन च पूर्णा । समग्राः श्रुतपूर्णा । कं शोधयन्तु ? “द्व्यवसंगहमिण” शुद्धतुद्धकस्वभावपरमात्माद्रव्याणा सग्रहो द्रव्यसंग्रहस्तं द्रव्यसंग्रहाभिधानं ग्रन्थमिमं प्रत्यक्षीभूतम् । किं विजिष्ट ? “भणिय जं” भणितः प्रतिपादितो यो ग्रन्थः । केन कर्त्तेभूतेन ? “षेमिचन्द्रमुणिणा” श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यगदर्शनादिनिश्चयव्यवहाररूपपञ्चाचारोपेताचार्येण । कथम्भूतेन ? “तप्तुसुत्तधरेण” तप्तुश्रुतधरेण, तप्तुश्रुतं स्तोक श्रुतं तद्वरतीति तप्तुश्रुतधरस्तेन । इति क्रिया-

अब ग्रथकार अपने औद्धत्य ( अभिमान ) को दूर करनेके लिये अग्रिम छन्द कहकर शास्त्रको समाप्त करते हैं:—

काव्यभावार्थ—अल्पज्ञानके धारक मुहू ( नेमिचन्द्र मुनि ) ने जो यह द्रव्यसंग्रह कहा है इसको दोपोसे रहित और ज्ञानसे परिपूर्ण ऐसे आचार्य शुद्ध करें ॥ ५८ ॥

॥ इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविनिर्मितो वृहद्द्रव्यसंग्रहः समाप्तः ॥

व्याख्यार्थः—“सोधयंतु” शुद्ध करें । शुद्ध करनेवाले कौन हैं ? “मुणिणाहा” मुनियोंमें प्रधान अर्थात् आचार्य हैं । कैसे हैं वे आचार्य ? “दोससंचयचुदा” दोषरहित परमात्मासे भिन्न लक्षणके धारक जो राग आदि दोष हैं उनके, तथा निर्दोष परमात्मा आदि तत्त्वोंके जाननेमें जो सशय, विमोह और विभ्रमरूप दोष हैं उनके सचयसे रहित हैं । फिर कैसे हैं ? “सुदपुणा” इस समय विद्यमान परमागम ( शास्त्र ) नामक जो द्रव्यश्रुत है उससे तथा उस परमागमके आधारसे उत्पत्त जो निर्विकार-निज आत्माके जाननेरूप भावश्रुत है उससे परिपूर्ण हैं । वे आचार्य किसको शुद्ध करें ? “द्व्यवसंगहमिणं” शुद्ध-तुद्ध एकस्वभावका धारक जो परमात्मा है उसको आदि, ले जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालरूप द्रव्य हैं उनका है संग्रह जिसमें ऐसे इस प्रत्यक्षमें विद्यमान द्रव्यसंग्रह नामक शास्त्रको शुद्ध करें । कैसे द्रव्यसंग्रहको शुद्ध करें ? “भणिय जं” जिस शास्त्र को कहा है । किन कर्त्ताने कहा है ? “षेमिचन्द्र-णिणा” श्रीनेमिचन्द्रमिद्धान्तिदेव नामक मुनिने अर्थात् सम्यगदर्शन आदि जो निश्चय और व्यवहार भेदसे पांच प्रकारका आचार है उस आचारसंहित आचार्यने । कैसे नेमिचन्द्र आचार्यने ? “तप्तुसुत्तधरेण” अल्पश्रुतज्ञानके धारकने । इसप्रकार क्रिया और कारकोंका संबन्ध है ।

कारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंहारगाथात्रयेण, औद्धत्यपरिहारार्थं प्राकृतवृत्तेन च द्वितीयान्तराधिकारे तृतीयं स्थलं गतम् ॥ ५८ ॥

इत्यन्तराधिकारद्वयेन विश्विगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः समाप्तः ।

अत्र ग्रन्थे ‘विवक्षितस्य सन्धिर्भवति’ इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति । वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि कृतानि सुखबोधनार्थम् । तथैव लिङ्गवचनक्रियाकारकसम्बन्धसमासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वप्रतिपादनविषये विस्मृतिदूषणं च विद्वद्विर्न ग्राहमिति ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवमजीवं द्वच्च” इत्यादिसमविश्विगाथाभिः पट्टद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं “आसववन्धण” इत्येकादशगाथाभिः सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः । ततः पर “सम्मदंसण” इत्यादिविश्विगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥

इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपञ्चाशत्सूत्रैः श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैविरचितस्य द्रव्यसमग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीब्रह्मदेवकृतवृत्तिः समाप्ता ॥

इस प्रकार ध्यानके उपसंहाररूप तीन गाथाओंसे तथा औद्धत्यके परिहारकेलिये एक प्राकृत छन्दसे द्वितीय अन्तराधिकारमें तृतीय स्थल समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥

ऐसे दो अन्तराधिकारोंद्वारा वीस गाथाओंसे मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयअधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

इस ग्रन्थमें ‘वक्ताको जहां संधि करनेको इच्छा हो वहां संधि होती है’ इस-नियमके अनुसार पदोंकी सधिका नियम नहीं है अर्थात् किसी स्थलमें सधि की गई है और किसी स्थलमें नहीं । और मन्दबुद्धियोंको सुखसे बोध होनेके लिये वाक्य भी छोटे छोटे दिये गये हैं । तथा लिंग, वचन, क्रिया, कारक, सम्बन्ध, समास, विशेषण और वाक्यसमाप्ति आदि दूषण और शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वोंके प्रतिपादनमें विस्मृति ( भूलना ) आदि रूप जो दूषण इस ग्रन्थमें होवें उनको ज्ञानी पुरुष ग्रहण न करें ।

ऐसे पूर्वोक्त प्रकारसे “लीवमजीवं द्वच्चं” इस गाथाको आदि ले २७ गाथाओंसे पट्टद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथम अधिकार है । इसके पश्चात् “आसववन्धण” इत्यादि एकादश ११ गाथाओंसे सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा दूसरा अधिकार है । उसके अनन्तर “सम्मदंसण” आदि वीस गाथाओंद्वारा मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तीसरा अधिकार है ।

द्वति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैविरचितवृहद्रव्यसंग्रहस्य संस्कृतटीकायाः

पं० श्रीजंघाहरलालशाखिविरचितो हिंदीभाषानुवादः समाप्तः ।

\* समाप्तोऽयं ग्रन्थः \*

